
मुद्रकः विशेश्वर नाथ भार्गव,
भार्गव प्रेस, प्रयाग ।

युद्धकाण्ड-पूर्वाङ्क

की

विषयानुक्रमणिका

प्रथम सर्ग

१—५

सीता का पता लगाने में कृतकार्य हनुमान जी की बातें सुन लेने पर श्रीरामचन्द्र जी का उनकी प्रशंसा करना और सर्वस्वदानस्वरूप हनुमान जी को अपनी छाती से लगाना ।

दूसरा सर्ग

६—११

सीता जी का पता मिलने पर भी शोकातुर श्रीरामचन्द्र जी के प्रति सुग्रीव का सविनय वचन । सुग्रीव द्वारा वानरों के पराक्रम का वर्णन । समुद्र पर पुल बाँधने के लिए श्रीरामचन्द्र जी को सुग्रीव द्वारा प्रोत्साहन तथा सुग्रीव का श्रीरामचन्द्र जी से यह भी कहना कि, शौर्यापकर्षक शोक को त्याग कर, रोप का आश्रय लीजिए । क्योंकि मेरे जैसे सचिव के साथ रहते आप शत्रु को अवश्य जीतेंगे । शुभ शकुनों को देख, सुग्रीव का हर्षित होना ।

तीसरा सर्ग

१२—१६

सुग्रीव की बातें सुन, श्रीरामचन्द्र जी का हनुमान जी से लङ्का के विषय में प्रश्न । उत्तर में हनुमान जी का लङ्का का विस्तार से वर्णन करना । साथ ही उत्साह

वढ़ाने के लिए यह भी कहना कि अङ्गदादि वानर लङ्का को तहस-तहस कर डालेंगे । अतः सेना को युद्धयात्रा के लिए शीघ्र आज्ञा दी जाय ।

चौथा सर्ग

२०—४७

सुग्रीव के प्रति श्रीरामचन्द्र जी का यह कथन कि, युद्धयात्रा के लिए अभी मुहूर्त शुभ है । श्रीरामचन्द्र जी का ससैन्य लङ्का की ओर प्रस्थान । शुभ शकुनों का देख पड़ना । समुद्रतट पर पहुँचना, वहाँ सैन्यशिविर की स्थापना । समुद्र को देख हरियूथपों का विस्मित होना ।

पाँचवाँ सर्ग

४७—५२

सागर के उत्तर तट पर सेना का पड़ाव डालना । सीता की याद कर, लक्ष्मण जी के सामने श्रीरामचन्द्र जी का शोकविह्वल हो विलाप करना । लक्ष्मण जी के धीरज बँधाने पर श्रीरामचन्द्र जी का सन्ध्योपासन करना ।

छठवाँ सर्ग

५३—५७

लङ्का में हनुमान जी द्वारा किए हुए उपद्रवों को देख, रावण की, राक्षसों के प्रति युक्ति ।

सातवाँ सर्ग

रावण के बल पराक्राम की प्रशंसा करते हुए राक्षसों का उसको धीरज बँधाना । इन्द्रजीत का प्रताप वर्णन ।

आठवाँ सर्ग

५७—६७

रावण के सामने प्रहस्त, दुर्मुख, वज्रदंष्ट्र, निकुम्भ, वज्रहनु का अपने अपने बलवीर्य की डींगे हाँकना ।

नवाँ सर्ग

६८—७३

बल के अहङ्कार में अकड़े हुए उन राजस सरदारों को रोक कर, विभीषण का रावण को यह समझाना कि, सीता जी, श्रीरामचन्द्र जी को लौटा दी जाय। विभीषण की बात सुन रावण का सरदारों को विदा कर, राजमहल में जाना ।

दसवाँ सर्ग

७३—८०

रावण के राजभवन में विभीषण का प्रवेश ! वहाँ पर वेदध्वनि का सुन पड़ना । विभीषण का रावण को समझाना बुझाना और बतलाना कि, जत्र से सीता लङ्का में आई है; तत्र से बड़े बड़े अशुभ शकुन देख पड़ते हैं । इस पर रावण की गर्वोक्ति और रावण का विभीषण को विदा करना ।

ग्यारहवाँ सर्ग

८०—८८

रान्सराज रावण का सभाभवन में गमन वर्णन । सभावर्णन ।

बारहवाँ सर्ग

८६—९८

रावण की आज्ञा से प्रहस्त का लङ्का की रक्षा के लिए विशेषरूप से पहरे चौकीका प्रवन्व करना । दरवार में रावण द्वारा सीता जी का वर्णन उनके प्रति उसका अपना अनुराग प्रकट करते हुए, दरवारियों से कहना कि, सीता को तो मैं दे नहीं सकता, किन्तु राम और लक्ष्मण किस प्रकार मारे जा सकते हैं, इस पर सब दरवारी विचार कर परामर्श दें । कामासक्त रावण की

वातें सुन, कुम्भकर्ण का रावण के सीताहरण सम्बन्धी कृत्य को अनुचित बतलाना और कहना कि, तुम इसे अपना सौभाग्य समझो जो तुम श्रीरामचन्द्र जी के हाथ में न पड़ वहाँ से जीते जागते लौट आए। अन्त में कुम्भकर्ण का यह भी कहना कि मैं तुम्हारे शत्रुओं को नष्ट करूँगा।

तेरहवाँ सर्ग

६६—१०३

क्रुद्ध रावण को महापार्ष्व का वढ़ात्रा देना ।
महापार्ष्व से रावण का स्वरहस्य कहना । रावण के विषय में पितामह ब्रह्मा जी का शाप । रावण का अपने बलवीर्य की डींगें हाँकना ।

चौदहवाँ सर्ग

१०४—१११

रावण और कुम्भकर्ण की वातें सुन चुकने के बाद विभीषण का कथन । विभीषण का कथन सुन प्रहस्त की उक्ति । श्रीरामचन्द्र जी के वैभव का बखान करते हुए विभीषण का हितपूर्ण कथन ।

पन्द्रहवाँ सर्ग

११२—११६

विभीषण की वातें सुन इन्द्रजीत का अपने बल पराक्रम का वर्णन करते हुए, विभीषण के कथन का खण्डन करना । इस पर विभीषण का भरे दरवार में इन्द्रजीत को डाँटना और धमकाना ।

सोलहवाँ सर्ग

११७—१२३

विभीषण की वातों को न सह कर, रावण का विभीषण की निन्दा और धिक्कारना । अधर्मी बड़े भाई की अनर्गल वातें सुन, अपने चार राजस मंत्रियों सहित

विभीषण का दरवार से उठ कर चला जाना और चलते समय फिर भी रावण को हितोपदेश देना ।

सत्रहवाँ सर्ग

१२३—१२६

अपने चार राक्षस मंत्रियों सहित विभीषण को आया हुआ देख, सुग्रीव का हनुमान जी से कहना कि, ये हम लोगों का बंध करने आए हैं। इस पर वानर-यूथपतियों में आपस में बातचीत। सुग्रीव द्वारा विभीषण के आगमन की सूचना श्रीरामचन्द्र जी को दिखा जाना और साथ ही रावण का भाई होने के कारण विभीषण पर विश्वास न करने की अपनी सम्मति भी प्रकट करना। तदनन्तर एक एक कर, अङ्गद, शरभ, जाम्बवान् और मयन्द का श्रीरामचन्द्र जी के सामने अपना यह मत प्रकट करना कि, विभीषण की परीक्षा ली जाय। हनुमान जी का विभीषण को मिला लेने योग्य बतलाते हुए, विभीषण को विश्वस्त बतलाना।

अठारहवाँ सर्ग

१२६—१४८

अन्त में श्रीरामचन्द्र जी का अपना मत प्रकट करते हुए यह कहना कि, जब वह मित्रता करने आया है; तब मैं उसे किसी प्रकार भी नहीं त्याग सकता। इसपर सुग्रीव और श्रीरामचन्द्र जी में कथोपकथन। अन्त में श्रीरामचन्द्र जी का सुग्रीव से यह कहना कि, " हे हरिश्रेष्ठ ! मैंने उसे अभय कर दिया, अब तुम विभीषण को अथवा वह (विभीषण रूपधारी) रावण ही क्यों न हों, उसे मेरे सामने लिवालाओ।" सुग्रीव का श्रीरामचन्द्र जी की बात मान लेना; विभीषण का श्रीरामचन्द्र जी से समागम।

उन्नीसवाँ सर्ग

१४८—१५८

विभीषण का श्रीरामचन्द्र जी के चरण पकड़, रावण द्वारा अपने अपमानित किए जाने की बात कहना । विभीषण पर विश्वास कर श्रीरामचन्द्र जी का उन राक्षसों के बलावल के सम्बन्ध में प्रश्न करना और विभीषण का उस प्रश्न का यथार्थ उत्तर देना । विभीषण के मुख से सारा हाल सुन, श्रीरामचन्द्र जी का प्रतिज्ञा करना और राक्षसों के वध में श्रीराम को सहायता देने की प्रतिज्ञा का विभीषण द्वारा किआ जाना । विभीषण का राज्याभिषेक । समुद्र पार होने के विषय में सुग्रीव का विभीषण से प्रश्न । उत्तर में विभीषण का यह सलाह देना कि, श्रीरामचन्द्र जी समुद्र की शरणागति करें । विभीषण के मुख से यह बात सुन, श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण और सुग्रीव की आलोचना प्रत्यालोचना । अन्त में कुश विछा, श्रीरामचन्द्र जी का समुद्र के सामने बैठाना ।

बीसवाँ सर्ग

१५८—१६७

रावण के भेजे शादूल नामक जासूस का सुग्रीव के सैन्यशिविर में आगमन और लौट कर रावण से वानर सैन्य का वर्णन । इस पर रावण का शुक नामक दूसरे गुप्तचर को भेजना । शुक का पकड़ा जाना और वानरों द्वारा सताए जाने पर शुक का श्रीरामचन्द्र जी की दुहाई देना । इस पर श्रीरामचन्द्र जी का शुक को वानरों की सांसत से छुड़वाना । सुग्रीव का शुक के द्वारा रावण के पास संदेश भिजवाना ।

इक्कीसवाँ सर्ग

१६७ — १७५

समुद्रतट पर तीन दिनों तक श्रीरामचन्द्र जी का दर्भ विद्धा कर पड़ा रहना । तिस पर भी जब समुद्र के अविष्ठाता देवता का प्रत्यक्ष न होता, तब श्रीरामचन्द्र जी का क्रुद्ध होना और समुद्र सोखने के लिए लक्ष्मण जी से धनुषबाण मॉगना और धनुष पर बाण चढ़ाना ! आकाशस्थित महर्षियों का चिल्ला कर "ऐसा मत करो ऐसा मत करो," कहना ।

त्राइसवाँ सर्ग

१७६—१८५

समुद्र के अविष्ठातृ देवता का प्रकट होना और क्षमा प्रार्थना करते हुए अमोघ बाण को तटवर्ती स्थान विशेष पर छोड़ने की प्रार्थना करना और नलनील द्वारा पुल बाँधने के लिए कहना । तदनुसार पुल का बाँधा जाना । पुल तैयार होने पर ससैन्य श्रीरामचन्द्र जी का समुद्र के पार होना ।

तेइसवाँ सर्ग

१८६—२१०

शुभ शकुन हांते देख श्रीरामजी का लक्ष्मण जी से वार्तालाप करके लङ्का की ओर गमन ।

चौबीसवाँ सर्ग

२००—२१०

लङ्का में पहुँच वानरों का संहर्जन । श्रीराम जी का लङ्का को देख सीता जी का स्मरण करना । श्रीराम जी की आज्ञा से सेना का यथास्थान स्थापन । श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञा से शुक का छटना और रावण के पास जाना । रावण और शुक की वातचीत । इस वातचीत के सिलसिले में रावण की गर्वोक्तियाँ

पचीसवाँ सर्ग

२१०—२१८

श्रीरामदल का पूरा पूरा-वृत्तान्त जानने के अभिप्राय से रावण द्वारा शुक सारण का भेजा जाना । शुकसारण को पकड़ कर विभीषण का श्रीरामचन्द्र जो के सम्मुख उपस्थित करना । श्रीराम जी का शुक सारण द्वारा रावण के लिए कठोर शब्दों से पूर्ण संदेशा भेजना । शुक सारण का लङ्का में जा रावण से अपना वृत्तान्त कहना ।

छब्बीसवाँ सर्ग

२१८—२२६

सारण के वचन सुन, रावण का ऊटपटाँग वकना और वानरी सेना देखने को उसका स्वयं अपने महल की अटारी की छत पर जाना । शुक सारण से वहाँ जा पूछना कि, वतलाओ इस वानर सैन्य में नामी शूर-वीर कौन कौन हैं ? उत्तर में शुक-सारण का वानर वीरों का परिचय देना ।

सत्ताइसवाँ सर्ग

२२६—२४०

सारण द्वारा रावण को वानर-सैन्य का परिचय ।

अट्ठाइसवाँ सर्ग

२४०—२५०

रावण को शुक द्वारा वानरी सेना का परिचय ।

उन्तीसवाँ सर्ग

२५०—२५७

शुक सारण द्वारा वानर यूथपतियों के बल पराक्रम की बड़ाई सुन और श्रीराम लक्ष्मण एवं विभीषण को देख कर, रावण का क्रुद्ध होना और उस क्रोधावेश में शुक सारण की भर्त्सना करना । तदनन्तर महोदर को दूसरे गुप्तचर भेजने की रावण की आज्ञा । गुप्तचरों का जाना और विभीषण द्वारा पहिचाने जाकर, वानरों द्वारा उनकी

दुर्गति किआ जाना । तदनतर किसी प्रकार बूट कर
गुप्तचरो का पुनः लङ्का में पहुँचना ।

तीसवाँ सर्ग

२५८—२६५

जासूसों का रावण से श्रीरामचन्द्र जी की सेना का
वर्णन । रावण और शार्दूल की बातचीत ।

इकतीसवाँ सर्ग

२६६—२७६

श्रीरामचन्द्र जी की सेना का महत्व सुन रावण का
उद्विग्न होना । मंत्रियों के साथ रावण का परामर्श ।
श्रीरामचन्द्र जी का वनावटी कटा सिर और धनुष
विद्युज्जिह्व राक्षस द्वारा बनवा, रावण का सीता जी के
समीप गमन और कटा सिर और धनुष सीता जी को
दिखाना ।

बत्तीसवाँ सर्ग

२७६—२८६

ठीक श्रीरामचन्द्र जी जैसा कटा सिर देख श्रीराम-
चन्द्र जी के लिए सीता जी का विलाप करना और
मरने को तैयार होना । इतने में मंत्रियों का संदेश पा
रावण का वहाँ से चला जाना । कटे सिर और धनुष
का अन्तर्धान होना । रावण की आज्ञा से रणभेरी का
बजाया जाना और युद्ध के लिए सैनिकों का तैयार
होना ।

तेतीसवाँ सर्ग

२८६—२९५

शोकातुर सीता को सरमा नाम्नी एक राक्षसी द्वारा
धीरज वैधाया जाना ।

चौतीसवाँ सर्ग

२६५—३०२

यथार्थ वृत्तान्त जानने को सीता का सरमा नाम्नी राक्षसी को रावण की सभा में भेजना । सरमा का लौट कर सीता जी से वास्तविक परिस्थिति कहना । इतने में वानर वीरों का सिंहनाद सुन पड़ना ।

पैंतीसवाँ सर्ग

३०२—३११

माल्यवान के द्वारा (जो रावण का नाना था,) दरवार में रावण को समझाया जाना कि, श्रीरामचन्द्र जी के साथ सन्धि कर ली जाय ।

छत्तीसवाँ सर्ग

३११—३१६

माल्यवान का कथन सुन, रावण का अपने बल पराक्रम की डींगें हाँकना । लङ्का की रक्षा के लिए रावण का सेना को स्थान स्थान पर नियुक्त करना ।

सैंतीसवाँ सर्ग

३१६—३२५

श्रीरामचन्द्र के शिविर में सैनिक वीरों की परामर्श-समिति की बैठक । विभीषण का अपने मंत्रियों से पता पाकर, लङ्का में रावण की सैनिक तैयारी की सूचना श्रीरामचन्द्र जी को देना । विभीषण के मुख से लङ्का की सैन्य व्यवस्था का वृत्तान्त सुन, श्रीरामचन्द्र जी का वानरसैन्य का विधान

अड़तीसवाँ सर्ग

३२५—३२६

श्रीरामचन्द्र जी का सुवेल-पर्वत-शिखर पर चढ़, वानरयूथपतियों सहित लङ्का-निरीक्षण ।

उनतालीसवाँ सर्ग

३३०—३३६

लङ्का के वन उपवनों का वर्णन ।

चालीसवाँ सर्ग

३३६—३४४

त्रिकूटशिखर पर बसी लङ्का को देखते समय लङ्का के गोपुर पर रावण को खड़ा देख, सुग्रीव का उछल कर वहाँ जाना । सुग्रीव और रावण की कड़ाकड़ी की बात चीत होते-होते दोनों में हाथापाई होना । रावण को कपट चाल चलते देख, सुग्रीव का कूड़ कर पुनः अपने शिविर में लौट आना ।

इकतालीसवाँ सर्ग

३४५—३६६

श्रीरामचन्द्र और सुग्रीव का संवाद । लक्ष्मण और श्रीरामचन्द्र जी की बातचीत सुबेल पर्वत से श्रीरामचन्द्र जी का नीचे उतरना । श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण का लङ्का पुरी की ओर गमन । वानरसैन्य द्वारा लङ्का का चारों ओर से अवरोध । राजधर्मानुसार श्रीरामचन्द्र जी का दूत बना कर, अङ्गद को रावण के पास भेजना । रावण और अङ्गद की बातचीत । रावण का अङ्गद को पकड़ने की आज्ञा देना । पकड़ने वाले राक्षसों सहित अङ्गद का आकाश की ओर उछलना, राक्षसों का भूमि पर गिरना । राजमहल के शिखर का टूट कर गिरना । अङ्गद का श्रीरामचन्द्र जी के पास लौट जाना । लङ्का को वानरसैन्य द्वारा अवरुद्ध देख, लङ्कावासी राक्षसों का भयभीत हो, कोलाहल मचाना ।

बयालीसवाँ सर्ग

३६६—३७६

वानरों द्वारा लङ्का के अवरोध की सूचना राक्षसों द्वारा रावण को मिलना । श्रीरामचन्द्र जी को लङ्का को देख, सीताजी का स्मरण हो आना और राक्षसों के वध की वानरों को आज्ञा देना । वानर और राक्षसों की लड़ाई

तेतालीसवाँ सर्ग

३७७—३८७

वानर और राक्षसों का युद्ध ।

चौवालीसवाँ सर्ग

३८७—३९६

सूर्यास्त काल । रात में वानरों और राक्षसों के युद्ध का वर्णन । इन्द्रजित्पराजय । कपट युद्ध कर इन्द्रजीत द्वारा श्रीराम लक्ष्मण का शरों द्वारा बन्धन ।

पैंतालीसवाँ सर्ग

३९६—४०२

इन्द्रजीत का पता लगाने को श्रीराम जी का वानरयूथपतियों को भेजना । इन्द्रजीत का वाणों द्वारा उनका रोकना । मर्मविद्ध होने से श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणजी का भूमि पर गिर पड़ना । उनको भूमि पर गिरा हुआ देख वानरों का दुःखी होना ।

छियालीसवाँ सर्ग

४०२—४१२

सुग्रीव और विभीषण का वहाँ जाना । श्रीरामचन्द्र जी के भूमिशायी होने पर इन्द्रजीत की गर्योक्ति । समस्त वानरयूथपतियों को इन्द्रजीत को घायल कर के लङ्का में प्रवेश । विभीषण का सुग्रीव को धीरज बँधाना । इन्द्रजीत को सकुशल देख और उसके मुख से श्रीरामचन्द्रादि का भूशायी होना सुन, रावण का आनन्द मनाना ।

सैतालीसवाँ सर्ग

४१३—४१८

वानरश्रेष्ठों द्वारा श्रीरामचन्द्र जी की रखवाली क्रिया जाना । सीता की पहरेदारिन राक्षसियों को रावण की आज्ञा । राक्षसियों द्वारा सीता को, घायल पड़े श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण का दिखाया जाना । दोनों भाइयों को भूमि पर अचेत अवस्था में पड़े देख, सीता का दुःखी हो घोर विलाप करना ।

अड़तालीसवाँ सर्ग

४१८—४२६

सीता-विलाप । त्रिजटा द्वारा सीता को सान्त्वना-प्रदान । सीता का अशोकवन में पुनः गमन ।

उननचासवाँ सर्ग

४२७—४००

श्रीरामचन्द्र जी का सचेत होना । लक्ष्मण के लिए श्रीरामचन्द्र जी का शोकान्वित होना । श्रीरामचन्द्र जी को शोकान्वित देख वानरों का रोना । इतने में विभीषण का वहाँ आना ।

पचासवाँ सर्ग

४३४—४४८

सुग्रीव और अङ्गद की बातचीत । श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण की दशा देख विभीषण का दुःखी होना । सुग्रीव को विभीषण का प्रोत्साहित करना । सुपेण के प्रति सुग्रीव का कथन । सुपेण की उक्ति । इतने में गरुड़ जी का वहाँ आना । गरुड़ जी का श्रीराम लक्ष्मण को स्पर्श करना । गरुण जी के छूते ही शररूपी सर्पों का भाग जाना और श्रीराम लक्ष्मण का पूर्वत् स्वस्थ हो जाना । गरुड़ और श्रीराम जी में बातचीत । श्रीराम जी को छार्ता से लगा, गरुड़ जी का प्रस्थान । श्रीराम जी तथा लक्ष्मण जी को पूर्ववत् देख, वानरों का हर्षनाद ।

इक्यावनवाँ सर्ग

४४८—४५६

वानरों का हर्षनाद सुन रावण का शङ्कित होना और यथार्थ वृत्तान्त जानने के लिए कई एक राक्षसों को लङ्का के परकोटे पर चढ़ाना । श्रीराम जी के स्वस्थ हो जाने का वृत्तान्त सुन, रावण का धूम्राक्ष को एक बड़ी सेना के साथ वानरों से युद्ध करने के लिए जाने की आज्ञा देना ।

बावनवाँ सर्ग

४५६—४६४

वानरों और राक्षसों का युद्ध । एक गिरिशृङ्ग से हनुमान जी के हाथ से धूम्राक्ष का वध ।

त्रेपनवाँ सर्ग

४६५—४७१

धूम्राक्ष के मारे जाने का वृत्तान्त सुन, रावण का वज्र दंष्ट्र को युद्धभूमि में भेजना । उसके साथ वानरों का युद्ध ।

चौवनवाँ सर्ग

४७२—४८०

वानर और राक्षसों का युद्ध । अङ्गद के खड्गप्रहार से वज्रदंष्ट्र का मारा जाना ।

पचपनवाँ सर्ग

४८०—४८९

वज्रदंष्ट्र के मारे जाने का समाचार पाकर, रावण का प्रहस्त को लड़ने के लिए भेजना । उसके साथ वानरों का युद्ध । इस युद्ध में खेल ही खेल में वानरों द्वारा राक्षसों का मारा जाना ।

छप्पनवाँ सर्ग

४८७—४९६

अकम्पन के साथ वानरों का युद्ध । अकम्पन का वध ।

सत्तावनवाँ सर्ग

४६७—५०७

अकम्पन के वध से चकित रावण का सचिवों के साथ अपने गुल्मों का निरीक्षण, सेना के साथ प्रहस्त का समरभूमि में प्रवेश।

अट्ठावनवाँ सर्ग

५०७—५२०

प्रहस्त को देख श्रीरामचन्द्र जी का विभीषण से पूँछना कि यह कौन है ? प्रहस्त के वलपौरुष का परिचय दे, विभीषण का कहना कि, यह रावण का सेनापति है। प्रहस्त के साथ वानरों की लड़ाई। वानरसेनापति नील के हाथ से प्रहस्त का धराशायी होना।

उनसठवाँ सर्ग

५२१—५३२

प्रहस्त के मारे जाने पर रावण का शोकान्वित और कुपित होना। लड़ने के लिए रावण का स्वयं लङ्का से निकलना। राक्षसी सेना के विषय में श्रीराम जी का विभीषण से प्रश्न। विभीषण का राक्षस सेनापतियों का प्रभाव वर्णन। समर-भूमि में राक्षसेश्वर को देख श्रीराम जी का विस्मित होना। रावण के साथ सुग्रीव का युद्ध। युद्ध में सुग्रीव का वेहोश होना। रावण और हनुमान का युद्ध। हनुमान की मार से रावण का क्षुब्ध होना। नील के साथ रावण का युद्ध। नील का भूमि पर गिरना। लक्ष्मण के साथ रावण की लड़ाई। रावण की फेंकी शक्ति का लक्ष्मण की छाती में लगना और उससे लक्ष्मण जी का मूर्च्छित होना। क्रोध में भर हनुमान जी का रावण की छाती में घूँसा मारना, जिससे रावण का मूर्च्छित हो

धराशायी हो जाना । श्रीराम और रावण का युद्ध । रावण की पराजय । “ मैं अभी तुम्हे जान से न मारूँगा ” कह कर, श्रीराम जी का रावण को लङ्का में जाने की अनुमति देना ।

साठवाँ सर्ग

५६२—५८६

श्रीरामजी के वाणों की स्मरण से त्रस्त रावण का लङ्का में जाकर मंत्रियों के बीच बैठ श्रीरामजी के पराक्रम का वर्णन करना । “ मनुष्यों से तुम्हें डर है ” ब्रह्मा जी की इस बात का रावण को स्मरण होना । साथ ही राजा अनरण्य और वेदवती के शपों का भी स्मरण हो आना । कुम्भकर्ण को जगाने के लिए रावण द्वारा राक्षसों को आज्ञा दिया जाना । कुम्भकर्ण की महानिद्रा का वर्णन । कुम्भकर्ण का जागना । जगाए जाने का कारण सुन, कुम्भकर्ण की उक्ति । रावण से मिलने के लिए कुम्भकर्ण का उसके भवन में जाना ।।

इकसठवाँ सर्ग

५८७—५९६

कुम्भकर्ण को देख श्रीराम जी का विभीषण से पूछना कि, यह कौन है ? विभीषण द्वारा श्रीरामचन्द्र जी के सामने कुम्भकर्ण की महिमा का वर्णन । कुम्भकर्ण को देख वानरों का भागना । सेनापति नील को वानर-व्यूह रचना के लिए श्रीरामचन्द्र जी द्वारा आज्ञाप्रदान ।

बासठवाँ सर्ग

५९६—६०२

कुम्भकर्ण का रावणभवन में प्रवेश । कुम्भकर्ण और रावण की बातचीत ।

तिरसठवाँ सर्ग

६०५—६

रावण के दोष-दिखलाने पर रावण द्वारा कुम्भकर्ण का फटकारा जाना । तब कुम्भकर्ण का, श्रीराम का वध करने और वानरों को खा डालने का वीड़ा उठाना ।

चौसठवाँ सर्ग

६१६—६:

कुम्भकर्ण और महोदर का संवाद । महोदर द्वारा श्रीराम जी का पराक्रम वर्णन । महोदर द्वारा सीता को वश में करने का रावण को उपाय बतलाया जाना ।

पैंसठवाँ सर्ग

६२५—६३:

कुम्भकर्ण का युद्धोत्साह । रावण को प्रणाम कर कुम्भकर्ण का समरभूमि की ओर प्रस्थान ।

छियासठवाँ सर्ग

६३८—६४६

कुम्भकर्ण को देख वानरों का भागना । भागे हुए वानरों को अङ्गद का रोकना और लौटाना ।

सरसठवाँ सर्ग

६४७—६६५

कुम्भकर्ण और वानरों का युद्ध । सुग्रीव द्वारा कुम्भकर्ण के कर्ण और नासिका का छेदन । लक्ष्मण की अवज्ञा कर कुम्भकर्ण का श्रीराम जी के साथ लड़ने को आगे बढ़ना । श्रीरामचन्द्र जी के वायों से कुम्भकर्ण का मारा जाना और कुम्भकर्ण को मरा देख, वानरों का अत्यन्त प्रसन्न होना ।

2

11

2

550

11


110

॥ श्रीः ॥

श्रीमद्रामायणपाराशर्योपक्रमः

[टिप्पणी—सनातनधर्म के अन्तर्गत जिन वैदिकसम्प्रदायों में भीमद्रामायण का पारायण किया जाता है, उन्हीं सम्प्रदायों के अनुसार उपक्रम और समापनक्रम प्रत्येक खण्ड के आदि और अन्त में क्रमशः दे दिए गए हैं ।]

श्रीवैष्णवसम्प्रदायः



कूजन्तं राम रामेति मधुर मधुराक्षरम् ।
आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् ॥ १ ॥
वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः ।
शृण्वन् रामकथानाद् को न याति परां गतिम् ॥ २ ॥
यः पित्रन्सततं रामचरितामृतसागरम् ।
अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् ॥ ३ ॥
गोष्पद्वीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् ।
रामायणमहामालारत्नं वन्देऽनिलात्मजम् ॥ ४ ॥
अञ्जनानन्दन वीरं जानकीशोकनाशनम् ।
कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् ॥ ५ ॥
सनोजवं मारुततुल्यवेगं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् ।
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं
श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ ६ ॥

उल्लङ्घय सिन्धोः सलिलं सलीलं
यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः ।
आदाय तेनैव ददाह लङ्कां
नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् ॥ ७ ॥

आञ्जनेयमनिपाटलाननं
काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् ।
पारिजाततरुमूलवासिनं
भावयामि पवमाननन्दनम् ॥ ८ ॥

यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं
तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् ।
बाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं
मारुतिं नमत् राक्षसान्तकम् ॥ ९ ॥

वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे ।
वेदः प्राचेतसाद्दासीत्साक्षाद्रामायणात्मना ॥ १० ॥

तदुपगतसमाससन्धियोगं
सममधुरोपनतार्थवाक्यवद्धम् ।
रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं
दशशिरसश्च बधं निशामयध्वम् ॥ ११ ॥

श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं
सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् ।
आजानुवाहुमरविन्ददलायताक्षं
रामं निशाचरविनाशकरं नमामि ॥ १२ ॥

वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे
मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् ।

अथे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं ।
व्याख्यान्त भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् ॥ १३ ॥

—:❀:—

माध्वसम्प्रदायः

शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्यं चतुर्भुजम् ।
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविघ्नोपशान्तये ॥ १ ॥
लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः ।
श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम् ॥ २ ॥
वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा ।
आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते ॥ ३ ॥
सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परम् ।
सर्वजीव प्रणेतारं वन्दे विजययदं हरिम् ॥ ४ ॥
सर्वाभीष्टप्रदं रामं सर्वारिष्टनिवारकम् ।
जानकीजानिमानिशं वन्दे मद्गुरुवन्दितम् ॥ ५ ॥
अभ्रमं भङ्गरहितमजडं विमलं सदा ।
आनन्दतीर्थमनुलं भजे तापत्रयापहम् ॥ ६ ॥
भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी
जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः ।
सकलवचनचेतोदेवता भारती सा
मम वचसि विधत्तां सन्निधिं मानसे च ॥ ७ ॥
मिथ्यासिद्धान्तदुर्ध्वान्तविध्वंसनविचक्षणः ।
जयतीर्थाख्यतरणिर्भासतां नो हृदम्बरे ॥ ८ ॥

चित्रैः पदैश्च गम्भीरैर्वाक्यैर्मानैरखण्डितैः ।

गुरुभावं व्यञ्जयन्ती भाति श्रीजयतीर्थवाक् ॥ ६ ॥

कूजन्त राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् ।

आरुह्य कविताशाखां वन्दे ब्राह्मीक्रिकोकिलम् ॥ १० ॥

वाल्मीकेमुं निसिंहस्य कवितावनचारिणः ।

शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम् ॥ ११ ॥

यः पिवन्मततं रामचरितामृतसागरम् ।

अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् ॥ १२ ॥

गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम्

रामायणमहामालारत्नं वन्देऽनिलात्मजम् ॥ १३ ॥

अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम् ।

कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् ॥ १४ ॥

मनोजवं मारुततुल्यवेगं

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्

वातात्मजं वानरयूथमुख्यं

श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ १५ ॥

चल्लङ्घय सिन्धोः सलिलं सलीलं

यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः ।

आदाय तेनैव ददाह लङ्कां

नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् ॥ १६ ॥

आञ्जनेयमतिपाटलाननं

काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् ।

पारिजाततरुमूलवासिनं
भावयामि पत्रमाननन्दनम् ॥ १७ ॥

यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं
तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् ।

वाष्पवारिपरिपूष्णं लोचनं

मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् ॥ १८ ॥

वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथान्मजे ।

वेदः प्राचेतसादासोत्साक्षाद्रामायणात्मना ॥ १९ ॥

आपदामपहर्तारं दातारं सवसम्पदाम् ।

लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम् ॥ २० ॥

तदुपगतसमाससन्धियोगं

सममधुरोपनतार्थवाक्यवद्धम् ।

रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं

दशशिरश्च वधं निशामयध्वम् ॥ २१ ॥

वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महाऋद्धये

मध्ये पुण्यकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् ।

अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं

व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् ॥ २२ ॥

वन्दे वन्द्यं विधिभवमहेन्द्रादिवृन्दारकेन्द्रैः

व्यक्तं व्याप्तं रत्नगुणगणतो देशतः कालतश्च ।

धृतावद्यं सुखचितिमयैर्मङ्गलैर्युक्तमङ्गैः

सानाध्यं नो विदधदधिकं ब्रह्म नारायणाख्यम् ॥ २३ ॥

भूषारत्नं भुवनवलस्याखिलाश्चर्यरत्नं

लीलारत्नं जलधिदुहितुर्देवतामौलिरत्नम् ।

चिन्तारत्न जगति भजतां सत्सरोजद्युरत्नं
कौसल्याया लसतु मम हृन्मण्डले पुत्ररत्नम् ॥ २४ ॥

महाव्याकरणम्भोधिमन्थमानसमन्दरम् ।
कवयन्तं रामकीर्त्या हनुमन्तमुपास्महे ॥ २५ ॥


मुख्यप्राणाय भीमाय नमो यस्य भुजान्तरम् ।
नानावीरसुवर्णानां निकषाशमायितं बभौ ॥ २६ ॥

स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूर्णज्ञानमहार्णसे ।
उत्तुङ्गवाक्तरङ्गाय मध्वदुग्धाब्दये नमः ॥ २७ ॥

वाल्मीकिगौरिः पुनीयान्नो महीधरपदाश्रया ।
यद्दुग्धमुपजीवन्ति कवयस्तर्णाका इव ॥ २८ ॥

सूक्तिरत्नाकरे रम्ये मूलरामायणार्णवे ।
विहरन्तो महीयांसः प्रोयन्तां गुरवो मम ॥ २९ ॥

हयग्रीव हयग्रीव हरग्रीवेति यो वदेत् ।
तस्य निःसरते वाणी जुहु कन्याप्रवाहवत् ॥ ३० ॥



स्मार्त सम्प्रदायः

शुक्लाम्बरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् ।
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविघ्नोपशान्तये ॥ १ ॥

वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे ।
यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम् ॥ २ ॥

दोर्मियुक्तं चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमङ्गमालां दधाना
हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पस्तकं चापरेण ।

भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमानासमाना
सा मे वाग्देवतेय निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना ॥ ३ ॥

कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् ।
अरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् ॥ ४ ॥

वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः ।
शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम् ॥ ५ ॥

यः पिबन्सततं रामचरितामृतसागरम् ।
अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् ॥ ६ ॥

गोप्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् ।
रामायणमहामालारत्नं वन्देऽनिलात्मजम् ॥ ७ ॥

अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम् ।
कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् ॥ ८ ॥

उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं
यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः ।
आदाय तेनैव ददाह लङ्कां
नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् ॥ ९ ॥

आञ्जनेयमतिपाटलाननं
काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् ।
पारिजाततरुमूलवासिनं
भावयामि पवमाननन्दनम् ॥ १० ॥

यत्र यत्र रघुनाथकीतनं
तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् ।

बाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं

माहृतिं नमत राक्षसान्तकम् ॥ ११ ॥

मनोजवं माहृततुल्यवेगं

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्टम् ।

वातात्मजं वानरयूथमुख्यं

श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ १२ ॥

यः कर्णाञ्जलिस्फुटैरहरहः सम्यक् पितृत्यादरात्

वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्य मधु ।

जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवम्

संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम् ॥ १६ ॥

तदुपगतसमाससन्धियोगं

सममधुरोपनतार्थवाक्यवद्धम् ।

रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं

दशशिरसश्च बर्धं निशामयन्वम् ॥ १४ ॥

वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी ।

पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी ॥ १५ ॥

श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलम् ।

काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणाख्यम् ॥ १६ ॥

वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे ।

वेदः प्राचेतसादासीत्साक्षाद्रामायणात्मना ॥ १७ ॥

वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले ह्यैमं महामण्डपे

मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् ।


अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुने तत्त्वं मुनिभ्यः परं

व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे शमामलम् ॥ १८ ॥

वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः
शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्बाह्यादिकोणेषु च ।
सुग्रीवश्च बिभीषणश्च युवराट् तारातसुतो जाम्बवान्
मध्ये नालसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम् ॥११

नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय
देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै ।
नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो
नमोऽस्तु चन्द्रा मरुद्गणेभ्यः ॥ २० ॥







प्रासाद्य नगरी दिव्यामभिषिक्ताय सीतया ।

सालाचिरालसालाय रामभद्राय मंगलाय ॥

श्रीमद्वाल्मीकि-रामायणम्

—:★:—

युद्धकाण्डः

श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं यथावदनुभाषितम् ।

रामः प्रीतिसमायुक्तो वाक्यमुत्तरमश्नवीत् ॥ १ ॥

हनुमान् जी द्वारा यथावत् कहे हुए वचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी अत्यन्त प्रसन्न हुए और प्रिय संवाद सुनने के अनन्तर समयोचित यह वचन बोले ॥ १ ॥

कृतं हनुमता कार्यं सुमहद्भुवि दुष्करम् ।

मनसाऽपि यदन्येन न शक्यं धरणीतले ॥ २ ॥

देखो, हनुमान जी ने ऐसा बड़ा काम किया है, जिसे इस पृथिवीतल पर तो कोई कर नहीं सकता। करना तो जहाँ तहाँ, ऐसा काम करने की इस संसार में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता ॥ २ ॥

न हि तं परिपश्यामि यस्तरेत महोदधिम् ।

अन्यत्र गरुडाद्वायोरन्यत्र च हनुमतः ॥ ३ ॥

गरुड़ जी, पवन देव और हनुमान जी का जोड़, मुझे ऐसा कोई नहीं देख पड़ता जो महासागर के पार जा सके ॥ ३ ॥

देवदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम् ।

अप्रधृष्यां पुरीं लङ्कां रावणेन सुरक्षिताम् ॥ ४ ॥

देवता, दानव, यक्ष, गन्धर्व, उरग और राक्षस भी जिस लङ्कापुरी में नहीं पहुँच सकते, रावण द्वारा रक्षित उसी लङ्कापुरी में ॥ ४ ॥

प्रविष्टः सत्त्वमाश्रित्य श्वसन्को नाम निष्क्रमेत् ॥ ५ ॥
पहुँच जाता हुआ यहाँ से कौन लौट सकता है ? ॥ ५ ॥

को विशेषसुदुराधर्षो राक्षसैश्च सुरक्षिताम् ।

यो वीर्यवलसम्पन्नो न समः स्याद्धनुमतः ॥ ६ ॥

हनुमान् के समान बलवान और पराक्रमी, और ऐसा कौन है, जो अकेला, उस दुर्धर्ष नगरी में, घुस भी सके, जो राक्षसों द्वारा सुरक्षित है ॥ ६ ॥

भृत्यकार्यं हनुमता सुग्रीवस्य कृतं महत् ।

एवं विधाय स्वबलं सदृशं विक्रमस्य च ॥ ७ ॥

निश्चय ही इस प्रकार अपने विक्रम के योग्य बल प्रदर्शन कर, हनुमान् जी ने सुग्रीव का बड़ा भारी भृत्यकार्य (चाकरी) किया है ॥ ७ ॥

यो हि भृत्यो नियुक्तः सन्भर्त्रा कर्मणि दुष्करे ।

कुर्यात्तदनुरागेण तमाहुः पुरुषोत्तमम् ॥ ८ ॥

जो भृत्य, अपने मालिक द्वारा किसी कठिन काम को करने के लिए नियुक्त किए जाने पर, उस काम को जी लगा कर, डालता है, वह सर्वोत्तम सेवक कहलाता है ॥ ८ ॥

नियुक्तो यः परं कार्यं न कुर्यान्नृपतेः प्रियम् ।

भृत्यो युक्तः समर्थश्च तमाहुर्मध्यमं नरम् ॥६॥

जो भृत्य किसी एक कार्य के लिए नियुक्त किए जाने पर, अपने प्रभु (राजा) के हितकर अन्य कार्यों के उपस्थित होने पर, अपनी सामर्थ्यानुसार उन्हें पूरा नहीं करता, वह मध्यमश्रेणी का भृत्य है ॥ ६ ॥

नियुक्तो नृपतेः कार्यं न कुर्याद्यः समाहितः ।

भृत्यो युक्तः समर्थश्च तमाहुः पुरुषाधमम् ॥१०॥

जो भृत्य सामर्थ्यवान होकर भी प्रभु (राजा) द्वारा निर्दिष्ट कार्य को यत्नपूर्वक पूरा नहीं करता, वह अधम सेवक कहलाता है ॥ १० ॥

तन्नियोगे नियुक्तेन कृतं कृत्यं हनूमता ।

नचात्मा लघुतां नीतः सुग्रीवश्चापि तोषितः ॥११॥

परन्तु हनुमान जी ने राज्याज्ञा में नियुक्त होकर अपना कर्तव्य कार्य यथावत् पूरा किया है । इनको कहीं भी नीचा नहीं देखना पड़ा । अतः इन्होंने सुग्रीव को भी सन्तुष्ट किया है ॥ ११ ॥

अहं च रघुवंशश्च लक्ष्मणश्च महाबलः ।

वैदेह्या दर्शनेनाद्य धर्मतः परिरक्षिताः ॥१२॥

हनुमान जी के जानकी को देख आने से मैं तथा बलवान् लक्ष्मण तथा अन्य रघुवंशियों का धर्म बच गया (अथवा हम सबआत्मघात रूपी महाअधर्म से बच गये) ॥ १२ ॥

१ धर्मतः परिरक्षिताः--धर्मेस्थापिताः । (गो०]

इदं तु मम दीनस्य मनो भूयः प्रकर्षति ।

यदिहास्य प्रियाख्यातुर्न कुर्मि सदृशं प्रियम् ॥१३॥

इस बड़ी मुझ दीन को एक बात बहुत सता रही है । वह यह है कि, मैं इस प्रिय संवाद देने वाले हनुमान को इस कार्य अनुरूप कुछ भी पारितोषिक नहीं देसकता ॥ १३ ॥

एष सर्वस्वभूतस्तु परिष्वङ्गो हनूमतः ।

मया कालमिमं प्राप्य दत्तश्चास्तु महात्मनः ॥१४॥

जो हो, इस समय, मेरा यह सर्वस्वदान रूप आलिङ्गन ही महात्मा (महाबली) हनुमान जी के कार्य के योग्य पुरस्कार हो ॥१४॥

इत्युक्त्वा प्रीतिहृष्टाङ्गो रामस्तं परिपस्वजे ।

हनूमन्तं महात्मानं कृतकार्यमुपागतम् ॥१५॥

महात्मा(महाबली) और काम पूरा करके आए हुए हनुमान जी से यह कह कर और प्रीति-पुलकित शरीर से, श्रीरामचन्द्र जी ने हनुमान जी को अपने गले लगा लिया ॥ १५ ॥

ध्यात्वा पुनरुवाचेदं वचनं रघुसत्तमः ।

हरीणामीश्वरस्यैव सुग्रीवस्योपश्रुण्वतः ॥१६॥

तदनन्तर रघुवंशियों में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी कुछ देर तक सोच कर कपिराज सुग्रीव के सामने फिर यह वचन बोले ॥ १६ ॥

सर्वथा सुकृतं तावत्सीतायाः परिमार्गणम् ।

सागरं तु समासाद्य पुनर्नष्टं मनो मम ॥१७॥

१ प्रकर्षति—व्याकुलयति, सन्तापयति । [गो०)

सीता के ढूँढने का कार्य यद्यपि सब प्रकार से पूरा हो चुका है, तथापि जब मैं समुद्र को देखता हूँ, तब मेरा मन हतोत्साह हो जाता है ॥ १७ ॥

कथं नाम समुद्रस्य दुष्पारस्य महाम्भसः ।

हरयो दक्षिणं पारं गमिष्यन्ति समाहिताः ॥१८॥

बड़ी कठिनाई से पार होने योग्य महासागर के दक्षिण तट पर, ये वानरगण क्यों कर जा सकेंगे ॥ १८ ॥

यद्यप्येष तु वृत्तान्तो वैदेह्या गदितो मम ।

समुद्रपारगमने हरीणां किमिवोत्तरम् ॥१९॥

यद्यपि सीता का सन्देश मुझे मिल गया, तथापि अब इसके आगे वानरों को समुद्र पार पहुँचाने का क्या उपाय किया जाय ॥१९॥

इत्युक्त्वा शोकसम्भ्रान्तो रामः शत्रुनिवर्हणः ।

हनुमन्तं महाबाहुस्ततो ध्यानमुपागमत् ॥२०॥

इति प्रथमः सर्गः ॥

शत्रुहन्ता एवं शोकसन्तप्त महाबाहु श्रीरामचन्द्रजी हनुमान जी से इस प्रकार कह कर, फिर सोचने लगे ॥ २० ॥

युद्धकाण्ड का प्रथम सर्ग पूरा हुआ ।

द्वितीयः सर्गः



तं तु शोकपरिघ्नं रामं दशरथात्मजम् ।

उवाच व्रचनं श्रीमान्सुग्रीवः शोकनाशनम् ॥१॥

शोकसन्तप्त दशरथनन्दन श्री रामचन्द्र जी से, श्रीमान् सुग्रीव ने, शोक को दूर करने वाले ये वचन कहे ॥ १ ॥

किं त्वं सन्तप्यसे वीर यथान्यः प्राकृतस्तथा ।

मैवं भूस्त्यज सन्तापं कृतघ्न इव सौहृदम् ॥२॥

हे वीर ! तुम एक क्षुद्र जन की तरह क्यों सन्तप्त होते हो । ऐसा मत करो और सन्ताप को वैसे ही छोड़ दो, जैसे कृतघ्नजन मैत्री त्याग देते हैं ॥ २ ॥

सन्तापस्य च ते स्थानं न हि पश्यामि राघव ।

प्रवृत्तावुपलब्धायां ज्ञाते च निलये रिपोः ॥३॥

हे राघव ! तुम्हारे सन्तप्त होने का कोई कारण मुझे नहीं देख पड़ता । क्योंकि सीता का हाल मिल गया और वैरी के निवास-स्थान का भी पता चल गया ॥ ३ ॥

मतिमाञ्छास्त्रवित्प्राज्ञः पण्डितश्चासि राघव ।

त्यजेमां पापिकां बुद्धिं कृतात्मेदात्मदूषणीम् ॥४॥

१ शोकपरिघ्नं—शोकपरितप्त । [गो०] २ मतिमान्—आर्गाभि-
गोचरज्ञानवान् । [गो०] ३ शास्त्रविद्—नातिशास्त्रजः [गो०] ४ पापि-
का—अनुत्साहकारिणीम् [गो०] ५ कृतात्मा—योगी । [गो०] ६ आत्म-
दूषणाम्—मोक्षरूपपुरुषार्थनिवर्तिकामा । [गो०]

हे रघुनन्दन ! तुम तो आगे होने वाली घटनाओं के जानने वाले, नीतिशास्त्रज्ञ और पंडित हो । अतः तुम इस अनुत्साह [कारिणी बुद्धि] को वैसे ही त्याग दो, जैसे योगी लोग मोक्ष में बाधा डालने वाली बुद्धि को त्याग देते हैं ॥ ४ ॥

समुद्रं लङ्घयित्वा तु महानक्रसमाकुलम् ।

लङ्कामारोहयिष्यामो हनिष्यामश्च ते रिपुम् ॥५॥

हे राम ! हम लोग बड़े बड़े मगरों से भरे हुए समुद्र को लांघ और लङ्का पर चढ़ जायँगे और तुम्हारे शत्रु को मार डालेंगे ॥५॥

निरुत्साहस्य दीनस्य शोकपर्याकुलात्मनः ।

सर्वार्था व्यवसीदन्ति व्यसनं चाधिगच्छति ॥६॥

देखो उत्साहशून्य, दीन और । शोक से । विकल मनुष्य के समस्त कार्य नष्ट हो जाते हैं और इसलिए उसे बड़ा दुःख भोगना पड़ता है ॥ ६ ॥

इमे शूराः समर्थाश्च सर्वे नो हरियूथपाः ।

त्वत्प्रियार्थं कृतोत्साहाः प्रवेष्टुमपि पावकम् ॥७॥

ये समस्त वीर और समर्थ वानर यूथपति तुम्हारी प्रसन्नता के लिए आग में भी कूद पड़ने को उत्साहित हो रहे हैं ॥ ७ ॥

एषां हर्षेण जानामि नृर्करश्चास्ति दृढो मम ।

विक्रमेण समानेप्ये सीतां हत्वा यथा रिपुम् ॥८॥

मैंने इन लोगों के प्रसन्नवदन का भाव ताड़ कर, इस प्रकार का दृढ़ निश्चय किया है ॥ मैं पराक्रम से शत्रुओं को मारकर सीता को ले आऊँगा ॥ ८ ॥

रावणं पापकर्माणं तथा त्वं कर्तुमहसि ।

सेतुरत्र यथा बभ्येद्यथा पश्येम तां पुरीम् ॥६॥

तुम भी ऐसा करो जिससे समुद्र पर पुल बांधा जाय और जिससे हम लङ्का में पहुँच उस पापी रावण को देख लें ॥ ६ ॥

तस्य राक्षसराजस्य तथा त्वं कुरु राधव ।

दृष्ट्वा तां तु पुरीं लङ्कां त्रिकूटशिखरे स्थिताम् ॥१०॥

हे राधव ! तुम ऐसा करो जिससे त्रिकूटपर्वत के शिखर पर बसी हुई उस राक्षसराज की लङ्का हम देख सकें ॥ १० ॥

हतं च रावणं युद्धे दर्शनादुपधारय ।

अबद्ध्वा सागरे सेतुं घोरे तु वरुणालये ॥११॥

जहाँ हमने लङ्का देखी वहाँ तुम रावण को मरा ही समझ लेना । उस घोर वरुणालय समुद्र पर पुल बाँधे बिना तो ॥११॥

लङ्का नो भर्दितुं शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरैः ।

सेतुर्वद्धः समुद्रे च यावल्लङ्कासमीपतः ॥१२॥

इन्द्र सहित देवताओं अथवा दैत्यों के लिए भी लङ्का में पहुँचना असम्भव है । बस लङ्का तक पुल बाँधने ही की देर है ! पुल बाँधते ॥ १२ ॥

सर्वं तीर्णं च मे सैन्यं जितमित्युपधार्यताम् ।

इमे हि समरा शूरा हरयः कामरूपिणः ॥१३॥

मेरी सेना तो तुरन्त ही पार हो जायगी और जब सेना पार होगई , तब अपनी जीत भी निस्सन्देह ही समझ लेनी चाहिए

ये सब वानर युद्ध में बड़े शूर और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं ॥ १३ ॥

शक्ता लङ्कां समानेतुं समुत्पाद्य सराक्षसाम् ।

तदलं विकल्पा बुद्धी राजन्सर्वार्थनाशिनी ॥१४॥

हे राजन् ! इन वानरों में इतनी सामर्थ्य है कि, ये लोग राक्षसों सहित लङ्का को उखाड़ कर यहाँ उठा ला सकते हैं । अतएव तुम समस्त अर्थों की नाश करने वाली कादर बुद्धि को त्याग दो ॥१४॥

पुरुषस्य हि लोकेस्मिन्शोकः शौर्यापकर्षणः ।

यत्तु कार्यं मनुष्येण शौर्यदीर्यमवलम्बता ॥१५॥

क्योंकि शोक मनुष्य के शौर्य को नष्ट कर डालता है और जो काम शूरता का अवलम्बन कर के किया जाता है, वह पूर्ण होता है ॥ १५ ॥

अस्मिन्काले महाप्राज्ञ सत्त्वमातिष्ठ तेजसा ।

शूराणां हि मनुष्याणां त्वद्विधानां महात्मनाम् ॥१६॥

विनष्टे वा प्रनष्टे वा क्षमं न ह्यनुशोचितुम् ।

त्वं तु बुद्धिमतां श्रेष्ठः सर्वशास्त्रार्थकोविदः ॥१७॥

अतः हे महाप्राज्ञ ! शूर लोगों को जो करना योग्य है इस समय तुम वही करो । तुम अपने तेज का सहारा लो । क्योंकि तुम जैसे धैर्यवान और शूर मनुष्य को तो, अभ्रष्ट वस्तु के नष्ट हो जाने अथवा विध्वंस हो जाने पर भी कभी चिन्तित अथवा शोकान्वित नहीं होना चाहिये । तुम बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और सर्व शास्त्र-कोविद हो ॥ १६ ॥ १७ ॥

मद्विधैः सचिवैः सार्धमरिं जेतुमिहार्हसि ।

न हि पश्याम्यहं कश्चिन्निषु लोकेषु राघव ॥१८॥

फिर मुझ जैसे मंत्रियों की सहायता से तुम वैरी को नाश कर सकोगे । हे राम ! मुझे तो त्रिलोक में ऐसा कोई देख नहीं पड़ता ॥ १८ ॥

गृहीतधनुषो यस्ते तिष्ठेदभिमुखो रणे ।

वानरेषु समासक्तं न ते कार्यं विपत्स्यते ॥१९॥

जो युद्धक्षेत्र में उस समय तुम्हारा सामना कर सके, जिस समय तुम हाथ में धनुष लेकर खड़े होजाओ । फिर तम जो काम वानरों को सौपोगे वह कार्य कभी न विगड़ने पायेगा ॥ १९ ॥

अचिराद् द्यसे सीता तीर्त्वा सागरमक्षयम् ।

तदलं शोकमालम्ब्य क्रोधमालम्ब्य भूपते ॥२०॥

इस अनन्त-सागर के पार जा तुम शीघ्र ही सीता को देखोगे । अतः हे राजन् ! अब तुम शोक त्याग कर क्रोध धारण करो अथवा यह समय शोक का नहीं बल्कि क्रोध करने का है ॥२०॥

निश्चेष्टाः क्षत्रिया मन्दाः सर्वे चण्डस्य विभ्यति ।

लङ्घनार्थं च घोरस्य समुद्रस्य नदीपतेः ॥२१॥

क्योंकि जो क्षत्रिय होकर उद्यमहीन होता है वह कभी सौभाग्यवान् नहीं हो सकता । फिर जो क्रोधी होता है, उससे सभी डरते हैं । सो तुम इस भयङ्कर नदियों के पति समुद्र को पार करने के लिए ॥ २१ ॥

सहास्माभिरिहोपेतः सूक्ष्मबुद्धिर्विचारय ।

सर्वं तीर्णं च मे सैन्यं जितमित्युपधारय ॥२२॥

हम लोगों के साथ परामर्श कर मूल्म बुद्धि से कोई उपाय सोचना चाहिए । यह आप निश्चय जान ले कि, ज्यों ही हमारी समस्त सेना उस पार पहुँची, त्योंही शत्रु परास्त हुआ ॥२२॥

इमे हि समरे शूराः हरयः कामरूपिणः ।

तानरीन्विधमिष्यन्ति शिलापादपवृष्टिभिः ॥२३॥

ये समस्त वानर, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और युद्ध मे बड़े शूरवीर हैं । ये पत्थरों और पेड़ों की वर्षा कर शत्रुओं को मार डालेंगे ॥२३॥

कथञ्चित्सन्तरिष्यामस्ते वयं वरुणालयम् ।

हतमित्येव तं मन्ये युद्धे समितिनन्दन ॥२४॥

हे रणप्रिय ! मेरे मन में तो यह बात आती है कि, हम लोग किसी न किसी तरह समुद्र पार हो ही जायेंगे और समुद्र पार होते ही शत्रु का नाश करते हमें डेर भी न लगेगी ॥२४॥

किमुक्त्वा बहुधा चापि सर्वथा विजयी भवान् ।

निमित्तानि च पश्यामि मनो मे संप्रहृष्यति ॥२५॥

हे राम ! अब मैं अधिक और क्या कहूँ । आप सब प्रकार से विजयी होंगे । क्योंकि इस समय मैं जो शुभ शकुन देख रहा हूँ इससे जान पड़ता है कि, आगे चल कर कोई हर्षोत्पादक कार्य होने वाला है अथवा इस समय शुभ शकुन हो रहे हैं और मेरा मन अत्यन्त हर्षित हो रहा है ॥२५॥

युद्धकाण्डः दूसरा सर्ग पूरा हुआ ।

तृतीयः सर्गः

सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा हेतुमत्परमार्थवित् ।

प्रतिजग्राह काकुत्स्थो हनुमन्तमथाब्रवीत् ॥१॥

परमार्थ के जानने वाले श्रीरामचन्द्र जी ने सुग्रीव के युक्ति-युक्त वचन सुन उन सब को अङ्गीकार किया और हनुमान जी से कहा ॥१॥

तपसा सेतुबन्धेन सागरोच्छ्रोषणेन वा ।

सर्वथा सुसमर्थोऽस्मि सागरस्यास्य लङ्घने ॥२॥

हे हनुमन् ! अपने तपोबल से, अथवा समुद्र पर पुल बाँध कर अथवा समुद्र के जल को सुखा कर, मैं तो हर प्रकार से समुद्र के पार जाने में समर्थ हूँ ॥२॥

कति दुर्गाणि ? दुर्गाया लङ्काया ब्रूहि तानि मे ।

ज्ञातुमिच्छामि तत्सर्वं दर्शनादिव वानर ॥ ॥

परन्तु अब तुम मुझे यह बतलाओ कि, लङ्का में दुर्गम दुर्ग कितने हैं । हे वानर ! मैं उनका वर्णन ऐसा सुनना चाहता हूँ, मानों मैं उनको प्रत्यक्ष देख रहा हूँ । अथवा तुम उन दुर्गों का ऐसा वर्णन करो जिससे मुझे वे प्रत्यक्ष सरीखे देख पड़ें ॥६॥

बलस्य परिमाणं च द्वारदुर्गाक्रियामपि ।

गुप्तकर्म च लंकायां रक्षसां सदनानि च ॥४॥

लङ्का में सेना कितनी है ? लङ्का के दुर्गद्वार किस प्रकार के साधनों से सुरक्षित हैं ? उनकी सुरक्षा के लिए जो परकोटे अथवा खाइयाँ बनी हैं वे कैसी हैं और राक्षसों के घर कैसे हैं ॥४॥

यथासुखं यथावच्च लंकायामसि दृष्टवान् ।

सर्वमाचक्ष्व तत्त्वेन सर्वथा कुशलो ह्यसि ॥ ॥

तुम देखने और वर्णन करने में चतुर हो । अतएव लङ्का में जो कुछ तुम देख आए हो वह सब निर्भीक होकर मेरे सामने यथार्थ कहो ॥५॥

श्रुत्वा रामस्य वचनं हनुमान् मारुतात्मजः ।

वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठो रामं पुनरथाब्रवीत् ॥ ॥

वाक्यविशारदों में श्रेष्ठ पवनतनय हनुमान् जी श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन, उनसे फिर कहने लगे ॥६॥

श्रूयतां सर्वमाख्यास्ये दुर्गकर्मविधानतः ।

गुप्ता पुरी यथा लंका रक्षिता च यथा बलैः ॥ ॥

हे राजन् ! वह लङ्का जिस प्रकार परकोटे, खाइयों तथा राक्षस सेना से रक्षित है, वह सब मैं कहता हूँ, तुनिए ॥७॥

राक्षसाश्च यथा रस्निग्धा रावणस्य च तेजसा ।

परां समृद्धिं लंकायाः सागरस्य च भीमताम् ॥ ॥

विभागं च बलौघस्य अनिर्देशं वाहनस्य च ।

एवमुक्त्वा हरिश्रेष्ठः कथयामास तत्त्वतः ॥ ॥

१ यथासुखं—निश्शङ्कम् । (गो०) २ त्निग्धा—त्वामिनिपक्ताः । (गो०) ३ निर्देशः—तख्यातं । (गो०)

वहाँ के राजस जैसे स्वामी-भक्त हैं, राजसराज रावण का जैसा प्रताप है, लङ्का की जैसी समृद्धि है, समुद्र की जैसी भयङ्करता है, सेनाएँ विभक्त होकर, जिस प्रकार वे लङ्का की रक्षा कर रही हैं और वहाँ के वाहनों की जितनी संख्या है—सो सब मैं कहता हूँ । यह कह कर हनुमान जी ने मन्व वृत्तान्त यथार्थ रीत्या कह दिया ॥८॥१॥

१हृष्टा प्रमुदिता लङ्का मत्तद्विपसमाकुला ।

महती रथसम्पूर्णा रक्षोगणसमाकुला ॥१०॥

लङ्का अत्यन्त हर्षित जनों से भरी पूरी है । उसमें मतवाले हाथी भरे हुए हैं । बड़े-बड़े रथों से भरी पूरी है और राजसों से परिपूर्ण है ॥१०॥

वाजिभिश्च सुसम्पूर्णा सा पुरी दुर्गमा परैः ।

दृढवद्धकवाटानि महापरिघवन्ति च ॥११॥

वह घोड़ों से भरी है और शत्रु के लिये दुर्गम है । उसके फाटकों में बड़े मजबूत किवाड़ लगे हुए हैं और फाटक बंद करने को बड़े बड़े परिघ (वेड़े) ॥११॥

चत्वारि विपुलान्यस्या द्वाराणि सुमहान्ति च ।

त्त्रेषूपलयन्त्राणि बलवन्ति महान्ति च ॥१२॥

उस पुरी में बहुत बड़े और विशाल चार द्वार हैं । उन द्वारों पर बड़े बलवान और बड़े-बड़े इषूपल नामक यंत्र लगे हैं ॥१२॥

[इषूपल नामक एक प्रकार की तोपें थीं । इन तोपों से गोले बनाय शत्रु सैन्य पर तीरों और पत्थरों की वर्षा की जाती थी ।]

१हृष्टा प्रमुदिता—अत्यन्त हृष्टजना । (गो०) २ इषूपलयन्त्राणि—शरशिला क्षेपक यन्त्राणि । (गो०)

आगतं प्रतिसैन्यं तैस्तत्र प्रतिनिवार्यते ।

द्वारेषु संस्कृता भीमाः कालायसमयाः शिताः ॥१३॥

शतशो रचिता वीरैः शतघ्न्यो रक्षसां गणैः ।

सौवर्णश्च महास्तस्याः प्राकारो दुष्प्रधर्षणः ॥१४॥

इनके द्वारा शत्रु की आक्रमण करी सेना मार कर भगा दी जाती है । द्वारों पर पैनी और लोहे की बनी सैकड़ों शतत्री राक्षसों ने बना कर, सजा रखी है । उस लड्डा का परकोटा सुवर्णमय और दुर्धर्ष है ॥१३॥१४॥

मणिविद्रुमवैडूर्यमुक्ताविरचितान्तरः ।

सर्वतश्च महाभीमाः शीततयवहाः शुभाः ॥१५॥

वह भीतर से मणियों, मूँगों, पन्नों और मोतियों से बनी हुई है । उसके चारों ओर बड़ी भयङ्कर और ठंडे स्वच्छ जल से युक्त ॥१५॥

अगाधा ग्राहवत्यश्च परिखा मीनसेविताः ।

द्वारेषु तासां चत्वारः संक्रमाः परमायताः ॥१६॥

अगाध खाई है, जिनमें बड़े मगर और मछलियाँ रह सकती हैं । उसके चारों द्वारों पर चार बड़े लंबे चौड़े लकड़ी के पुल हैं ॥१६॥

यन्त्रैरुपेता बहुभिर्महद्भिर्गृहपङ्क्तिभिः ।

त्रायन्ते संक्रमास्तत्र परसैन्यागमे सति ॥१७॥

जिनके ऊपर बड़ी-बड़ी कले लगी हुई हैं और उनके पास ही उन कलों को चलाने वाले राक्षससैनिकों की पंक्तियाँ हैं । इन्हीं से शत्रु सैन्य के आक्रमण से नगरों की रक्षा की जाती है ॥१७॥

यन्त्रैस्तैरवकीर्यन्ते परिखासु समन्ततः ।

एकस्त्वकम्प्यो बलवान् संक्रमः सुमहान् दृढः ॥१८॥

वहाँ जो कले रखी हैं उनको घुमाते ही खाई का जल चारों ओर बढ़ने लगता है और इस जल की बाढ़ से शत्रु सेना डूब जाती है। इन चार पुलों में से एक पुल सब से अधिक मजबूत है। वह जरा भी हिलता डुलता नहीं ॥१८॥

काञ्चनैर्वह्निभिः स्तम्भैर्वेदिकाभिश्च शोभितः ।

स्वयं प्रकृतिसम्पन्नो युधुत्सु राम रावणः ॥१९॥

उसके ऊपर बहुत से सोने के खम्भे और चवूतरे बने हुए हैं। हे राम! रावण आज कल द्यूतादिव्यसनों में मुँह मोड़ कर, युद्ध के लिये कमर कसे तैयार है ॥ १९ ॥

उत्थितश्चाप्रमत्तश्च बलानामनुदर्शने ।

लङ्का पुनर्निरालम्बा देवदुर्गा भयावहा ॥२०॥

वह सदा जागरूक रहता है और बड़ी सावधानी से सेना की देख रेख किया करता है। लङ्का एक ऐसे पहाड़ के ऊपर है जो सीधा खड़ा हुआ है, अर्थात् उस पर चढ़ने का रास्ता नहीं है। वह देवताओं के दुर्ग की तरह नितान्त दुर्गम है ॥२०॥

नादेयं पार्वतं वान्यं कृत्रिमं च चतुर्विधम् ।

स्थिता पारे समुद्रस्य दूरपारस्य राघव ॥२१॥

लंका में नदीदुर्ग, गिरिदुर्ग, वनदुर्ग और चौथे कृत्रिम दुर्ग हैं। हे राघव! समुद्र के उस पार बहुत दूर तक लङ्का बसी हुई है ॥ २१ ॥

१ प्रकृतिसम्पन्नः—द्यूतादिव्यसना रूप विचार रहितः । (गो०)

नौपथोऽपि च नास्त्यत्र निरादेशश्च सर्वतः ।

शैलाग्रं रचिता दुर्गा सा पूर्वेवपुरोपमा ॥२२॥

वहाँ न तो नाव की गति है और न वहाँ का हाल ही किसी को मिल सकता है । वह पर्वत के शिखर पर दुर्धर्म बनी हुई है और इन्द्रपुरी की तरह शोभायमान है ॥ २२ ॥

वाजिवारणसम्पूर्णा लङ्का परमदुर्जया ।

परिखाश्च शतध्वजश्च यन्त्राणि विविधानि च ॥२ ॥

घोड़ों हाथियों से भरी पूरी लङ्का परम दुर्जेय है । क्योंकि उसके चारों ओर खाई है और शतग्री तथा विविध प्रकार के यन्त्रों ॥ २३ ॥

शोभयन्ति पुरीं लङ्कां रावणस्य दुरात्मनः ।

अयुतं रक्षसामत्र पूर्वद्वारं समाश्रितम् ॥२ ॥

से दुरात्मा रावण की लङ्का शोभित है । लंका के पूर्व द्वार पर दस हजार राक्षस रहते हैं ॥ २४ ॥

शूलहस्ता दुराधर्माः सर्वे खड्गाग्रयोधिनः ।

नियुतं रक्षसामत्र दक्षिणद्वारमाश्रितम् ॥२ ॥

उन लोगों के हाथ में तिशून रहता है । ये बड़े दुर्धर्म हैं और सब के सब तलवारों से लड़ने वाले हैं । दक्षिण द्वार पर एक लाख राक्षस सैनिक रहते हैं ॥ २५ ॥

चतुरङ्गेण सैन्येन योधास्तत्राप्यनुत्तमाः ।

प्रयुतं रक्षसामत्र पश्चिमद्वारमाश्रितम् ॥२ ॥

इनके साथ साथ चतुरङ्गिणी सेना रहती है और जो सैनिक वहाँ हैं, वे भी बड़े प्रवीण लड़ने वाले हैं । पश्चिम द्वार पर दस लाख राक्षस रहते हैं ॥ २६ ॥

चर्मखङ्गधराः सर्वे तथा सर्वास्त्रकोविदाः ।

न्यर्बुदं रक्षसामत्र उत्तरद्वारमाश्रितम् ॥२७॥

ये सब ढाल तलवारधारी हैं और अस्त्रों के चलाने में प्रवीण हैं । एक अरब राक्षस उत्तर द्वार पर रहते हैं ॥ २७ ॥

रथिनश्चाश्ववाहाश्च शकुलपुत्राः सुपुजिताः ।

शतशोऽथ सहस्राणि रथमध्यमं स्कन्धमाश्रिताः ॥२८॥

इनमें बहुत से रथी, बहुत से घुड़सवार और कितने ही विश्वसनीय रावण के कृपा पात्र नौकर हैं । नगर के बीच में सैकड़ों सहस्रों सैनिकों की छावनी है ॥ २८ ॥

यातुधाना दुराधर्षाः साग्रकोटिश्च रक्षसाम् ।

ते मया संक्रमा भग्नाः परिखाश्चावपूरिताः ॥२९॥

उनमें से एक करोड़ से ऊपर बड़े दुर्धर्ष राक्षस सैनिक हैं । हे राम ! मैंने (खाईं पार करने के) पुलों को तोड़ डाला है और खाईं पाट दी है ॥ २९ ॥

दग्धा च नगरी लङ्का प्राकाराश्चावसादिताः ।

बलैकदेशः क्षपितो रक्षसानां रमहात्मनाम् ॥३०॥

मैंने लंका जला डाली है और लंका का परकोटा गिरा दिया है । मैंने महाकाय वाले राक्षसों की एक चौखियायी सेना मार डाली है ॥ ३० ॥

१ कुलपुत्राः—विश्वसनीया । (गौ०) २ मध्यमंस्कन्धम्—

नगरमध्यमस्थानं । (गौ०) ३ महात्मनाम्—महाकायानां । (गौ०)

येन केन च भार्गवेण तराम वरुणालयम् ।

हतेति नगरी लङ्का वानरैरवधार्यताम् ॥ ३१ ॥

अब किसी प्रकार समुद्र को पार करना चाहिए और ज्योंही समुद्र के पार पहुँचे कि, समझ लीजिए लङ्का वानरों द्वारा फतह हुई ॥ ३१ ॥

अङ्गदो द्विविदो मैन्दो जाम्बवान् पनसो नलः ।

नीलः सेनापतिश्चैव बलशेपेण किं तव ॥ ३२ ॥

अङ्गद, द्विविद, मैन्द, जाम्बवान, पनस, नल और सेनापति नील ही वहाँ के लिए पर्याप्त हैं और सेना का काम ही क्या है ॥३२॥

प्लवमाना हि गत्वा तां रावणस्य महापुरीम् ।

सपर्वतवनां भित्त्वा सखातां सप्रतोरणाम् ।

सप्राकारां सभवनामानयिष्यन्ति रावव ॥ ३३ ॥

ये सब समुद्र को लॉच कर उस पार जा पहुँचेगे तथा पर्वतों, वनों, खाइयों, तोरणद्वारों, परकेटों और भवनों को उजाड़ पुजाड़ कर, सीता को ले आचेंगे ॥३३॥

एवमाज्ञापय क्षिप्रं बलानां सर्वसंग्रहम् ।

मुहूर्तेन तु युक्तेन प्रस्थानमभिरोचय ॥ ३४ ॥


इति तृतीयः सर्गः ॥

हे राम ! अब आप बड़े-बड़े सेनापतियों को ऐसी आज्ञा दे कर, शीघ्र ही शुभ मुहूर्त में यात्रा कीजिए ॥३४॥

युद्धकाण्ड का तीसरा सर्ग पूरा हुआ ।

—:०:—

चतुर्थः सर्गः



श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं यथावदनुपूर्वशः ।

ततोऽब्रवीन्महातेजाः रामः सत्यपराक्रमः ॥ १ ॥

अमोघ-विक्रम-सम्पन्न और महाबली श्रीरामचन्द्र जी हनुमान जी की क्रम-पूर्वक कही हुई बातों को सुन कर, बोले ॥ १ ॥

यां निवेदयसे लङ्कां पुरीं भीमस्य रक्षसः ।

क्षिप्रमेनां मथिष्यामि सत्यमेतद्ब्रवीमि ते ॥ २ ॥

हे हनुमन् ! तुमने भयङ्कर राक्षस की जिस लङ्का का वृत्तान्त कहा है, तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ कि, उसको मैं शीघ्र ही नष्ट करूँगा ॥२॥

अस्मिन् मुहूर्ते सुग्रीव प्रयाणमभिरोचये ।

युक्तो मुहूर्तो विजयः प्राप्तो मध्यं दिवाकरः ॥ ३ ॥

हे सुग्रीव ! इसी मुहूर्त में युद्धयात्रा करना मुझे अच्छा जान पड़ता है । क्योंकि सूर्य भगवान् मध्य आकाश में आगए हैं । इसलिए यह अभिजित् नामक विजय का मुहूर्त है ॥ ३ ॥

अस्मिन् मुहूर्ते विजये प्राप्ते मध्यं दिवाकरे ।

सीतां हत्वा तु मे जातु क्वाऽसौ यास्यति यास्यतः ॥४॥

१ अनुपूर्वशः—अनुक्रमेण । (रा०) २ महातेजाः—महाबलः । (गो०) ३ सत्यपराक्रमः—अमोघविक्रमः । (गो०)

सूर्य भगवान् के मध्य आकाशवर्ती होने पर, अभिजित मुहूर्त में यात्रा कर, मैं उस राक्षस से सीता को छीन कर ले आऊँगा। वह राक्षस अब जा ही कहाँ सकता है ॥ ४ ॥

सीता श्रुत्वाऽभियानं मे आशामेष्यति जीवितं ।

जीवितान्तेऽमृतं स्पृष्ट्वा पीत्वा विषमिवातुरः ॥५॥

हम लोगों की युद्धयात्रा का हाल सुन कर, सीता को अपने जीवन की वैसी ही आशा होगी, जैसी कि, विषपान किए और जीवन से निराश, किसी मरते हुए मनुष्य को, अमृत मिल जाने पर होती है ॥ ५ ॥

उत्तराफाल्गुनी ह्यद्य श्वस्तु हस्तेन योच्यते ।

अभिप्रयाम सुग्रीव सर्वानीकसमावृताः ॥६॥

आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, कल हस्त नक्षत्र से इसका योग होगा। अतः हे सुग्रीव ! चलो, हम सब सेना को साथ ले रवाना हो जाँय ॥ ६ ॥

निमित्तानि च धन्यानि यानि प्रादुर्भवन्ति च ।

निहत्य रावणं सीतामानयिष्यामि जानकीम् ॥७॥

जो शुभ शकुन वतलाए जाते हैं वे भी हो रहे हैं, जिससे प्रकट होता है कि, हम रावण को मार कर, जानकी को ले आवेंगे ॥७॥

उपरिष्टाद्धि नयनं स्फुरमाणमिदं मम ।

विजयं समनुप्राप्तं शंसतीव मनोरथम् ॥८॥

देखो मेरी दाहिनी आँख के ऊपर का पलक बराबर फड़क कर मानों मुझसे कह रहा है कि, तुम्हारा विजय समीप है और तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होने वाला है ॥ ८ ॥

ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन च पूजितः १ ।

उवाच रामो धर्मात्मा पुनरप्यर्थकोविदः ॥६॥

यह सुन कपिराज सुग्रीव और लक्ष्मण ने श्रीरामचन्द्र जी के इन युक्तियुक्त वचनों की प्रशंसा की । तदनन्तर नीति-शास्त्र-निपुण धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र फिर कहने लगे ॥ ६ ॥

अग्रे यातु बलस्यास्य नीलो मार्गमवेक्षितुम् ।

वृतः शतसहस्रेण वानराणां तरन्विनाम् ॥१०॥

मार्ग देखने के लिए सब से आगे नील जाय और इनके साथ एक लाख बलवान वानर जाय ॥ १० ॥

फलमूलवता नील शीतकाननवारिणा ।

पथा मधुमता चाशु सेनां सेनापते नय ॥११॥

श्रीरामचन्द्र जी ने नील से कहा—हे नील ! तुम ऐसे मार्ग से सेना ले चलो, जहाँ फल मूल मिलें, शीतल जल भरा हो और जहाँ मधु हो ॥ ११ ॥

दूषयेद्युर्दुरात्मानः पथि मूलफलोदकम् ।

राक्षसाः परिरक्षेथास्तेभ्यस्त्वं नित्यमुद्यतः ॥१२॥

(एक बात से सावधान रहना । वह यह कि,) कहीं दुष्ट राक्षस रास्ते के मूल, फल और जल को विष मिला कर दूषित न कर डालें । राक्षसों से सदा सावधान रहना ॥ १२ ॥

निम्नेषु गिरिदुर्गेषु वनेषु च वनौकसः ।

अभिप्लुत्याभिपश्युः परेषां निहितं बलम् ॥६१॥

वानर छलॉंग मार कर टेकरों तथा वृक्षादि के ऊपर चढ़ कर भली भाँति देखें कि, कहीं गढ़ों में, गिरिदुर्गों में और वनों में शत्रु सेना तो घात लगाए नहीं छिपी बैठी है ॥ १३ ॥

यच्च फल्गु व्रलं किञ्चित्तदत्रैवोपयुज्यताम् ।

एतद्धि कृत्यं वीरं नो विक्रमेण प्रयुध्यताम् ॥१४॥

हमारी इस सेना में जो बालक बूढ़े हों, या कमजोर हों, उनको यहीं के किनारे में छोड़ दो, क्योंकि मेरी यह लड्का की चढ़ाई बड़ी विकट होगी । अतः वहाँ ऐसे सैनिक जाने चाहिए, जो बलवान और पराक्रमी हों ॥ १४ ॥

सागरौघनिभं भीममग्रानीकं महाबलाः ।

कपिसिंहाः प्रकर्षन्तु शतशोऽथ सहस्रशः ॥१५॥

ये सैकड़ों हजारों महाबलवान् कपिसिंह, समुद्र के समान विशाल और भयङ्कर सेना को साथ ले कर चले ॥ १५ ॥

गजश्च गिरिसङ्काशो गवयश्च महाबलः ।

गवाक्षश्चाग्रतो यान्तु वाहिन्या वानरर्षभाः ॥१६॥

पर्वत के समान शरीर वाला गज, महाबली गवय और गवाक्ष सेना के आगे आगे चले ॥ १६ ॥

यातु वानरवाहिन्या वानरः प्लवतांवरः ।

पालयन्दक्षिण पार्श्वमृषभो वानरर्षभः ॥१७॥

कूदने वालों में श्रेष्ठ और वानरश्रेष्ठ ऋषभ वानरी सेना के दक्षिण भाग की रक्षा करता हुआ, वानरी सेना के साथ चले ॥ १७ ॥

गन्धहस्तीव दुर्धर्षस्तरस्यी गन्धमादनः ।

यातु वानरवाहिन्याः सव्यं पार्श्वमधिष्ठितः ॥१८॥

मतवाले हाथी की तरह दुर्जेय वेगवान् गन्धमादन [सेना के बाएँ भाग की रक्षा करता हुआ वानरी सेना के साथ चले ॥१८॥

यास्यामि बलमध्येऽहं बलौघमभिहृषयन् ।

अधिरुह्य हनूमन्तमैरावतमिवेश्वरः ॥१९॥

मैं हनुमान के कन्धे पर सवार हो, ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए इन्द्र की तरह, सेना के मध्य भाग में रह कर और सेना को हर्षित अथवा उत्साहित करता हुआ चलूँगा ॥ १९ ॥

अङ्गदेनैप संयातु लक्ष्मणश्चान्तक्रोपमः ।

सार्वभौमेन भूतेशो द्रविणाधिपतिर्यथा ॥२०॥

अङ्गद के कन्धे पर सवार हो काल की तरह कोप किए हुए लक्ष्मण उसी प्रकार चलेंगे, जिस प्रकार अपने सार्वभौम दिग्गज पर चढ़ कर, कुवेर चलते हैं ॥ २० ॥

जाम्बवांश्च सुपेणश्च वेगदर्शी च वानरः ।

ऋक्षराजो महासत्त्वः कुक्षिं^१ रक्षन्तु ते त्रयः ॥२१॥

महाबली ऋक्षराज जाम्बवान्, सुपेण और वेगदर्शी—ये तीन वानर ।यूथपति सेना के पिछले भाग की रक्षा करते हुए चलें ॥ २१ ॥

राघवस्य वचः श्रुत्वा सुग्रीवो वाहिनीपतिः ।

व्यादिदेश महावीर्यान् वानरान् वानरर्षभः ॥२२॥

वानरश्रेष्ठ महाबलवान् और वाहिनीपति सुग्रीव ने श्रीराम-चन्द्र जी के ये वचन सुन, महाबलवान् वानरों को श्रीरामचन्द्र जी के आज्ञानुसार कार्य करने की आज्ञा दी ॥ २२ ॥

ते वानरगणाः सर्वे समुत्पत्य युयुत्सवः ।

गुहाभ्यः शिखरेभ्यश्च आशु पुप्लुविरे तदा ॥२६॥

तब तो वे सब बलवान् वानरगण जो लडने के लिए उत्सुक हो रहे थे, गुफाओं से निकल कर, शिखरों से कूद कूद कर आ पहुँचे ॥ २३ ॥

ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन च पूजितः ।

जगाम रामो धर्मात्मा ससैन्यो दक्षिणां दिशम् ॥२४॥

तदनन्तर वानरराज और लक्ष्मण द्वारा प्रशंसित धर्मात्मा श्रीराम जी सेना को साथ लिए हुए दक्षिण की ओर प्रस्थानित हो गए ॥ २४ ॥

शतैः शतसहस्रैश्च कोटीभिरयुतैरपि ।

वारणामैश्च हरिभिर्ययौ परिवृतस्तदा ॥२५॥

उस समय हजारों, लाखों और करोड़ों वानरों के दल के दल श्रीरामचन्द्र जी को घेर कर चल दिए ॥ २५ ॥

तं यान्तमनुयाति स्म महती हरिवाहिनी ।

हृष्टाः प्रमुदिताः सर्वे सुग्रीवेणाभिपालिताः ॥२६॥

उस समय हर्षित, प्रमुदित और सुग्रीवद्वारा रक्षित वह बड़ी भारी वानरी सेना श्रीरामचन्द्र जी के पीछे होती ॥ २६ ॥

आप्लवन्तः प्लवन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवङ्गमाः ।

च्वेलन्तो ऽनिनदन्तश्च जग्मुर्वै दक्षिणां दिशम् ॥२७॥

उस सेना के समस्त वानर कूदते, फाँदते, गरजते, सिंहनाद करते तथा किलकारियाँ मारते दक्षिण की ओर चले जाते थे ॥२७॥

भक्षयन्तः सुगन्धीति मधूनि च फलानि च ।

उद्वहन्तो महावृक्षान् मञ्जरीपुञ्जधारिणः ॥२८॥

रास्ते में वे सुगन्धित मधु पीते, फलों को खाते तथा ढेर की ढेर मञ्जरियों से युक्त बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर अपने कन्धों पर रखे हुए चले जाते थे ॥ २८ ॥

अन्योन्यं सहसा दृप्ता निर्वहन्ति क्षिपन्ति च ।

२ पततश्चोत्पतन्त्यन्ये पातयन्त्यपरे परान् ॥२९॥

उनमें से कोई कोई गर्वित हो दूसरों को उठा लेते और कुछ दूर चलकर गिरा देते थे । कोई स्वयं गिर कर दूसरे को गिरा देते थे और कोई कोई दूसरों को धक्का देकर गिरा देते थे ॥ २९ ॥

रावणो नो निहन्तव्यः सर्वे च रजनीचराः ।

इति गर्जन्ति हरयो राघवस्य समीपतः ॥३०॥

श्रीरामचन्द्र जी के सामने वे गर्ज गर्ज कर वारम्बार कह रहे थे कि, रावण तथा अन्य समस्त राक्षसों को हम मार डालेंगे ॥३०॥

पुरस्तादपभो वीरो नीलः कुमुद एव च ।

पन्थानं शोधयन्ति स्म वानरैर्वहुभिर्वृताः ३ ॥३१॥

१ पाठान्तरे—“विनदन्तश्च” । २ पाठान्तरे—“पततश्चाक्षिपन्त्यन्ये ।” ३ पाठान्तरे—“सह ।”

महावीर ऋषभ, गन्धमादन और बहुत से वानरों को साथ लिये हुए, मार्ग को खोजते सेना के आगे आगे चले जाते थे ॥३१॥

मध्ये तु राजा सुग्रीवो रामो लक्ष्मण एव च ।

शत्रुलिभिर्वहुभिः शूरैर्वृताः शत्रुनिवर्हणैः ॥३२॥

वानरी सेना के मध्य भाग में श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण और कपिराज सुग्रीव; शत्रुओं के सहारकर्ता, बलवान् और बहुत से वानरों से घिरे हुए चले जा रहे थे ॥ ३२ ॥

हरिः शतवलिर्वीरः कोटीभिर्दशभिर्वृतः ।

सर्वामैको ह्यवष्टभ्य ररत्त हरिवाहिनीम् ॥३३॥

महाबलवान् शतवलि दस करोड़ सेना को साथ लिये अकेले ही उस समस्त वानरी सेना की रक्षा कर रहा था ॥ ३३ ॥

कोटीशतपरीवारः केसरी पनसो गजः ।

ऋक्षश्चातिवलः पार्श्वमैकं तस्याभिरक्षति ॥३४॥

केसरी, पनस, गज और ये अतिवल वानरयूथपति, सौ करोड़ वानरों तथा रीछों को साथ लिये हुए, उम सेना के एक पार्श्व की रक्षा किये चले जाते थे ॥ ३४ ॥

सुपेणो जाम्बवांश्चैव ऋक्षश्च बहुभिर्वृता ।

सुग्रीवं पुरतः कृत्वा जघनं संररत्ततुः ॥३५॥

सुपेण और जाम्बवान असंख्य रीछों की सेना साथ लिये, सेना के मध्य भाग में चलते हुए सुग्रीव को आगे कर, सेना के पिछले भाग की रक्षा करते जाते थे ॥ ३५ ॥

१ जघनं—पश्चान्नागं । (गो०) २ पाठान्तरे—“बहुभिर्वनिभि-
र्मीमैवृताः शत्रुनिवर्हणाः ।”

तेषां सेनापतिर्वीरो नीलो वानरपुङ्गवः ।

सम्पतन् पततां श्रेष्ठस्तद्वलं पर्यपालयत् ॥३६॥

इन सब के सेनापति नील, मार्गशोधन के लिए आगे आगे जाते हुए भी, सेनापति होने के कारण समस्त सेना की देखभाल करते जाते थे ॥ ३६ ॥

दरीमुखः प्रजङ्घश्च रम्भोऽथ रभसः कपिः ।

सर्वतश्च ययुर्वीरास्त्वरयन्तः प्लवङ्गमान् ॥३७॥

दरीमुख, प्रजंघ, रम्भ, रभस ये सब वीर वानर, सेना को शीघ्र चलाने के लिए उत्साहित करते जाते थे ॥ ३७ ॥

एवं ते हरिशार्दूला गच्छन्तो बलदर्पिताः ।

अपश्यंस्ते गिरिश्रेष्ठं सह्यं द्रुमलतायुतम् ॥३८॥

इस प्रकार उन कपिशार्दूल एवं बलदर्पित वानरश्रेष्ठों ने, चलते चलते, वृक्षों एवं लताओं से युक्त पर्वतोत्तम सह्य नामक पर्वत को देखा ॥ ३८ ॥

सरांसि च सुफुल्लानि तटाकानि महान्ति च ।

रामस्य शासनं ज्ञात्वा भीमक्रोपस्य भीतवत् ॥३९॥

खिले हुए कमल के फूलों से सुशोभित सरोवर और बड़े बड़े तड़ाग भी इस सेना ने देखे। किन्तु भयङ्कर क्रोध करने वाले श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञा जान, मारे डर के ॥ ३९ ॥

वर्जयन्नगराभ्याशांस्तथा जनपदानपि ।

सागरौघनिभं भीमं तद्वानरवलं महत् ॥४०॥

वह समुद्र की तरह भयावह बड़ी भारी वानरी सेना नगरों और जमपदों की सीमा को ॥ ४० ॥

ऋनिःससर्प महाघोष भीमघोषं इवार्णवः ।

तस्य दाशरथेः पार्श्वे शूरास्ते कपिकुञ्जराः ॥४१॥

त्यागती हुई तथा समुद्र की तरह भयङ्कर महाघोष करती हुई चली जाती थी । श्रीरामचन्द्र जी के अगल बगल वे शूर कपि कुञ्जर ॥ ४१ ॥

तूर्णमापुप्लुवुः सर्वे सदश्वा इव चोदिताः ।

कपिभ्यामृह्यमानौ तौ शुशुभाते ऽनर्षभौ ॥४२॥

कूदते फाँदते ऐसे चले जाते थे, जैसे घुड़सवारों द्वारा चलाए हुए घोड़े । उस समय दो वानरों की पीठ पर सवार वे दोनों पुरुषश्रेष्ठ ऐसे सुशोभित जान पड़ते थे ॥ ४२ ॥

महद्भ्यामिव संस्पृष्टौ ग्रहाभ्यां चन्द्रभास्करौ ।

ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन च पूजितः ॥४३॥

जैसे राहु और केतु नामक दो बड़े बड़े ग्रहों से छुए जाकर चन्द्र और सूर्य शोभा को प्राप्त होते हैं । इस प्रकार सुग्रीव और लक्ष्मण से सम्मानित ॥ ४३ ॥

जगाम रामो धर्मात्मा ससैन्यो दक्षिणां दिशम् ।

तमङ्गदगतो रामं लक्ष्मणः शुभया गिरा ॥४४॥

उवाच परिपूर्णार्थः स्वचनं प्रतिभानवान् ।

हतामवाप्य वैदेहीं क्षिप्रं हत्वा च रावणम् ॥४५॥

१ पाठान्तरे—“उत्ससर्प ।” १ पाठान्तरे—नरोत्तमौ ।” २ पाठान्तरे—“स्मृतिमान्प्रतिभानवान् ।”

धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी सेनासहित दक्षिण दिशा की ओर गए। तदनन्तर अङ्गद के कन्धों पर सवार परिपूर्ण मनोरथ एवं प्रतिभाशापी लक्ष्मण ने श्रीरामचन्द्र जी से शुभवाणी से कहा—
हे राम ! तुम शीघ्र रावण को मार और हरी हुई सीता को प्राप्त कर ॥ ४४ ॥ ४५ ॥

समृद्धार्थः समृद्धार्थमयोर्ध्या प्रति यास्यसि ।

महान्ति च निमित्तानि दिवि भूमौ च राघव ॥४६॥

तथा पूर्ण मनोरथ हो, धन जन से पूर्ण अयोध्या को लौट जाओगे। क्योंकि हे राघव ! आकाश और पृथिवी पर अनेक प्रकार के शकुन ॥४६॥

शुभानि तत्र पश्यामि सर्वाण्येवार्थसिद्धये ।

अनुवाति शुभो वायुः सेनां मृदुहितः सुखः ॥४७॥

जो तुम्हारे लिए शुभ हैं, और तुम्हारी सर्वाथ सिद्धि के द्योतक हैं, देख पड़ते हैं। देखिये, शीतल मन्द, सुगन्धित अनुकूल पवन, सेना को सुख देने के लिए चल रहा है ॥ ४७ ॥

पूर्णावल्गुस्वराश्चेमे प्रवदन्ति मृगद्विजाः ।

प्रसन्नाश्च दिशः सर्वा विमलश्च दिवाकरः ॥४८॥

समस्त मृग और पक्षी स्पष्ट और मधुर स्वर से बोल रहे हैं। समस्त दिशाएँ प्रसन्न सी जान पड़नी हैं और सूर्य भी विमल किरणों से प्रकाशित हो रहे हैं ॥ ४८ ॥

उशनाश्च प्रसन्नाच्चिरनु त्वां भार्गवो गतः ।

ब्रह्मराशिर्विशुद्धश्च शुद्धाश्च परमर्षयः ॥४९॥

अचिंभन्तः प्रकाशन्ते ध्रुवं सर्वे प्रदक्षिणम् ।

त्रिशङ्कुर्विमलो भाति राजर्षिः सपुरोहितः ॥५०॥

शुभ किरण वाले सब वेदों को अध्ययन किए हुए और पाप ग्रहों से रहित शुक्र भी आपके पीछे हैं । विमल आकाश में प्रभा से युक्त सप्तर्षि उज्ज्वल ध्रुव की परिक्रमा मी कर रहे हैं । पुरोहित विश्वामित्र जी के साथ राजर्षि त्रिशङ्कु आकाश में कैसा निर्मल प्रकाश कर रहे हैं ॥ ४६ ॥ ५० ॥

पितामहवरोऽस्माकमिदवाकूणां महात्मनाम् ।

विमले च प्रकाशेते विशाखे निरुपद्रवे ॥५१॥

नक्षत्रवरमस्माकमिच्चाकूणां महात्मनाम् ।

नैऋतं नैऋतानां च नक्षत्रमभिपीड्यते ॥५२॥

मूलो मूलवता स्पृष्टो धूप्यते धूमकेतुना ।

सर्वं चैतद्विनाशाय राक्षसानामुपस्थितम् ॥५३॥

त्रिशङ्कु जी इक्ष्वाकुवंशियों के मुख्य पितामह हैं । विशाखा नक्षत्र, जो इक्ष्वाकुवंश का नक्षत्र कहलाता है, उपद्रवरहित हो कैसा चमक रहा है और राक्षसों का यह नैऋत देवत मूल नामक नक्षत्र, धूमकेतु द्वारा, जो डंडे की तरह खड़ा है, अत्यन्त पीड़ित हो रहा है । ये सब इन राक्षसों के विनाश के सूचक हैं ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥

काले कालगृहीतानां नक्षत्रं ग्रहपीडितम् ।

प्रसन्नाः सुरसाश्चापो वनानि फलवन्ति च ॥५४॥

क्योंकि जिसकी मृत्यु निकट आती है उसको ही नक्षत्र और ग्रहों की पीड़ा हुआ करती है। सरोवरों का जल मीठा और साफ हो रहा है, फलयुक्त वृक्षों से वन भरे हुए हैं ॥ ५४ ॥

प्रवान्त्यभ्यधिकं गन्धान्यथर्तुकुसुमा द्रुमाः ।

व्यूढानि कपिसैन्यानि प्रकाशन्तेऽधिकं प्रभो ॥५५॥

समस्त वृक्षों में अकाल में पुष्पित होने से, उनकी सुगन्धि, ऋतु में फूले हुए पुष्पों से अधिक हो रही है। हे प्रभो! व्यूहाकार सुसज्जित यह वानरी सेना ऐसी शोभित हो रही है ॥ ५५ ॥

देवानामिव सैन्यानि सङ्ग्रामे तारकामये ।

एवमार्य समीक्ष्यैतान् प्रीतो भवितुमर्हसि ॥५६॥

जैसे तारकासुर वाले संप्राम में देवताओं की सेना शोभित हुई थी। हे आर्य! इन सब शुभ शकुनों को देख तुम प्रसन्न होओ ॥५६॥

इति आतरमाश्वास्य हृष्टः सौमित्रिरब्रवीत् ।

अथावृत्य महीं कृत्स्नां जगाम महती चमूः ॥५७॥

सुमित्रानन्दन लक्ष्मण जी ने इस प्रकार कह श्रीरामचन्द्र जी को ढाँढस बताया। समस्त पृथिवी को ढक कर वह बड़ी वानरी सेना चली ॥ ५७ ॥

ऋक्षवानरश्शार्दूलैर्नखदंष्ट्रायुधैर्वृता ।

कराग्रैश्चरणाग्रैश्च वानरैरुत्थितं रजः ॥५८॥

उस महती वानरी सेना में, नखों और दाँतों से लड़ने वाले बड़े बड़े रीछ और वानर ही देख पड़ते थे। उस समय उनके हाथों और पैरों से उड़ी हुई धूल ने ॥ ५८ ॥

भीममन्तर्दधे लोकं निवार्य सवितुः प्रभाम् ।
 सपर्वतवनाकाशां दक्षिणां हरिवाहिनी ॥५६॥
 छादयन्ती ययौ भीमा घामिवाम्बुदसन्ततिः ।
 उत्तरन्त्यां च सेनायां सन्ततं बहुयोजनम् ॥६०॥

सम्पूर्ण दिशाओं और सूर्य के प्रकाश को निविड़ अन्धकार से ढक दिया । वह भयङ्कर कपिसेना पर्वत, वन और आकाश-सहित दक्षिणप्रान्त की भूमि को ढक ऐसी चली जाती थी, जैसे आकाश में मेघ की घटाएँ । इस वानरसेना की पंक्ति बराबर कितने ही योजन तक लम्बी फैली हुई थी ॥ ६० ॥

नदीस्रोतांसि सर्वाणि सस्यन्दुर्विपरीतवत् ।
 सरांसि विमलाम्भांसि द्रुमाकीर्णांश्च पर्वतान् ॥६१॥

रास्ते में नदियों की धार को पार कर, जब वानरी सेना चलती, तब इनके वेग से नदियों की धारे उल्टी बहती सी जान पड़ती थी । निर्मल जल से भरी झीलों, वृक्षों से सुशोभित पर्वतों ॥ ६१ ॥

समान् भूमिप्रदेशांश्च वनानि फलवन्ति च ।
 मध्येन च समन्ताच्च तिर्यक्चाधश्च साऽविशत् ॥६२॥
 समावृत्य महीं कृत्स्नां जगाम महती चमूः ।
 ते हृष्टमनसः सर्वे जग्मुर्मरुतरंहसः ॥६३॥

समतल भूभागों और फलों से भरे वनों में होकर तथा चारों तरफ पृथिवी और आकाश को, इस प्रकार समस्त पृथिवी को ढके हुए वह वानरी सेना चली थी । वे समस्त वानर प्रसन्न हो वायु की तरह वेग से चले जाते थे ॥ ६२ ॥ ६३ ॥

हरयो राघवस्यार्थे समारोपितविक्रमाः ।

हर्षवीर्यवलोद्रेकान् दर्शयन्तः परस्परम् ॥६४॥

श्रीरामचन्द्र जी के कार्य को पूरा करने के लिए वानरों का विक्रम बढ़ रहा था अर्थात् वे वानर युद्ध के लिए क्रमर कसे हुए थे। वे वानर आपस में हर्ष, वीर्य और बल की उत्कृष्टता दिखलाते थे ॥ ६४ ॥

यौवनोत्सेकजान्दर्पान् विविधांश्चक्रुर्ध्वनि ।

तत्र केचिद्द्रुतं जग्मुरुत्पेतुश्च तथाऽपरे ॥६५॥

और वे यौवन के गर्व से गर्वित हो, तरह, तरह की ध्वनि करते जाते थे। उनमें से कोई तो बड़ी तेजी के साथ चले जाते थे और कोई उछलते कूदते चले जाते थे ॥ ६५ ॥

केचित्किलकिलां चक्रुर्वानरा वनगोचराः ।

प्रास्पोटयंश्च पुच्छानि सन्निजघ्नः पदान्यपि ॥६६॥

कोई कोई वानर किलकारियां मारते थे, कोई पूँछों को फटकारते, कोई भूमि पर पैरों को पटकते हुए चले जाते थे ॥ ६६ ॥

भुजान्विक्षिप्य शैलांश्च द्रुमानन्ये वभञ्जिरे ।

आरोहन्तश्च शृङ्गाणि गिरीणां गिरिगोचराः ॥६७॥

कोई कोई भुजाओं को फेंका पेड़ों और पहाड़ों को उखाड़ते और तोड़ते जाते थे। पहाड़ों पर विचरने वाले वानर पर्वत-शिखरों पर चढ़ जाते ॥ ६७ ॥

१ समारोपितविक्रमाः—अभिवृद्धविक्रमाः । [गो०] २ उद्रेक-शब्दोत्तिशयवाची । [गो०] ३ विक्षिप्य—प्रसार्य । [गो०] ४ गिरिगोचराः—गिरिचराः । [गो०]

महानादान् विमुञ्चन्ति च्वेलामन्ये प्रचक्रिरे ।

ऊरुवेगैश्च ममृदुर्लताजालान्यनेकशः ॥६८॥

कोई कोई महानाद करते और कोई कोई सिहनाद करते थे ।
कोई अपनी जाँघों से कोमल लताओं को कुचल डालते थे ॥६८॥

जम्भमाणाश्च विक्रान्ता विचिक्रीडुः शिलाद्रुमैः ।

शतैः शतसहस्रैश्च कोटीभिश्च सहस्रशः ॥६९॥

वे विक्रमशाली वानर जमुहाते जाते थे और शिलाओं तथा
वृक्षों से खेलते जाते थे । उस समय लाखों करोड़ों ॥ ६९ ॥

वानराणां सुघोराणां यूथैः परिवृता मही ।

सा स्म याति दिवारान्नं महती हरिवाहिनी ॥७०॥

हृष्टा प्रमुदिता सेना सुग्रीवेणाभिरक्षिता ।

वानरास्त्वरितं यान्ति सर्वे युद्धाभिनन्दिनः ॥७१॥

भयंकर वानरों से पृथिवी पूर्ण होगई । वह महतो वानरी
सेना हर्षित एवं प्रमुदित तथा सुग्रीव से रक्षित हो, रात दिन
चली जाती थी । सब वानर युद्ध करने की इच्छा से बड़ी
शीघ्रता से चले जाते थे ॥ ७० ॥ ७१ ॥

मुमोक्षयिविपद्यः सीतां मुहूर्तं कापि नासत ।

ततः पादपसम्बन्धं नानामृगसमायुतम् ॥७२॥

सह्यपर्वतमासेदुर्मलयं च महीधरम् ।

काननानि विचित्राणि नदीप्रसन्नवणानि च ॥ ७३॥

पश्यन्नभिययौ गमः सह्यस्य मलयस्य च ।

चम्पकांस्तिलकांश्चूतानशोकान्सिन्धुवारकान् ॥७४॥

सीता जी को छुड़ाने के लिए वे इतने उतावले हो रहे थे कि, एक क्षण को भी वे कहीं विश्राम करने को नहीं ठहरते थे। तदनन्तर वे वानर विविध वृक्षों से शोभित तथा विविध मृगों से युक्त सह्य और मलय नामक पर्वत के समीप पहुँचे। सह्य और मलय के चित्र विचित्र वनों, नदियों और झरनों को देखते हुए श्रीरामचन्द्र जी चले जाते थे। चम्पा, तिलक, आम, अशोक, सिन्धुवार ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥

करवीरांश्च तिमिशान् भञ्जन्ति स्म प्लवङ्गमाः ।

अङ्गोलांश्च करञ्जांश्च प्लवन्यग्रोधतिन्दुकान् ॥७५॥

करवीर और तिमिश के पेड़ों को वानर लोग नष्ट करते हुए चले जाते थे। इसी प्रकार अङ्गोल, करञ्ज, पाकर, वट, तेंदू ॥७५॥

जम्बूकामलकान्नीपान् भञ्जन्ति स्म प्लवङ्गमाः

प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाः काननद्रुमाः ॥७६॥

जामुन, आँवला, नागकेसर के पेड़ों को भी वानर उखाड़ उखाड़ कर फेंक देते थे। वहाँ रमणीय पत्थरों पर जमे हुए अनेक प्रकार के जंगली पेड़ ॥ ७६ ॥

वायुवेगप्रचलिताः पुष्पैरवकिरन्ति तान् ॥

मारुतः सुखसंस्पर्शो वाति चन्दनशीतलः ॥७७॥

वायु के वेग से चलायमान हो, फूलों को पृथिवी पर बखेर रहे थे। बहने से आनन्द देने वाले और चन्दन की तरह सुशीतल वायु चल रहा था ॥ ७७ ॥

षट्पदैरनुकूजद्विवनेषु मधुगन्धिषु ।

अधिकं शैलराजस्तु धातुभिः सुविभूषितः ॥७८॥

वनो में भौरे गूँज रहे थे और वन में मधु की गंध आरही थी । वह पर्वतराज धातुओं के द्वारा विशेष रूप से शोभायमान हो रहा था ॥ ७८ ॥

धातुभ्यः प्रसृतो रेणुर्वायुवेगविघट्टितः ।

सुमहद्वानगनीकं छादयामास सर्वतः ॥७९॥

उस समय वानरी सेना के चलने के वेग से उत्पन्न वायु के कारण उड़ी हुई उन धातुओं की रज ने महती वानरी सेना को चारों ओर से ढक लिया था ॥ ७९ ॥

गिरिप्रस्थेषु रम्येषु सर्वतः सम्प्रपुष्पिताः ।

केतक्यः सिन्धुवाराश्च वासन्त्यश्च मनोरमाः ॥८०॥

माधव्यो गन्धपूर्णाश्च कुन्दगुल्माश्च पुष्पिताः ।

चिरिविल्वा मधूकाश्च वज्जुला वकुलास्तथा ॥८१॥

रञ्जकास्तिलकाश्चैव नागवृक्षाश्च पुष्पिताः ।

चूताः पाटलयश्चैव कोविदाराश्च पुष्पिताः ॥८२॥

मुचुलिन्दार्जुनाश्चैव शिशुपाः कुटजास्तथा ।

धवाः शल्मलयश्चैव रक्ताः कुरवकास्तथा ॥८३॥

हिन्तालास्तिमिशाश्चैव चूर्णका नीपकास्तथा ।

नीलशोकाश्च सरला अङ्गोलाः पद्मकास्तथा ॥८४॥

उस पर्वत पर सब ओर से रमणोक और फूली हुई केतकी, सिन्धुवार, मनोहर वामन्ती, सुगन्धित माधवी, फूले हुए कुन्द

के गुच्छे, चिरविल्व, मधुक, वज्जुल, वकुल, रञ्जक, तिलक, पुष्पित नागकेसर, आम, पाटली, फूले हुए कोविदार, मुचलिन्द, अर्जुन, शिशपा, कुटज, ढाक, लाल शाल्मली, कुरवक, हिन्ताल, तिमिश, चूर्णक, नीपक, नील, अशोक, साखू, अङ्गोल, पद्मक आदि वृक्षों को ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८३ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥

प्रीयमाणैः प्लवङ्गैस्तु सर्वे पर्याकुलीकृताः ।

वाप्यस्तस्मिन् गिरौ शीताः पल्वलानि तथैव च ॥ ८५ ॥

मारे आनन्द के वानरों ने उखाड़ कर तथा नोंच नोंच कर फेंक दिया । उस पर्वत पर शीतल जल उखाड़ की वावड़ी तथा छोटे छोटे जलकुण्ड थे ॥ ८५ ॥

चक्रवाकानुचरिताः कारण्डवनिषेविताः ।

प्लवैः क्रौञ्चैश्च सङ्कीर्णा वराहमृगसेविताः ॥ ८६ ॥

ऋक्षैस्तरक्षुभिः १ सिंहैः शार्दूलैश्च भयावहैः ।

रव्यालैश्च बहुभिर्भीमैः सेव्यमानाः समन्ततः ॥ ८७ ॥

जिनमें चक्रवाक, कारण्डव, क्रौंच और पनडुवियों तैर रही थीं । उस पर्वत पर सुअर, हिरन, रीछ, छोटे भेड़िये, भयङ्कर सिंह, शार्दूल तथा बहुत से भयङ्कर दुष्ट हाथी चारों ओर घूम रहे थे ॥ ८६ ॥ ८७ ॥

पद्मैः सौगन्धिकैः फुल्लैः कुमुदैश्चेत्पलैस्तथा ।

वारिजैर्विविधैः पुष्पै रम्यास्तत्र जलाशयाः ॥ ८८ ॥

१ तरक्षुभिः—मृगादनैः । (गो०) [छोटा भेड़िया ।] २ व्यालैः—दुष्टगजैः । (गो०)

लाल कमल, सुगन्धरा, कुई, सफेद कमल तथा अन्य जल में उत्पन्न होने वाले विविध प्रकार के फूल जलाशयों में फूले हुए थे ॥ ८८ ॥

तस्य सानुषु कूजन्ति नानाद्विजगणोस्तथा ।

स्नात्वा पीत्वोदकान्यत्र जले क्रीडन्ति वानराः ॥ ८९ ॥

उस पर्वत के शिखरों पर विविध प्रकार के पत्ती कूज रहे थे । वहाँ ये सब वानर स्नान कर और जलपान कर, जल में क्रीड़ा करने लगे ॥ ८९ ॥

अन्योन्यं श्लावयन्ति स्म शैलमारुह्य वानराः ।

फलान्यमृतगन्धीनि मूलानि कुसुमानि च ॥ ९० ॥

वे आपस में एक दूसरे को छिटियाते थे । फिर वे वानर पर्वत के ऊपर चढ़ कर अमृत समान मीठे फलों और मूलों को तथा फूलों को खाते थे ॥ ९० ॥

वभङ्गुर्वानरास्तत्र पादपानां बलोत्कटा ।

द्रोणमात्रप्रमाणानि लम्बमानानि वानराः ॥ ९१ ॥

बलोद्धत वानरों ने वहाँ के वृक्षों को उखाड़ डाला । अढ़ाई सेर वजनी लटकते हुए ॥ ९१ ॥

ययुः पिवन्तो हृष्टास्ते मधूनि मधुपिङ्गलाः ।

पादपानवभङ्गन्तो विकर्षन्तस्तथा लताः ॥ ९२ ॥

शहद के छत्तो को तोड़ तोड़ कर तथा उनसे शहद निकाल, वे शहद की रंगत जैसे शरीर वाले वानर, पी लेते थे । फिर वृक्षों को उखाड़ते और लताओं को नोंचते ॥ ९२ ॥

विधमन्तो गिरिवरान् प्रययुः प्लवगर्णभाः ।

वृक्षेभ्योऽन्ये तु कपयो नर्दन्तो मधुदपिताः ॥६३॥

और पर्वतों को ढहाते चले जाते थे । बहुतेरे वानर शहद पीते पीते अघा कर, वृक्षों पर चढ़े हुए गरज रहे थे ॥ ६३ ॥

अन्ये वृक्षान् प्रपद्यन्ते प्रपतन्त्यपि चापरे ।

बभूव वसुधा तैस्तु सम्पूर्णा हरियूथपैः ॥६४॥

कोई कोई कूद कूद कर वृक्षों पर चढ़ जाते थे और कोई कोई वृक्षों से पृथिवी पर धमाधम कूद रहे थे । उस समय वह स्थान वानर यूथों से वैसे ही परिपूर्ण हो गया था, ॥ ६४ ॥

यथा कमलकेदारैः पक्त्रैरिव वसुन्धरा ।

महेन्द्रमथ सम्प्राप्य रामो राजीवलोचनः ॥६५॥

जैसे पके हुए जड़हन (शाली) धान से खेत परिपूर्ण हो जाता है । तदनन्तर कमललोचन श्रीरामचन्द्र जी महेन्द्राचल पर पहुँचे ॥ ६५ ॥

अध्यारोहन् महाबाहुः शिखरं द्रुमभूषितम् ।

ततः शिखरमारुह्य रामो दशरथात्मजः ॥६६॥

उस पर्वत के वृक्षों से शोभित शिखर पर चढ़े । तदनन्तर शिखर पर चढ़, दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ने ॥ ६६ ॥

कूर्ममीनसमाकीर्णमपश्यत्सलिलाकरम् ।

ते सद्यः समतिक्रम्य मलयं च महागिरिम् ॥६७॥

वहाँ कछुओं और मछलियों से भरा एक तालाब देखा । पर्वतश्रेष्ठ सद्य और मलय को पार कर ॥ ६७ ॥

आसेदुरानुपव्येण समुद्रं भीमनिःस्वनम् ।

अवरुह्य जगामाशु वेलावनमनुत्तमम् ॥६८॥

रामो रमयतां श्रेष्ठः ससुग्रीवः सलक्ष्मणः ।

अथ धौतोपलतलां तोयौघैः सहस्रोत्थितैः ॥६९॥

क्रमानुसार भयंकर नाद करने वाले समुद्र के समीप जा निकले । तत्र रमण करने वालों में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी सुग्रीव और लक्ष्मण के साथ पहाड़ से उतर समुद्रतटवर्ती उत्तम वन में शीघ्रतापूर्वक पहुँच गए । वहाँ जाकर श्रीरामचन्द्र जी ने देखा कि, समुद्र के तटवर्ती पहाड़ों की उपत्यका सदा समुद्र की लहरों के जल से धोई जाती है ॥६८ ॥ ६९ ॥

वेलामासाद्य विपुलां रामो वचनमब्रवीत् ।

एते वयमनुप्राप्ताः सुग्रीवे वरुणालयम् ॥१००॥

समुद्र के लम्बे चौड़े तट पर पहुँच श्रीरामचन्द्र जी बोले—
हे सुग्रीव ! हम और ये सब वानरगण वरुणालय अर्थात् समुद्र पर पहुँच गए ॥ १०० ॥

इहेदानीं विचिन्ता सा या नः पूर्वं समुत्थिता ।

अतः परमतीरोज्यं सागरः सरितां पतिः ॥१०१॥

यहाँ आने पर हम लोगों के मन में वही चिन्ता फिर उत्पन्न हो गई जो पहले हुई थी । इस विशाल नदीपति समुद्र का दूसरा (अर्थात् दूसरी ओर का) तट दिखलाई ही नहीं पड़ता ॥ १०१ ॥

न चायमनुपायेन शक्यस्तरितुमर्णवः ।

तदिहैव निवेशोऽस्तु मन्त्रः प्रस्तूयतामिह ॥१०२॥

सो बिना किसी श्रेष्ठ उपाय को विचारे, इस समुद्र के पार होना कठिन है। अतः यहीं ठहर कर विचार करना चाहिए ॥१०२॥

यथेदं वानरवलं परं पारमवाप्नुयात् ।

इतीव स महाबाहुः सीताहरणकशितः ॥१०३॥

जिससे यह वानरी सेना उस पार जा सके। इस प्रकार महाबाहु और सीताहरण के शोक से विकल ॥ १०३ ॥

रामः सागरमासाद्य वासमाज्ञापयत्तदा ।

सर्वाः सेना निवेश्यन्तां वेलायां हरिपुङ्गव ॥१०४॥

श्रीरामचन्द्र जी ने समुद्रतट पर पहुँच सेना के वहाँ टिकने की आज्ञा दी। वे सुग्रीव से बोले—हे सुग्रीव ! इसी तट पर समस्त सेना को टिका दो ॥ १०४ ॥

सम्प्राप्तो मन्त्रकालो नः सागरस्यास्य लङ्घने ।

स्वां स्वां सेनां समुत्सृज्य मा च कश्चित्कुतो व्रजेत् ॥१०५॥

गच्छन्तु वानराः शूराः ज्ञेयं छन्नं भयं च नः ।

रामस्व वचनं श्रुत्वा सुग्रीवः सहलक्ष्मणः ॥१०६॥

क्योंकि समुद्र के पार होने के सम्बन्ध में परामर्श करने का समय आ पहुँचा है। अपनी अपनी सेना को छोड़ कर कोई भी सेनापति कहीं न जाय। बल्कि शूरवीर वानर इधर उधर घूम फिर कर छिपी हुई राज्ञसी सेना का पता लगावें। श्रीरामजी के ये वचन सुन, लक्ष्मण रहित सुग्रीव ने ॥ १०५ ॥ १०६ ॥

सेनां न्यवेशयत्तीरे सागरस्य द्रुमायुते ।

विरराज समीपस्थं सागरस्य च तद्वलम् ॥१०७॥

वृक्षों से सुशोभित उस समुद्रतट पर वानरी सेना को टिका
दिआ। उस समय समुद्रतट पर ठहरी हुई वह वानरी सेना ॥१०७॥

मधुपाण्डुजलः श्रीमान् द्वितीय इव सागरः ।

बेलावनमुपागम्य ततस्ते हरिपुङ्गवाः ॥१०८॥

विनिविष्टाः परं पारं काङ्क्षमाणा महोदधेः ।

तेषां निविशमानानां सैन्यसन्नाहनिःत्वनः ॥१०९॥

अन्तर्धाय महानादमर्णवस्य प्रशुश्रुवे ।

सा वानराणां ध्वजिनी सुग्रीवेणामिपालिता ॥११०॥

मधुपिङ्गजवर्ण (शहद जैसे पीले रंग के) जल से पूर्ण दूसरे
महासागर के समान जान पड़ी। तदनन्तर वे वानरश्रेष्ठ समुद्रतट
पर-पहुँच, समुद्र के दूसरे तट पर जाने की अभिलाषा करने लगे।
उस समय वानरी सेना की चित्लाहट ने समुद्र के गर्जन को दवा
दिआ और (केवल) वानरों की चित्लाहट ही सुन पड़ने लगी।
वह सुग्रीव पालित वानरी सेना ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ ११० ॥

त्रिधा निविष्टा महती रामस्यार्थपराऽभवत् ।

सा महार्णवमासाद्य हृष्टा वानरवाहिनी ॥१११॥

रीछ, बन्दर और लंगूर—इस प्रकार तीन भागों में बँट कर
श्रीरामचन्द्र जी का कार्य सिद्ध करने को यत्नवती हुई। हर्षित
वानरी सेना ने महासागर के समीप पहुँच ॥ १११ ॥

वायुवेगसमाधृतं पश्यमाना महार्णवम् ।

दूरपारमसम्प्रार्थं रक्षोगणनिपेवितम् ॥११२॥

वायु के वेग से लहराते हुए समुद्र को देखा। बड़ी कठिनाई
से पार होने योग्य और राक्षस सेवित ॥ ११२ ॥

पश्यन्तो वरुणावासं निषेदुर्हरियुथपाः ।

चण्डनक्रग्रहं घोरं क्षपादौ दिवसक्षये ॥११३॥

वरुण के आवासस्थान अर्थात् समुद्र को देखते हुए, वानर युथपति वहाँ बैठे हुए थे । समुद्र बड़े बड़े घड़ियालों से पूर्ण होने के कारण भयावह हो रहा था और सन्ध्या के समय ॥ ११३ ॥

हसन्तमिव फेनौघैर्नृत्यन्तमिव चोर्मिभिः ।

चन्द्रोदयसमुद्भूतं प्रतिचन्द्रसमाकुलम् ॥११४॥

जब उसमें फेन आता था, तब ऐसा जान पड़ता था, मानों वह हँस रहा है और जब वह अपनी लहरों से लहराता था, तब ऐसा जान पड़ता था मानों वह नाच रहा है । समुद्र चन्द्रमा के उदय होने पर बढ़ता और चन्द्रमा के प्रतिविम्बों से भरा हुआ जान पड़ता था ॥ ११४ ॥

[पिनष्टीव तरङ्गाग्रैरर्णवः फेनचन्दनम् ।

तदादाय करैरिन्दुलिम्पतीव दिगङ्गनाः ॥११५॥]

उस समय ऐसा जान पड़ता था, मानों महासागर, तरङ्गों-रूपी हाथों से फेनरूपी चन्दन रागड़ रहा है और चन्द्रमा अपने किरण रूपी हाथों से दिशारूपी सुन्दरियों के अङ्गों में चन्दन का लेप कर रहा है ॥ ११५ ॥

चण्डानिलमहाग्राहैः कीर्णं तिमितिमिङ्गलैः ।

रदीप्तभोगैरिवाकीर्णं भुजङ्गैर्भुजगालयम् ॥११६॥

१ दिवसक्षये क्षपादौ सन्ध्यायामित्यर्थः । (गो०) २ दीप्तभोगै-
रुज्ज्वलदेहैः । (रा०)

वह समुद्र प्रचण्ड वायु, बड़े बड़े घड़ियालों, तिमि और तिमि-
ङ्गलों (एक प्रकार की बड़े आकार की मछलियों) से भरा हुआ
देख पड़ता था । उज्ज्वल देहधारी सर्पों से भरा होने के कारण वह
सर्पों का आलय अर्थात् पाताल जैसा जान पड़ता था ॥ ११६ ॥

अवगाढं महासत्त्वैर्नानाशैलसमाकुलम् ।

सुदुर्गं दुर्गमार्गं तमगाधमसुरालयम् ॥११७॥

बड़े बड़े जलचरों और पहाड़ों से समुद्र भरा हुआ होने के
कारण, मार्गरहित, सब किसी के जाने के अयोग्य और असुरों
के रहने का अगाध स्थान था ॥ ११७ ॥

मकरैर्नागभोगैश्च विगाढा वातलोलिताः ।

उत्पेतुश्च निपेतुश्च प्रवृद्धा जलराशयः ॥११८॥

उसकी लहरें घड़ियाल और सर्पों के चलने फिरने से तथा
वायु के वेग से ऊपर को उछलतीं और बड़े जोर से गन्द करती
हुई नीचे गिरती थीं ॥ ११८ ॥

अग्निचूर्णमिवाविद्धं भास्वराम्बु महोरगम् ।

सुरारिविषयं घोरं पातालविषमं सदा ॥११९॥

समुद्र में भीषणधारी सर्पों के रहने से, उनके फणों की
मणियों की किरणों जब जल पर छिटकती थीं, तब ऐसा जान
पड़ता था मानों जल के ऊपर अग्नि की चिनगारियाँ बिखरी
हुई हों । यह भयङ्कर समुद्र असुरों का आवासस्थान और पाताल
की तरह गहरा है ॥ ११९ ॥

१ विषयं—आवासभूतं (गो०) २ पातालविषमं—पातालवत्
गंभीरम् । (गो०)

सागरं चाम्बरप्रख्यमम्बरं सागरोपमम् ।

सागरं चाम्बरं चेति शनिर्विशेषमदृश्यत ॥१२०॥

उस समय समुद्र तो आकाश जैसा और आकाश समुद्र जैसा देख पड़ता था ॥ १२० ॥

सम्पृक्तं नभसाऽप्यम्भः सम्पृक्तं च नभोऽम्भसा ।

तादृग्रूपे स्म दृश्येते तारारत्नसमाकुले ॥१२१॥

उस समय ऐसा जान पड़ता था कि, आकाश से तो समुद्र का जल मिना हुआ और जल से आकाश । दोनों ही तुल्य रूप जान पड़ते थे । नक्षत्रदीप्ति (नक्षत्रों के प्रकाश) और रत्नज्योति (रत्नों की दमक) के कारण दोनों एक समान हो रहे थे ॥ १२१ ॥

समुत्पतितमेघस्य वीचिमालाकुलस्य च ।

विशेषो न द्वयोरासीत्सागरस्याम्बरस्य च ॥१२२॥

मेघयुक्त आकाश और लहरों से युक्त समुद्र दोनों में कुछ भो अन्तर नहीं जान पड़ता था ॥ १२२ ॥

अन्योन्यमाहताः सक्ताः सस्वनुर्भीमनिःस्वनाः ।

ऊर्मयः सिन्धुराजस्य महाभेर्य इवाहवे ॥१२३॥

दोनों आपस में मिले हुए और आपस में टकरा कर महाघोर शब्द कर रहे थे । समुद्र की लहरें शब्द कर रही थीं, मानों लड़ाई के नगाड़े बज रहे हों ॥ १२३ ॥

रत्नौघजलसन्नादं विषक्तमिव वायुना ।

उत्पतन्तमिव क्रुद्धं यादोगणसमाकुलम् ॥१२४॥

रत्नों से और विविध प्रकार के जलजन्तुओं से पूर्ण, समुद्र का जल वायु के झोंकों से ऐसा उछल रहा था, मानों क्रोध में भर उछल रहा हो ॥ १२४ ॥

ददृशुस्ते महोत्साहा वाताहतमपाम्पतिम् ॥

अनिलोद्धतमाकाशे प्रवल्गन्तमिवोर्मिभिः ॥१२५॥

उस समय उन वानरों ने इस तरह के समुद्र को ऐसा देखा, मानों वह लहरोंरूपी मुख के व्यर्थ की बक बक कर रहा हो ॥१२५॥

ततो विस्मयमापन्ना ददृशुर्हरयस्तदा ।

भ्रान्तोर्मिजलसन्नादं प्रलोलमिव सागरम् ॥१२६॥

इति चतुर्थः सर्गः ॥

चकर खाती हुई बहुत सी तरङ्गों से युक्त और कल्लोलमय समुद्र को देख, वे वानरगण परम विस्मित हुए ॥ १२६ ॥

युद्धकाण्ड का चतुर्थ सर्ग पूरा हुआ ।

पञ्चमः सर्गः

—:०:—

सा तु नीलेन विधिवत्स्वारक्षा सुसमाहिता ।

सागरस्योत्तरे तीरे साधु सेना निवेशिता ॥१॥

१ विधिवत्—नीतिशास्त्रोक्तरीत्या । (गो०) * पाठान्तरे—
“वाताहतजलाशयम्” । † पाठान्तरे—“अनिलोद्भूत ।”

सेनापति नील के अधिकार में वानरी सेना समुद्र के उत्तर तट पर भली भाँति टिका दी गई और सैनिक नियमानुसार पहिरे आदि का भी प्रबन्ध किआ गया ॥ १ ॥

मैन्दश्च द्विविदश्चोभौ तत्र वानरपुङ्गवौ ।

विचेरतुश्च तां सेनां रक्षार्थं सर्वतोदिशम् ॥२॥

मैन्द और द्विविद नामक दो यूथपति रखवाली को सेना के चारों ओर घूम घूम कर पहरा देने लगे ॥ २ ॥

निविष्टायां तु सेनायां तीरे नदनदीपतेः ।

पार्श्वस्थं लक्ष्मणं दृष्ट्वा रामो वचनमब्रवीत् ॥३॥

नदीपति समुद्र के तट पर सेना के टिक जाने पर, वगल में बैठे हुए लक्ष्मण से श्रीरामचन्द्र बोले ॥ ३ ॥

शोकरश्च किल कालेन गच्छता ह्यपगच्छति ।

मम चापश्यतः कान्तामहन्यहनि वर्धते ॥४॥

हे लक्ष्मण ! देखो, समय जैसे जैसे बीतता जाता है, वैसे ही वैसे मनुष्य का शोक भी कम होता है। किन्तु सीता के न देखने से मेरा दुःख दिन दिन बढ़ता जाता है ॥ ४ ॥

न मे दुःखं प्रिया दूरं न मे दुःखं हृतेति वा ।

एतदेवानुशोचामि वयौऽस्या ह्यतिवर्तते ॥५॥

हे लक्ष्मण ! मुझे अपनी प्यारी सीता के दूर होने का दुःख नहीं है और न उसके हरे जाने ही का दुःख है मुझे तो धीरे धीरे उसकी आयु के क्षीण होते जाने का (अर्थात् गतयौवना होने का) दुःख है ॥ ५ ॥

वाहि वात यतः कान्ता तां स्पृष्ट्वां मामपि स्पृश ।
त्वयि मे गात्रसंस्पर्शश्चन्द्रे दृष्टिसमागमः ॥६॥

हे वायु ! तुम उधर ही को चलो जिधर मेरी प्यारी है और उसके शरीर को छु कर मेरे शरीर को छुओ । मेरे शरीर को, तुम्हारे छूने से वैसा ही सुख होगा, जैसा गर्मी से विकल मनुष्य चन्द्रमा को देख कर, सुखी होता है ॥ ६ ॥

तन्मे दहति गात्राणि विषं पीतमिवाशये ।
हा नाथेति प्रिया सा मां हियमाणा यदब्रवीत् ॥७॥

हे लक्ष्मण ! हरे जाने के समय मेरी प्रिया ने जो "हा नाथ" कहा था, वह मेरे शरीर को शरीरस्थित अथवा (पिये हुए) विष की तरह भस्म कर रहा है ॥ ७ ॥

तद्वियोगेन्धनवता तच्चिन्ताविपुलाचिषा ।
रात्रिदिवं शरीरं मे दहयते मदनाग्निना ॥८॥

सीता के वियोग रूपी ईंधन से युक्त और उसकी चिन्ता रूपी ज्वाला से दहकता हुआ यह काम रूपी अग्नि रात दिन मुझे भस्म कर रहा है ॥ ८ ॥

अवगाह्यार्णवं स्वप्स्ये सौमित्रे भवता विना ।
कथञ्चित्प्रज्वलन् कामः न मां मुप्तं जले दहेत् ॥९॥

हे लक्ष्मण ! तुम यहीं रहो । मैं इस समुद्र में गोता मार कर सोऊँगा । क्योंकि यह दहकता हुआ काम मुझे जल में तो भस्म न करेगा ॥ ९ ॥

बह्वैतत्कामयानस्य शक्यमेतेन जीवितुम् ।
यदहं सा च वामोरुरेकां धरणिमाश्रिता ॥१०॥

मुझ विरही को जोवित रखने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि, मैं और वह सीता एक पृथिवी पर तो सोते हैं ॥ १० ॥

केदारस्येव केदारः सोदकस्य निरुदकः ।

उपस्नेहेन जीवामि जीवन्तीं यच्छृणोमि ताम् ॥ ११ ॥

जिस तरह पानी से पूर्ण क्यारी की समीपवर्तिनी सूखी क्यारी, जलपूर्ण क्यारी की ठंडक से अपने पौधों को सींचती है, उसी तरह सीता को जीती जागती सुन कर, मैं भी जीता हूँ ॥ ११ ॥

कदा नु खलु सुश्रोणीं शतपत्रायतेक्षणाम् ।

विजित्य शत्रून् द्रक्ष्यामि सीतां स्फीतामिव श्रियम् ॥ १२ ॥

हे लक्ष्मण ! मैं शत्रु को मार कर, उस सुन्दरी और कमलनयनी सीता को, धनधान्य से भरी पूरी राज्यलक्ष्मी के तुल्य कव देखूँगा ॥ १२ ॥

कदा नु चारुविम्बोष्ठं यस्याः पद्ममिवाननम् ।

ईषदुन्नम्य पास्यामि रसायनमिवातुरः ॥ १३ ॥

मैं उसके विम्बोष्ठ तथा कमल के तुल्य मुँह को अपने हाथों से ऊँचा कर, उसका अधरामृत पान वैसे ही कव करूँगा, जैसे रोगी रसायन को पीता है ॥ १३ ॥

तस्यास्तु संहतौ पीनौ स्तनौ तालफलोपमौ ।

कदा नु खलु सोत्कम्पौ शिल्प्यन्त्या मां भजिष्यतः ॥ १४ ॥

उस हँसती हुई सीता के तालफल के समान कोंपते हुए स्तन युगल, मेरे शरीर का स्पर्श कव करेंगे ॥ १४ ॥

[टिप्पणी—अपने छोटे भाई से इस प्रकार की बातचीत करना शिष्टाचार सम्मत नहीं कहा जा सकता। किन्तु श्रीराम ने इससे यह दिखलाया है कि मनुष्य-स्वभाव-मुलभ निर्वलताएँ मनुष्य को मर्यादा के भीतर नहीं रहने देती]

सा नूनमसितापाङ्गी रक्षोमध्यगता सती ।

मन्नाथा नाथहीनेव त्रातारं नाधिगच्छति ॥१५॥

हाय ! वह श्याम नयनवाली जनककुमारी मेरे जैसे स्वामी के रहते राक्षसों के वश में हो, अनाथिनी की तरह, अपना रत्नक कोई नहीं पाती होगी ॥ १५ ॥

कथं जनकराजस्य दुहिता सा मम प्रिया ।

राक्षसीमध्यगा शेते स्नुषा दशरथस्य च ॥१६॥

हा ! जनकराज की पुत्री, मेरी प्यारी और महाराज दशरथ की वह पुत्रवधू राक्षसियों के बीच कैसे सोती होगी ॥ १६ ॥

कदाऽविचोभ्यरक्षांसि सा विधूयोत्पतिष्यति ।

विधूय जलदान्नीलाञ्जशशिरेखा शरत्स्वव ॥१७॥

इन दुर्घर्ष राक्षसों का विध्वंस होकर, उसका उद्धार कैसे कब होगा, जैसे शरत्काल की चन्द्ररेखा नील मेघों के तित्तिर-वित्तिर हो जाने पर प्रकाशित होती है ॥ १७ ॥

स्वभावतनुका नूनं शोकेनानशनेन च ।

भूयस्तनुतरा सीता देशकालविपर्ययात् ॥१८॥

हाय ! वह तो पहले ही बहुत लटी हुई थी और अब तो रोक और कड़ाके करते करते तथा देश और काल के विपर्यास से (स्थान और समय के परिवर्तन से) वह अत्यन्त ही लट गई होगी ॥१८॥

कदा न राक्षसेन्द्रस्य निधायोरसि सायकान् ।

सीतां प्रत्याहरिष्यामि शोकमुत्सृज्य मानसम् ॥१९॥

हे लक्ष्मण ! रावण की छाती को तीरों से चीरकर, मैं अपने मन का शोक दूर कर, सीता को कब फिर पाऊँगा ? ॥ १६ ॥

कदा नु खलु मां साध्वी सीता सुरसुतोपमा ।

सोत्कण्ठा कण्ठमालम्ब्य मोक्षयत्यानन्दजं पयः ॥२०॥

वह देवकन्या के समान पतिव्रता सीता, उत्कंठापूर्वक मेरे गले में लिपट, आँखों से आनन्द के आँसू कब वहावेगी ? ॥२०॥

कदा शोकमिमं घोरं मैथिली विप्रयोगजम् ।

सहसा विप्रमोक्ष्यामि वासः शुक्लेतरं यथा ॥२१॥

हे लक्ष्मण ! मैं सीता के विरह से उत्पन्न हुए, इस घोर शोक को मलिन वस्त्र की तरह कब छोड़ूँगा ॥ २१ ॥

एवं विलपतस्तस्य तत्र रामस्य धीमतः ।

दिनक्षयात् मन्दरुचिर्भास्करोऽस्तमुपागमत् ॥२२॥

बुद्धिमान् श्रीरामचन्द्र जी सीता के शोक में अधीर हो, इस प्रकार विलाप कर ही रहे थे कि, इतने में शाम हो गई और भगवान् सूर्य कान्तिहीन हो, अस्ताचलगामी हुए ॥ २२ ॥

आश्वासितो लक्ष्मणेन रामः सन्ध्यामुपासत ।

स्मरन् कमलपत्राक्षीं सीतां शोकाकुलीकृतः ॥२३॥

इति पञ्चमः सर्गः ॥

लक्ष्मण ने श्रीरामचन्द्र जी को समझाया—तब उन्होंने सन्ध्योपासन किया, किन्तु वे अपने मन में सीता का स्मरण करते हुए, शोक से विकल हो रहे थे ॥ २३ ॥

युद्धकाण्ड का पाँचवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

षष्ठः सर्गः



लङ्कायां तु कृतं कर्म घोरं दृष्ट्वा भयावहम् ।
 राक्षसेन्द्रो हनुमता शक्रेणैव महात्मना ॥१॥
 अन्नवीद्राक्षसान् सर्वान् हिया किञ्चिदवाङ्मुखः ।
 धर्षिता च प्रविष्टा च लङ्का दुष्प्रसहा-पुरी ॥२॥
 तेन श्वानरमात्रेण दृष्टा सीता च जानकी ।
 प्रासादो धर्षितश्चैत्यः प्रवला राक्षसा हताः ॥३॥

उधर लङ्का में, राक्षसराज रावण, महाबली इन्द्र के समान हनुमान् जी का किआ हुआ घोर भयङ्कर कार्य देख, लङ्का के मारे उदास हो, राक्षसों से बोला । देखो—एक चन्द्र ने अजेय लङ्का में आकर लङ्कापुरी की कैसी दुर्दशा की । उस चन्द्र ने जनक-नन्दिनी सीता से वातचीत की, महलों को नष्ट भ्रष्ट कर डाला और बड़े-बड़े बलवान राक्षसों को मार डाला ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥

आकुला च पुरी लङ्का सर्वा हनुमता कृता ।

किं करिष्यामि भद्रं वः किं वा युक्तमनन्तरम् ॥४॥

हनुमान ने तो सारी लङ्कापुरी में हलचल मचा दी । तुम्हारा भला हो—अब तुम सब यह तो वतलात्रों कि, मुझे थव क्या करना चाहिए और क्या करना ठीक होगा ? ॥ ४ ॥

उच्यतां नः समर्थं यत्कृतं च सुकृतं भवेत् ।

मंत्रमूलं हि विजयं प्राहुरार्या मनस्विनः ॥५॥

तुम लोग कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिसके करने से अन्त में भलाई हो और जिसे हम लोग कर भी सकें । क्योंकि पण्डित लोग विजय की कुंजी विचार ही को बतलाते हैं ॥ ५ ॥

तस्माद्वै रोचये मन्त्रं रामं प्रति महाबलाः ।

त्रिविधाः पुरुषा लोके उत्तमाधममध्यमाः ॥६॥

हे राजसो ! इस समय मुझे श्रीरामचन्द्र के विषय में परामर्श करना ठीक जान पड़ता है । संसार में उत्तम, मध्यम और अधम तीन प्रकार के लोग हुआ करते हैं ॥ ६ ॥

तेषां तु समवेतानां गुणदोषौ वदास्यहम् ।

मन्त्रिभिर्हितसंयुक्तैः समर्थैर्मन्त्रनिर्णये ॥७॥

सो मैं उन तीनों प्रकार के लोगों के गुण दोषों को कहता हूँ । जो मनुष्य हितैषी और सलाह देने की योग्यता रखने वालों ॥ ७ ॥

मित्रैर्वापि समानार्थैर्बान्धवैरपि वाधिकैः ।

सहितो मन्त्रयित्वा यः कर्मारम्भान् प्रवर्तयेत् ॥८॥

अथवा अपनी तरह दुःख सुख भोगने वाले मित्रों अथवा भाई-बंदों अथवा अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ सलाह कर कार्य आरम्भ करता है ॥ ८ ॥

१दैवे च कुरुते यत्नं तमाहुः पुरुषोत्तमम् ।

एकोऽर्थं विमृशेदेको धर्मो प्रकुरुते मनः ॥९॥

एकः कार्याणि कुरुते तमाहुर्मध्यमं नरम् ।

गुणदोषावनिश्चित्य त्यक्त्वा धर्मव्यपाश्रयम् ॥१०॥

और दैवबल के सहारे अथवा ईश्वर की सहायता पाने के लिए यत्न करता है, पण्डित लोग—ऐसे पुरुष को उत्तम पुरुष कहते हैं। जो मनुष्य अकेला ही अर्थ का विचार कर और धर्म में मन लगा स्वयं ही कार्य आरम्भ करता है, वह मध्यम पुरुष कहलाता है। जो गुण-दोषों को भली-भाँति विचारे बिना और धर्म का सहारा त्याग कर ॥ ६ ॥ १० ॥

करिष्यामीति यः कार्यमुपेक्षेत्स नराधमः ।

यथेमे पुरुषा नित्यमुत्तमाधममध्यमाः ॥११॥

तथा मैं अकेला अथवा स्वयं ही इस कार्य को कर लूँगा—ऐसा सोच कर, फिर भी डीला पड़ जाता है; वह मनुष्य अधम है। जिस प्रकार तीन प्रकार के उत्तम, मध्यम और अधम पुरुष होते हैं ॥ ११ ॥

एवं मन्त्रा हि विज्ञेया उत्तमाधममध्यमाः ।

ऐकमत्यमुपागम्य शास्त्रदृष्टेन चक्षुषा ॥१२॥

मन्त्रिणो यत्र निरतास्तमाहुर्मन्त्रमुत्तमम् ।

बह्व्योऽपि मतयो भूत्वा मन्त्रिणामर्थनिर्णये ॥१३॥

पुनर्यत्रैकतां प्राप्ताः स मन्त्रो मध्यमः स्मृतः ।

अन्योन्यं मतिमास्थाय यत्र सम्प्रति भाष्यते ॥१४॥

न चैकमत्ये श्रेयोऽस्ति मन्त्रः सोऽधम उच्यते ।

तस्मात्सुमन्त्रितं साधु भवन्तो मतिसत्तमाः ॥१५॥

इसी प्रकार मंत्र (सलाह) भी उत्तम, मध्यम और अधम तीन प्रकार के जानने चाहिए। शास्त्रानुसार जहाँ एक मत होकर मंत्रि-गण जो सलाह करते हैं, वह उत्तम सलाह कही जाती है। जिस विचार का निर्णय करने के लिए मंत्री अनेक मत होकर, फिर अन्त में एक मत होजाँय, उस सलाह को पण्डित मध्यम सलाह बतलाते हैं और जिस मंत्र में सब मंत्रदाताओं का मत अलग-अलग हो और सब एक मत नहों और एकमत होने पर भी जिसमें कत्याण होना सम्भव न देख पड़े, वह मंत्र अधम कहलाता है। अतएव हे मंत्रिश्रेष्ठो ! आप लोग भली भाँति विचार करो—क्योंकि आप लोग बड़े बुद्धिमान हैं ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥

कार्यं सम्प्रतिपद्यन्तामेतत्कृत्यं मतं मम ।

वानराणां हि वीराणां सहस्रैः परिवारितः ॥१६॥

जो कर्त्तव्य (और श्रेष्ठ) हो, उसे एकमत होकर निश्चित करो—बस, वही मेरा कर्त्तव्य होगा। देखो हज़ारों वीर वानरों के साथ ले कर ॥ १६ ॥

रामोऽभ्येति पुरीं लङ्कामस्माकमुपरोधकः ।

तरिष्यति च सुव्यक्तं राघवः सागरं सुखम् ॥१७॥

१तरसा युक्तरूपेण सानुजः सवलानुगः ।

समुद्रमुच्छ्रोषयति वीर्येणान्यत्करोति वा ॥१८॥

श्रीरामचन्द्र लङ्कापुरी का अवरोध करने आ रहे हैं। यह भी निश्चित है कि, श्रीरामचन्द्र जी अपने नये बल; अथवा दिव्य अस्त्रों के बल से, अनुज लक्ष्मण और समस्त वानरी सेनासहित समुद्र के इस पार आसानीसे आजाँयगे। चाहे वे समुद्र के जल

को सुखा कर आवें अथवा पराक्रम द्वारा कोई अन्य उपाय करें ॥ १७ ॥ १८ ॥

१ अस्मिन्नेवं गते कार्ये विरुद्धे वानरैः सह ।

हितं पुरे च सैन्ये च सर्वं सम्मन्व्यतां मम ॥१६॥

इति षष्ठः सर्गः ॥

लङ्का पर चढ़ाई होने की और वानरों के साथ विरोध हो जाने की बात को ध्यान में रख, सब लोग मिलकर ऐसी सलाह करो, जिससे लङ्कापुरी और राज्ञसी सेना की रक्षा हो ॥ १६ ॥

युद्धकाण्ड का छठवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—०—

सप्तमः सर्गः

—०—

इत्युक्त्वा राज्ञसेन्द्रेण राज्ञसास्ते महाबलाः ।

ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे रावणं राज्ञसेश्वरम् ॥१॥

जब राज्ञसेन्द्र ने यह कहा, तब वे सब महाबली राज्ञम हाथ जोड़ कर राज्ञसराज रावण से बोले ॥ १ ॥

द्विपत्पक्षमविज्ञाय नीतिवाह्यास्त्वद्युद्धयः ॥२॥

महाराज, जब तक शत्रु का बलाबल न मालूम हो, तब तक परामर्श देना नीति-विरुद्ध और निर्वुद्धियों का काम है ॥ २ ॥

राजन् परिघशक्त्यृष्टिशूलपट्टससङ्कलम् ।

सुमहन्नो बलं कस्माद्विपादं भजते भवान् ॥३॥

१ अस्मिन्नेवं--लङ्कानिरोधनरूपे कार्ये । (गो०)

हे राजन् ! हम लोगों के पास परिध, शक्ति, यष्टि, शूल और पटाधारिणी एक महती सेना है । अतः आप विपाद क्यों करते हैं ॥ ३ ॥

त्वया भोगवतीं गत्वा निर्जिज्ञाः पन्नगा युधि ।

कैलासशिखरावासी यक्षैर्बहुभिरावृतः ॥४॥

तुमने भोगवती में जाकर सर्पों को जीता है । कैलासवासी बहुत से यक्षों से युक्त, ॥ ४ ॥

[टिप्पणी—नीसरे श्लोक में “भवान्” और ४ में “त्वया”]

सुमहत्कदनं? कृत्वा वश्यस्ते धनदः कृतः ।

स महेश्वरसख्येन श्लाघमानस्त्वया विभो ॥५॥

कुवेर से घोर युद्ध कर, उसे अपने वश में किया है । महादेव का मित्र कहकर, जो कुवेर स्वयं अपनी बड़ाई किया करते हैं ॥५॥

निर्जितः समरे रोषान्लोकपालो महाबलः ।

विनिहत्य च यक्षौघान् विज्ञोभ्य च विगृह्य च ॥६॥

तुमने रोप में भर रणभूमि में उस लोकपाल को भी जीत लिया । दल के दल-यक्षों को मार और कैद कर उनको क्षुब्ध कर दिया ॥ ६ ॥

त्वया कैलासशिखराद्विमानमिदमाहृतम् ।

मयेन दानवेन्द्रेण त्वद्भ्रयात्सख्यमिच्छता ॥७॥

तुम कैलासपर्वत से यह पुष्पक विमान ले आए । मय नामक दैत्यराज ने भयभीत हो तुमसे मैत्री करने के लिए ॥ ७ ॥

दुहितो तव भार्यार्थं दत्ता राक्षसपुङ्गव ।

दानवेन्द्रो मधुर्नाम वीर्योत्सिक्तो दुरासदः ॥८॥

विगृह्य वशमानीतः कुम्भीनस्याः सुखावहः ।

निर्जितास्ते महाबाहो नागा गत्वा रसातलम् ॥६॥

हे राक्षसश्रेष्ठ ! अपनी कन्या भार्या बनाने को तुमको दे दी। कुम्भीनसी के प्यारे स्वामी, वीर्यवान्, अजीत और दानवों के स्वामी मधुदैत्य के साथ युद्ध कर, तुमने उसको अपने वशीभूत कर लिया। फिर हे महाबाहो ! तुमने रसातल में जा नागों को परास्त किया ॥ ८ ॥ ६ ॥

वासुकिस्तक्षकः शङ्खो जटी च वशमाहताः ।

अक्षया बलवन्तश्च शूरा लब्धवराः पुरा ॥१०॥

वहाँ के वासुकी, तक्षक, शङ्ख और जटी, इन प्रधान नागों को अपने वश में कर लिया। कभी न मरने वाले, बलवान्, शूर और पूर्व में वर पाए हुए ॥ १० ॥

त्वया सम्वत्सरं युद्ध्वा समरे दानवा विभो ।

स्वबलं समुपाश्रित्य नीता वशमरिन्दम ॥११॥

दानवों को एक वर्ष तक युद्ध कर, हे अरिन्दम ! तुमने अपने बल से अपने कावू में कर लिया ॥ ११ ॥

मायाश्चाधिगतास्तत्र बहवो राक्षसाधिप ।

निर्जिताः समरे रोषाल्लोकपाला महाबलाः ॥१२॥

हे राक्षसराज ! बहुत माया जानने वाले महाबली लोकपालों को तुमने युद्ध में जीता ॥ १२ ॥

देवलोकमितो गत्वा शक्रश्चापि विनिर्जितः ।

शूराश्च बलवन्तश्च वरुणस्य सुता रणे ॥१३॥

फिर स्वर्ग तक में जा इन्द्र को परास्त किया । फिर युद्ध में वरुण के उन पुत्रों को जो बड़े शूर बलवान थे ॥ १३ ॥

निर्जितास्ते महाबाहो चतुर्विधबलानुगाः ।

मृत्युदण्डमहाग्राहं शाल्मलिद्रुममण्डितम् ॥१४॥

कालपाशमहावीचिं यमकिङ्करपन्नगम् ।

अवगाह्य त्वया राजन् यमस्य बलसागरम् ॥१५॥

जयश्च विपुलः प्राप्तो मृत्युश्च प्रतिपेधितः ।

सुयुद्धेन च ते सर्वे लोकास्तत्र ऋसुतोपिताः ॥१६॥

और चतुरंगिणी सेना से युक्त थे, तुमने जीता । हे राजन् ! तुमने मृत्युदण्डरूप महानक्रों से युक्त, यातनारूपी शाल्मलीद्रुम-मण्डित, कालपाशरूपी महातरङ्ग से लहराते, यम के किङ्कररूपी सर्पों के कारण भयङ्कर और महाज्वर से दुर्धर्ष, यमलोक रूपी महासागर में डूबकी मार तुमने बड़ी भारी विजय प्राप्त की और तुमने मौत को भी रोक दिया । वहाँ पर घोर युद्ध कर तुमने सब लोकों को भली भाँति सन्तुष्ट कर दिया ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥

क्षत्रियैर्बहुभिर्वीरैः शक्रतुल्यपराक्रमैः ।

आसीद्वसुमती पूर्णा महद्भिरिव पादपैः ॥१७॥

इन्द्र के समान पराक्रमी बहुत से वीर क्षत्रियों से यह पृथिवी, बड़े-बड़े वृक्षों की तरह पूर्ण थी ॥ १७ ॥

तेषां वीर्यगुणोत्साहैर्न समो राघवो रणे ।

प्रसह्य ते त्वया राजन् हताः परमदुर्जयाः ॥१८॥

उनके पराक्रम, बल, उत्साह और गुण ऐसे थे कि, रामचन्द्र
रण में उनका सामना कभी नहीं कर सकते; परन्तु हे राजन् !
तुमने उन परम दुर्जेय क्षत्रियों को भी मार डाला ॥ १८ ॥

तिष्ठ वा किं महाराज श्रमेण तव वानरान् ।

अयमेको महाबाहुरिन्द्रजित्त्वपयिष्यति ॥१९॥

हे महाराज ! तुम बैठे भर रहो । तुम जरा भी श्रम न करो ।
यह इन्द्रजीत अकेला ही सब वानरों को मार डालेगा ॥ १९ ॥

अनेन हि महाराज माहेश्वरमनुत्तमम् ।

इष्ट्वा यज्ञं वरो लब्धो लोके परमदुर्लभः ॥२०॥

क्योंकि हे महाराज ! इसने अत्युत्कृष्ट माहेश्वर यज्ञ कर, परम
दुर्लभ वर प्राप्त किया है ॥१०॥

शक्तितोमरमीनं च विनिकीर्णान्त्रशैवलम् ।

गजकच्छपसम्प्राधमश्वमण्डूकसङ्कुलम् ॥२१॥

रुद्रादित्यमहाग्राहं सरुद्रसुमहोरगम् ।

रथाश्वगजतोयौघं पदातिपुलिनं महत् ॥२२॥

युद्धरूपी महासागर में शक्तिरूपी मत्स्य, विखरी हुई अंतड़ी
रूपी सिंघार, हाथीरूपी कछवे, घोड़ेरूपी मेंढक, रुद्र आदित्य
रूपी बड़े-बड़े घड़ियाल, मरुतवसु रूपी बड़े-बड़े साँप, रथ अश्व-
गज रूपी जल और पैदल सैनिक रूपी बड़े बड़े टापू
थे ॥ २१ ॥ २२ ॥

अनेन हि समासाद्य देवानां बलसागरम् ।

गृहीतो दैवतपपिर्लङ्कां चापि प्रवेशितः ॥२३॥

यह देवताओं के सैन्यरूपी महासागर में घुसकर और देवराज
को पकड़कर, उन्हें लङ्का के वंदीगृह में डाल चुका है ॥ २३ ॥

पितामहनियोगाच्च मुक्तः शम्बरवृत्रहा ।

गतस्त्रिविष्टपं राजन् सर्वदेवनमस्कृतः ॥२४॥

अन्त में पितामह ब्रह्मा जी के कहने से शंभुरासुर और वृत्रासुर का मारने वाला सर्वदेवनमस्कृत इन्द्र छोड़ दिआ गया था और तब वह स्वर्ग की राजधानी में गया था ॥ २४ ॥

तमेव त्वं महाराज विसृजेन्द्रजितं सुतम् ।

यावद्धानरसेनां तां सरामां नयति क्षयम् ॥२५॥

हे महाराज ! तुम उसी अपने पुत्र इन्द्रजीत को आज्ञा दो । वह समस्त वानरी सेना सहित राम को मार डालेगा ॥ २५ ॥

राजन्नापद्युक्तेयमागता प्राकृताज्जनात् ।

हृदि नैव त्वया कार्या त्वं वधिष्यसि राघवम् ॥२६॥

इति सप्तमः सर्गः ॥

हे राजन् ! तुम नर वानर रूप नगण्य लोगों से, जो विपद् की शङ्का कर रहे हों—सो, तुमको अपने मन में इसकी चिन्ता तो करनी ही नहीं चाहिए । तुम निश्चय ही रामचन्द्र को मारोगे ॥ २६ ॥

युद्धकाण्ड का सप्तम सर्ग पूरा हुआ ।

—:०:—

अष्टमः सर्गः

ततो नीलाम्बुदनिभः प्रहस्तो नाम राक्षसः ।

अत्रवीतप्राञ्जलिर्वाक्यं शूरः सेनापतिस्तदा ॥१॥

तदनन्तर काले वादलों जैसी रङ्गत वाला प्रहस्त नामक शूरवीर सेनापति राक्षस, हाथ जोड़ कर बोला ॥ १ ॥

देवदानवगन्धर्वाः पिशाचपतंगोरगाः ।

न त्वां धर्षयितुं शक्ताः किं पुनर्वानरा रणे ॥२॥

हे राजन् ! जब देवता, दानव, गन्धर्व, पिशाच, पक्षी और नाग ही तुम्हारा कुछ भी विगाड़ न कर सके तब रण में बेचारे वानर क्या कर सकते हैं ॥ २ ॥

सर्वे प्रमत्ता विश्वस्ता वञ्चिताः स्म हनूमता ।

न हि मे जीवतो गच्छेज्जीवन्स वनगोचरः ॥३॥

हम सब ने तो, असावधानी और विश्वास के कारण हनुमान से धोखा खाया । (अर्थात् हम लोग समझते रहे कि, यह वानर हमारा क्या कर सकता है) यदि हम लोग सावधान होते तो क्या वह वन का जीव वहाँ से जीता जागता लौट कर जा सकता था ॥ ३ ॥

सर्वा सागरपर्यन्तां सशैलवनकाननाम् ।

करोम्यवानरा भूमिमाज्ञापयतु मां भवान् ॥४॥

आप मुझे आज्ञा भर दे दीजिए । मैं सागर, पहाड़, वन, जंगल सहित इस पृथिवी को अभी वानरशून्य कर दूँ ॥ ४ ॥

रक्षां चैव विधास्यामि वानराद्रजनीचर ।

नागमिष्यति ते दुःखं किञ्चिदात्मापराधजम् ॥५॥

हे राजन् ! मैं वानरों से राक्षसों की रक्षा करूँगा । सीता-हरण करने से आपके ऊपर कोई विपत्ति न आने पावेगी ॥५॥

अत्रवीचु सुसंक्रुद्धो दुर्मुखो नाम रान्तसः ।

इदं न क्षमणीयं हि सर्वेषां नः प्रधर्षणम् ॥६॥

इसके बाद दुर्मुख नामक राक्षस अत्यन्त क्रोध करके बोला--हनुमान का काम इस योग्य नहीं कि, उसकी उपेक्षा की जा सके । क्योंकि उसने यहाँ आकर हमारा सब का ही अपमान किया है ॥ ६ ॥

अयं परिभवो भूयः पुरस्यान्तःपुरस्य च ।

श्रीमतो रान्तसेन्द्रस्य वानरेण प्रधर्षणम् ॥७॥

हम लोग अपना अपमान सह लेते, पर नगरी और रनवास को दहन कर उस बन्दर ने राक्षसराज का अपमान किया ॥७॥

अस्मिन् मुहूर्ते हत्वैको निवर्तिष्यामि वानरान् ।

प्रविष्टान् सागरं भीममम्बरं वा रसातलम् ॥८॥

अतः मैं अभी जाकर वानरों की इतिश्री कर दूँगा । वे वानर भले ही समुद्र में, आकाश में, रसातल में या अन्यत्र कहीं भी जा छिपें, मैं उनका नाश किए बिना न मानूँगा ॥ ८ ॥

ततोऽत्रवीत्सुसंक्रुद्धो वज्रदंष्ट्रो महाबलः ।

प्रगृह्य परिधं घोरं मांसशोणितरूपितम् ॥९॥

तदनन्तर माँस और रुधिर से सने हुए भयानक परिध को उठा, वज्रदंष्ट्र क्रुद्ध हो कहने लगा--॥ ९ ॥

किं वो हनमता कार्यं कृपणेन ॐदुरात्मना ।

रामे तिष्ठति दुर्धर्षे ससुग्रीवे सलक्ष्मणे ॥१०॥

दुर्धर्ष राम लक्ष्मण और सुग्रीव के जीते रहते, उस दीन और दुष्ट हनुमान को मार डालने से हमें क्या लाभ होगा ? ॥१०॥

अथ रामं ससुग्रीवं परिधेण सलक्ष्मणम् ।

आगमिष्यामि हत्वैको विद्वोभ्य हरिवाहिनीम् ॥११॥

मैं आज अकेला ही उस वानरी सेना को विकल कर, इस परिध से राम, लक्ष्मण और सुग्रीव का नाश कर लौट आऊँगा ॥ ११ ॥

इदं ममापरं वाक्यं शृणु राजन् यदीच्छसि ।

उपायकुशलो ह्येवं जयेच्छत्रूनतन्द्रितः ॥१२॥

हे राजन् ! यदि तुम चाहो तो मेरी एक और बात सुन लो । वह यह कि, जो उपाय करने में कुशल और आलस्यरहित होता है, विजय लक्ष्मी उसी को प्राप्त होती है ॥ १२ ॥

कामरूपधराः शूराः सुभीमा भीमदर्शनाः ।

राक्षसा वै सहस्राणि राक्षसाधिप निश्चिताः ॥१३॥

काकुत्स्थमुपसङ्गम्य विभ्रतो मानुषं वपुः ।

सर्वे ह्यसम्भ्रमा भूत्वा न्रुवन्तु रघुसत्तमम् ॥१४॥

प्रेषिता भरतेन स्म तव भ्रात्रा यर्वायसा ।

[त्वागमनमुद्दिश्य कृत्यमात्ययिकं त्विति] ॥१५॥

अतः इस सम्बन्ध में यह उपाय करना उचित है, कामरूपी, शूर, भयङ्कर आकार वाले और राक्षसराज के अनुभूत एक हजार राक्षस मनुष्य का रूप धर और एक निश्चय कर रामचन्द्र के पास जाँय और निर्भोक हो सब यह कहें कि, हम लोगों को

तुम्हारे छोटे भाई भरत ने भेजा है और हमारे द्वारा यह सन्देश तुम्हारे लिए भेजा है कि, ॥ १३ ॥ ॥ १४ ॥ १५ ॥

स हि सेनां समुत्थाप्य निप्रमेवोपयास्यति ।

ततो वयमितस्तूर्णं शूलशक्तिगदाधराः ॥१६॥

चापबाणासिहस्ताश्च त्वरितास्तत्र यामहे ।

आकाशे गणशः स्थित्वा हत्वा तां हरिवाहिनीम् ॥१७॥

अश्मशस्त्रमहावृष्ट्या प्रापयाम यमक्षयम् ।

एवं चेदुपसर्पेतामनयं रामलक्ष्मणौ ॥१८॥

अवश्यमपनीतेन जहतामेव जीवितम् ।

कौम्भकर्णस्ततो वीरो निकुम्भो नाम वीर्यवान् ॥१९॥

सेना लेकर बहुत शीघ्र यहाँ हम आते हैं । इस बीच में हम लोग बड़ी फुर्ती से शूल, शक्ति, गदा, कमान, तीर, तलवार हाथों में लिये हुए वहाँ पहुँच जाँय और आकाश में खड़े हुए पत्थरों और शस्त्रों की महावृष्टि कर वानरी सेना को यमलोक भेज दें । ऐसा करने पर राम और लक्ष्मण निश्चय ही हमारी इस कपट भरी चाल में आ जाँयगे । तदनन्तर जब वानरी सेना का नाश हो जायगा, तब यह दोनों जन स्वयं ही मर जाँयगे ॥१६॥१७॥१८॥

अत्रवीत्परमक्रुद्धो रावणं लौकरावणम् ।

सर्वे भवन्तस्तिष्ठन्तु महाराजेन सङ्गताः ॥२०॥

तदनन्तर कुम्भकर्ण का वेटा निकुम्भ जो बड़ा प्रतापी और बली था । अति क्रुद्ध हो, लोकों के मलाने वाले रावण से बोला—आप सब लोग महाराज के साथ यहीं रहो ॥१९॥२०॥

अहमेको हनिष्यामि राधवं सहलक्ष्मणम् ।

सुग्रीवं च हनूमन्तं सर्वानेव च वानरान् ॥ २१ ॥

मैं अकेला ही राम लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमानादि समस्त वानरों को मार डालूँगा ॥ २१ ॥

ततो वज्रहनुर्नाम राक्षसः पर्वतोपमः ।

क्रुद्धः परिलिहन्वक्त्रं जिह्वया वाक्यमब्रवीत् ॥ २२ ॥

तदनन्तर पर्वत के समान लवा तड़झा वज्रहनु नामक राक्षस मारे क्रोध के जीभ से अवरों को चाटता हुआ बोला कि, ॥२२॥

स्वैरं कुर्वन्तु कार्याणि भवन्तो विगतज्वराः ।

एकोऽहं भक्षयिष्यामि तान् सर्वान् हरियूथपान् ॥२३॥

आप लोग इस बात की चिन्ता न करे अपने-अपने कामों में लगिए । मैं अकेला ही उन सब वानर यूथपतियों को न्वा डालूँगा ॥ २३ ॥

स्वस्थाः क्रीडन्तु निश्चिन्ताः पिवन्तो मधुवारुणीम् ।

अहमेको वधिष्यामि सुग्रीवं सहलक्ष्मणम् ।

साङ्गदं च हनूमन्तं रामं च रणकुञ्जरम् ॥ २४ ॥

इति अष्टमः सर्गः ॥

आप सब लोग सावधान और निश्चिन्त हो कर खेलिए कूदिए तथा वारुणी और मधुपान कीजिए । मैं अकेला ही सुग्रीव, लक्ष्मण, अङ्गद, हनुमान सहित उस रणकुञ्जर राम को मार डालूँगा ॥ २४ ॥

युद्धकाण्ड आठवों सर्ग पूरा हुआ

—०—

नवमः सर्गः

—:०:—

ततो निकुम्भो रभसः सूर्यशत्रुर्महाबलः ।

सुप्तघ्नो यज्ञहा रक्षो महापाश्वो महोदरः ॥ १ ॥

अग्निकेतुश्च दुर्धपो रश्मिकेतुश्च वीर्यवान् ❀ ।

इन्द्रजिच्च महातेजा बलवान् रावणात्मजः ॥ २ ॥

प्रहस्तोऽथ विरूपाक्षो वज्रदंष्ट्रो महाबलः ।

धूम्राक्षश्चातिकायश्च दुर्मुखश्चैव राक्षसः ॥ ३ ॥

तदनन्तर निकुम्भ, रभस, सूर्यशत्रु, सुप्तघ्न, यज्ञहा, महा-
पाश्व, महोदर, दुर्धर्ष, अग्निकेतु, बलवान् रश्मिकेतु, महा-
तेजस्वी और बलवान् रावणात्मज इन्द्रजीत, प्रहस्त, विरूपाक्ष,
बलवान् वज्रदंष्ट्र, धूम्राक्ष, अतिकाय; दुर्मुख आदि राक्षस-
गण ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥

परिधान् पट्टशान् प्रासान् शक्तिशूलपरश्वधान् ।

चापानि च सत्राणानि खड्गान्श्च विपुलाञ्छितान् ॥ ४ ॥

परिघ, पट्ट, प्रास, शक्ति, शूल, परशु, बाणों सहित धनुष
और बड़ी पैनी-पैनी तलवारे ॥ ४ ॥

प्रगृह्य परमक्रुद्धाः समुत्पत्य च राक्षसाः ।

अब्रुवन् रावणं सर्वे प्रदीप्ता इव तेजसा ॥ ५ ॥

ले ले कर और उठ उठ कर तथा क्रोध में भर और अग्नि
की तरह लाल हो, रावण से बोले ॥ ५ ॥

❀ पाठान्तरे—“राक्षसः” ।

अथ रामं वधिष्यामः सुग्रीवं च सलदमणम् ।

कृपणं च हनूमन्तं लङ्का येन प्रदीपिताः ॥ ६ ॥

हम लोग आज ही राम, सुग्रीव, लक्ष्मण तथा उस वापुरे हनुमान को, जो यहाँ आकर लङ्का जला गया था—मार डालेंगे ॥६॥

तान् गृहीतायुधान् सर्वान् वारयित्वा विभीषणः ।

अब्रवीत्प्राञ्जलिर्वाक्यं पुनः प्रत्युपवेश्य तान् ॥ ७ ॥

उन आयुध लिए हुए समस्त राक्षसों को वरज कर और बैठ कर, विभीषण ने रावण से हाथ जोड़ कर विनती की ॥ ७ ॥

अप्युपायैस्त्रिभिस्तात योऽर्थः प्राप्तुं न शक्यते ।

तस्य विक्रमकालांस्तान् युक्तानाहुर्मनीषिणः ॥ ८ ॥

हे तात ! पंडितों का कथन है कि, जहाँ तीन उपायों से काम न चले वहाँ पराक्रम प्रदर्शित करना चाहिए ॥ ८ ॥

प्रमत्तेष्वभियुक्तेषु दैवेन प्रहृतेषु च ।

विक्रमास्तात सिध्यन्ति परीक्ष्यविधिना कृताः ॥ ९ ॥

हे तात ! जो प्रमत्त हैं, जो दूसरे कामों में लगे हुए हैं और जो रोगादि तथा दैवी आपत्तियों से ग्रस्त हैं, उन्हीं पर बल प्रदर्शित करने से काम सिद्ध हो सकता है; सो भी तब, जब भली भाँति समझ बूझ कर काम किया जाय ॥ ९ ॥

अप्रमत्तं कथं तं तु विजिगीषं बले स्थितम् ।

जितरोषं दुराधर्षं प्रधर्षयितुमिच्छथ ॥ १० ॥

तुम लोग उन प्रमादरहित, जयेच्छु, देवसाहाय्य प्राप्त, (अथवा सैनिक बल से युक्त) क्रोध को जीते हुए और अजेय रामचन्द्र को किस प्रकार जीतने की इच्छा करते हो ? ॥ १० ॥

समुद्रं लङ्घयित्वा तु घोरं नदनदीपतिम् ।

गतिं हनुमतो लोके को विद्यात्तर्कयेत वा ॥ ११ ॥

क्या पहिले किसी ने जान पाया था या किसी ने कल्पना भी की थी कि, हनुमान नदीपति भयङ्कर समुद्र को लाँघ, (दो घड़ी में) यहाँ चला आवेगा ॥ १३ ॥

वलान्यपरिमेयानि वीर्याणि च निशाचराः ।

परेषां सहसाऽवज्ञा न कर्तव्या कथञ्चन ॥ १२ ॥

हे निशाचरो ! शत्रु की पराक्रमी अगणित भयङ्कर सेना है--- सो ऐसे शत्रुओं की सहसा अवज्ञा करना कभी उचित नहीं ॥ १२ ॥

किं च राक्षसराजस्य रामेणापकृतं पुरा ।

आजहार जनस्थानाद्यस्य भार्यां यशस्विनीम् ॥ १३ ॥

(आप लोग यह तो बतलावे कि,) राम ने राक्षसराज का क्या बिगाड़ा था, जो इन्होंने उनकी यशस्विनी भार्या को जन स्थान से हर कर, यहाँ रख छोड़ा है ॥ १३ ॥

खरो यद्यतिवृत्तस्तु रामेण निहतो रणे ।

अवश्यं प्राणिनां प्राणा रक्षितव्या यथाबलम् ॥ १४ ॥

यदि राम ने खर को मारा तो क्या अनुचित किआ क्योंकि वह इनका अपमान करना चाहता था । इसी से उन्होंने ऐसा किआ । क्योंकि प्रत्येक जीवधारी को अपने बलानुसार अपनी प्राणरक्षा करनी ही चाहिए ॥ १४ ॥

अयशस्यमनायुष्यं परदारामिमर्शनम् ।

अर्थक्षयकरं घोरं पापस्य च पुनर्भवम् ॥ १५ ॥

दूसरे की खो को हर लेना केवल वदनामो का ही कारण नहीं है, बल्कि आयु का क्षीण करने वाजा भी है। ऐसा करने से धन का नाश होता है और फिर बड़ा भारी पाप भी लगता है ॥१५॥

एतन्निमित्तं वैदेही भयं नः सुमहद्भवेत् ।

आहूता सा परित्याज्या कलहार्थे कृतेन किम् ॥१६॥

यह हर कर लाई हुई सोता हम लोगों के लिए बड़े भय की वस्तु है। सो हमें उचित है कि इसका परित्याग करें। व्यर्थ लड़ाई भगड़ा करने से लाभ ही क्या है ॥ १६ ॥

न नः क्षमं वीर्यवता तेन धर्मानुवर्तिना ।

वैरं निरर्थकं कर्तुं दीयतामस्य मैथिली ॥ १७ ॥

श्रीरामचन्द्र जी बड़े पराक्रमी और धर्मात्मा हैं, अकारण उनके साथ वैर बाँधना अनावश्यक है। अतएव पहिले ही उनको सीता दे देनी चाहिए ॥ १७ ॥

यावन्न सगर्जा साश्रवां बहुरत्न-समाकुलाम् ।

पूरीं दारयते वाणैर्दीयतामस्य मैथिली ॥ १८ ॥

घोड़ों, हाथियों तथा बहुत से रत्नों से भरी पूरी इतना लड्डा को रामचन्द्र अपने वाणों से नष्ट अष्ट करें, इसके पूव ही, उनको सीता दे देनी चाहिए ॥ १८ ॥

यावत्सुधोरा महती दुर्धर्पा हरिनाहिनी ।

नावस्कन्दति नो लङ्कां तावत्सीता प्रदीयताम् ॥१९॥

उस महाभयङ्कर महती एवं दुर्जेय वानरो सेना का लड्डा पर आक्रमण हो, इसके पूर्व ही इनको सीता दे देनी चाहिए ॥१९॥

विनश्येद्धि पुरी लङ्का शूराः सर्वे च राक्षसाः ।

रामस्य दयिता पत्नी स्वयं न यदि दीयते ॥ २० ॥

यदि तुम राम की प्यारी भार्या सीता को न दोगे, तो यह लङ्का उजड़ जायगी और समस्त शूरवीर राक्षस भी मारे जाँयगे ॥२०॥

प्रसादये त्वां बन्धुत्वात्कुरुष्व वचनं मम ।

हितं तथ्यमहं ब्रूमि दीयतामस्य मैथिली ॥ २१ ॥

(हे राजन् !) तुम मेरे भाई हो, इसी से मैं तुमको मना रहा हूँ और तुमसे हितकर तथा यथार्थ बातें कहता हूँ कि, तुम सीता को अवश्य लौटा दो ॥ २१ ॥

पुरा शरत्स्वर्यमरीचिसन्निभान्

नवान् सुपुङ्गवान् सुदृढान् नृपात्मजः ।

सृजत्यमोघान् विशिखान् वधाय ते

प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली ॥ २२ ॥

हे महाराज ! राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी जब तक तुम्हारे वध के लिए, सूर्य की किरणों की तरह चमचमाते पङ्क लगे हुए बड़े भजवूत और अमोघ वाण नहीं छोड़ते, उसके पूर्व ही तुम उन्हें सीता दे दो ॥ २२ ॥

त्यजस्व कोपं सुखधर्मनाशनं

भजस्व धर्मं रतिकीर्तिवधनम् ।

प्रसीद जीवेम सपुत्रवान्धवाः

प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली ॥ २३ ॥

तुम उस क्रोध को, जो सुख और धर्म को नष्ट करने वाला है, त्याग दो। और सुख तथा कीर्ति को बढ़ाने वाले धर्म का आश्रय लो। तुम प्रसन्नतापूर्वक सीता श्रीरामचन्द्र को दे दो, जिससे हम लोग बालवच्चों और भाईवन्धुओं सहित जीते वच जाँय ॥ २३ ॥

विभीषणवचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः ।

विसर्जयित्वा तान् सर्वान् प्रविवेश स्वकं गृहम् ॥२४॥

इति नवमः सर्गः ॥

विभीषण के इन वचनों को सुन, राक्षसेश्वर रावण ने उन सब राक्षसों को विदा किया और वह स्वयं अपने भवन में चला गया ॥ २४ ॥

युद्धकाण्ड का नवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—०—

दशमः सर्गः

—०—

ततः प्रत्युपसि प्राप्ते प्राप्तधर्मार्थनिश्चयः ।

राक्षसाधिपतेर्वेश्म भीमकर्मा विभीषणः ॥ १ ॥

अगले दिन सवेरा होते ही, धर्म और अर्थ का विचार रखने वाले विभीषण, भीमकर्मा राक्षसराज रावण के भवन में गए ॥१॥

शैलाग्रचयसङ्काशं शैलशृङ्गमिवोन्नतम् ।

सुविभक्तमहाकच्यं शमहाजनपरिग्रहम् ॥ २ ॥

वह रावण का भवन, पर्वतशिखर के समूह के समान और पर्वतशिखर की तरह ऊँचा था। उसकी ड्योढ़ियाँ बड़ी अच्छी तरह बनायी गयी थीं। उस भवन में बड़े विद्वान् रहते थे ॥२॥

मतिमद्भिर्महामात्रैरनुरक्तैरधिष्ठितम् ।

राक्षसैश्चाप्तपर्याप्तैः सर्वतः परिरक्षितम् ॥ ३ ॥

वह बुद्धिमान, अनुरागी, हितैशी और कार्यसाधन में समर्थ, मंत्रियों से सेवित और सब ओर से राक्षसों द्वारा रक्षित था ॥३॥

मत्तमातङ्गनिःश्वासैर्व्याकुलीकृतमारुतम् ।

शङ्खघोषमहाघोषं तूर्यनादानुनादितम् ॥ ४ ॥

वह मतवाले गजेन्द्रों के श्वास के वायु से पूर्ण रहता था तथा शङ्ख और नगाड़ों के शब्दों से प्रतिध्वनित हुआ करता था ॥४॥

प्रमदाजनसम्ब्राधं प्रजल्पितमहापथम् ।

तप्तकाञ्चननिर्यूहं भूषणोमतेभूपितम् ॥ ५ ॥

उसमें स्त्रियों के दल के दल रहा करते थे, राजमार्ग में लोगों की बातचीत से सदा चहल पहल रहा करती थी। उसमें सुवर्ण के द्वार बने हुए थे और वह उत्तम उत्तम सजावटी सामान से सजा हुआ था ॥५॥

गन्धर्वाणामिवावासमालयं मरुतामिव ।

रत्नमश्र्वयसम्ब्राधं भवनं रभोगिनामिव ॥ ६ ॥

१ निर्यूहः शिखरे द्वारे इति विश्वः । [रा०] २ भोगिनां—सर्पाणां । (गो०)

वह गन्धर्वों तथा देवताओं की तरह उत्तम रत्नों से पूर्ण था । ऐसा जान पड़ता था मानों वह सर्पों का भवन हो (अर्थात् सर्पों के भवन में जैसे रत्नों का ढेर जगा रहता है वैसे ही रावण के भवन में भी था) ॥ ६ ॥

तं महाभ्रमिवादित्यस्तेजोविस्तृतरश्मिमान् ।

अग्रजस्यालयं वीरः प्रविवेश महाद्युतिः ॥ ७ ॥

बड़े भाई के इस प्रकार के भवन में महाद्युतिमान वीर विभीषण वैसे ही घुसे जैसे वादलों में सूर्य घुसते हैं ॥७॥

पुण्यान् पुण्याहवोपांश्च वेदविद्धिरुदाहृतान् ।

शुश्राव सुमहातेजा आतुर्विजयसंश्रितान् ॥ ८ ॥

भवन के भीतर पहुँच, विभीषण ने वेदज्ञों द्वारा उच्चारित पुण्याहवाचन के मन्त्रों का पवित्र घोष अपने भाई की विजय सूचकता में सुना ॥ ८ ॥

पूजितान् दधिपात्रैश्च सर्पिभिः सुमनोज्ञैः ।

मन्त्रवेदविदो विप्रान् ददर्श सुमहाबलः ॥ ९ ॥

विभीषण ने वहाँ वेद मन्त्र जानने वाले ब्राह्मणों को पुष्प, अक्षत, घी, दही आदि शुभ वस्तुओं से पूजित होते देखा ॥९॥

स पूज्यमानो रक्षोभिर्दीप्यमानः स्वतेजसा ।

आसनस्थं महाबाहुर्वन्दे धनदानुजम् ॥ १० ॥

राक्षसों से आदर पा, विभीषण ने रावण को, जो सिंहासन पर बैठा हुआ था और मारे तेज के चमचमा रहा था, जाते ही प्रणाम किया ॥१०॥

स राजदृष्टिसम्पन्नमासनं हेमभूषितम् ।

जगाम समुदाचारं प्रयुज्याचारकोविदः ॥ ११ ॥

शिष्टाचारपटु रावण ने भी शिष्टाचार के अनुसार विभीषण को आशीर्वाद दिआ और आँख के सङ्केत से बैठने को कहा । तब विभीषण “ जय हो ” कह, सुवर्णभूषित आसन पर बैठ गए ॥ ११ ॥

स रावणं महात्मानं विजने मन्त्रिसन्निधौ ।

उवाच हितमत्यर्थं वचनं हेतुनिश्चितम् ॥ १२ ॥

उस समय मन्त्रियों को छोड़ वहाँ और कोई न था । अतः विभीषण ने रावण से ये हितकर और युक्तियुक्त वचन कहे ॥१२॥

प्रसाद्य भ्रातरं ज्येष्ठं सान्त्वेनोपस्थितक्रमः ।

देशकालार्थसंवादी दृष्टलोकपरावरः ॥ १३ ॥

वातचीत के ढङ्ग को जानने वाले और ऊँच नीच समझने वाले विभीषण ने स्तुतिवचन कह, प्रथम तो रावण को प्रसन्न किआ, तदनन्तर सान्त्वनापूर्वक समयानुसार और देशकाल के अनुरूप वचन कहे ॥ १३ ॥

यदाप्रभृति वैदेही सम्प्राप्तेमां पुरीं तव ।

तदाप्रभृति दृश्यन्ते निमित्तान्यशुभानि नः ॥ १४ ॥

हे भैया ! जब से सीता तुम्हारी इस पुरी में आई है, तब से हम सब को नित्य ही अपशकुन दिखलाई पड़ रहे हैं ॥१४॥

सस्फुलिङ्गः सधूमार्चिः सधूमकलुषोदयः ।

मन्त्रसन्धुचितोऽप्यग्निर्न सम्यगभिवर्धते ॥ १५ ॥

मंत्रपूर्वक आहुति पाकर भी आग अच्छी तरह नहीं जलती । आग जलते समय धुआँ देती है, उसमें से चिनगारियाँ उड़ती हैं और आग की शिखा से बराबर धुआँ निकलता रहता है ॥१५॥

अग्निष्ठेष्वग्निशालासु तथा ब्रह्मस्थलीषु च ।

सरीसृपाणि दृश्यन्ते हव्येषु च पिपीलिकाः ॥ १६ ॥

रसोई घर, अग्निशालाओं और वेदाध्ययन शालाओं में नित्य साँप दिख जाई पड़ते हैं । होम केद्रव्य में चीटियों रेंगती हुई देख पड़ती हैं ॥१६॥

गवां पयांसि स्कन्नानि विमदा वीरकुञ्जराः ।

दीनमश्वाः प्रहेपन्ते न च ग्रासाभिनन्दिनः ॥१७ ॥

गौओं का दूध कम हो गया है, हाथियों का मद वहना बंद हो गया है । घोड़े दीनतासूचक हिनहिनाहट किआ करते हैं और चारे सेतृप्त नहीं होते ॥१७ ॥

खगोऽद्भ्राश्वतरा राजान्भिन्नरोमाः स्रवन्ति नः ।

न स्वनाऽवेवतिष्ठन्ते विधानैरपि चिन्तिताः ॥ १८ ॥

हे राजन् ! गधों, ऊंटों खच्चरों के रोंगटे गिर गए हैं और वे आँसू बहाया करते हैं । चिकित्सा करने पर भी वे प्रकृतिस्थ नहीं होते ॥१८ ॥

वायसाः सङ्घशः क्रूरा व्याहरन्ति समन्ततः ।

समवेताश्च दृश्यन्ते विमानाग्रेषु सङ्घशः ॥ १९ ॥

कौवे एकत्र हो चारों ओर काँव काँव करते हैं और अँटारियों पर झुंड के झुंड एकत्र हो बैठे हुए देख पड़ते हैं ॥१९॥

गृध्राश्च श्परिलीयन्ते पुरीमुपरि रपिण्डिताः ।

उपपन्नाश्च सन्ध्ये द्वे व्याहरन्त्यशिवं शिवाः ॥ २० ॥

गोव इकट्ठे हो नगरों के ऊपर मँडराया करते हैं। सन्ध्या समय होने पर लुखरियो अमङ्गलसूचक चीत्कार क्रिया करती हैं ॥२०॥

क्रव्यादानं मृगाणां च पुरद्वारेषु सङ्घशः ।

श्रूयन्ते विपुला घोषाः सविस्फूर्जथुनिःस्वनाः ॥ २१ ॥

पुरी के द्वार पर व्याघ्रादि माँस खाने वाले जीवों के दहाड़ने का शब्द वैसा ही सुन पड़ता है, जैसा कि, विजली गिरने का शब्द

तदेवं प्रस्तुते कार्ये प्रायश्चित्तमिदं क्षमम् ।

रोचते यदि वैदेही राघवाय प्रदीयताम् ॥ २२ ॥

इन सब अपशकुनों का प्रायश्चित्त अथवा शान्तिविधान सुम्ने तो यही अच्छा लगता है कि, श्रीरामचन्द्र जी को सीता दे दी जाय ॥२२॥

इदं च यदि वा मोहान्लोभाद्वा व्याहृतं मया ।

तत्रापि च महाराज न दोषं कर्तुमर्हसि ॥ २३ ॥

हे महाराज ! यदि मैंने कोई बात लोभवश, या मोहवश कही हो, तो भी तुम मेरा अपराध क्षमा कर दो ॥२३॥

१ परिलीयन्ते—श्लिष्यन्ते । (गो०) २ पिण्डिताः—मण्डलीभूताः सन्तः । (गो०) ३ सविस्फूर्जथुनिःस्वनाः—अशनिघोषाः । (गो०)

अयं च दोषः सर्वस्य जनस्यास्योपलक्ष्यते ।

राक्षसां राक्षसीनां च पुरस्यान्तःपुरस्य च ॥ २४ ॥

क्योंकि यह दोष तो इस नगर के समस्त निवासियों राक्षसों राक्षसियों तथा अन्तःपुर वालों का है ॥२४॥

श्रावणे चास्य मन्त्रस्य निवृत्ताः सर्वमन्त्रिणः ।

अवश्यं च मया वाच्यं यद्दृष्टमपि वा श्रुतम् ॥ २५ ॥

(आपके) मंत्रियों ने जानते हुए भी ये समाचार नहीं पहुँचाए किन्तु मैंने जो कुछ सुना और देखा है—तो मुझे सब तुमसे अवश्य निवेदन करना ही चाहिए ॥२५॥

सम्प्रधार्य यथान्यायं तद्भवान् कर्तुमर्हति ।

इति स्म मन्त्रिणां मध्ये भ्राता भ्रातरमूचिवान् ।

रावणं राक्षसश्रेष्ठं पथ्यमेतद्विभीषणः ॥ २६ ॥

आप न्यायानुसार समझ बूझ कर जैसा उचित समझे वैसा करें । इस प्रकार मंत्रियों के बीच बैठे हुए राक्षसश्रेष्ठ रावण से विभीषण ने ये हितकर वचन कहे ॥ २६ ॥

हित महार्थं मृदु हेतुसंहितं

व्यतीतकालायतिसम्प्रतिक्षमम् ।

निशम्य तद्वाक्यमुपस्थितज्वरः १

प्रसङ्गवानुत्तरमेतदब्रवीत् ॥ २७ ॥

विभीषण के हितकर, अर्थयुक्त, मृदु, युक्तियुक्त और तीनों कालों में लाभप्रद वचन सुनकर, रावण बहुत क्रुद्ध हो, बोला ॥२७॥

भयं न पश्यामि कुतश्चिदप्यहं
 न राघवः प्राप्स्यति जातु मैथिलीम् ।
 सुरैः सहेन्द्रैरपि सङ्गतः कथं
 ममाग्रतः स्थास्यति लक्ष्मणाग्रजः ॥ २८ ॥

मुझे तो भय कहीं भी नहीं देख पड़ता, रामचन्द्र को जानकी किसी भी तरह नहीं मिल सकेगी । क्योंकि लक्ष्मण के बड़े भाई रामचन्द्र इन्द्रादि देवताओं के साथ मिल कर भी राणभूमि में मेरे सामने नहीं ठहर सकते ॥ २८ ॥

इतीदमुक्त्वा सुरसैन्यनाशनो
 महाबलः संयति चण्डविक्रमः ।
 दशाननो आतरमाप्तवादिनं
 विसर्जयामास तदा विभीषणम् ॥ २९ ॥

इति दशमः सर्गः ॥

महाबली, देवसेना के नाशक और संग्राम में घोर पराक्रम प्रदर्शित करने वाले रावण ने यह कह कर युक्तियुक्त वचन कहने वाले विभीषण को (अपमान पूर्वक) विदा किया ॥ २९ ॥
 युद्धकाण्ड का दसवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—०—

एकादशः सर्गः

—०—

स बभूव कृशो राजा मैथिलीकाममोहितः ।
 असम्मानाच्च सुहृदां पापः पापेन कर्मणा ॥ १ ॥

सीता पर आसक्त, विभीषणादि सुहृदों का निरादर करने वाले और भार्याहरण का पापकर्म करने वाले रावण का शरीर दुबला होने लगा। क्योंकि पापी अपने पापकर्मोंद्वारा ऐसी ही दशा को प्राप्त होता है ॥ १ ॥

अतीतसमये काले तस्मिन् वै युधि रावणः ।

अमात्यैश्च सुहृद्भिश्च प्राप्तकालममन्यत ॥ २ ॥

रावण ने असमय में मंत्रियों और मित्रों के साथ परामर्श कर श्रीरामचन्द्र जी के साथ युद्ध करना ही ठीक समझा ॥ २ ॥

स हेमजाल्लविततं मणिविद्रुमभूपितम् ।

उपगम्य विनीताश्वमारुरोह महारथम् ॥ ३ ॥

उस मेघ के समान शब्द करते हुए श्रेष्ठ रथ पर चढ़ कर, दशवदन राक्षसश्रेष्ठ रावण सभाभवन की ओर चला ॥ ४ ॥

तमास्थाय रथश्रेष्ठं महामेघसमस्वनम् ।

प्रययौ राक्षसश्रेष्ठो दशग्रीवः सभां प्रति ॥ ४ ॥

तदुपरान्त, सुवर्ण की जालियों से भूपित, मूंगों और मणियों से शोभित और शिकित घोड़ों से युक्त बड़े रथ पर रावण सवार हुआ ॥ ३ ॥

असिचर्मधरा योधाः सर्वायुधधरास्तथा ।

राक्षसा राक्षसेन्द्रस्य पुरस्तात्सम्प्रतस्थिरे ॥ ५ ॥

उस समय कुछ तो ढाल तलवारधारी तथा कुछ सब अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित योधा राक्षसराज रावण के आगे चले ॥५॥

नानाविकृतवेषाश्च नानाभूषणभूषिताः ।

पार्श्वतः पृष्ठतश्चैनं परिवार्य ययुस्तदा ॥ ६ ॥

त्रिकट वेषधारी अनेक भूषण पहने हुए अनेक राक्षस अगल बगल और आगे पीछे रावण को घेर कर चले ॥ ६ ॥

रथैश्चातिरथाः शीघ्रं मत्तैश्च वरवारणैः ।

अनूपेतुर्दशग्रीवमाक्रीडद्भिश्चश्च वाजिभिः ॥ ७ ॥

महारथी राक्षस शीघ्रतापूर्वक रथों और मतवाले हाथियों पर तथा खेल कूद करने वाले घोड़ों पर सवार हो रावण के साथ चले ॥ ७ ॥

गदापरिधहस्ताश्च शक्तितोमरपाणयः ।

परश्वधधराश्चान्ये तथाऽन्ये शूलपाणयः ॥ ८ ॥

वे लोग हाथों में गदा, परिध, शक्ति, तोमर, परश्वध और शूल आदि हथियार लिये हुए थे ॥ ८ ॥

ततस्तूर्यसहस्राणां सञ्जज्ञे निस्वनो महान् ।

तुमुलः शङ्खशब्दश्च सभां गच्छति रावणो ॥ ९ ॥

उस समय सभाभवन की ओर रावण के जाने पर हजारों तुरहियों और महाघोर शङ्खों के शब्द हुए ॥ ९ ॥

स नेमिघोषणं महान् महताभिविनादयन् ।

राजमार्गं श्रिया जुष्टं प्रतिपेदे महारथः ॥ १० ॥

— ऋ पाठान्तरे—“महान्सहसाऽभिविनादयन् ।” अथवा “महान्दिशोदश-विलोकयन् ।”

तदनन्तर रथ के घर घर शब्द से व्याप्त रमणीय राजमार्ग पर रावण शीघ्रतापूर्वक जा पहुँचा ॥ १० ॥

विमलं चातपत्राणं प्रगृहीतमशोभत ।

पाण्डुरं राक्षसेन्द्रस्य पूर्णस्ताराधिपो यथा ॥ ११ ॥

राक्षसराज रावण के मन्तक पर श्वेत वर्ण का प्रकाशमान छत्र, विमल पूर्णिमा के चन्द्रमा की तरह शोभायमान हो रहा था ॥ ११ ॥

हेममञ्जरिगर्भे च शुद्धस्फटिकविग्रहे ।

चामरव्यजने चास्य रेजतुः सव्यदक्षिणे ॥ १२ ॥

रावण के अगल बगल सोने के मूत्रों से भूषित और उज्वल डंडी से बने हुए दो चमर और पंखे डुलाये जा रहे थे ॥ १२ ॥

ते कृताञ्जलयः सर्वे रथस्थं पृथिवीस्थिताः ।

राक्षसा राक्षसश्रेष्ठं शिरोभिस्तं ववन्दिरे ॥ १३ ॥

रास्ते में बहुत से राक्षस हाथ जोड़े खड़े थे और जब रथ सामने आता तब वे रथ में सवार रावण को झुक झुक कर प्रणाम करते थे ॥ १३ ॥

राक्षसैः स्तूयमानः सञ्जयाशीभिरिन्दमः ।

आससाद् महातेजाः सभां सुविहितां शुभाम् ॥ १४ ॥

इस प्रकार राक्षसों द्वारा सम्मानित और विजय के लिए आशीर्वाद सुनता हुआ शत्रुदमनकारी एवं महातेजस्वी रावण सुन्दर बने हुए शुभ सभाभवन में पहुँचा ॥ १४ ॥

सुवर्णरजतस्थूणां विशुद्धस्फटिकान्तराम् ।

विराजमानो वपुषा स्वमपटोत्तमच्छदाम् ॥ १५ ॥

तां पिशाचशतैः पद्भिरभिगुप्तां सदा शुभाम् ।
प्रविवेश महातेजाः सुकृतां विश्वकर्मणा ॥ १६ ॥

सभाभवन के फर्श का मध्यभाग स्फटिक पत्थर का बना हुआ था और उसके ऊपर सुनहले रुपहले काम का फर्श बिछा हुआ था । शरीर को सजायें हुए और छः सौ पिशाचों द्वारा रक्षित वह महातेजस्वी रावण विश्वकर्मा के बनाए सभाभवन में गया ॥ १५ ॥ १६ ॥

तस्यां तु वैडूर्यमयं प्रियकाजिनसंवृतम् ।
महत्सोपाश्रयं ! भेजे रावणः परमासनम् ॥ १७ ॥

सभाभवन में पहुँच रावण पन्नों के जड़ाऊ सिंहासन पर, जिसके ऊपर प्रियक जाति के हिरन का कोमल चर्म बिछा हुआ था और मसनद लगा हुआ था—जा वैठा ॥ १८ ॥

ततः शशाशेश्वरवदूतल्लघुपराक्रमान् ।
समानयत मे क्षिप्रमिहैतान् राक्षसानिति ॥ १८ ॥

कृत्यमस्ति महज्जातं समर्थ्यमिह नो महत् ।
राक्षसास्तद्वचः श्रुत्वा लङ्कायां परिचक्रमुः ॥ १९ ॥

राजा की हैसियत से उसने दूतों को बुला कर आज्ञा दी—
जाओ और शीघ्र ही लङ्कावामी राक्षसों को मेरे पास लिवा लाओ । क्योंकि शत्रु के साथ मुझे बड़ा काम आ पड़ा है ।
राक्षसराज रावण की ऐसी आज्ञा पा वे दूत लङ्कापुरी में घूम घूम कर, ॥ १८ ॥ १९ ॥

अनुगेहमवस्थाय विहारशयनेषु च ।

उद्यानेषु च रक्षांसि चोदयन्तो ह्यभीतवत् ॥ २० ॥

विहार में रत, सोते हुए, उद्यानों में खेलते हुए, राक्षसों में राक्षसेश्वर की आज्ञा का प्रचार निर्भीक हो करने लगे ॥ २० ॥

ते रथान् रुचिरानेके दृप्तानेके पृथग्घयान् ।

नगानन्येऽधिरुरुहुर्जग्मुश्चैके पदातयः ॥ २१ ॥

राक्षसेश्वर की आज्ञा पाते ही उन राक्षसों में कोई रथ पर, कोई अलग घोड़ों पर, कोई हाथियों पर और कोई पैदल ही चल दिए ॥ २१ ॥

सा पुरी परमाकीर्णा रथकुञ्जरवाजिभिः ।

सम्पतद्भिर्विरुरुचे गरुत्मद्भिरिवाम्बरम् ॥ २२ ॥

उस समय लङ्कापुरी रथ, हाथी और घोड़ों से ऐसी शोभा पा रही थी; जैसे गरुड़ों से आकाश शोभायमान होता है ॥ २२ ॥

ते वाहनान्यवस्थाप्य यानानि त्रिविधानि च ।

सर्मा पद्भः प्रविविशुःसिंहा गिग्गिहामिव ॥ २३ ॥

वे राक्षस अपनी विविध प्रकार की सवारियों को सभाभवन के फाटक पर छोड़ पैदल ही सभाभवन के अंदर उसी प्रकार गए जैसे सिंह पहाड़ी गुफा में जाते हैं ॥ २३ ॥

राज्ञः पादौ गृहीत्वा तु राज्ञा ते प्रतिशजिताः ।

पीठेष्वन्ये वृसीष्वन्ये भूमौ केचिदुपाविशन् ॥ २४ ॥

सभाभवन में पहुँच राक्षसों ने राक्षसराज के चरणों में सीस नवाया । सम्मान पा उनमें से कोई कुरसी पर, कोई कुशान पर और कोई जमीन पर चिड़ी चटाईपर ही बैठ गए ॥ २४ ॥

ते समेत्य सभायां वै राक्षसा राजशासनात् ।

यथार्हमुषतस्थुस्ते रावणं राक्षसाधिपम् ॥ २५ ॥

इस प्रकार राक्षसराज की आज्ञा से वे सब वहाँ एकत्र हो यथाक्रम रावण के समीप बैठे ॥ २५ ॥

मन्त्रिणाश्च यथा मुख्यां निश्चितार्थेषु पंडिताः ।

अमात्याश्च गुणोपेताः सर्वज्ञा बुद्धिदर्शनाः ॥ २६ ॥

अच्छे अच्छे मंत्री सब विषयों में निपुण और गुणज्ञ, सर्वज्ञ और अत्यन्त बुद्धिमान यथाक्रम उस सभा में बैठे हुए थे ॥२६॥

समेयुस्तत्र शतशः शूराश्च बहवस्तदा ।

सभार्या हेमवर्णायां सर्वार्थस्य सुखाय १ वै ॥ २७ ॥

उस सुवर्णमय सभाभवन में कोई क्षेमकर विचार करने के लिए बहुत से वीर भी एकत्र हुए थे ॥ २७ ॥

रम्यायां राक्षसेन्द्रस्य समेयुस्तत्र सङ्घशः ।

[राक्षसा राक्षसश्रेष्ठं परिवार्योपतस्थिरे ॥ २८ ॥]

राक्षसेन्द्र के उस रमणीक सभाभवन में राक्षसों के दल के दल एकत्र हुए । वे राक्षस राक्षसराज रावण को घेर कर बैठ गए ॥ २८ ॥

ततो महात्मा विपुलं सुधुग्मं

ऋतरार्हजाम्बूनदचित्रिताङ्गम् ।

†रथं समास्थाय ययौ यशस्वी

विभीषणः संसदमग्रजस्य ॥ २६ ॥

तदनन्तर यशस्वी महात्मा विभीषण, सुन्दर घोड़ों से युक्त, सुवर्णभूषित और सङ्कतचिन्हों से युक्त एक बड़े रथ पर सवार हो, अपने बड़े भाई के सभाभवन में पहुँचे ॥ २६ ॥

स पूर्वजायावरजः शशंस

नामाथ पश्चाच्चरणौ ववन्दे ।

शुकः प्रहस्तश्च तथैव तेभ्यो

ददौ यथार्हं पृथगासनानि ॥ ३० ॥

विभीषण ने सभाभवन में पहुँच और अपना नाम ले, बड़े भाई के चरणों में प्रणाम किया । शुक और प्रहस्त नभा में समागत सभासदों को यथाक्रम अलग अलग आसनों पर बिठाते थे ॥ ३० ॥

सुवर्णनानामणिभूषणानां

सुवाससां संसदि राक्षसानाम् ।

तेषां परार्ध्यागुरुचन्दनानां

स्तजश्च ††गन्धाः प्रववुः समन्तात् ॥ ३१ ॥

उस समय वहाँ सौने के और अनेक प्रकार के मणि भूषणों को धारण किए हुए जो राक्षस बैठे थे, उनके शरीरों में अग्र

ऋ पाठान्तरे—“वरं रथ हेमचित्रिताङ्गम् ।” † पाठान्तरे—
“शुभं ।” †† पाठान्तरे—गन्धाश्च ववुः ।”

और चन्दन लगे हुए थे। उनसे निकली हुई सुगन्धित पुष्प मालाओं से निकली हुई सुगन्धि, सभाभवन में चारों ओर फैली हुई थी ॥ ३१ ॥

न चुक्रुशुर्नानृतमाह कश्चि-

त्सभासदो नैव जजल्पुरुच्चैः ।

संसिद्धार्थाः सर्व एवोग्रवीर्या

भर्तुः सर्वे ददृशुश्चाननं ते ॥ ३२ ॥

वहाँ सभा में बैठे सब चुपचाप थे—न तो कोई कुछ कहता था और न कोई बकवाद ही करता था। किसी के मुख से उच्च स्वर से कोई बात नहीं निकलती थी। क्योंकि वे सब राक्षस सफल मनोरथ तेजस्वी और पराक्रमी थे। वे तो रावण के मुख को ताक रहे थे ॥ ३२ ॥

स रावणः शस्त्रभृतां मनस्विनां

महाबलानां प्रभया मनस्वी ।

तस्यां समायां समितौ चकाशे ।

मध्ये वसूनामिव वज्रहस्तः ॥ ३३ ॥

इति एकादशः सर्गः ॥

उस सभा में विराजमान शस्त्रधारी और मनस्वी राक्षसों के बीच में बैठा हुआ चिन्ताशील रावण, सभा में बैठा हुआ ऐसा शोभायमान हो रहा था, जैसे आठ वसुओं के बीच बैठे हुए इन्द्र की शोभा होती है ॥ ३३ ॥

युद्धकाण्ड का ग्यारहवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

द्वादशः सर्गः

— १ —

स तां परिपदं कृस्नां समीच्य समितञ्जयः ।

प्रचोदयामास तदा प्रहस्तं वाहिनीपतिम् ॥ १ ॥

रणविजयी रावण ने समस्त सभा को देख कर, सेनापति प्रहस्त को इस प्रकार आज्ञा दी ॥ १ ॥

सेनापते यथा ते स्युः कृतविद्याश्चतुर्विधाः ।

योध्या नगररक्षायां तथा व्यादेष्टुमर्हसि ॥ २ ॥

हे सेनापते ! सेना में चार तरह के मनुष्य हैं, रथसवार, हाथीसवार, घोड़ेसवार और पैदल । इन चारों तरह के सैनिकों को, नगररक्षा के लिए तुम यथास्थान नियत कर दो ॥ २ ॥

स प्रहस्तः प्रणीतात्मा चिकीर्षन् राजशासनम् ।

विनिक्षिपद्बलं सर्वं वहिरन्तश्च मन्दिरे ॥ ३ ॥

ततो विनिक्षिप्य बलं पृथङ् नगरगुप्तये ।

प्रहस्तः प्रमुखे राज्ञो निपसाद जगाद च ॥ ४ ॥

तब सावधानचित्त प्रहस्त ने रावण के आज्ञानुसार यथा-विधान सैनिकों को नियुक्त कर दिया । नगर की रक्षा के लिए अलग अलग सेना नियत कर, फिर आकर सभा में रावण के सामने बैठ गया और यह बोला ॥ ३ ॥ ४ ॥

❧ पाठान्तरे—“योधानधिकरक्षायां ।”

निहितं बहिरन्तश्च बलं बलवत्तस्तव ।

कुरुष्व्याविमनाः कृत्यं यदभिप्रेतमस्ति ते ॥ ५ ॥

मैंने तुम्हारी आज्ञानुसार नगर के बाहिर और भीतर बल-वान् सेना नियत कर दी है । अब तुम्हारी जो इच्छा हो सो तुम स्वस्थ मन से करो ॥ ५ ॥

प्रहस्तस्य वचः श्रुत्वा राजा राज्यहिते रतः ।

सुखेप्सुः सुहृदां मध्ये व्याजहार स रावणः ॥ ६ ॥

प्रहस्त के ये वचन सुन रावण राज्य के हित में रत, सुहृदों के बीच, अपने सुख की चाहना से कहने लगा ॥ ६ ॥

प्रियाप्रिये सुखं दुःखं लाभलाभौ हिताहिते ।

धर्मकामाथकृच्छ्रेषु यूयमर्हथ वेदितुम् ॥ ७ ॥

भाइयो ! विपत्ति में, प्रिय अप्रिय, सुख दुःख, हानि लाभ, हिताहित तथा धर्मार्थ काम की सब बातें तुम लोग जानते हो ॥ ७ ॥

सर्वकृत्यानि युष्माभिः समारब्धानि सर्वदा ।

मन्त्रकर्मनियुक्तानि न जातु विफलानि मे ॥ ८ ॥

तुम आपस में परामर्श कर और एकमत हो जो काम करते हो, वह कभी निष्फल नहीं होता । क्योंकि मैं भी कई काम तुम लोगों की सगमति से पूरे कर चुका हूँ ॥ ८ ॥

ससोमग्रहनक्षत्रैर्मरुद्गरिव वासवः ।

भवद्भिरहमत्यर्थं वृतः श्रियमवाप्नुयाम् ॥ ९ ॥

इन्द्र, जिस प्रकार चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र और मरुद्गणों से सेवित हो कर, स्वर्गसुख भोगा करते हैं, उसी प्रकार मैं आप लोगों के साथ लङ्कापुरी का राज्य करता हूँ ॥ ९ ॥

अहं तु खलु सर्वान् वः समर्थयितुमुद्यतः ।

कुम्भकर्णस्य तु स्वप्नान्ने समर्थमचादयम् ॥ १० ॥

अयं हि सुप्तः पणमासान् कुम्भकर्णी महाबलः ।

सर्वशस्त्रभृतां मुख्यः स इदानीं समुत्थितः ॥ ११ ॥

मैं सब प्रकार के कार्यों को आप लोगों को सूचित कर देना सदा से आवश्यक समझता रहा हूँ । परन्तु कुम्भकर्ण की निद्रा के कारण मैं इसे आप सब के सामने अब तक प्रकट करने का अवसर प्राप्त न कर सका । यह महाबली कुम्भकर्ण जो सब शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ है, छः मास बाद अब सो कर जागा है ॥ १० ॥ ११ ॥

इयं च दण्डकारण्याद्रामस्य महिषी प्रिया ।

रक्षोभिरचरिताद्देशादानीता जनकात्मजा ॥ १२ ॥

(वह बात जो मैं आप लोगों के सामने प्रकट करना चाहता था यह है कि) जनक की पुत्री और राम की प्यारी पटरानी सीता को मैं दण्डकवन में जनस्थान से ले आया था ॥ १२ ॥

[नोट—रावण सब के सामने यह स्पष्ट रूप से नहीं कहता कि, मैं दण्डक वन से सीता को बरजोरी हर लाया हूँ । वह कहता है “अनीता” अर्थात् ले आया हूँ ।]

सा मे न शय्यामारोढमिच्छत्यलसगामिनी ।

त्रिषु लोकेषु चान्या मे न सीतासदृशी मत्ता ॥ १३ ॥

किन्तु वह मन्दगामिनी मेरी सेज पर सोना नहीं चाहती । मेरी समझ में सीता के समान सुन्दरी स्त्री तीनों लोकों में नहीं है ॥ १३ ॥

१ समर्थयितुं—ज्ञापयितुं । (गो०) २ अलसगामिनी—मन्दगामिनी । (गो०)

तनुमध्या पृथुश्रोणी शारदेन्दुनिभानना ।

हेमबिम्बनिभा सौम्या मायेव मयनिर्मिता ॥ १४ ॥

क्योंकि उसकी पतली कमर है मोटी जाँघ है, शरद्वृत्तु के चन्द्रमा जैसा उसका मुख है। सुवर्ण प्रतिमातुल्य, वह मय निर्मित माया की तरह (मन को मोहने वाली है) ॥ १४ ॥

सुलोहिततलौ श्लक्ष्णौ चरणौ सुप्रतिष्ठितौ ।

दृष्ट्वा ताम्रनखौ तस्या दीप्यते मे शरीरजः ॥ १५ ॥

उनके पैरों के तलवे वलाल, चिकने हैं और पैर बड़े सुडौल हैं उसके लाल लाल नखों को देख कर मेरा शरीरस्थकाम उत्तेजित हो जाता है ॥ १५ ॥

हुताग्नेरचिसङ्काशामेनां सौरीमिव प्रभाम् ।

[दृष्ट्वा सीतां विशालार्चीं कामस्य वशमेयिवान् ॥ १६ ॥

हवन की प्रज्वलित आग अथवा सूर्य की प्रभा की तरह विशाल नयनी सीता को देख मैं काम के वश में हो गया हूँ ॥ १६ ॥

उन्नसं वदनं वल्गु विपुलं चारुलोचनम् ।

पश्यंस्तदाऽवशस्तस्याः कामस्य वशमेयिवान् ॥ १७ ॥

सीता की ऊँची नाक और उसके मनोहरनेत्रों से सुशोभित मुख मण्डल को देख मैं काम के वशवर्ती हो, उस (सीता) के अधीन हो गया हूँ ॥ १७ ॥

❀ क्रोधहर्षसमानेन दुर्वर्णकरणेन च ।

शोकसन्तापनित्येन कामेन क्लृपीकृतः ॥ १८ ॥

मेरे लिए क्रोध और हर्ष समान हो रहे हैं, मेरे शरीर का रंग भद्ररंग हो रहा है। सदा शोकसन्तप्त रहने से, काम ने मुझे बहुत विकल कर रखा है ॥ १८ ॥

सा तु संवत्सरं कालं मामयाचत भामिनी ।

प्रतीक्षमाणा भर्तारं राममायतलोचना ॥१९॥

अपने पति श्रीरामचन्द्र जी की प्रतीक्षा करने के लिए उस बड़े बड़े नेत्रों वाली भामिनी (सीता) ने, मुझसे एक वर्ष का समय माँगा है ॥ १९ ॥

तन्मया चारुनेत्रायाः प्रतिज्ञातं वचः शुभम् ।

श्रान्तोऽहं सततं कामाघातो ह्य इवाध्वनि ॥२०॥

सो उस सुन्दर नेत्र वाली से मैं सत्यप्रतिज्ञा कर चुका हूँ। किन्तु निरन्तर की कामपीड़ा से मैं वैसे ही शान्त हो गया हूँ जैसे—बहुत दूर चला हुआ घोड़ा थक जाता है ॥ २० ॥

कथं सागरमक्षोभ्यं ऋतरिष्यन्ति वनौकसः ।

बहुसत्त्वसमाकीर्णं तौ वा दशरथात्मजा ॥२१॥

मेरी समझ में यह बात भी नहीं आती कि, वे सब वानर और दशरथ के दोनों पुत्र बहुत से जलजीवों से पूर्ण एवं अक्षोभ्य सागर को, किस तरह पार करेंगे ॥ २१ ॥

अथवा कपिनैकेन कृतं नः कदनं महन् ।

दुर्ज्ञेयाः कार्यगतयो ब्रूत यस्य यथामति ॥२२॥

साथ ही यह भी विचार उत्पन्न होता है कि, जब एक ही वानर ने इतना बड़ा मेरा अपमान और मेरी सेना का नाश कर डाला

तव उनके कायक्रम का जानना कठिन है । अच्छा, अब आप लोग जैसा आपकी समझ में आवे, वैसा कहें ॥ २२ ॥

मानुषात् मे भयं नास्ति तथाऽपि तु विमृश्यताम् ।

तदा देवासुरे युद्धे युष्माभिः सहितोऽजयम् ॥२३॥

यद्यपि हम लोगों को मनुष्यजाति से डर नहीं है, तथापि विचार करना उचित है । मैंने पहिले देवासुर संग्राम में तुम लोगों की सहायता से ही विजय पाया था ॥ २३ ॥

ते मे भवन्तश्च तथा सुग्रीवप्रमुखान् हरीन् ।

परे पारे समुद्रस्य पुरस्कृत्य नृपात्मजौ ॥२४॥

अतः अब उपस्थित कार्य में भी आप लोग सहायता करें । यह भी समाचार मिला है कि, सुग्रीव आदि वानर और वे दोनों वीर राजकुमार समुद्र के उस पार आ पहुँचे हैं ॥ २४ ॥

सीतायाः पदवीं प्राप्तौ सम्प्राप्तौ वरुणालयम् ।

अदेया च यथा सीता वध्यौ दशरथात्मजौ ॥२५॥

वे सीता के यहाँ होने का समाचार पा कर ही समुद्रतट पर आए हैं । सीता तो देना न पड़े और वे दोनों राजकुमार मारे जाँय ॥ २५ ॥

भवाद्धर्मन्वयतां मन्त्रः सुनीतिश्चाभिधीयताम् ।

न हि शक्तिं प्रपश्यामि जगत्यन्यस्य कस्यचित् ।

सागरं वानरैस्तीर्त्वा निश्चयेन जयो मम ॥२६॥

इस विषय में आप लोग विचार लें और भली प्रकार से निश्चय कर निश्चित बात बतलावें । मैं तो इस संसार में दूसरे किसी में

किसी में ऐसी शक्ति नहीं देखता कि वानरों के साथ समुद्र के इस पार पहुँचा सके। फिर जीत तो मेरी निश्चित ही है ॥ २६ ॥

तस्य कामपरीतस्य निशम्य परिदेवितम् ।

कुम्भकर्णः प्रचुक्रोध वचनं चेदमब्रवीत् ॥२७॥

कामासक्त होने के कारण रावण की वृद्धि विगड़ गई थी—
सो उसका ये उल्टी पुल्टी बातें सुन, कुम्भकर्ण को बड़ा क्रोध
चढ़ आया और वह वैसी ही अटपटी बातें कहने लगा ॥ २७ ॥

यदा तु रामस्य सलक्ष्मणस्य

प्रसह्य सीता खलु सा इहाहता ।

सकृत्समीच्यैव सुनिश्चितं तदा

भजेत चित्तं यमुनेव यामुनम् ॥२८॥

हे राजन् ! जब तुम राम और लक्ष्मण के पास से वरजोरी
सीता को हर लाए, उसके पूर्व एक बार भी इस विषय में भली
भाँति विचार कर निश्चय किया था ? जिस प्रकार यमुना,
पर्वत के नीचे उतरने के समय अपने कुण्डों के आश्रित रहती है
वैसे ही तुमको भी काम करने के पूर्व हमारे मत के आश्रित
रहना था। (अब जब इस कर्म के विपाक का समय उपस्थित
है, तब हम लोगों की सम्मति से लाभ ही क्या है ?) ॥ २८ ॥

सर्वमेतन् महाराज कृतमप्रतिमं तव ।

विधीयेत सहास्माभिरादावेवास्य कर्मणः ॥२९॥

हे महाराज ! तुमने ये सब काम अनुचित किए हैं। इनको
करने के पूर्व तुम्हें हमसे मलाह लेनी थी ॥ २९ ॥

१न्यायेन राजा कार्याणि यः करोति दशानन ।

न स सन्तप्यते पश्चान्निश्चितार्थमतिर्नृपः ॥३०॥

हे दशानन ! जो राजा विचारपूर्वक काम करता है, उसको पीछे कभी सन्ताप नहीं होता, क्योंकि शास्त्रानुसार वह अपनी बुद्धि से उसका निश्चय कर लेता है, ॥ ३० ॥

अनुपायेन कर्माणि विपरीतानि यानि च ।

क्रियमाणानि दुष्यन्ति हर्षीष्यप्रयतेष्विव ॥३१॥

परन्तु उपाय का अवलंबन किए बिना जो काम मनमाने उल्टे सीधे किए जाते हैं, वे सब उसी प्रकार दूषित होते हैं, जिस प्रकार अपवित्र हव्य की आहुति ॥ ३१ ॥

यः पश्चात्पूर्वकार्याणि कुरुते बुद्धिमोहितः ।

पूर्व चोत्तरकार्याणि न स वेद नयानयौ ॥३॥

जो बुद्धि से मोहित राजा प्रथम करने योग्य कार्य को पीछे और पीछे करने योग्य कार्य को पहले करता है, वह नीति और अनीति को कुछ भी नहीं जानता ॥ ३२ ॥

चपलस्य तु कृत्येषु प्रसमीच्याधिकं बलम् ।

न्निप्रमन्ये प्रपद्यन्ते क्रौञ्चस्य खमिव द्विजाः ३ ॥३३॥

जो चंचल स्वभाव के लोग होते हैं उनके कामों में उनके शत्रु वैसे ही छिद्र दूढ़ा करते हैं, जैसे क्रौञ्च पर्वत के छिद्र, हंस दूढ़ते हैं ॥ ३३ ॥

१ न्यायेन—विचारेण । (गो०) २ अप्रमत्तेषु—अशुचिषु अपत्रेषु । (गो०) ३ द्विजाः—हंसाः । (गो०)

त्ययेदं महदारब्धं कार्यमप्रतिचिन्तितम् ।

दिष्ट्या त्वां नावधीद्रामो विषमिश्रमित्रामिषम् ॥३४॥

तुमने विना सोचे विचारे यह बड़ा भारी काम छेड़ दिआ है । यह बड़े सौभाग्य की बात है कि, राम ने अभी तक तुम्हें वैसे ही मार नहीं डाला, जैसे विष मित्रा हुआ मॉस, खानेवाले को मार डालता है ॥३४॥

तस्मात्त्वया समारब्धं कर्म ह्यप्रतिमं परैः ।

अहं समीकरिष्यामि हत्वा शत्रूस्तवानघ ॥३५॥

हे अनघ ! जब कि, तुमने इस अनुचित कार्य को कर राम-चन्द्र के साथ शत्रुता कर ली है, तब मैं ही तुम्हारे शत्रुओं को मार कर, इसे ठीक करूँगा ॥३५॥

यदि शक्रविवस्वन्तौ यदि पावकमारुतौ ।

तावहं योधयिष्यामि कुबेरवरुणावपि ॥३६॥

यदि इन्द्र, यम, अग्नि, पवन, कुबेर, अथवा वरुण ही क्यों न आवें, मैं उनके साथ भी लड़ूँगा ॥३६॥

गिरिमात्रशरीरस्य शितशूलधस्त्रस्य च ।

नर्दतस्तीक्ष्णदंष्ट्रस्य विभियाद्वै पुरन्दरः ॥३७॥

मेरा पर्वताकार शरीर है, पैना त्रिशूल मेरा आयुध है । पैने पैने मेरे दाँत हैं । मैं जब रणक्षेत्र में खड़ा हो गर्जना करूँगा, तब इन्द्र भी भयभीत हो जाँयगे ॥३७॥

पुनर्मां स द्वितीयेन शरेण निहनिष्यति ।

ततोऽहं तस्य पास्यामि रुधिरं काममाश्वस ॥३८॥

यह निश्चित ही है कि, रामचन्द्र एक वाण छोड़ कर दूसरा वाण न छोड़ने पावेंगे। दूसरा वाण वे छोड़े ही छोड़े तब तक मैं उनका खून पी लूँगा। तुम निश्चिन्त रहो ॥३८॥

वधेन ते दाशरथेः सुखावहं

जयं तवाहर्तुमहं यतिष्ये ।

हत्वा च रामं सह लक्ष्मणेन

खादामि सर्वान् हरियूथमुख्यान् ॥३९॥

दशरथ के बेटे को मार कर, मैं तुम्हारे लिए सुखदायी जय सम्पादन करने का प्रयत्न करूँगा। लक्ष्मणसहित राम को मार कर, मैं सब वानर-यूथपतियों को खा डालूँगा ॥३९॥

रमस्व कामं पिव चाग्न्यवारुणीं

कुरुष्व कार्याणि हितानि विज्वरः ।

मया तु रामे गमिते यमक्षयं

चिराय सीता वशगा भविष्यति ॥४०॥

इति द्वादशः सर्गः ॥

मौज उड़ाओ, मनमानी शराव पीओ और निश्चिन्त हो ऐसे काम करो, जिनके करने से भलाई हो। जब मैं राम को यमालय भेज दूँगा, तब सीता वश के लिए तुम्हारे वश हो जायगी ॥४०॥

युद्धकाण्ड का बारहवाँ सर्ग पूरा हुआ।

त्रयोदशः सर्गः

रावणं क्रुद्धमाज्ञाय महापार्श्वो महाबलः ।

मुहूर्तमनुसञ्चिन्त्य प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत् ॥१॥

रावण को क्रुद्ध देख, महाबली राक्षस महापार्श्व थोड़ी देर कुछ सोच विचार कर, हाथ जोड़े हुए बोला ॥ १ ॥

यः खल्वपि वनं प्राप्य मृगव्यालसमाकुलम् ।

न पिवेन्मधु सम्प्राप्तं स नरो बालिशो भवेत् ॥२॥

जिस वन में व्याघ्र सिंहादि तथा बड़े-बड़े अजगर रहते हैं, उस वन में जा कर भी जो मधुपान न करे वह मूर्ख है ॥२॥

ईश्वरस्पेश्वरः कोऽस्ति तत्र शत्रुनिवर्हण ।

रमस्व सह वैदेह्या शत्रूनाक्रम्य मूर्धसु ॥३॥

हे शत्रुनिवर्हण ! तुम सब के स्वयं नियन्ता हो, तुम्हारा नियन्ता कौन हो सकता है ? तुम तो अपने वैरी के सीस पर पैर रख कर वैदेही के सङ्ग विहार करो ॥३॥

बलात्कुक्कुटवृत्तेन वर्तस्य सुमहाबल ।

आक्रम्य सीतां वैदेहीं तथा मुहुर्द्व रमस्व च ॥४॥

हे महाबली ! यदि तुमसे सीता राजी न हो तो तुम मुर्गों को तरह बरजोरी उसके साथ बर्ताव करो और मजे में भोगविलास करो ॥४॥

* पाठान्तरे—“आक्रम्याक्रम्य सीता वै ।”

लब्धकामस्य ते पश्चादागमिष्यति यद्भूयम् ।

प्राप्तमप्राप्तकालं वा सर्वं प्रतिसहिष्यसि ॥५॥

जब तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जायगी, तब तुमको डर ही क्या रह जायगा और यदि पीछे सावधानी असावधानी की दशा में कुछ होगा ही तो उसे भी देख लगे ॥५॥

कुम्भकर्णः सहास्माभिरिन्द्रजिच्च महाबलः ।

प्रतिपेधयितुं शक्तौ सवज्रमपि वज्रिणम् ॥६॥

जब इन्द्रजित और कुम्भकर्ण मेरी सहायता को कमर कस कर खड़े हो जायेंगे, तब हम वज्रधारी इन्द्र का भी सामना कर सकते हैं ॥६॥

उपप्रदानं सान्त्वं वा भेदं वा कुशलैः कृतम् ।

समतिक्रम्य दण्डेन सिद्धिमर्थेषु रोचय ॥७॥

नीतिकुशलजनों ने शत्रु को मुट्टी में करने के लिए साम, दान, भेद और दण्ड, ये चार उपाय बतलाए हैं, सो मुझे तो पिछला उपाय दण्ड ही पसन्द है ॥७॥

इह प्राप्तान्वयं सर्वाञ्छत्रून्स्तव महाबल ।

वशे शस्त्रप्रपातेन करिष्यामो न संशयः ॥८॥

हे महाबली ! मैं प्रथम के तीन उपायों को छोड़, केवल दंड द्वारा ही, तुम्हारे समस्त शत्रुओं को निस्सन्देह वश में कर लूँगा ॥८॥

एवमुक्तस्तदा राजा महापार्श्वेन रावणः ।

तस्य सम्पूजयन् वाक्यमिदं वचनमब्रवीत् ॥९॥

महापार्श्व के ये वचन सुन कर, रावण ने उस कथन की प्रशंसा करते हुए, ये वचन कहे ॥६॥

महापार्श्व निबोध त्वं रहस्यं किञ्चिदात्मनः ।

चिरवृत्तं तदाख्यास्ये यदशाप्तं मया पुरा ॥ १० ॥

हे महापार्श्व ! मैं अपना कुछ पुराना रहस्ययुक्त वृत्तान्त तुमको सुनाता हूँ । उसे अभी तक कोई नहीं जानता । यह बहुत पुरानी घटना है ॥ १० ॥

पितामहस्य भवनं गच्छन्तीं पुञ्जिकस्थलाम् ।

चञ्चूर्यमाणामद्राक्षमाकाशेऽग्निशिखामिव ॥ ११ ॥

पुञ्जिकस्थल नाम की एक अप्सरा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को प्रणाम करने जा रही थी । वह भय के मारे आकाश में छिपी हुई जा रही थी और अग्निशिखा की तरह दमक रही थी ॥११॥

सा प्रसह्य मया भुक्ता कृता विवसना ततः ।

स्वयम्भूभवनं प्राप्ता लोलिता नलिनी यथा ॥ १२ ॥

मैंने बलपूर्वक उसे नङ्गी कर उसके साथ भोग किया । तदनन्तर वह ब्रह्मलोक में कमलिनी की तरह काँपती हुई पहुँची ॥१२॥

तस्य तच्च तदा मन्ये ज्ञातमासीन् महात्मनः ।

अथ सङ्कुपितो देवो मामिदं वाक्यमब्रवीत् ॥ १३ ॥

मैं समझता हूँ ब्रह्मा जी को यह हाल मालूम हो गया और उन्होंने अत्यन्त क्रुद्ध हो मुझको यह शाप दिया ॥ १३ ॥

अद्यप्रभृति यामन्यां वलान्नारीं गमिष्यसि ।

तदा ते शतधा मूर्धा फलिष्यति न संशयः ॥ १४ ॥

यदि आज से तू किसी स्त्री के साथ वरजोरी भोग करेगा, तो तेरे सिर के निस्सन्देह सौ टुकड़े हो जायेंगे ॥१४॥

इत्यहं यस्य शापस्य भीतः प्रसभमेव ताम् ।

नारोपये वलात्सीतां वैदेहीं शयने ॥ स्वके ॥ १५ ॥

मैं उसी शाप से डर कर, सीता को अपनी उत्तम सेज पर वरजोरी चढ़ाने का प्रयत्न नहीं करता ॥१५॥

सागरस्येव मे वेगो मारुतस्येव मे गतिः ।

नैतद्दाशरथिर्वेद ह्यासादयति तेन माम् ॥ १६ ॥

मेरा समुद्र के समान वेग है और पवन की तरह गति है । क्या वह दशरथ का वेदा यह बात नहीं जानता, जो मुझ पर चढ़ाई करता है ॥१६॥

१को हि सिंहमिवासीनं सुप्तं गिरिगुहाशये ।

क्रुद्धं मृत्युमिवासीनं प्रबोधयितुमिच्छति ॥ १७ ॥

गिरिगुहा में सोते हुए और मृत्यु के समान क्रुद्ध सिंह को कौन जगाना चाहता है ? ॥१७॥

न मत्तो रनिर्गतान् ब्राह्मणान् द्विजिह्वानिष पन्नगान् ।

रामः पश्यति संग्रामे तेन मामभिगच्छति ॥ १८ ॥

राम ने संग्राम में दो जीभ वाले सर्पों के समान मेरे धनुष से छोड़े हुए ब्राह्मण नहीं देखे, इसी से वह मेरे ऊपर चढ़ाई करने आ रहा है ॥१८॥

* पाठान्तरे—“शुभे ।” १ पाठान्तरे—“यस्तु ।” २ पाठान्तरे—
“निशितान् ।”

क्षिप्रं वज्रोपमैर्वाणैः शतधा कार्मुकच्युतैः ।

राममादीपयिष्यामि उल्काभिरिव कुञ्जरम् ॥१६॥

वज्र के तुल्य और धनुष से एक साथ सौ-सौ वाण छोड़ कर, मैं राम को वैसे ही भगा दूँगा, जैसे हाथी मशाल दिखा कर भगा दिखा जाता है ॥१६॥

तच्चास्य बलमादास्ये बलेन महता वृतः ।

उदयन् सविताकाले नक्षत्राणामिव प्रभाम् ॥२०॥

मैं अपनी महती सेना से उनकी सेना को ऐसे दबा दूँगा जैसे सूर्य अपने प्रकाश से नक्षत्रों के प्रकाश को दबा देता है ॥२०॥

न वासवेनापि सहस्रचक्षुषा

युधाऽस्मि शक्यो वरुणेन वा पुनः ।

मया त्विर्यं बाहुबलेन निर्जिता

पुरी पुरा वैश्रवणेन पालिता ॥२१॥

इति त्रयोदशः सर्गः ॥

देखो, न तो मुझे सहस्र नेत्रवाला इन्द्र ही जीत सकता है और न वरुण ही मुझे हरा सकता है । पूर्वकाल में कुबेर द्वारा पालित यह लङ्कापुरी मैंने अपने बाहुबल से जीती है ॥२१॥

युद्धकाण्ड का तेरहवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

चतुर्दशः सर्गः

—:०:—

निशाचरेन्द्रस्य निशम्य वाक्यं

स कुम्भकर्णस्य च गर्जितानि ।

विभीषणो राक्षसराजमुख्यम्

उवाच वाक्यं हितमर्थयुक्तम् ॥१॥

राक्षसराज की डींगे और कुम्भकर्ण की निरर्थक बातें सुन,
विभीषण ने रावण से कर्तव्यार्थबोधयुक्त वचन कहा ॥१॥

वृतो हि बाह्वन्तरभोगराशि-

श्चिन्ताविषः सुस्मिततीक्ष्णदंष्ट्रः ।

पञ्चाङ्गुलीपञ्चशिरोतिकायः

सीतामहाहिस्तव केन राजन् ॥२॥

हे महाराज ! वक्षस्थलरूप फनधारी, चिन्तारूपी विष से युक्त,
हास्यरूपी तीक्ष्ण दाँतों वाले और पञ्चाङ्गुलिरूपी पाँच सिरो
वाले सीतारूपी धड़े भारी सर्प को तुम क्यों यहाँ ले आए
हो ॥ २ ॥

यावन्न लङ्कां समभिद्रवन्ति

वलीमुखः पर्वतकूटमात्राः ।

दंष्ट्रायुधश्चैव नखायुधाश्च

प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली ॥३॥

हे राजन् ! जब तक पर्वतशिखर के समान तथा लंबे तड़ङ्गे
नखों और दाँतों के आयुध वाले वानर, लङ्कापुरी पर घेरा नहीं
डालते, इसके पूर्व ही तुम श्रीरामचन्द्र जी को सीता दे दो ॥३॥

यावन्न गृह्णन्ति शिरांसि वाणा
रामेरिता राक्षसपुङ्गवानाम् ।

वज्रोपमा वायुसमानवेगाः

प्रदीयतां दाशस्थाय मैथिली ॥ ४ ॥

जब तक श्रीरामचन्द्र जी के वज्र के समान भयङ्कर और वायु के समान वेगवान् वाण राक्षसों के सिर नहीं काटते— उसके पूर्व ही श्रीराम को तुम सीता दे दो ॥४॥

न कुम्भकर्णेन्द्रजितौ न राजा

तथा महापार्ष्वमहोदरौ वा ।

निकुम्भकुम्भौ च तथातिकायः

स्थातुं न शक्ता युधि गधवस्य ॥ ५ ॥

हे राजन् ! क्या कुम्भकर्ण, क्या इन्द्रजीत, क्या महापार्ष्व, क्या महोदर, क्या कुम्भ, क्या निकुम्भ और क्या अतिकाय— इनमें से कोई भी रणक्षेत्र में श्रीराम के सामने नहीं खड़ा रह सकता ॥ ५ ॥

जीवंस्तु रामस्य न मोक्ष्यसे त्वं

गुप्तः सवित्राऽप्यथ वा मरुद्भिः ।

न वासवस्याङ्गगतो न मृत्यो—

र्न खं न पातालमनुप्रविष्टः ॥ ६ ॥

तुम चाहो कि, हम जीते जी राम से वच जायें, सो नहीं होने का । तुम्हें सूर्य और देवता भी यदि वचाना चाहें, तो भी नहीं वच सकते । तुम भले ही इन्द्र की अथवा मृत्यु ही की गोद

में क्यों न जा वैशो; अथवा आकाश या पाताल में कहीं जा
छिपो, पर श्रीराम से तुम्हारा वचन असम्भव है ॥ ६ ॥

निशम्य वाक्यं तु विभीषणस्य

ततः प्रहस्तो वचनं वभाषे ।

न नो भयं विद्म न दैवतेभ्यो

न दानवेभ्यो ह्यथवा कुतश्चित् ॥ ७ ॥

विभीषण के ये वचन सुन, प्रहस्त करने लगा, हमें देवताओं
असुरों अथवा अन्य किसी से कुछ भी भय नहीं है ॥७॥

न यत्तमन्धर्वमहोरगेभ्यो

भयं न संख्ये पतगोत्तमेभ्यः ।

कथं नु रामाद्भविता भयं नो

नरेन्द्रपुत्रात्समरे कदाचित् ॥ ८ ॥

जब युद्ध में हम लोगों को यज्ञों, गन्धर्वों, सर्पों और गरु-
डादि पक्षियों से कुछ भी भय नहीं है, तब एक राजकुमार राम
से हमको भयभीत क्यों होना चाहिए ॥ ८ ॥

प्रहस्तवाक्यं त्यहितं निशम्य

विभीषणो राजहितानुकाङ्क्षी ।

ततो ऽमहात्मा वचनं वभाषे

धर्मार्थकामेषु निविष्टबुद्धिः ॥ ९ ॥

प्रहस्त के इन अहितकर वचनों को सुन, रावण के हितैषी
महाबुद्धिमान् और धर्मार्थ काम को भली-भाँति समझने वाले
विभीषण ने कहा ॥ ९ ॥

प्रहस्त राजा च महोदरश्च

त्वं कुम्भकर्णश्च ऋयदर्थजातम् ।

ववीथ रामं प्रति तन्न शक्यं

यथा गतिः स्वर्गमधर्मबुद्धेः ॥ १० ॥

हे प्रहस्त ! देखो, रावण ने, महोदर ने, तुमने और कुम्भ-
कर्ण ने राम के विषय में जो समझ रखा है सो ठीक नहीं है ।
तुम लोगों का कथन उसी प्रकार प्रलीक है; जिस प्रकार किर्मी
पापी का स्वर्ग में जाना ॥ १० ॥

वधस्तु रामस्य मया त्वया वा

प्रहस्त सर्वैरपि राक्षसैर्वा ।

कथं भवेदर्थविशारदस्य ।

महार्णवं तर्तुमिवाप्तवस्य ॥ ११ ॥

उन कार्यदत्त राम को मैं या तुम अथवा समस्त राक्षस
मिलकर भी भला कैसे मार सकते हैं ? तुम्हारा कथन तो ऐसा
ही है, जैसा बिना नाव के कोई मनुष्य समुद्र पार जाने की
तैयारी करता हो ॥ ११ ॥

धर्मप्रधानस्य महारथस्य

इच्छाकुवंशप्रभवस्य राज्ञः ।

प्रहस्त देवाश्च तथाविधस्य

कृत्येषु शक्तस्य भवन्ति मूढाः ॥ १२ ॥

१ अर्थविशारदस्य—कार्यदत्तस्य । (गो०) ३. पाटान्तरे—“ययार्गजातम् ।”

हे प्रहस्त ! विशेष कर यह इक्ष्वाकुवंशोद्भव महारथी श्रीराम वड़े धर्मात्मा हैं। मेरी तो बिसाँत ही क्या है। ऐसे सब कार्यों को करने की शक्ति रखने वाले अथवा विराध कबन्ध बालि आदि को मारने वाले पुरुष के साथ युद्ध करते समय देवताओं की भी बुद्धि चकराने लगती है ॥ १२ ॥

[नोट—महारथी की परिभाषा यह है :—

“आत्मानं सारथिं चाश्वान् रक्षन्त्युद्येतयो नरः ।

स महारथसंज्ञः स्यादित्याहुर्नीतिको विदः ॥”

अर्थात् अपनी, अपने सारथी की तथा अपने रथ के घोड़ों की रक्षा करता हुआ जो वीर, शत्रु से लड़ सकता है; उसे रणनीतिविशारद “महारथी” कहते हैं।]

तीक्ष्णा नता यत्तव कङ्कपत्रा

दुरासदा राघवविप्रमुक्ताः ।

भित्त्वा शरीरं प्रविशन्ति वाणाः ।

प्रहस्त तेनैव विकृत्यसे त्वम् ॥ १३ ॥

हे प्रहस्त ! श्रीराम के पैने सीधे और पङ्खदार असह्य वाण जब तक तुम्हारे शरीर को विदीर्ण नहीं करते, तब तक तुम भले ही जो चाहो सो बढ़-बढ़ कर बातें कह लो ॥ १३ ॥

न रावणो नातिवलस्त्रिशोर्षी

न कुम्भकर्णस्य सुतो निकुम्भः ।

न चेन्द्रजिद्दाशरथिं प्रसोढुं

त्वं वा रणे शक्रसमं समर्थाः ॥ १४ ॥

वलवान् रावण, त्रिशोर्ष, मेघनाद, तुम, कुम्भकर्ण और उसका पुत्र निकुम्भ में से कोई भी रणक्षेत्र में इन्द्र के समान पराक्रमी

श्रीराम का पराक्रम सह नहीं सकता । अर्थात् उनके सामने इनमें से कोई भी खड़ा रह नहीं सकता ॥ १४ ॥

देवान्तको वाऽपि नरान्तको वाऽपि

तथाऽतिकायोऽतिरथो ऽमहात्मा ।

अकम्पनश्चाद्रिसमानसारः

स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्य ॥ १५ ॥

देवान्तक, नरान्तक, अतिकाय, बड़े शरीर वाला अतिरथ और पहाड़ के समान बलवाला अकम्पन, इनमें से कोई भी राम के सामने युद्धक्षेत्र में खड़ा नहीं रह सकता ॥१५॥

अयं हि राजा व्यसनाभिभूतो

मित्रैरमित्रप्रतिमैर्भवद्भिः ।

अन्वास्यते राक्षसनाशनाय

तीक्ष्णः प्रकृत्या ह्यसमीच्यकारी ॥ १६ ॥

ये राजा तो कामान्ध हो रहा है और आप लोग इसके साथ मित्र के रूप में शत्रुता कर रहे हैं अथवा आप लोग इसके मित्र रूपी शत्रु हैं । आप ही लोगों की सलाह से राक्षसजाति का नाश होगा । यह राजा उग्रप्रकृति है और बिना समझे वृत्ते काम कर बैठता है ॥ १६ ॥

अनन्तभोगेन सहस्रमूर्धा

नागेन भीमेन महाबलेन ।

बलात्परिक्षिप्तमिमं भवन्तो

राजानमुत्क्षिप्य विमोचयन्तु ॥ १७ ॥

मैं तो आप सब से यही कहूँगा कि, अपरिच्छिन्न काया वाले, हजार फनों से युक्त भयङ्कर बलवाले श्रीराम रूपी सर्प के मुख में फँसे हुए, रावण को आप लोग किसी तरह बचाइए ॥१७॥

यावद्धि केशग्रहणं सुहृद्भिः

समेत्य सर्वैः परिपूर्णकामैः ।

निगृह्य राजा परिरक्षितव्यो

भूतैर्यथा भीमवलैर्गृहीतः ॥ १८ ॥

जिनके समस्त मनोरथ राजा द्वारा पूर्ण हो चुके हैं; वे राजा को शत्रु द्वारा चोटी पकड़ कर खींचे जाने से वैसे ही बचावें और मान अपमान का विचार न करें, जैसे भयानक भूत लगे हुए पुरुष को, उमके हितैपी बाल पकड़ कर या बरजोरी बाँध कर बचाते हैं। अगर आप यह समझ कर डरते रहते हो कि, राजा बलवान है, तो सब लोग मिल कर ऐसा करें ॥१८॥

✽ सुवारिणा राघवसागरेण

प्रच्छाद्यमानस्तरसार भवद्भिः ।

युक्तस्त्वयं तारयितुं समेत्य

काकुत्स्थपातालमुखे पतन् सः ॥ १९ ॥

सधरित्ररूप जल से पूर्ण, श्रीराम रूपी सागर, रावण पर आक्रमण करना चाहता है अथवा श्रीराम रूपी पातान में यह राक्षसराज गिरने ही वाला है। अतः आप लोगों को चाहिए कि, आप सब मिल कर, इसे बचावें ॥ १९ ॥

१ सुवारिणा—सुचरित्ररूपवारिमता । (रा०) २ तरसा—
आरम्भकाल एव । (गो०) * पाठान्तरे—“संहारिणा ।”

इदं पुरस्यास्य सराक्षसस्य

राज्ञश्च पथ्यं ससुदृज्जनस्य

सम्यग्धि वाक्यं ॐ स्वमतं व्रवीमि

नरेन्द्रपुत्राय ददामि पत्नीम् ॥ २० ॥

इस लङ्कापुरी के, राजसों के, रावण के और उसके हिनैपियों के हित के लिए, मैं भली-भाँति सोच विचार कर अपनी यह सम्मति देता हूँ, राजसराज, श्रीराम को सीता दे डालें ॥ २० ॥

परस्य वीर्यं स्वबलं च बुद्ध्या

स्थानं क्षयं चैव तथैव वृद्धिम् ।

तथा स्वपक्षेऽप्यनुगृह्य बुद्ध्या

वदेत्क्षमं स्वामिहितं च मन्त्री ॥ २१ ॥

इति चतुर्दशः सर्गः ॥

यथार्थ मन्त्री वही है, जो अपने और शत्रु के बल, स्थिति, अवनति और उन्नति को अच्छी तरह समझ बूझ कर, स्वामी के लिए हितकर सम्मति देता है ॥ २१ ॥

युद्धकाण्ड का चौदहवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

पञ्चदशः सर्गः

—:०:—

बृहस्पतेस्तुल्यमतेर्वचस्त-

न्निशम्य यत्नेन विभीषणस्य ।

ततो महात्मा वचनं वभाषे

तत्रेन्द्रजिन्नै ऋतयोधमुख्यः ॥ १ ॥

बृहस्पति के समान बुद्धिसम्पन्न विभीषण की बातें बड़े ध्यान से सुन, निशाचर यूथपतियों में मुख्य महाबलवान् मेघनाद बोला ॥ १ ॥

किं नाम ते तात कनिष्ठवाक्य-

मनर्थकं चैव सुभीतवच्च ।

अस्मिन् कुले योऽपि भवेन्न जातः

सोऽपीदृशं नैव वदेन्न कुर्यात् ॥ २ ॥

हे चाचा ! तुम भीरुजनों जैसी अनर्थ करने वाली ये बातें क्या कह रहे हो जो पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न नहीं हुआ, वह भी ऐसी बातें न तो कहेगा और न तदनुसार काम ही करेगा ॥ २ ॥

सत्त्वेन वीर्येण पराक्रमेण

शौर्येण धैर्येण च तेजसा च ।

एकः कुलेऽस्मिन् पुरुषो विमुक्तो

विभीषणस्तात कनिष्ठ एषः ॥ ३ ॥

देखो महानुभावो ! मेरे पिता के छोटे भाई यह अकेले विभीषण इस वंश में ऐसे उपजे जो बल, प्रभाव, पराक्रम, शौर्य, धैर्य और तेज से हीन हैं ॥ ३ ॥

किं नाम तौ राक्षस राजपुत्रा-

वस्माकमेकेन हि राक्षसेन ।

सुप्राकृतेनापि ऋरणो निहन्तुं

शक्यौ कुतो भीषयसे स्म भीरो ॥ ४ ॥

अरे डरपोंक विभीषण ! उन दो मनुष्य राजपूतों की मजाल ही क्या है ? उन दोनों को तो हमारे यहाँ का एक मामूली राक्षस युद्ध में भार डाल सकता है । तुम इतना क्यों डरा रहे हो ? ॥४॥

त्रिलोकनाथो ननु देवराजः

शक्रौ मया भूमितले निविष्टः ।

भयादिताश्चापि दिशः प्रपन्नाः

सर्वे तथा देवगणाः समग्राः ॥ ५ ॥

अरे जो तीनों लोकों का नाथ इन्द्र है, उसे तो मैं पकड़ कर पृथिवी पर ले आया था । क्या तुमको याद नहीं कि, उस समय सारे के सारे देवता मुझसे भयभीत हो इधर-उधर भाग गए थे ॥५॥

ऐरावतो विस्वरमुन्नदन्स

निपातितो भूमितले मया तु ।

निकृष्य दन्तौ तु मया प्रसह्य

वित्रासिता देवगणाः समग्राः ॥ ६ ॥

जोर से चिल्लाते हुए ऐरावत को मैंने उठा कर पटक दिया और दाँतों को उखाड़ कर, सब देवताओं को भी भयभीत कर दिया था ॥ ६ ॥

सोऽहं सुराणामपि दर्पहन्ता
 दैत्योत्तमानामपि शोकदाता ।
 कथं नरेन्द्रात्मजयोर्न शक्तो
 मनुष्ययोः प्राकृतयोः सुवीर्यः ॥ ७ ॥

सो मैं वही देवताओं का दर्प दलन करने वाला, बड़े-बड़े दैत्यों को शोकान्वित करने वाला हो कर भी, क्या उन राजकुमारों के साथ, जो मामूली आदमी हैं, युद्ध न कर सकूँगा ? ॥ ७ ॥

अथेन्द्रकल्पस्य दुरासदस्य
 महौजसस्तद्वचनं निशम्य ।
 ततो महार्थं वचनं वभाषे
 विभीषणः शस्त्रभृतां वरिष्ठः ॥ ८ ॥

इन्द्र के समान अजेय महातेजस्वी इन्द्रजीत के ये वचन सुन कर, धनुषधारियों में श्रेष्ठ विभीषण ने महाअर्थयुक्त ये वचन कहे ॥ ८ ॥

न तात मन्त्रे तव निश्चयोऽस्ति
 बालस्त्रमद्याप्यविपक्वबुद्धिः ।
 तस्माच्चया ह्य्यात्मविनाशनाय
 वचोऽर्थहीनं बहु विप्रलसम् ॥ ९ ॥

हे वेदा ! तुम करने अनकरने कामों का विचार करने में अत्यन्त अज्ञानी हो; क्योंकि अब तक तुम्हारी बालकों जैसी अपक बुद्धि है। इसी से तुम अपना सत्यानाश करने के लिए, निष्प्रयोजन बकवाद कर रहे हो ॥ ९ ॥

पुत्रप्रवादेन तु रावणस्य

त्वमिन्द्रजिन्मित्रमुखोऽसि शत्रुः ।

यस्येदृशं राघवतो विनाशं

निशम्य मोहादनुमन्यसे त्वम् ॥ १० ॥

तुम रावण के पुत्र इन्द्रजान अचश्य कहलाते हो, परन्तु हो तुम राक्षसराज के मित्रहारी शत्रु । क्योंकि राक्षसराज को घोर विपत्ति में फँसे हुए देख कर भी, तुम मोहवश उनको नहीं रोकते ॥ १० ॥

त्वमेव बध्यश्च सुदुर्मतिश्च

स चापि बध्यो य इहानयत्त्वाम् ।

बालं दृढं साहसिकं न योऽद्य

प्रावेशयन्मन्त्रकृतां समीपम् ॥ ११ ॥

तुम बड़े कुबुद्धि हा और इसलिए मार डालने के योग्य हो और वह भी मार डालने के योग्य है, जिसने तुम जैसे शत्रुक और अत्यन्त दुस्साहसी को लान्तर इन मंत्रण-सभा ने बैठाया ॥११॥

मूढः प्रगल्भोऽविनयोपपन्न-

स्तीक्ष्णस्वभावोऽल्पमतिर्दुरात्मा ।

मूर्खस्त्वमत्यन्तसुदुर्मतिश्च

त्वमिन्द्रजिद्वालतया त्रयीपि ॥ १२ ॥

तू बड़ा अविवेकी, ढीठ, अशिक्षित, क्रूरस्वभाव, कमअक्ल, दुरात्मा, बिना समझे वृत्ते काम करने वाला और अत्यन्त कुबुद्धि है। तू लड़को जैसी बातें करता है ॥ १२ ॥

को ब्रह्मदण्डप्रतिभप्रकाशा-

नचिष्मतः कालानिकाशरूपान् ।

सहेत वाणान् यमदण्डकल्पान्

समक्षमुक्तान् युधि राघवेण ॥ १३ ॥

जब श्रीराम रणभूमि में खड़े हो कर, ब्रह्मदण्ड अथवा कालाग्नि के समान चमकते हुए तीखे वाण छोड़ेंगे, तब उनको कौन सह सकेगा ? ॥ १३ ॥

धनानि रत्नानि विभूषणानि

वासांसि दिव्यानि मणीश्च चित्रान् ।

सीतां च रामाय निषेद्य देवीं

वसेम राजन्निह वीतशोकाः ॥ १४ ॥

इति पञ्चदशः सर्गः ॥

हे राजन् ! धन, रत्न, आभूषण, बढ़िया वस्त्र और रत्न विरङ्गी मणियों सहित तुम श्रीराम को सीता दे डालो जिससे हम लोग आनन्द पूर्वक इस पुरी में रह सकें ॥ १४ ॥

युद्धकाण्ड का पन्द्रहवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

षोडशः सर्गः



सुनिविष्टं हितं वाक्यमुक्तवन्तं विभीषणम् ।

अब्रवीत्परुषं वाक्यं रावणः कालचोदितः ॥ १ ॥

जब धर्मात्मा विभीषण ने इन प्रकार के अर्थरुक्त एवं हित-कर वचन कहे, तब रावण ने विभीषण के प्रति बड़े हा कठार वचन कहे । क्योंकि उसके सिर पर तो काल खन रहा था ॥१॥

वसेत्सह सपत्नेन क्रुद्धेनाशीविषेण वा ।

न तु मित्रप्रभादेन संवसेच्छत्रुसेविना ॥ २ ॥

भले ही कोई शत्रु के अर्थ में जहर लेना पकें साथ रह ले, किन्तु शत्रु के पक्षपाती मित्ररुग्ण शत्रु के साथ कभी न रहे ॥२॥

जानामि शीलं ज्ञातीनां सर्वलोकेषु राक्षस ।

हृष्यन्ति व्यसनेप्त्रेते ज्ञातीनां ज्ञातयः सदा ॥ ३ ॥

मैं सब लोगों के ज्ञानवानों का स्वभाव भला भाँति जानता हूँ कि, विरादरी में जब एक पर विपत्ति पड़ना है, तब दूसरे प्रसन्न होते हैं ॥ ३ ॥

प्रधानं साधनं वैद्यं धर्मशीलं च राक्षस ।

ज्ञातयो ह्यवमन्यन्ते शूरं परिभवन्ति च ॥ ४ ॥

जाति के मुखिया, कार्य-प्रवक, विद्वान् और धर्मात्मा का, कुटुम्ब वाले सदा अपमान हा किया करते हैं और उनका शूर-वीर होता है, उसका वे अस्कार करना चाहते हैं ॥४॥

१ साधनं—कार्यसाधकं । (गो०) २ वैद्यं—विद्वान् । (गो०)

नित्यमन्योन्यसंहृष्टा व्यसनेष्वाततायिनः ।

प्रच्छन्नहृदया घोरा ज्ञातयस्तु भयावहाः ॥ ५ ॥

जाति वाले बड़े निर्दयी होते हैं । क्योंकि नित्य भले ही वे आपस में हर्षित हो कर रहें, किन्तु विपत्ति पड़ने पर वे आत-
तायी हो जाते हैं । वे अपने मन का भाव मन ही में छिपाए
रखते हैं ॥५॥

श्रूयन्ते हस्तिभिर्गीताः श्लोकाः पद्मवने क्वचित् ।

पाशहस्तान्नरान् दृष्ट्वा शृणु तान् गदतो मम ॥६॥

सुना जाता है कि, पद्मवन के हाथियों ने उस समय एक वार
कुछ श्लोक कहे थे, जिस समय बहुत से लोग उनको बाँधने के
लिए रस्से लिए हुए चले आते थे । मैं कहता हूँ—तुम सुनो ॥६॥

नाग्निर्नान्यानि शस्त्राणि न नः पाशा भयावहाः ।

घोराः स्वार्थप्रयुक्तास्तु ज्ञातयो नो भयावहाः ॥७॥

हाथियों ने कहा था कि, अग्नि, शस्त्र और फन्दों से हम
जुरा भी नहीं डरते, हम तो स्वार्थपरायण एवं भयङ्कर अपने
जाति वालों से डरते हैं ॥७॥


उपायमेते वदन्ति ग्रहणे नात्र संशयः ।

कृत्स्नाद्भयाज्ज्ञातिभयं सुकृष्टं विदितं च न ॥ ८ ॥


क्योंकि पकड़ने का उपाय ये ही बतलाते हैं । मुझे यह बात
भली भौंति मालूम है कि, सब भयों से बड़ कर विरादरी वालों
का भय कष्टदायक है ॥८॥

विद्यते गोपु सरूपन्नं विद्यते ब्राह्मणे दमः ।

विद्यते स्त्रीषु चापत्यं विद्यते ज्ञातितो भयम् ॥ ९ ॥



युद्धकाण्ड



AKW

जिस प्रकार गौश्रों में हव्य कव्यादि के लिए दुग्ध, ब्राह्मणों में इन्द्रिय निग्रहत्व और स्त्रियों में चपलता विद्यमान रहती है, उसी प्रकार जातिवालों से भय सदा रहना है ॥ ६ ॥

ततो नेष्टमिदं सौम्य तदहं लोकसत्कृतः ।

ऐश्वर्येणाभिजातश्च रिपूणां मूर्ध्नि च स्थितः ॥ १० ॥

मैंने शत्रुओं को पराजित कर अतुलित यश प्राप्त किया है व तीनों लोक मेरा सम्मान करते हैं, सो हे सौम्य ! मैं जान गया कि, मेरा यह उत्कर्ष तुमको अच्छा नहीं लगता ॥ १० ॥

यथा पुष्करपर्णेषु पतितास्तोयविन्दवः ।

न श्लेषमुपगच्छन्ति तथाऽनार्येषु सौहृदम् ॥ ११ ॥

जैसे कमल के पत्ते पर जल की वृद्धें नहीं ठहर सक्तीं, वैसे ही क्रूरस्वभाव वाले पुरुष के साथ मैत्री करने से, वह मैत्री उसके मन से किसी प्रकार भी नहीं ठहरती ॥ ११ ॥

[यथा मधुकरस्तर्पात्काशपुष्पं पिबन्नपि ।

रसमत्र न विन्देत तथाऽनार्येषु सौहृदम्] ॥ १२ ॥

जिस प्रकार भारे फूलों का रस भली भाँति पीकर भी वहाँ नहीं रहते—वैसे ही दुर्जनजन काम निकल जाने पर मैत्री का ख्याल नहीं रखते ॥ १२ ॥

यथा पूर्वं गजः स्नात्वा गृह्य हस्तेन वै रजः ।

दूषयत्यात्मनो देहं तथाऽनार्येषु सौहृदम् ॥ १३ ॥

जिस तरह हाथी जल में स्नान कर फिर मूँड में धूल-भर उस से अपने शरीर को मजिन कर डालता है, उपा तरह दुर्जन के साथ की हुई मैत्री का परिणाम होता है ॥ १३ ॥

यथा ॐशरदि मेघानां सिञ्चतामपि गर्जताम् ।

न भवत्यम्बुसंकलेदस्तथाऽनार्येषु सौहृदम् ॥ १४ ॥

जिस प्रकार शरदऋतु में बादलों के गरजने और बरसने से पृथिवी का कुछ भी उपकार नहीं होता उसी प्रकार दुर्जन के साथ मैत्री करने से कुछ भी लाभ नहीं होता ॥ १४ ॥

अन्यस्त्वेवंविधं ब्रूयाद्वाक्यमेतन्निशाचर ।

अस्मिन् मुहूर्ते न भवेत्त्रां तु धिक्कुलपांसनम् ॥१५॥

हे विभीषण ! तूने जैसी बातें अभी कही हैं, यदि वैसी बातें कोई दूसरा कहता तो तत्काल उसे मैं मरवा डालता, (पर तू भाई है, इसका विचार है) विभीषण ! तुम्हें कुलकलङ्क को धिक्कार है ॥ १५ ॥

इत्युक्तः परुषं वाक्यं न्यायवादी विभीषणः ।

उपपात गदापाणिश्चतुर्भिः सह राक्षसैः ॥१६॥

अब्रवीच्च तदा वाक्यं जातक्रोधो विभीषणः ।

अन्तरिक्षगतः श्रीमान् आतरं राक्षसाधिपम् ॥१७॥

जब न्यायवादी (ठीक ठीक कहने वाले) विभीषण को रावण ने इस प्रकार धिक्कारा; तब वह चार राक्षसों के साथ हाथ में गदा लिए हुए उड़ कर आकाश में पहुँचा । आकाश में पहुँच और क्रोध में भर विभीषण ने अपने भाई राक्षसराज रावण से ये वचन कहे ॥ १६ ॥ १७ ॥

स त्वं आताऽसि मे राजन्ब्रूहि मां यद्यदिच्छसि ।

ज्येष्ठो मान्यः पितृसमो न च धर्मपथे स्थितः ॥१८॥

हे राजन् ! तुम मेरे भाई हो, इससे जो चाहो सो कह लो ।
बड़े भाई होने के कारण तुम पितृतुल्य और पूज्य हो; किन्तु
तुम धर्मपथाह्वद नहीं हो ॥ १५ ॥

इदं तु परुषं वाक्यं न क्षमाम्यहितं ॥ तत्र ।

१ सुनीतं हितकामेन वाक्यमुक्तं दशानन ॥ १६ ॥

अतः मैं तुम्हारे इन कठोर और अप्रिय वचनों को न
सहूँगा । हे दशानन ! मैंने जो कहा था सो तुम्हारी भलाई के
लिए ही कहा था और वह कहा था जो निश्चय ही आगे होने
वाला है, किन्तु तुमने उन बातों पर ध्यान न दिया ॥ १६ ॥

न गृह्णन्त्यकृतात्मानः कालस्य वशमागताः ।

सुलभाः पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः ॥ २० ॥

तुम ध्यान देते भी क्यों ? तुम्हारे सिर पर तो काल डेल
रहा है । जो अनात्मज्ञ पुरुष होते हैं, वे ऐसी बातों पर ध्यान
नहीं देते । हे राजन् ! सदैव चिकनी चुपड़ी बातें कहने वाले
मनुष्य बहुत मिलते हैं ॥ २० ॥

अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः ।

वद्वं कालस्य पाशेन सर्वभृतापहारिणा ॥ २१ ॥

अप्रिय, किन्तु न्याययुक्त बातें कहने वाले और सुनने वाले
मनुष्यों का मिलना कठिन है । सब प्राणियों को हरण करने
वाले काल के पाश में तुमको फँसा हुआ ॥ २१ ॥

न नश्यन्तमुपेक्ष्यं प्रदीप्तं शरणां यथा ।

दीप्तपावकसङ्काशैः शितैः काञ्चनगूणैः ॥ २२ ॥

१ सुनीतं—सुनिश्चितागामिफलबोध वाक्यं । २०) गतान्त—
“क्षमाम्यनृतं ।”

और नष्ट होते देख, मुझसे न रहा गया। भला घर को जलते देख कौन चुपचाप बैठा रह सकता है। प्रज्वलित अग्नि की तरह चमकते, पैने और सुवर्णभूषित ॥ २२ ॥

न त्वामिच्छाम्यहं द्रष्टुं रामेण निहतं शरैः ।

शूराश्च बलवन्तश्च कृतास्त्राश्च रणाजिरे ॥ २३ ॥

कालाभिपन्नाः सीदन्ति यथा बालुकसेतवः ।

तन्मर्षयतु यच्चोक्तं गुरुत्वाद्वितमिच्छता ॥ २४ ॥

वाणों से, राम द्वारा तेरा मारा जाना मैं देखना नहीं चाहता। वड़े वड़े शूर, बलवान और अस्त्र चलाने में चतुर लोग भी काल के वशवर्ती हो, बालू की भीत की तरह, युद्ध में बहुत शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। हे भाई! जो कुछ भी हो, तुम पूज्य हो। अतः मैंने तुम्हारे हित की कामना से, जो कुछ कहा है उसे क्षमा करना ॥ २३ ॥ २४ ॥

आत्मानं सर्वथा रक्ष पुरीं चेमां सराक्षसाम् ।

स्वस्ति तेऽस्तु गाम्निष्यामि सुखी भव मया विना ॥२५॥

अपनी और राक्षसों सहित इस लङ्कापुरी की रक्षा करना। तुम्हारा मङ्गल हो, मैं अब जाऊँगा। अब मेरे न रहने से तुम सुखी हो ॥ २५ ॥

नूनं न ते ऋराक्षस कश्चिदस्ति

रक्षोनिकायेषु सुहृत्सखा वा ।

हितोपदेशस्य न मन्त्रवक्ता

यो वारयेत्त्वां स्वयमेव पापात् ॥ २६ ॥

हे निशाचर ! मुझे दुःख है कि, इस राजमपुरी में निश्चय ही तुम्हारा कोई ऐसा हितैषी अथवा मित्र नहीं है, जो तुमसे तुम्हारे हित की बातें कह तुम्हें सत्परामर्श देता हुआ, तुमको बुरे कामों के करने से रोकता ॥२६॥

निवार्यमाणस्य मया हितैषिणा

न रोचते ते वचनं निशाचर ।

१परीतकाला हि गतायुषो नरा

हितं न गृह्णन्ति सुहृद्भिरीरितम् ॥ २७ ॥

इति षोडशः सर्गः ॥

हे निशाचर ! मैं तो तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिये ही रोकता था, किन्तु मेरी बात तुम्हें अच्छी ही नहीं लगी । ठीक है, जिन लोगों की आयु पूरी होने को होती है और जिनके मिर पर काल खेलना है, वे मित्रों की कही हुई हितकर बातों को नहीं मानने ॥२७॥

युद्धकाण्ड का सोलहवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—:०:—

सप्तदशः सर्गः

—:०:—

इत्युक्त्वा परुषं वाक्यं रावणानुजः ।

आजगान सुहूर्तेन यत्र रामः सल्लक्ष्मणः ॥ १ ॥

रावण का छोटा भाई विभीषण, रावण से इस प्रकार कठोर वचन कह, एक सुहूर्त में वहाँ जा पहुँचा, जहाँ लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्रजी थे ॥ १ ॥

१ परीतकालाः - परीतः प्रत्याहन्नः कालो देशं ते तयोक्ताः । (२०)

तं मेरुशिखराकारं दीप्तामिव शतहृदाम् ।

गगनस्थं महीस्थास्ते ददृशुर्वानराधिपाः ॥ २ ॥

विजली की तरह चमचमाते, सुमेरु पर्वत की चोटी की तरह आकाशस्थित विभीषण को, नीचे से वानरयूथपतियों ने देखा ॥२॥

स हि भेषाचलप्रख्यो वज्रायुधसमप्रभः ।

वरायुधधरो वीरो दिव्याभरणभूषितः ॥ ३ ॥

मेघ अथवा पहाड़ की तरह विशालवपुधारी और इंद्र के वज्र की तरह प्रभायुक्त, उत्तम आयुधों को लिये हुए और सुन्दर आभूषणों से शोभित वीर विभीषण को वानरों ने आकाश में देखा ॥३॥

ये चाप्यनुचरास्तस्य चत्वारो भीमविक्रमाः ।

तेऽपि वर्मायुधोपेता भूषणैश्च विभूषिताः ॥ ४ ॥

विभीषण के जो भीम पराक्रमी चार अनुचर थे, वे भी कवच पहिने हुए थे, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थे और भूषणों से भूषित थे ॥ ४ ॥

तमात्मपञ्चमं दृष्ट्वा सुग्रीवो वानराधिपः ।

वानरैः सह दुर्धर्षश्चिन्तयामास बुद्धिमान् ॥ ५ ॥

दुर्धर्ष, बुद्धिमान् एवं वानरराज सुग्रीव इन पाँच व्यक्तियों को देख, अन्य वानरों सहित सोचने लगे ॥५॥

चिन्तयित्वा मुहूर्तं तु वानरांस्तानुवाच ह ।

हनुमत्प्रमुखान्सर्वानिदं वचनमुत्तमम् ॥६॥

तदनन्तर एक मुहूर्त तक कुछ सोच विचार कर, हनुमानादि वानरों से सुग्रीव ने ये उत्तम वचन कहे ॥६॥

एष सर्वायुधोपेतश्चतुर्भिः सह राज्ञसैः ।

राज्ञसोऽभ्येति पश्यध्वमस्मान्हन्तुं न संशयः ॥७॥

देखो, यह कोई राक्षस है, जो सब आयुधों से लैम अपने चार साथियों के साथ, निम्नन्देह हम सब लोगों को मारने के लिए आ रहा है ॥ ७ ॥

सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा सर्वे ते वानरोत्तमाः ।

सालात्तुद्यम्य शैलांश्च इदं वचनमब्रुवन् ॥८॥

जब सुग्रीव ने इस प्रकार कहा, तब उन सब वानरश्रेष्ठों ने बड़े बड़े शालवृक्ष और शिलाएँ हाथों में ले सुग्रीव से यह कहा ॥८॥

शीघ्रं व्यादिश नो राजन् वधायैषां दुरात्मनाम् ।

निपतन्ति हता यावद्दरण्यामल्पतेजसः ॥ ९ ॥

हे राजन् ! इस दुरात्मा को मारने की हम लोगों को आप शीघ्र आज्ञा दें । हम इस अल्पबल वाले को मार कर अभी नीचे गिराए देते हैं ॥ ९ ॥

तेषां सम्भाषमाणानामन्योन्यं स विभीषणः ।

उत्तरं तीरमासाद्य खस्थ एव व्यतिष्ठत ॥ १० ॥

इधर तो वानर इस प्रकार आपस में बातचीत कर रहे थे, उधर विभीषण समुद्र के उत्तरतट के ऊपर पहुँच आकाश ही में रुक गया ॥ १० ॥

उवाच च महाप्राज्ञः स्वरेण महता महान् ।

सुग्रीवं तांश्च सम्प्रेक्ष्य सर्वान् वानरयूथपान् ॥ ११ ॥

सुग्रीव तथा अन्य समस्त वानरयूथपतियों को घोर दृष्ट, बुद्धिमान् विभीषण ने बड़े उच्च स्वर से कहा ॥ ११ ॥

रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वरः ।

तस्याहमनुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः ॥१२॥

राक्षसों का राजा रावणनामक एक राक्षस है जो बड़ा दुराचारी है। मैं उसी का छोटा भाई हूँ और मेरा नाम विभीषण है ॥ १२ ॥

तेन सीता जनस्थानाद्धृता हत्वा जटायुषम् ।

रुद्धा च विवशा दीना राक्षसीभिः सुरक्षिता ॥१३॥

वही जटायु को मार कर जनस्थान से सीता को हर लाया था। वह बेचारी सीता राक्षसियों के बीच विवश और दीन हो कैद में है ॥ १३ ॥

तमहं हेतुभिर्वाक्यैर्विविधैश्च न्यदर्शयम् ।

साधु निर्यात्यतां सीता रामायेति पुनः पुनः ॥ १४ ॥

मैंने रावण को कितनी ही युक्तियों से समझाया और कितनी ही बार कहा कि, अच्छा हो तू सीता रामचन्द्र को दे दे ॥१४॥

स च न प्रतिजग्राह रावणः कालचोदितः ।

उच्यमानं हितं वाक्यं विपरीत इवौषधम् ॥१५॥

किन्तु उसने मेरी बात न मानी, क्योंकि उसके सिर पर तो काल खेल रहा है। जिस प्रकार मरणासन्न रोगी को दवा बुरी लगती है, उसी प्रकार रावण को मेरी कही हुई हितकर बातें उल्टी लगीं ॥ १५ ॥

सौऽहं परुषितस्तेन दासवच्चावमानितः ।

त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च रावणं शरणं गतः ॥१६॥

उसने मुझसे बड़े कठोर वचन कहे और टहलुए की तरह मेरा अनादर किया। अतः अब मैं पुत्र कलत्रादि सब को त्याग श्रीरामचन्द्र जी के शरण में आया हूँ ॥ १६ ॥

सर्वलोकशरण्याय राघवाय महात्मने ।

निवेदयत मां क्षिप्रं विभीषणमुपस्थितम् ॥१७॥

सब लोकों के रक्षक महात्मा श्रीरामचन्द्र जी से आप लोग शीघ्र निवेदन कर दें कि, विभीषण आया है ॥ १७ ॥

एतत्तु वचनं श्रुत्वा सुग्रीवो लघुविक्रमः

लक्ष्मणस्याग्रतो रामं संसंख्यमिदमब्रवीत् ॥१८॥

विभीषण के ये वचन सुन, सुग्रीव शीघ्रतापूर्वक गण और लक्ष्मण के सामने श्रीरामचन्द्र जी से प्रेम में भर, शीघ्रतापूर्वक कहने लगे ॥ १८ ॥

रावणस्यानुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः ।

चतुर्भिः सह रक्षोभिर्भवन्तं शरणं गतः ॥१९॥

रावण का छोटा भाई जिनका नाम विभीषण है, चार राक्षसों को लेकर आपके शरण में आया है ॥ १९ ॥

मन्त्रे व्यूहे नये चारे युक्तो भवितुमर्हसि ।

वानराणां च भद्रं ते परेषां च परन्तप ॥२०॥

हे शत्रुतापन ! जिस प्रकार वानरों की भलाई हो, उस प्रकार आप करने अनकरने कामों का विचार करें, व्यूह रचना करवावें और शत्रुसैन्य का वृत्तान्त जानने को जासूस नियत कर, सावधान हो जाय ॥ २० ॥

१ लघुविक्रमः—शीघ्रगमनः । (गो०) २ संसंख्यं—प्रेमभरित-रितोदिताक्षरं । (गो०)

१ अन्तर्धानगता ह्येते राक्षसाः कामरूपिणः ।

शूराश्च निकृतिज्ञाश्च तेषु जातु न विश्वसेत् ॥२१॥

हे राघव ! ये राक्षस हैं । ये जब चाहें तब इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हैं, ये अदृश्यचारी तथा बड़े वीर और बड़े कपटी हैं ॥ २१ ॥

३ प्रणधी राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य भवेदयम् ।

अनुप्रविश्य सोऽस्मासु भेदं कुर्यान्न संशयः ॥२२॥

मुझे तो यह राक्षसराज रावण का जासूस जान पड़ता है । निश्चय ही यह हम लोगों से हिलमिल कर, हम लोगों ही में परस्पर भेदभाव उत्पन्न कर देगा ॥ २२ ॥

अथवा स्वयमेवैष छिद्रमासाद्य बुद्धिमान् ।

अनुप्रविश्य विश्वस्ते कदाचित्प्रहरेदपि ॥२३॥

अथवा जब कभी हम इस पर विश्वास कर असावधान होंगे, तब यह अचसर पक्षे ही हम लोगों पर आक्रमण कर देगा—क्योंकि यह है बुद्धिमान् ॥ २३ ॥

मित्राटवीवलं चैव षमौलं भृत्यवलं तथा ।

सर्वमेतद्वलं ग्राह्यं वर्जयित्वा द्विषद्वलम् ॥२४॥

मित्रों, वनवासियों, परंपरागत सैनिकों अथवा अपने अर्धानस्थ राजाओं की तथा नौकर रखी हुई सेना—इन सब से काम ले ले, किन्तु शत्रुसैन्य पर सहायता के लिए कभी विश्वास न करे ॥ २४ ॥

१ अन्तर्धानगताः—अदृश्यचारिणः । (गो०) २ निकृतिज्ञाः—कपटोपायवेदिनः । (गो०) ३ प्रणधिः—चारः । (गो०) ४ मौलं—परंपरागतं सैन्यं । (गो०)

प्रकृत्या राक्षसो ह्येष आताडमित्रस्य वै प्रभो ।

आगतश्च रिपोः पक्षात्क्रायमस्मिन्हि विश्वसेत् ॥२५॥

हे प्रभो ! एक तो यह स्वभाव ही से राक्षस ठहरा, दूसरे शत्रु का भाई है । तीसरे हाल ही में शत्रु के पास से चला आ रहा है । मैं इसका कैसे विश्वास करूँ ॥२५॥

रावणेन प्रणिहितं तमवेहि विभीषणम् ।

तस्याहं निग्रहं सन्ये क्षमं क्षमवतां वर ॥२६॥

यह विभीषण, रावण ही का भेजा हुआ आया है । हे सर्व-समर्थ रावण ! मैं तो इसे ठण्ड देना ही ठीक समझता हूँ ॥२६॥

राक्षसो जिह्वया बुद्ध्या सन्दिष्टोऽवमुपस्थितः ।

प्रहर्तुं मायया च्छन्नो विश्वस्ते त्वयि रावण ॥२७॥

हे रावण ! यह कपटी जायादी राक्षस प्रथम आपके मन में अपनी ओर से विश्वास उत्पन्न कर, अबसर हाथ लगाने पर, आप के ऊपर प्रहार करने के लिए ही रावण का भेजा हुआ, यहाँ आया है ॥२७॥

प्रविष्टः शत्रुसैन्यं हि प्राज्ञः शत्रुत्तर्कितः ।

निहन्यादन्तरं लब्ध्वा उलूक इव त्रायसान् ॥२८॥

हे प्राज्ञ ! यह शत्रु-सैन्य में इसलिये घुसना चाहता है कि, जब अबसर हाथ लगाने पर शत्रु को अनावधान पावे, तब मनो उन्नी षकार मार डाले, जिस प्रकार एक बुधू बहूत से कीटों को मार डालता है ॥२८॥

वध्यतामेष दण्डेन तीव्रेण सचिवैः सह ।

रावणस्य नृशंसस्य आता ह्यप विभीषणः ॥२६॥

अतएव इसे मय इसके मंत्रियों के कड़ी सजा दे कर मार डालना चाहिए । क्योंकि यह उस कसाई रावण का भाई है ॥२६॥

एवमुक्त्वा तु तं रामं संबधो वाहिनीपतिः ।

वाक्यज्ञो वाक्यकुशलं ततो मौनमुपागतन् ॥३०॥

इस प्रकार कुपित हो वाक्यविशारद वानरराज सुग्रीव, वाक्य-कुशल श्रीरामचन्द्र जी से वचन कह, चुप हो गए ॥३०॥

सुग्रीवस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा रामो महायशाः ।

समीपस्थानुवाचेदं हनुमत्प्रमुखान्हरीन् ॥३१॥

सुग्रीव के ये वचन सुन, महायशस्वी श्रीरामचन्द्र, पास बैठे हुए हनुमानादि मुख्य मुख्य वानरों से बोले ॥३१॥

यदुक्तं कपिराजेन राक्षणावरजं प्रति ।

वाक्यं हेतुमदर्थ्यं च भवद्भिरपि तच्छ्रुतम् ॥३२॥

रावण के छोटे भाई के सम्बन्ध मे कपिराज ने जो युक्तियुक्त मतलब की बातें कही हैं, वे सब आप लोगों ने भी सुनी ही हैं ॥३२॥

सुहृदा ह्यर्थकृच्छ्रेषु युक्तं बुद्धिमता सता ।

समर्थेनापि सन्देष्टुं शाश्वतीं भूतिमिच्छता ॥३३॥

सदैव मङ्गलाभिलाषी बुद्धिमान, समर्थ और हितैषी को यही चाहिए कि, सुहृद को, काय करने मे सन्देह उपस्थित होने पर या

सङ्कट पड़ने पर, इसी तरह सम्मति देनी चाहिए । अनः आप लोग भी अपनी अपनी राय दें ॥३३॥

इत्येवं परिपृष्टास्ते स्वं स्वं मितमतन्द्रिताः ।

१सोपचारं तदा राममूचुर्हितचिकीर्षवः ॥ ३४ ॥

जब श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार पूछा; तब बड़ी मूर्खों के साथ वानरों ने श्रीरामचन्द्र जी की भलाई की कामना से, प्रशंसा पूर्वक अपनी अपनी सम्मति दी ॥३४॥

अज्ञातं नास्ति ते किञ्चित्त्रिषु लोकेषु राघव ।

आत्मानं सूचयन् राम पृच्छस्यस्मान्सुहृत्तया ॥३५॥

हे राघव ! तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं, जो आपको मालूम न हो । तुमने सुहृद्भाव से जो पूछा है—यह केवल हम लोगों को तुमने अपनाया है ॥३५॥

त्वं हि सत्यव्रतः शूरो धार्मिको दृढविक्रमः ।

परीक्ष्यकारी स्मृतिमान्सृष्टात्मा सुदृत्सु च ॥ ३६ ॥

तुम सत्यव्रतधारी, शूर, धार्मिक, दृढविक्रमी, भली भाँति जाँच पड़ताल कर काम करने वाले, स्मृतिमान्, इष्टमित्रों के प्रति विश्वास रखने वाले और हितैषी हैं ॥३६॥

तस्मादेकैकशस्तावद्ब्रुवन्तु सचिवास्तव ।

हेतुतो मतिसम्पन्नाः समर्थश्च पुनः पुनः ॥ ३७ ॥

इस समय तुम्हारे समीप बुद्धिमान् और समर्थ मंत्री हैं ! वे अलग अलग युक्तिप्रदर्शनपूर्वक अपनी अपनी सम्मति प्रकट करें ॥३७॥

१ सोपचारं—प्रशंसावारयमेवाह । (गो०)

वा० रा० चु०—११

इत्युक्ते राघवायाथ मतिमानङ्गदोऽग्रतः ।

विभीषणपरीक्षार्थमुवाच वचनं हरिः ॥३८॥

जब वानरों ने श्रीरामचन्द्र जी से इस प्रकार कहा, तब बुद्धिमान अंगद ने सब से प्रथम विभीषण की परिस्थिति का विवेचन करते हुए, अपनी सम्मति दी ॥३८॥

शत्रोः सकाशात्सम्प्राप्तः सवथा शङ्क्य एव हि ।

विश्वासयोग्यः सहसा न कर्तव्यो विभीषणः ॥३९॥

विभीषण, शत्रु के पास से आ रहा है, अतः इसकी ओर से शङ्का उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है। अतएव यह सहसा विश्वास करने योग्य नहीं है ॥ ३९ ॥

छादयित्वाऽऽत्मभावं हि चरन्ति शठबुद्धयः ।

प्रहरन्ति च रन्ध्रेषु सोऽनर्थः सुमहान् भवेत् ॥४०॥

क्योंकि क्रूर स्वभाव वाले राजस सदा अपने मन का भाव छिपाए घूमा करते हैं और अवसर हाथ आते ही प्रहार कर बैठते हैं। जहाँ ऐसा होता है, वहाँ बड़ा भारी अनर्थ होता है ॥४०॥

१ अर्थानर्थौ विनिश्चत्य व्यवसायं भजेत् ह ।

गुणतः संग्रहं कुर्यादोपतस्तु *विसर्जयेत् ॥४१॥

अतएव गुण और दोषों को विचारपूर्वक निश्चित कर त्याग अथवा संग्रहोचित अध्यवसाय में प्रवृत्त होना चाहिए। यदि विभीषण में गुण हों तो उसको मिला लेना चाहिए और यदि दोष हों तो उसका त्याग कर देना ही अच्छा है ॥४१॥

१ अर्थानर्थौ—गुणदोषौ । (गो०) २ व्यवसायं—त्यागसंग्रहोचिता व्यवसायं । (गो०) * पाठान्तरे—“विसर्जयेत् ।”

यदि दोषो महांस्तस्मिस्त्यज्यतामविशङ्कितम् ।

गुणान्वाऽपि बहूञ्ज्ञात्वा सङ्ग्रहः क्रियतां नृप ॥४२॥

यदि विभीषण में कोई बड़ा दोष देख पड़े, तो बिना सन्देह के इसको त्याग देना चाहिए । हे राजन् ! यदि इसमें बहुत से गुण देख पड़ें, तो इसको अपने में मिला लेना चाहिए ॥४२॥

[नोट—किसी भी मनुष्य में गुण ही गुण या दोष ही दोष नहीं हुआ करते—प्रत्येक में गुण भी होते हैं और दोष भी । ऐसी दशा में तो विभीषण का त्याग व संग्रह का विचार दुरुह है । यह सोचकर ही अंगद ने ४२ वें श्लोक में “बड़ा दोष” या “बड़ा गुण” कह कर अपनी पूर्वकथित बात का स्पष्टीकरण किया है ।]

शरभस्त्वथ निश्चित्य सार्थं वचनमत्रशीत् ।

क्षिप्रमस्मिन्नरव्याघ्र चारः प्रतिविधीयताम् ॥४३॥

तदनन्तर शरभ ने कुछ सोच कर, यह सोपपत्तिक (ठिकाने की) बात कही । हे नरव्याघ्र । लङ्का में जासूस भेज कर इसका रहस्य जानना चाहिए ॥४३॥

प्रणिधाय हि चारेण यथावत्सूक्ष्मबुद्धिना ।

परीक्ष्य च ततः कार्यो यथान्याय्यं परिग्रहः ॥४४॥

किसी कुशाग्रबुद्धि भेदिया द्वारा इसका ठीक ठीक पृत्तान्त जानना चाहिए । तदनन्तर भली भोति जान कर, नीति शास्त्रानुसार इसको मिलाना चाहिए ॥४४॥

जाम्बवांस्त्वथ सम्प्रेक्ष्य शास्त्रबुद्ध्या विचक्षणः ।

वाक्यं विज्ञापयामास गुणवद्दोषवर्जितम् ॥ ४५ ॥

तदनन्तर विचक्षण बुद्धिमान् जाम्बवान् ने यथाशास्त्र विचार कर, युक्तियुक्त और दोषवर्जित यह वात प्रकट की ॥४५॥

बद्धवैराच्च पापाच्च राक्षसेन्द्राद्विभीषणः ।

अदेशकाले सम्प्राप्तः सर्वथा शङ्क्यतामयम् ॥ ४६ ॥

हमारे कष्टर शत्रु और पापी रावण के पास से विभीषण ऐसे समय में आया है, जिस समय उसे आना उचित न था, फिर यह स्थान भी इस कार्य के उपयुक्त नहीं है, अतएव इससे सर्वथा सशङ्कित रहना ही उचित है ॥४६॥

ततो मैन्दस्तु सम्प्रोच्य नयापनयकोविदः ।

वाक्यं वचनसम्पन्नो वभाषे हेतुमत्तरम् ॥ ४७ ॥

नीति अनिती की विवेचना करने में दक्ष मैन्द ने भली भौति सोच विचार कर अत्यन्त युक्तियुक्त वचन कहा ॥४७॥

वचनं नाम तस्यैप रावणस्य विभीषणः ।

पृच्छ्यतां मधुरेणायं शनैर्नरवरेश्वर ॥४८॥

हे नरवरेश्वर ! यह विभीषण रावण का छोटा भाई है, अतः इससे शिष्टतापूर्वक धीरे धीरे मधुर शब्दों में सब बातें पूछनी चाहिए ॥४८॥

भावमस्य तु विज्ञाय ततस्तत्त्वं करिष्यसि ।

यदि दुष्टो न दुष्टो वा बुद्धिपूर्वं नरर्षभ ॥४९॥

हे नरर्षभ ! फिर इसके मन की असली बात जान लेने के बाद इसके दुष्ट अथवा साधु होने का विचार कर, जैसा ठीक जान पड़े वैसा तुम करो ॥४९॥

अथ शंस्कारसम्पन्ना हनूमान्सचिवोत्तमः ।

उवाच वचनं श्लक्ष्णमर्थवन्मधुरं लघु ॥ ५० ॥

तदनन्तर सर्व-शास्त्र-विशारद, मंत्रिश्रेष्ठ हनुमान जी ने सन्क्षेप में, किन्तु स्पष्टार्थबोधक मधुर वचनों में कहा ॥५०॥

न भवन्तं मतिश्रेष्ठं समर्थं वदतां वरम् ।

अतिशाययितुं शक्तो बृहस्पतिरपि ब्रुवन् ॥ ५१ ॥

हे स्वामिन् ! आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, समर्थ और बोलने वालों में सर्वोत्तम हैं । बृहस्पति भी आपके सामने बहुत नहीं बोल सकते ॥५१॥

न वादान्नापि सङ्घर्षान्नाधिकयान्न च कामतः ।

वक्ष्यामि वचनं राजन् यथार्थं रामगौरवात् ॥ ५२ ॥

हे राम ! मैं तुमसे तर्ककौशल से, सचिवों की स्पर्धा के वशवर्ती हो, अपने को बड़ा बुद्धिमान वक्ता होने के अभिमान से, भाषण की इच्छा से अथवा विभीषण का पक्षपाती बन कर, कुछ नहीं कहता, किन्तु मैं जो कुछ कहूँगा ठीक ही ठीक और तुम्हारे गौरव का ध्यान रख कर ही कहूँगा ॥५२॥

अर्थानर्थनिमित्तं हि यदुक्तं सचिवैस्तव ।

तत्र दोषं प्रपश्यामि क्रिया न ह्यपपद्यते ॥ ५३ ॥

गुणों और दोषों के विषय में तुम्हारे मंत्रियों ने जो कुछ कहा है, उसमें मुझे दोष देख पड़ते हैं, क्योंकि उससे मुझे कोई काम होता नहीं जान पड़ता ॥५३॥

ऋते नियोगात्सामर्थ्यमवबोद्धुं न शक्यते ।

सहसा विनियोगो हि दोषवान् प्रतिभाति मा ॥५४॥

बिना कोई काम सौंपे तो किसी की हित अनहित भावना का पता चल नहीं सकता । साथ ही सहसा कोई काम सौंप देना भी मेरी समझ में ठीक नहीं है ॥५४॥

चारप्रणिहितं युक्तं यदुक्तं सचिवैस्तव ।

अर्थस्यासम्भवात्तत्र कारणं नोपपद्यते ॥५५॥

भेदिया या चर भेजने के संबन्ध में तुम्हारे मंत्रियों ने जो कुछ कहा है, सो बिना प्रयोजन चर भेजना भी मुझे ठीक नहीं जान पड़ता ॥५५॥

अदेशकाले सम्प्राप्त इत्ययं यद्विभीषणः ।

विवक्षा तत्र मेऽस्तीयं तां निबोध यथामति ॥ ६॥

(जाम्बवान ने कहा था कि) विभीषण ठीक समय और ठीक स्थान पर नहीं आया । इस विषय में मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहना चाहता हूं, (आप लोग ध्यान देकर सुनें) ॥५६॥

स एष देशः कालश्च भवतीति यथातथा ।

पुरुषात्पुरुषं प्राप्य तथा दोषगुणावपि ॥५७॥

विभीषण के आने का यही (उपर्युक्त) स्थान है और यही काल है । एक पुरुष के पास से दूसरे पुरुष के पास आने में जो बुराई भलाई हो सकती है—उसे मैं कहता हूं ॥५७॥

दौरात्म्यं रावणे दृष्ट्वा विक्रमं च तथा त्वयि ।

युक्तमागमनं तस्य सदृशं तस्य बुद्धितः ॥ ५८ ॥

रावण में दुष्टता और तुममें पराक्रम देख, इसका यहां आना सर्वथा ठीक है और यह उसकी बुद्धिमानी को प्रकट करता है ॥ ५८ ॥

अज्ञातरूपैः पुरुषैः स राजन्पृच्छयतामिति ।

यदुक्तमत्र मे प्रेक्षा काचिदस्ति समीक्षिता ॥ ५९ ॥

अज्ञात कुलशील दूत के द्वारा विभीषण का हाल जानने के लिए मैंने जो परामर्श दिया है, सो इस विषय में भी विचार कर मैं जिस परिणाम पर पहुँचा हूँ, उसे भी सुनो ॥ ५९ ॥

पृच्छयमानो विशङ्केत सहसा बुद्धिमान् वचः ।

तत्र मित्रं प्रदुष्येत मिथ्या पृष्टं सुखागतम् ॥६०॥

विभीषण बड़ा बुद्धिमान् है । अतः अज्ञानकुलशील किसी पुरुष के सहसा उससे कुछ पूछने पर, उसके मन में सन्देह उत्पन्न होगा और उत्तर न देगा । फिर सुखप्राप्ति की लालसा से वह तुमसे मैत्री करने आया है—सो ऐसा करने से उस मैत्री में भेद पड़ जायगा ॥ ६० ॥

अशक्यः सहसा राजन् भावो वेत्तुं परस्य वै ।

अन्तः स्वभावैर्गतिस्तैर्नैपुण्यं पश्यता भृशम् ॥६१॥

हे राजन् ! फिर किसी दूसरे के मन की बात सहसा जानी भी नहीं जा सकती, किन्तु चतुरजन कंठस्वर के भेद से और कंठध्वनि से बोलने वाले का अभिप्राय ताड़ जाते हैं ॥६१॥

न त्वस्य व्र वतो जातु लज्यते दुष्टभाषता ।

प्रसन्नं वदनं चापि तस्मान्मे नास्ति शंशयः ॥६२॥

हे राम ! मुझे तो इसकी बोली से इसकी बुरी भावना नहीं जान पड़ती । इसकी मुखाकृति भी हर्षित देख पड़ती है । अतः मुझे तो इस पर कुछ भी सन्देह नहीं है ॥६२॥

अशङ्कितमतिः स्वस्थो न शठः परिसर्पति ।

न चास्य दुष्टा वाक्चापि तस्मान्नास्तीह संशयः ॥६३॥

जो धूर्त होता है वह निर्भीक और स्थिर चित्त होकर नहीं आता । इसकी बोली में भी मुझे कोई दोष नहीं जान पड़ता । अतएव मुझे तो उस पर कुछ भी सन्देह नहीं है ॥६३॥

आकारश्छाद्यमानोऽपि न शक्यो विनिगूहितुम् ।

वलाद्धि विवृणोत्येव भावमन्तर्गतं नृणाम् ॥६४॥

आकार को कोई भले ही छिपावे पर वह छिप नहीं सकता, बल्कि मनुष्य के अन्तःकरण की दुष्टता अथवा साधुता वह बरजोरी प्रकट कर देता है ॥ ६४ ॥

देशकालोपपन्नं च कार्यं कार्यविदां वर ।

स्वफलं कुरुते क्षिप्रं प्रयोगेणाभिसंहितम् ॥६५॥

हे कर्मज्ञों में श्रेष्ठ ! काल और देश का भली भाँति विचार कर, उपयुक्त पुरुष द्वारा जो कार्य किया जाता है, वह शीघ्र फल देता है ॥ ६५ ॥

उद्योगं तव सम्प्रेक्ष्य मिथ्यावृत्तं च रावणम् ।

वालिनश्च वधं श्रत्वा सुग्रीवं चाभिपेक्षितम् ॥६६॥

विभीषण तुमको उद्योगी और रावण को मिथ्या उद्योग में लगा हुआ देख और यह सुन कि, तुमने वाली को मार डाला और सुग्रीव को राज्य दिला दिया है ॥ ६६ ॥

राज्यं प्रार्थयमानश्च बुद्धिपूर्वमिहागतः ।

एतावत्तु पुरस्कृत्य युज्यते त्वस्य संग्रहः ॥६७॥

लङ्का का राज्य पाने के लोभ से, भली भाँति समझ बूझ कर यहां आया है इन बातों पर ध्यान देते हुए विभीषण का लेना ही उचित है ॥ ६७ ॥

यथाशक्ति मयोक्तं तु राक्षसस्यार्जवंशं प्रति ।

त्वं प्रमाणं तु शेषस्य श्रुत्वा बुद्धिमतां वर ॥६८॥

इति सप्तदशः सर्गः ॥

हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ! मैंने निज बुद्धिद्वयनुसार विभीषण के निर्दोषत्व केबारे में जो कुछ कहा—उसे तुम सुन ही चुके, अब विभीषण को ग्रहण करना न करना तुम्हारी इच्छा के ऊपर है ॥ ६८ ॥

युद्धकांड का सप्तत्रहवांः सर्ग पूरा हुआ ।

—:०:—

अष्टादशः सर्गः

अथ रामः प्रसन्नात्मा श्रुत्वा वायुसुतस्य ह ।

प्रत्यभाषत दुर्धर्षः २श्रुत्वान्नात्मनि स्थितम् ॥१॥

तदनन्तर सर्वशास्त्रवेत्ता, अजेय श्रीरामचन्द्र जी हनुमान जी की बातें सुन प्रसन्न हुए और स्वस्थ हो बोले ॥ १ ॥

१ आर्जवं—निर्दोषत्वं । (गो०) २ श्रुत्वान्—सकलशास्त्रधनयवान् । (रा०)

ममापि तु विवक्षाऽस्ति काचित्प्रति विभीषणम् ।

श्रोतमिच्छामि तत्सर्वं भवद्भिः श्रेयसि स्थितैः ॥२॥

हे वानरो ! विभीषण के विषय में मुझे भी कुछ वक्तव्य है । आप सब मेरे हितैषी हैं, अतः मैं (पहले) आपकी बातें सुनना चाहता हूँ ॥ २ ॥

मित्रभावेन सम्प्राप्तं न त्यजेर्यं कथञ्चन ।

दोषो यद्यपि तस्य स्यात्सतामेतदगर्हितम् ॥३॥

यदि विभीषण मित्रभाव से आया हो तो मैं इसे कभी त्यागना नहीं चाहता । भले ही उसमें कोई दोष भी हो । क्योंकि शिष्टजनों का यही अनिन्दित कर्तव्य है ॥ ३ ॥

सुग्रीवस्त्वथ तद्वाक्यमाभाष्य च विमृश्य च ।

ततः शुभतरं वाक्यमुवाच हरिपुङ्गवः ॥४॥

तदनन्तर वानरराज सुग्रीव, श्रीरामचन्द्र जी के वचनों की विवृत्ति कर और मन में समझवूझ कर, अपनी पहिली बात का अनुमोदन करते हुए बोले ॥ ४ ॥

सुदुष्टो वाऽप्यदुष्टो वा किमेष रजनीचरः ।

ईदृशं व्यसनं प्राप्तं भ्रातरं यः परित्यजेत् ॥५॥

को नाम स भवेत्तस्य यमेष न परित्यजेत् ।

वानराधिपतेर्वाक्यं श्रुत्वा सर्वानुदीच्य च ॥६॥

यह दुष्ट हो या साधु ; किन्तु है तो राजस ही । इसने ऐसी विपत्ति में पड़े हुए अपने भाई का साथ क्यों छोड़ा ? फिर जब इसने सङ्कट के समय अपने सगे भाई को ही छोड़ दिया तब यह किसका सगा हो सकता है। वानरराज के इन वचनों को सुन, श्रीरामचन्द्र जी ने सब की ओर देखा ॥ ५ ॥ ६ ॥

ईषदुत्समयमानस्तु लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम् ।

इति होवाच काङ्कत्स्थो वाक्यं सत्यपराक्रमः ॥७॥

तदनन्तर मुसक्या कर सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी ने शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण जी से यह कहा ॥ ७ ॥

अनधीत्य च शास्त्राणि वृद्धाननुपसेव्य च ।

न शक्यमीदृशं वक्तुं यदुवाच हरीश्वरः ॥८॥

वानराज सुग्रीव ने जैसा कहा है वैसा कोई दूसरा बिना शास्त्रों को पढ़े और बिना वृद्धों की सेवा किए नहीं कह सकता ॥ ८ ॥

अस्ति सूक्ष्मतरं किञ्चिद्यदत्र प्रतिभाति मे ।

प्रत्यक्षं लौकिकं वाऽपि विद्यते सर्वराजसु ॥९॥

इसमें एक बड़ी सूक्ष्म विचार की बात मुझे जान पड़ती है । विवह प्रत्यक्ष है, लोकसिद्ध है और सब राजाओं में भी पाई जाती है ॥ ९ ॥

अमित्रास्तत्कुलीनाश्च प्रतिदेश्याश्च कीर्तिस्त ताः ।

व्यसनेषु प्रहर्तास्तस्मादयमिहागतः ॥१०॥

शत्रु दो प्रकार के हुआ करते हैं । एक तो अपनी जाति विरादरी वाले, दूसरे आस-पास के देशों में रहने वाले । ये दोनों ही प्रकार के शत्रु विपत्ति के समय आक्रमण करते हैं । अतः सम्भव है, यह विभीषण, रावण को सङ्कटापन्न देख उसका संहार करने को यहाँ आया हो ॥ १० ॥

अपापास्तत्कुलीनाश्च मानयन्ति स्वकान्हितान् ।

एष प्रायो नरेन्द्राणां शङ्कनीयस्तु शोभनः ॥११॥

जाति वाले लोग कितने ही निर्दोष और धर्मात्मा हों, किन्तु समय पड़ने पर वे सदा अपना स्वार्थ साधने के लिए यत्नवान् होते हैं । अतः जाति वाले भले ही गुणवान् हों, राजा को उनसे सदा सशङ्कित रहना चाहिए ॥ ११ ॥

यस्तु दोषस्त्वया प्रोक्तो ह्यादानेऽरिबलस्य च ।

तत्र ते कीर्तयिष्यामि यथाशास्त्रमिदं शृणु ॥१२॥

शत्रुपक्ष को मिलाने में तुम लोगों ने जो दोष बतलाया हैं उसका उत्तर मैं नीति शास्त्र उम्मत देता हूँ, उसे तुम लोग सुनो ॥ १२ ॥

न वयं तत्कुलीनाश्च राज्यक्रोडक्षी च राक्षसः ।

पण्डिता हि भविष्यन्ति तस्माद्ग्राह्यो विभीषणः ॥१३॥

हम लोग उसके जाति विरादरी वाले नहीं, जो वह हमको नाश कर हमारा राज्य लेने को आया हो । किन्तु अपने भाई का नाश करा और उसका राज्य लेने की लालसा से, हमारे पास विभीषण का आना सम्भव है । फिर विभीषण पण्डित भी हैं—अतएव मेरी समझ में तो उसको मिला लेना चाहिए ॥१३॥

अव्यग्राश्च प्रदृष्टाश्च न भविष्यन्ति सङ्गताः ।

प्रणादश्च महानेषोऽन्योन्यस्य भयमागतम् ॥१४॥

यह प्रसिद्ध है कि, भाई लोग आपस में मिल कर अनुकूलता पूर्वक और प्रसन्नमन से वास करते हैं, परन्तु इस समय जब युद्ध

का डंका बज रहा है, तब उनके मन में एक दूसरे की ओर भय उत्पन्न हुआ होगा ॥१४॥

इति भेदं गमिष्यन्ति तस्माद्ग्राह्यो विभीषणः ।

न सर्वे आतरस्तात भवन्ति भरतोपमाः ॥१५॥

मद्विधा वा पितुः पुत्राः सुहृदो वा भवद्विधाः ।

एवमुक्तस्तु रामेण सुग्रीवः सहलक्ष्मणः ॥१६॥

उत्थायेदं महाप्राज्ञः प्रणतो वाक्यमब्रवीत् ।

रावणेन प्रणिहितं तमवेहि विभीषणम् ॥१७॥

और इससे इनके मन में भेद हो जाना भी सम्भव है । अतः विभीषण को मिला लेना ठीक है । हे तात ! सब भाई, भरत जैसे और सब पुत्र मेरे समान पिता के आज्ञाकारी और सब मित्र आप लोगों जैसे नहीं हुआ करते । जब श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार कहा, तब लक्ष्मण सहित बड़े बुद्धिमान सुग्रीव उठे और प्रणाम कर बोले—हे राम ! यह विभीषण, रावण का भेजा हुआ यहाँ आया है ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥

तस्याहं निग्रहं मन्ये क्षमं क्षमवतां वर ।

राक्षसो जिह्वया बुद्ध्या सन्दिष्टोऽयमिहागतः ॥१८॥

हे सर्व सामर्थ्यवान् ! मैं तो इसे दंड देना ही उचित समझता हूँ । यह रावण का सिखलाया हुआ कपटबुद्धि से यहाँ आया है ॥१८॥

प्रहर्तुं त्वयि विश्वस्ते प्रच्छन्नो मयि वाऽनघ ।

लक्ष्मणे वा महाबाहो स वध्यः सचिवैः सह ॥१९॥

हे अनघ ! जब यह हम लोगों का अपने ऊपर विश्वास जमा लेगा, तब अवसर पा छिपे छिपे आपके, अथवा लक्ष्मण के अथवा मेरे ऊपर, प्रहार करेगा । अतः मंत्रियों सहित इसको मरवा डालना ही उचित है ॥१६॥

रावणस्य नृशंसस्य भ्राता ह्येव विभीषणः ।

एवमुक्त्वा रघुश्रेष्ठं सुग्रीवो वाहिनीपतिः ॥२०॥

वाक्यज्ञो वाक्यकुशलं ततो मौनमृपागमत् ।

सुग्रीवस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा रामो विमृश्य च ॥२१॥

यह उस घातक रावण का भाई है । वचन बोलने में चतुर कपिसेनापति सुग्रीव, इस प्रकार रघुश्रेष्ठ एवं वाक्यविशारद श्रीरामचन्द्र जी से वचन कह कर, चुप हो गए । सुग्रीव के वचनों को सुन और उन पर विचार कर श्रीरामचन्द्र जी ने ॥२०॥२१॥

ततः शुभतरं वाक्यमुवाच हरिपुङ्गवम् ।

स दुष्टो वाप्यदुष्टो वा किमेष रजनीचरः ॥२२॥

सूक्ष्मप्यहितं कर्तुं ममाशक्तः कथञ्चन ।

पिशाचान्दानवान्द्रयक्षान्पृथिव्यां चैव राक्षसान् ॥२३॥

कपिश्रेष्ठ सुग्रीव से ये शुभ वचन कहे । यह राक्षस दुष्ट हो या साधु, वह मेरा बाल भी रॉका नहीं कर सकता । क्योंकि इस पृथिवी पर जितने पिशाच, दानव, यक्ष और राक्षस हैं ॥ २२ ॥ २३ ॥

अङ्गुल्यग्रैण तान्हन्यामिच्छन्हरिशङ्गेश्वर ।

श्रूयते हि कपोतेन शत्रुः शरण्यामागतः ॥२४॥

हे कपिराज ! मैं चाहूँ तो अंगुली के पोरुए से भार डाल सकता हूँ । मैंने सुना है कि, शरण में आए हुए शत्रु को किसी कवूतर ने ॥२४॥

अर्चितश्च यथान्यायं स्वैश्च मांसैर्निमन्त्रितः ।

स हि तं प्रतिजग्राह भार्याहर्तारमागतम् ॥२५॥

यथाविधि सत्कार कर उसे अपने शरीर का मांस खिलाया था । यह अतिथि एक वहेलिया था, जिसने उसकी कवूतरी को पकड़ रखा था ॥ २५॥

कपोतो वानरश्रेष्ठ किं पुनर्मद्विधो जनः ।

ऋषेः कण्वस्य पुत्रेण कण्डुना परमर्षिणा ॥२६॥

शृणु गाथां पुरा गीतां धर्मिष्ठां सत्यवादिनीम् ।

बद्धाञ्जलिपुटं दीनं याचन्तं शरणागतम् ॥२७॥

न हन्यादानृशंस्यार्थमपि शत्रुं परन्तप ।

आर्तो वा यदि वा दम्नः परेषां शरणागतः ॥२८॥

अरिः प्राणान् परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना ।

स चेद्भयाद्वा मोहाद्वा कामाद्वाऽपि न रक्षति ॥२९॥

त्वया शक्त्या क्लृयथान्यायं तत्पापं लोकगर्हितम् ।

विनष्टः पश्यतस्तस्यारक्षिणः शरणागतः ॥३०॥

जब कवूतर ने शरण में आए हुए शत्रु का सत्कार किया, तब मुझ जैसा जन शरण में आए हुए विभीषण का परित्याग

* पाठान्तरे—“यथासत्त्वं ।” † पाठान्तरे—“पश्यतो वन्द्यारक्षितः ।”

क्यों कर सकता है? नहर्षि कण्व के सत्यवादी एवं धर्मिष्ठ पुत्र कण्डु ऋषि ने प्राचीनकाल में जो बात कही है, उसे भी सुनो। हे परन्तप ! हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाते हुए और दीन भाव से शरण में आए हुए शत्रु को भी, दयाधर्म की रक्षा करने के लिए न मारना चाहिए। दुखी हो अथवा अहकारी, परन्तु अन्य शत्रु के भय से विकल हो कर, यदि शत्रु भी अपने शरण में आवे, तो उत्तम पुरुष को उचित है कि, अपने प्राणों को हथेली पर रख कर भी उसकी रक्षा करे। जो भय से, प्रमाद से अथवा अन्य किसी वासना से, शक्ति रहने पर भी, ऐसे की यथावत् रक्षा नहीं करता, वह पापी और लोकनिन्दित है। यदि रक्षक के सामने शरणागत मनुष्य मर जाय ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥

आदाय सुकृतं तस्य सर्वं गच्छेदरक्षितः ।

एवं दोषो महानत्र प्रपन्नानामरक्षणे ॥३१॥

तो वह रक्षक के समस्त पुण्यों को ले अरक्षित शरणागत व्यक्ति चला जाता है। अतएव शरण में आए हुए की रक्षा न करने से बड़ा भारी पाप लगता है ॥ ३१ ॥

अस्वर्ग्यं चायशयं च स्वलवीर्यविनाशनम् ।

करिष्यामि यथार्थं तु कण्डोर्वचनमुत्तमम् ॥३२॥

शरणागत की रक्षा न करने से स्वर्गप्राप्ति नहीं होती, बड़ी बदनामी होती है और बल एवं वीर्य का नाश होता है। अतः मैं कण्डु ऋषि के वचन का यथार्थ रीत्यापालन करूँगा ॥ ३२ ॥

धर्मिष्ठं च यशस्यं च स्वर्ग्यं स्यात्तु फलोदये ।

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते ॥३३॥

क्योंकि कण्डु का वचन, फल देने का समय उपस्थित होने पर पुण्य का, यश का और स्वर्ग का देने वाला है। जो एक बार भी नेरी शरण में आ जाय और वाणी से कह दे कि, मैं तुम्हारा हूँ ॥११॥

अभयं सर्वभूतेभ्यो ददास्येतद् व्रतं मम ।

आनयैनं हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया ॥ ३४ ॥

तो तत्काल उसको, वह कोई भी क्यों न हो, निर्भय कर देना मेरा व्रत है। हे कपिश्रेष्ठ ! तुम विभीषण को ले आओ। मैंने उसे अभय कर दिया ॥ ३४ ॥

विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयम् ।

रामस्य तु वचः श्रुत्वा सुग्रीवः प्लवगेश्वरः ॥ ३५ ॥

हे सुग्रीव ! वह विभीषण हो, चाहे स्वयं रावण ही क्यों न हो, श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन कपिराज सुग्रीव ॥३५॥

प्रत्यभापत काकुत्स्थं सौहार्देनाभिचोदितः ।

किमत्र चित्रं धर्मज्ञ लोकनाथ सुखावह ॥ ३६ ॥

सौहार्दभाव से प्रेरित हो श्रीरामचन्द्र जी से बोले—हे सुखदाता लोकनाथ ! हे धर्मज्ञ ! आपके इस कथन में आश्चर्य की कौन सी बात है ॥३६॥

यत्त्वमार्यः प्रभाषेथाः सत्त्ववान् सत्पथे स्थितः ।

मम चाप्यन्तरात्माऽयं शुद्धं वेत्ति विभीषणम् ।

अनुमानाच्च भावाच्च सर्वतः सुपरीक्षितः ॥ ३७ ॥

१ आर्ये—समीचीन ! [गो०] २ सत्त्ववान्—प्रयत्न प्रपबधायवान् । (गो०) * पाटान्तरे—“सौहार्देन प्रचोदितः ॥” अथवा “सौहार्देनाभ्युदीरितः ।”

आप जैसे प्रशस्त अध्यवसायवान्, धर्मसंस्थापनार्थं भूतल पर अवतीर्ण होने वाले को छोड़ और कौन इस तरह की उदारता दिखला सकता है। अनुमान से और भाव से तथा सब प्रकार से मलीभाँति परीक्षा लेकर मेरा अन्तःकरण भी विभीषण को अब शुद्ध ही समझ रहा है ॥३७॥

तस्मात्क्षिप्रं सहास्माभिस्तुल्यो भवतु राघव ।

विभीषणो महाप्राज्ञः सखित्वं चाभ्युपैतु नः ॥३८॥

अतएव हे राघव ! महाबुद्धिमान् विभीषण शीघ्र ही हमारे समान हो और हम लोगों के साथ उसकी मैत्री हो ॥ ३८ ॥

ततस्तु सुग्रीवचो निशम्य तत्

हरीश्वरेणाभिहितं नरेश्वरः ।

विभीषणेनाशु जगाम सङ्गमं

पतत्रिराजेन यथा पुरन्दरः ॥ ३९ ॥

कपिराज के कथनानुसार श्रीरामचन्द्र जी ने विभीषण के साथ तुरंत मैत्री कर ली, जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के साथ मैत्री की थी ॥३९॥

युद्धकाण्ड का अठारवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—०—

एकोनविंशः सर्गः

—०—

राघवेणाभये दत्ते सन्नतो राघणानुजः ।

विभीषणो महाप्राज्ञो भूमिं समवलोकयन् ॥ १ ॥

रघुनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ने जब इस तरह विभीषण को अभयदान दिया, तब महाबुद्धिमान् रावण के छोटे भाई विभीषण पृथिवी की ओर देखते हुए ॥१॥

खात्पपातावनीं हृष्टो भक्तैरनुचरैः सह ।

स तु रामस्य धर्मात्मा निपपात विभीषणः ॥ २ ॥

आकाश से अपने भक्तिभाव रखने वाले चार मंत्रियों को लिए हुए, हर्षित हो पृथिवी पर आए और धर्मात्मा विभीषण श्रीरामचन्द्र जी के चरणों में गिर पड़े ॥ २ ॥

पादयोः शरणान्वेषी चतुर्भिः सह राक्षसैः ।

अब्रवीच्च तदा रामं वाक्यं तत्र विभीषणः ॥ ३ ॥

चारों राक्षसों सहित शरणान्वेषी विभीषण श्रीरामचन्द्र जी के चरणों में गिर, श्रीरामचन्द्र जी से बोले ॥ ३ ॥

धर्मयुक्तं च युक्तं च साम्प्रतं सम्प्रहर्षणम् ।

अनुजो रावणस्याहं तेन चास्म्यवमानितः ॥ ४ ॥

विभीषण ने युक्तियुक्त, वमसङ्गत और तत्काल मन को अत्यंत प्रसन्न करने वाले वचन श्रीरामचन्द्र जी से कहे। वे बोले—महाराज ! मैं रावण का छोटा भाई हूँ। उसने मेरा अनादर किया है ॥४॥

भवन्तं सर्वभूतानां शरण्यं शरणं गतः ।

परित्यक्ता मया लङ्का मित्राणि च धनानि वै ॥ १ ॥

आप प्राणीमात्र के रक्षक हैं। अतः मैं लङ्का में मित्रों को और समस्त धन सम्पत्ति को त्याग कर, आपके शरण में आया हूँ ॥१॥

भवद्गतं च मे राज्यं जीवितं च सुखानि च ।

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामो वचनमब्रवीत् ॥ ६ ॥

अब तो मेरा राजपाट, जीवन और सुखादि समस्त ही आपके अधीन है। विभीषण के ये वचन सुन श्रीरामचन्द्र जी ने कहा ॥६॥

वचसा सान्त्वयित्वैनं लोचनाभ्यां पिबन्निव ।

आख्याहि मम तत्त्वेन राक्षसानां बलावलम् ॥७॥

श्रीरामचन्द्र जी ने वचनों द्वारा विभीषण को धीरज बँधा बड़े आदर के साथ उनको देखा। तदनन्तर वे बोले—हे विभीषण ! अब तुम मुझे लङ्कावासी राक्षसों के बलावल का ठीक ठीक वृत्तान्त सुनाओ ॥ ७ ॥

एवमुक्तं तदा रक्षो रामेणाकिलष्टकर्मणा ।

रावणस्य बलं सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥ ८ ॥

अकिलष्टकर्मा श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रकार कहने पर, विभीषण ने रावण के सैनिक बल का वर्णन विस्तारपूर्वक करना आरम्भ किया ॥८॥

अवध्यः सर्वभूतानां *देवदानवरक्षसाम् ।

राजपुत्र दशग्रीवो वरदानात्स्वयंभुवः ॥ ९ ॥

हे राजकुमार ! दशग्रीव रावण ब्रह्मा जी के वरदान से देवता दानव राक्षसादि समस्त प्राणियों से अवध्य हैं ॥ ९ ॥

रावणानन्तरो भ्राता मम ज्येष्ठश्च वीर्यवान् ।

कुम्भकर्णो महातेजाः शक्रप्रतिबलो युधि ॥ १० ॥

* पाठान्तरे—“गन्धर्वासुररक्षसान् ।” अथवा “गन्धर्वैरिगपक्षिणां ।”

रावण से छोटा और मुझसे बड़ा मेरा सम्मान भाई कुंभकरण
बड़ा बलवान और तेजस्वी है और युद्ध में इन्द्र का सामना कर
सकता है ॥ १० ॥

राम सेनापतिस्तस्य प्रहस्तो यदि वा श्रुतः ।

कैलासे येन संग्रामे मणिभद्रः पराजितः ॥११॥

हे राम, उसका सेनापति प्रहस्त है। शायद तुमने उसका
नाम सुना हो ! उसी के द्वारा कैलास पर्वत पर मणिभद्र हराया
गया था ॥ ७ ॥

ब्रह्मगोधाङ्ग लित्राणस्त्रवध्यकवचो युधि ।

धनुरादाय यस्तिष्ठन्नदृश्यो भवतीन्द्रजित् ॥ १२ ॥

गोह के चमड़े के दस्ताने पहन, कवच धारण कर और धनुष
लेकर संग्राम करते-करते अदृश्य हो जाने वाला इन्द्रजीत मेघनाद
है ॥१२॥

संग्रामे सुमहद्व्यूहे तर्पयित्वा हुताशनम् ।

अन्तर्धानगतः शत्रूनिन्द्रजिद्वन्ति राघव ॥ १३ ॥

हे राघव ! ये बड़ी-बड़ी लड़ाइयों में जहाँ बड़े-बड़े व्यूहों की
रचना हुआ करती है, हवन द्वारा अग्निदेव को तृप्त कर,
अन्तर्धान हो शत्रुओं को मारा करता है ॥ १३ ॥

महोदरमहापार्श्वौ राजसश्चाप्यकम्पनः ।

अनीकस्थास्तु तस्यैते लोकपालसमा युधि ॥ १४ ॥

इनके अतिरिक्त रावण के सेनापति महोदर, महापार्श्व
अकम्पन नामक राजस ऐसे हैं, जो युद्ध में लोकपालों जैसा
पराक्रम प्रदर्शित किया करते हैं ॥ १४ ॥

दशकोटिसहस्राणि रक्षसां कामरूपिणाम् ।

मांसशोणितभक्षणां लङ्कापुरनिवासिनाम् ॥१५॥

लङ्कापुरी में दस हजार करोड़ राक्षस बसते हैं । ये कामरूपी राक्षस मांस खाते और रक्त पिया करते हैं ॥१५॥

ॐस तैः परिवृतो राजा लोकपालानयोधयत् ।

सह देवैस्तु ते भग्ना रावणेन महात्मना ॥ १६ ॥

उन सब को साथ ले महावली रावण ने लोकपालों से युद्ध क्रिया था और देवताओं सहित उनको परास्त किया था ॥१६॥

विभीषणवचः श्रुत्वा रामो दृढपराक्रमः ।

अन्वीक्ष्य मनसा सर्वमिदं वचनमब्रवीत् ॥ १७ ॥

दृढपराक्रमी श्रीरामचंद्र जी, विभीषण की ये बातें सुन और मन ही मन इन सब बातों पर विचार कर, कहने लगे ॥१७॥

यानि षड्कर्मापदानानि रावणस्य विभीषण ।

आख्यातानि च तत्त्वेन ह्यवगच्छामि तान्यहम् ॥१८॥

हे विभीषण ! रावण के जिन-जिन कर्मों का तुमने वखान क्रिया, वे सब मुझको यथार्थरीत्या विदित हैं ॥१८॥

अहं हत्वा दशग्रीवं सप्रहस्तं सहानुजम् ।

राजानं त्वां करिष्यामि सत्यमेतद्ब्रवीमि ते ॥ १९ ॥

१ कर्मापदानानि—“अपादानं कर्मवृत्तं” इत्यमरः । (गो०
* पाठान्तरे—“सतैस्तु सहितो” † पाठान्तरे—“सवान्धवम् ।
वा “सहात्मजम् ।”

मैं सत्य-सत्य तुमसे कहता हूँ कि, मैं प्रहस्त और कुम्भकर्ण-सहित दशग्रीव रावण को मार कर, तुमको लङ्का का राजा बनाऊँगा ॥१६॥

रसातलं वा प्रविशेत्पातालं वापि रावणः ।

पितामहसकाशं वा न मे जीवन् विमोक्ष्यते ॥ २० ॥

रावण प्राणवचाने को चाहे रसातल में जाय, चाहे पाताल में अथवा ब्रह्मा जी के पास ही क्यों न भाग कर चला जाय, पर वह अब जीता नहीं बच सकता ॥२०॥

अहत्वा रावणं संख्ये सपुत्रवलवान्धवम् ।

अयोध्यां न प्रवेक्ष्यामि त्रिभिस्तैर्भ्रातृभिः शपे ॥२१॥

मैं अपने तीनों भाइयों की शपथ खाकर कहता हूँ कि, युद्ध में पुत्र, सेना और भाईवन्दों सहित रावण को मारे बिना, मैं अयोध्या में पैर न रखूँगा ॥२१॥

श्रुत्वा तु वचनं तस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः ।

शिरसाऽऽवन्द्य धर्मात्मा वक्तुमेवोपचक्रमे ॥ २२

अक्लिष्टकर्मा श्रीरामचंद्र जी के वचन सुन और सीस झुका प्रणाम कर, धर्मात्मा विभीषण कहने लगे ॥२२॥

राक्षसानां वधे साह्यं लङ्कायाश्च प्रधर्षणे ।

करिष्यामि यथाप्राणं प्रवेक्ष्यामि चवाहिनीम् ॥२३॥

हे रावण ! रावण की आज्ञामणकारी सेना के आते ही, मैं उसमें घुस राक्षस सैनिकों का वध करने में तथा लङ्का के

उजाड़ने में, प्राणपण से अथवा यथाशक्ति आपकी सहायता करूँगा ॥२३॥

इति ब्रुवाणं रामस्तु परिष्वज्य विभीषणम् ।

अत्रवीज्जलमणं प्रीतः समुद्राज्जलमानय ॥ २४ ॥

॥ इस प्रकार वचन कहते हुए विभीषण को श्रीरामचन्द्र जी ने अपनी छाती से लगा लिया और लक्ष्मण से कहा कि, जाओ समुद्र से जल ले आओ । मैं विभीषण पर प्रसन्न हूँ ॥२४॥

तेन चेमं महाप्राज्ञमभिषिञ्च विभीषणम् ।

राजानं रक्षसां क्षिप्रं प्रसन्ने मयि श्रमानद ॥ २५ ॥

समुद्रजल से इन महाबुद्धिमान् विभीषण को शीघ्रही राक्षसों के राजसिंहासन पर अभिषिक्त करने का मेरा विचार है । मैं इनके व्यवहार से सन्तुष्ट हूँ और इनका बहुमान करूँगा ॥२५॥

एवमुक्तस्तु सौमित्रिरभ्यपिञ्चद्वि भीषणम् ।

मध्ये वानरमुख्यानां राजानं रामशासनात् ॥ २६ ॥

जब श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार आज्ञा दी, तब लक्ष्मण जी ने उस आज्ञा के अनुसार मुख्य-मुख्य वानरों की उपस्थिति में विभीषण का राज्याभिषेक किया ॥२६॥

तं प्रसादं तु रामस्य दृष्ट्वा सद्यः प्लवङ्गमाः ।

प्रचक्रुश्चर्महात्मानं साधु साञ्चिति चाब्रुवन् ॥२७॥

श्रीरामचन्द्र जी की प्रसन्नता का इस प्रकार का तुरन्त फल मिला हुआ देख, वानरों ने हर्षनाद किया और वे "साधु साधु" कहने लगे ॥२७॥

अब्रवीच्च हनुमांश्च सुग्रीवश्च विभीषणम् ।

कथं सागरमक्षोभ्यं तराम वरुणालयम् ॥ २८ ॥

सैन्यैः परिचृताः सर्वे वानराणां महौजसाम् ।

उपायं नाधिगच्छामो यथा नदनदीपतिम् ॥ २९ ॥

तराम तरसा सर्वे ससैन्या वरुणालयम् ।

एवमुक्तस्तु धर्मज्ञः प्रत्युवाच विभीषणः ॥ ३० ॥

सुग्रीव और हनुमान ने विभीषण से कहा—मित्र! अब यह तो घतलाओ कि, हम लोग इस अक्षोभ्य वरुणालय अर्थात् समुद्र के बड़े-बड़े पराक्रमी वानरों की समस्त सेना सहित क्यों कर पार हों? हमारी समस्त सेना तो ऐसा कोई उपाय नहीं आ रहा है, जिससे हम समस्त सेना सहित समुद्र पार हो सकें। जब दोनों वानर-श्रेष्ठों ने इस प्रकार कहा, तब धर्मज्ञ विभीषण ने उत्तर देते हुए कहा ॥२८॥२९॥३०॥

समुद्रं राघवो राजा शरणं गन्तुमर्हति ।

खानितः सागरेणायमप्रमेयो महोदधिः ॥ ३१ ॥

महाराज श्रीरामचन्द्र, समुद्र के शरण में जाय—यही उपाय है। श्रीरामचन्द्र जी के पूर्वपुरुष महाराज मगर द्वारा नुदवाए जाने के कारण ही इसका नाम नागर पड़ा है, सो यह अथाह जल वाला ॥३१॥

कर्तुमर्हति रामस्य ज्ञातेः कार्यं महोदधिः ।

एवं विभीषणेनोक्तो राक्षसेन विपश्चिता ॥ ३२ ॥

समुद्र, अपने कुटुम्ब वाले का काम अवश्य करेगा । जब पंडित राजस विभीषण ने इस प्रकार कहा ॥३२॥

[टिप्पणी—शरणागत होने पर ही विभीषण ने लङ्का का राज्य पाया था—अतः इस उपाय को अमोघ समझ विभीषण ने इसी उपाय से काम लेने का परामर्श दिया ।]

आजगामाथ सुग्रीवो यत्र रामः सलक्ष्मणः ।

ततश्चाख्यातुमारैभे विभीषणवचः शुभम् ॥ ३३ ॥

तब सुग्रीव वहाँ गए जहाँ लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्र जी थे और उन्होंने विभीषण के कहे हुए सुन्दर वचन उनसे कहे ॥३३॥

सुग्रीवो विप्रलुग्रीवः सागरस्योपवेशनम् ।

प्रकृत्या धर्मशीलस्य राघवस्याप्यरोचत ॥ ३४ ॥

मोटी गर्दनवाले सुग्रीव ने श्रीरामचन्द्र जी से समुद्र की उपासना करने को कहा । धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी को भी यह बात अच्छी जान पड़ी ॥३४॥

स लक्ष्मणं महातेजाः सुग्रीवं च हरीश्वरम् ।

१सत्क्रियार्थं २क्रियादत्तः *स्मितपूर्वमभाषत ॥३५॥

महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी ने स्वयं वह कार्य करने की शक्ति रखते हुए भी, विभीषण के कथन का आदर करते हुए मुसक्या कर लक्ष्मण और सुग्रीव से कहा ॥३५॥

विभीषणस्य मन्त्रोऽयं मम लक्ष्मण रोचते ।

ब्रूहि त्वं सहसुग्रीवस्तत्रापि यदि रोचते ॥३६॥

सुग्रीवः पण्डितो नित्यं भवान् मन्त्रविचक्षणः ।

उभाभ्यां सम्प्रधार्यार्थं रोचते यत्तदुच्यताम् ॥३७॥

१ सत्क्रियार्थं—विभीषणमन्त्रब्रह्मानार्थ । (गो०) २ क्रियादत्तः—स्वयं कार्यकरणसमर्थोपि । (गो०) * पाठान्तरे—“स्मितपूर्वमुवाच ह ।”

हे लक्ष्मण ! विभीषण की यह सलाह मैं भी पसन्द करता हूँ । सुग्रीव पण्डित हैं ही और तुम भी सम्मति देने में प्रवीण हो— अतः यदि सुग्रीव को और तुम्हें भी यह राय पसन्द हो, तो वतलाओ । तुम दोनों को जो अच्छा लगे सो विचार कर वतलाओ ॥३६॥३७॥

एवमुक्तौ तु तौ वीराबुधौ सुग्रीवलक्ष्मणौ ।

समुदाचारसंयुक्तपिदं वचनमूचतुः ॥३८॥

जब श्रीरामचन्द्र जी ने उन दोनों वीर सुग्रीव और लक्ष्मण से इस प्रकार पूँछा, तब हाथ जोड़ कर वे बोले ॥३८॥

किमर्थं नौ नरव्याघ्र न रोचिष्यति रावव ।

विभीषणेन यच्चोक्तमस्मिन् काले सुखावहम् ॥३९॥

हे नरव्याघ्र ! विभीषण ने इस समय जो सुखसाध्य उपाय वतलाया है, वह हम लोगों को क्यों न अच्छा लगेगा ? ॥३९॥

अवद्भवा सागरे सेतुं घोरेऽस्मिन् वरुणालये ।

लङ्का नासादितुं शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरैः ॥४०॥

क्योंकि इस भयानक समुद्र पर पुल बाँधे बिना इन्द्रसहित सुर और असुर भी लङ्का में नहीं पहुँच सकते ॥४०॥

विभीषणस्य शूरस्य यथार्थं क्रियतां वचः ।

अलं कालात्ययं कृत्वा समुद्रोऽयं नियुज्यताम् ।

यथा सैन्येन गच्छामः पुरीं रावणपालिताम् ॥४१॥

! अब कुछ भी विलम्ब न कर शीघ्रमंत्रशूर विभीषण के कथनानुसार आप समुद्र के शरण में जाइए अथवा समुद्र की प्रार्थना करने में लग जाइए । जिससे हम सब लोग सेना-सहित रावण द्वारा पालित लङ्का में पहुँचजाँय ॥४१॥

एवमुक्तः कुशास्तीर्यो तीरे नदनदीपतेः ।

संविवेश तदा रामो वेधामिव हुताशनः ॥४२॥

इति एकोनविंशः सर्गः ॥

इस प्रकार कहे जाने पर श्रीरामचन्द्र जी वेदी के बीच में स्थापित अग्नि की तरह समुद्र के तट पर कुश विछा कर बैठ गए ॥४२॥

युद्धकांड का उन्नीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—०—

नवमः सर्गः

—०—

ततो निविष्टां ध्वजिनीं सुग्रीवेणाभिपालिताम् ।

ददर्श राक्षसोऽभ्येत्य शार्दूलो नाम वीर्यवान् ॥१॥

समुद्र तट पर टिकी हुई सुग्रीव की वानरी सेना को देखने के लिए या उसका भेद लेने के लिए, एक बलवान् राक्षस, जिसका नाम शार्दूल था, आया ॥१॥

चारो राक्षसराजस्य रात्रणस्य दुरात्मनः ।

तां दृष्ट्वा सर्वतो व्यग्रं प्रतिगम्य स राक्षसः ॥२॥

यह शार्दूल दुष्ट राक्षसराज रावणका जासूस था और बड़ी सावधानी से यहाँ का सारा वृत्तान्त अपनी आंखों से देख, लौट गया ॥२॥

प्रविश्य लङ्कां वेगेन रावणं वाक्यमब्रवीत् ।

एष वानरऋक्षौघो लङ्कां समभिवर्तते ॥ ॥

लङ्का में बड़ी शीघ्रता से पहुँच उसने रावण से कहा—हे राजन्! वानरों और भालुओं के दल लङ्का के समीप आ पहुँचे हैं ॥३॥

अगाधश्चाप्रमेयश्च द्वितीय इव सागरः ।

पुत्रौ दशरथस्येमौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥४॥

यह भालुओं और वानरों का दल, दुष्प्रवेश्य और असंख्य और दूसरे समुद्र जैसा जान पड़ता है। दशरथ के पुत्र दोनों भाई राम और लक्ष्मण ॥४॥

उत्तमायुधसम्पन्नौ सीतायाः पदमागतौ ।

एतौ सागरमासाद्य सन्निविष्टौ महाद्युती ॥५॥

उत्तम आयुधों से सुसज्जित सीता का उद्धार करने के लिए आये हुए हैं। ये दोनों महाद्युतिमान् समुद्र के तट पर ठहरे हुए हैं ॥ ५ ॥

वल्लमाकाशमावृत्य१ सर्वतो दशयोजनम् ।

तत्त्वभूतं महाराज क्षिप्रं वेदितुमर्हसि ॥६॥

इनकी सेना दस योजन के घेरे में ठहरी हुई है। मैंने सरासरी में जो कुछ देखा सो निवेदन किया—आप अब ठीक ठीक हाल मंगवा लें ॥ ६ ॥

तव दूता महाराज क्षिप्रमर्हन्त्यवेक्षितुम् ।

१ उपप्रदानं सान्त्वं वा भेदो वात्रं प्रयुज्यताम् ॥७॥

हे महाराज ! आपके दूत तुरन्त ही यह जान आवें कि, शत्रु को पराजित करने के लिए, सान, या भेद अथवा जानकी का देना, इनमें से कौन सा उपाय करना उचित है ॥ ७ ॥

शार्दूलस्य वचः श्रुत्व रावणो राक्षसेश्वरः ।

उवाच सहसा व्यग्रः सम्प्रधार्यार्थमात्मनः ।

शुकं नाम तदा रक्षो वाक्यमर्थविदां वरम् ॥८॥

शार्दूल के ये वचन सुन, राक्षसेश्वर रावण सहसा घबड़ा और भलीभाँति सोच विचार कर, शुक नामक कार्यपटु राक्षस से बोला ॥ ८ ॥

सुग्रीवं ब्रूहि गत्वां त्वं राजानं वचनात् मम ।

यथा सन्देशमक्लीवंरं श्लक्ष्णया परया रे गिरा ॥९॥

हे शुक ! तू वानरराज सुग्रीव के समीप जा, मेरी ओर से कठोरतारहित, सुनने योग्यवाणी से किन्तु निर्भीक हो, वह सन्देशा कहना ॥ ९ ॥

त्वं वै महाराज कुलप्रसूतो

महाबलश्चर्त्तरजः सुतश्च ।

न कश्चिदर्थस्तव नास्त्यनर्थः

तथा हि मे भ्रातृसमो हरीश ॥१०॥

१ उपप्रदानं—सीतायाः । (रा०) २ अक्लीवम्—सधाष्ट्यमित्यर्थः । (गो०) ३ परया—श्राव्यया । (गो०)

तुम कुलीन और महाबलवान् हो । तुम ऋक्षराज के पुत्र हो । अतः तुम को मेरे साथ निष्कारण बँर करना उचित नहीं । श्रीराम की सहायता करने से तुमको कुछ लाभ नहीं होगा और यदि उनकी सहायता न करोगे तो तुम्हारी कुछ हानि भी नहीं होगी । फिर तुम ऋक्षराज के पुत्र और ब्रह्मा के पौत्र होने के कारण मेरे भाई के तुल्य हो ॥ १० ॥

अहं यद्यहरं भार्यां राजपुत्रस्य धीमतः ।

किं तत्र तव सुग्रीव किष्किन्धां प्रति गम्यताम् ॥११॥

हे बुद्धिमान् सुग्रीव ! यदि मैं राजकुमार राम की स्त्री हर लाया तो इससे तुमको क्या ? अतः तुम अपनी राजधानी किष्किन्धा को लौट जाओ ॥ ११ ॥

न हीयं हरिभिर्लङ्का शक्या प्राप्तुं कथञ्चन ।

देवैरपि सगन्धर्वैः किं पुनर्नरवानरैः ॥१२॥

क्योंकि जब इस लङ्का को देवता और गन्धर्व ही नहीं जीत सकते, तब मनुष्यों और वानरों की तो विसाँत ही क्या है ! ॥१२॥

स तथा राजसेन्द्रेण सन्दिष्टो रजनीचरः ।

शुको विहङ्गमो भूत्वा तूर्णमाप्लुत्य चाम्बरम् ॥१३॥

इस प्रकार रावण की आज्ञा पाकर, राजस शुक, पत्नी का रूप धारण कर, तुरन्त आकाश में उड़ा ॥ १३ ॥

स गत्वा दूरमध्वानमुपर्युपरि सागरम् ।

संस्थितो ह्यम्बरे वाक्यं सुग्रीवमिदमब्रवीत् ॥१४॥

समुद्र के ऊपर- ऊपर बहुत दूर तक आकाश में उड़ और वानरों की सेना के समीप पहुँच आकाश में खड़े ही खड़े शुक ने सुग्रीव से ॥१४॥

सर्वश्रुक्तं यथादिष्टं रावणेन दुरात्मना ।

तं प्रापयन्तं वचनं तूर्णमाप्लुत्य वानराः ॥ १५ ॥

प्रापयन्त दिवं क्षिप्रं लोप्तुं हन्तुं च मुष्टिभिः ।

स तैः प्लवङ्गमैः प्रसभं निगृहीतो निशाचरः ॥१७॥

गगनाद्भूतले चाशु परिगृह्य निपातितः ।

वानरैः पीड्यमानस्तु शुको वचनमब्रवीत् ॥१७॥

वे सब बातें कहीं, जो दुरात्मा रावण ने कहलाई थीं । राक्षस शुक इस प्रकार रावण का सन्देश सुना रहा था कि, वानरों ने उछल कर उसे पकड़ लिया और वे उसे घूँसों से मारने लगे । फिर बाँधकर वे उसे नीचे ले आए । जब वानरों ने शुक को बहुत मारा, तब उसने कहा ॥१५॥१६॥१७॥

न दूतान् घ्नन्ति काकुत्स्थ वार्यन्तां साधु वानराः ।

यस्तु हिस्वा मतं भर्तुः स्वमतं सम्प्रभापते ॥१७॥

हे साधु ! हे काकुत्स्थ ! दूत नहीं मारे जाते । अतः इन वानरों को रोकिए । जो दूत अपने मालिक का सन्देश न कह कर, अपना मत प्रकाशित करता है ॥१८॥

अनुक्तवादी दूतः सन् स दूतो वैधमर्हति ।

शुकस्य वचनं श्रुत्वा रामस्तु परिदेवितम् ॥१८॥

वह दूत अनुक्तवादी कहलाता है और वही मार डालने योग्य है । श्रीरामचंद्र जी ने शुक के ये वचन और गिड़गिड़ाना सुन ॥१६॥

उवाच मा वधिष्ठेति घ्नतः शाखामृगर्षभान् ।

स च पत्रलघुर्भूत्वा हरिभिर्दशिते भये ।

अन्तरिक्षस्थितो भूत्वा पुनर्वचनमब्रवीत् ॥२०॥

उन मार डालने के लिए उद्यत वानरयूथपतियों से कहा, तुम लोग दूत के प्राण मत लो । तब राक्षस शुक वानरों के भय से भीत हो और छोटा रूप धारण कर, आकाश में खड़े खड़े पुनः कहने लगा ॥२०॥

सुग्रीव सत्त्वसम्पन्न महाबलपराक्रम ।

किं मया खलु वक्तव्यो रावणो लोकरावणः ॥२१॥

हे महाबलवान्, पराक्रमी एवं सत्त्वसम्पन्न सुग्रीव ! लोकों-को रूलानेवाले रावण के पास जाकर मैं क्या कहूँ ॥२१॥

स एवमुक्तः सुवगाधिपस्तदा

प्लवङ्गमानामृषभो महाबलः ।

उवाच वाक्यं रजनीचरस्य

चारं शुकं दीनमदीनसत्त्वः ॥२२॥

जब शुक ने कपिराज से इस प्रकार कहा, तब महाबली एवं अदीन कपिश्रेष्ठ सुग्रीव ने रावण से कहने के लिए दीनता को प्राप्त राक्षसदूत शुक से यह कहा ॥२२॥

न मेऽसि मित्रं न तथानुकम्प्यो

न चोपकर्ताऽसि न मे प्रियोऽसि ।

अरिश्च रामस्य सहानुबन्धः

स मेऽसि बालीष वाधार्हवध्यः ॥२३॥

कि, तुम मेरी ओर से रावण से यह कह देना कि, न तो तुम मेरे मित्र हो, न तुम दयापात्र हो, न तुम मेरे उपकारकर्ता हो और न तुम मेरे प्रिय ही हो । अतः तुम मुझे अपने भाई के तुल्य क्यों समझते हो ? प्रत्युत तुम तो श्रीरामचन्द्र जी के शत्रु होने के कारण मेरे शत्रु हो और सपरिवार वाली की तरह मार डालने के योग्य हो ॥२३॥

निहन्म्य त्वा ससुतं सवन्धुं

सज्ञातिवर्गं रजनीचरेश

लङ्कां च सर्वा महता बलेन ।

क्षिप्रं करिष्यामि समेत्य भस्म ॥२४॥

हे रजनीचरेश ! मैं तुमको पुत्र, वन्धु और कुटुम्बियों सहित मारूँगा । मैं बड़ी भारी सेना साथ लेकर आ रहा हूँ और शीघ्र ही तुम्हारी समस्त लङ्का को भस्म कर, छार-छार कर डालूँगा ॥२४॥

न मोक्षयसे रावण राघवस्य

सुरैः सहेन्द्रैपि मूढ गुप्तः ।

अन्तर्हितः सूर्यपथं गतो वा

नभो न पातालमनुप्रविष्टः ॥ ॥

हे मूढ़ रावण ! तू श्रीरामचन्द्र से वचन सकेगा । भले ही इन्द्रसहित समस्त देवता तेरी रक्षा के लिए कटिवद्ध हो जाँय, अथवा तू छिप जा अथवा तू सूर्यमार्ग में चला जा अथवा आकाश या पाताल ही में घुस जा ॥२५॥

तस्य ते त्रिषु लोकेषु न पिशाचं न शङ्कसम् ।

त्रातारमनुपश्यामि न गन्धर्वं न चासुरम् ॥२६॥

तुम्हे तो तीनों लोकों में ऐसा कोई भी पिशाच, राक्षस, गन्धर्व या दैत्य नहीं देख पड़ता, जो तुम्हको बचा सके ॥२६॥

अवधीर्यजरावृद्धं गृध्रराजानमक्षमम् ।

किं नु ते रामसान्निध्ये सकाशे लक्ष्मणस्यवा ॥ ७॥

तूने उस बूढ़े जर्जर गृध्रराज जटायु को मार डाला सो अपने को बलवान समझ बल के घमंड में मत भूलना । यदि तुम्हे बलवान् होने का दावा था, तो तूने श्रीरामचन्द्र या लक्ष्मण के सामने सीता क्यों न हरी ? ॥२७॥

हता सीता विशालाक्षी यां त्वं गृह्य न बुध्यसे ।

महाबलं महाप्राज्ञं दुर्धर्षममरैरपि ॥८॥

न बुध्यसे रघुश्रेष्ठं यस्ते प्राणान् हरिष्यति ।

ततोऽब्रवीद्वालिसुतस्त्वङ्गदो हरिसत्तमः ॥ ९ ॥

तू विशालाक्षी सीता को हरते समय यह न समझा कि, दड़े बली, धीरजधारी और देवताओंसे भी अजेय रघुश्रेष्ठश्रीरामचन्द्र तेरे प्राण हर लेंगे । तदनंतर कपिश्रेष्ठ वालिसुत अङ्गद ने कहा ॥२८॥२९॥

नायं दूतो महाराज चारिकः प्रतिभाति मे ।

तुलितं हि बलं सर्वमनेनात्रैव तिष्ठता ॥ १० ॥

महाराज यह दूत नहीं, बलिक जासूस (भेदिया) है । इसने यहाँ इतनी देर ठहर कर, हमारी समस्त सेना और व्यूह का रहस्य ताड़ लिया है ॥३०॥

गृह्यतां मा गमन्लङ्कामेतद्धि मम रोचते

ततो राज्ञा समादिष्टाः समुत्प्लुत्य बलीमुखः ॥ ११ ॥

मुझको तो यह अच्छा जान पड़ता है कि, यह पकड़ लिया जाय और लट्का न जाने पावे । यह सुन, कपिराज की आज्ञा से वानरों ने उछल कर, ॥३१॥

जगृहस्तं ववन्धुश्च विलपन्तमनाथवत्

शुकस्तु वानरैश्चण्डैस्तत्र तैः सम्प्रपीडितः ॥ ३२ ॥

उसे पकड़ कर बाँध लिया । तब वह अनाथ की तरह विलाप करने लगा । जब राक्षस शुक को उन प्रचण्ड पराक्रमी वानरों ने बहुत सताया ॥ ३२ ॥

व्याक्रोशत महात्मानं रामं दशरथात्मजम्

लुप्येते मे वलात्पक्षौ भिद्येते च तथाऽश्लिणी ॥ ३३ ॥

तब वह दाशरथी श्रीरामचन्द्र जी का नाम लेकर चिल्लाने लगा और कहने लगा, देखिए देखिए ये वानर बरजोरी मेरे पल्ल खाड़े लेते हैं और आँखें फोड़े डालते हैं ॥ ३३ ॥

यां च रात्रिं मरिष्यामि जाये रात्रिं च यामहम्

एतस्मिन्नन्तरे काले यन्मया ह्यशुभं कृतं

सर्वं तदुपपद्येथा जह्यां चेद्यदि जीवितम् ॥ ३४ ॥

जिस दिन से मैं उत्पन्न हुआ हूँ और जिस दिन मैं मरूँगा, इस त्रीच में मैंने जो पापकिए हैं, महाराज ! यदि मैं सर गया तो वे सब आपको लगेंगे ॥ ३४ ॥

नाघातयत्तदा रामः श्रुत्वा तत्परिदेवनम्

वानरानन्नवीद्रामो मुच्यतां दूत आगतः ॥३५॥

इति विंश सर्गः

उस समय उसका ऐसा विलाप सुन, श्रीरामचन्द्र जी उसकी रक्षा की और वानरों से कहा—यह दूत बनकर आया है। इसे छोड़ दो, भारो मत ॥ ३५ ॥

—:०:—

एकविंशः सर्गः

—:०:—

ततः सागरवेलायां दर्भानास्तीर्य रोषवः ।

शङ्गलिं प्राङ्मुखः कृत्वा प्रतिशिश्ये महोदधेः ॥१॥

तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी समुद्र के तट पर कुश विद्याक समुद्र से वर की प्रार्थना करने के लिए पूर्वमुख हो और हा जोड़ कर लेट गए ॥१॥

वाहु' भुजगभोगाभमुपधायारिसूदनः ।

जातरूपमयैश्चैव भूपणैर्भूषितं पुरा ॥२॥

अरिसूदन श्रीरामचन्द्र जी ने सर्प के समान अतिकोम अपनी उस घाँह का लकिया लगाया, जो सोने के आभूषणों भूषित हुआ करती थी ॥ २ ॥

वरकाञ्चनकेयूरमुक्ताप्रवरभूपणैः ।

भुजैः परमनारीणामभिमृष्टमनेकधा ॥३॥

अयोध्या में रहते समय महाराज की-जो भुजाएँ काञ्चन के उत्तम विजायठों और मोतियों के श्रेष्ठ भूषणों से भूषित होती थीं, जिनको अनेक बार परम रूपवती दासियों ने बालकंपन में बार-बार दबाया या सहाराया था, ॥३॥

चन्दनागरुभिश्चैव पुरस्तादधिवासितम् ।

बालसूर्यप्रतीकाशैश्चन्दनैरुपशोभितम् ॥४॥

जो चन्दन अगर आदि सुगन्धित लेपों से सुवासित हुआ करती थीं, जो प्रभातकालीन सूर्य की तरह लाल लाल चन्दन से शोभायमान हुआ करती थीं, ॥ ४ ॥

शयने चोत्तमाङ्गेन सीतायाः शोभितं पुरा ।

तत्तक्षस्येव सम्भोगं गङ्गाजलनिषेधितम् ॥५॥

जो किसी समय सीता के मस्तक के नीचे रखी हुई शोभा को प्राप्त होती थीं, जो गङ्गाजल निषेधित तक्षक के शरीर के समान लंबी थीं, ॥५॥

संयुगे १युगसङ्काशं शत्रूणां शोकवर्धनम् ।

सुहृदानन्दनं दीर्घं २सागरान्तव्यपाश्रयम् ३ ॥६॥

जो युद्ध में गोपुर के आर्गल की तरह जान पड़ती थीं जो शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाली थीं और सुहृदों को आनन्द देने वाली और जिसका अवलम्बन कर ससागरा पृथिवी टिकी हुई है; ॥ ६ ॥

१ युगसङ्काशं—गोपुरार्गलवत् प्रतिभटनिवारम् । (गो०) २ सागरान्तेयस्यासौ । गरान्तः भूमण्डलम् । (गो०) व्यपाश्रयं—आलम्बनभूतं (गो०)

अस्यता च पुनः सव्यं ॐ ज्याघातविगतत्वचम् ।

दक्षिणो दक्षिणं बाहुं महापरिघसन्निभम् ॥७॥

और जो बाँया हाथ बाए छोड़ने के कारण प्रत्यञ्चा के आघात चिह्न से चिह्नित हो रहा है और जो दहिनी भुजा बड़े परिघ के समान है ॥ ७ ॥

गोसहस्रप्रदातारमुपधाय सहस्रजम् ।

अथ मे मरणं ताऽथ तरणं सागरस्य वा ॥८॥

और जिस दक्षिण भुजा के द्वारा हजारों गौँओं का दान दिआ जा चुका है, उसी उत्तम भुजा को अपने सिर के नीचे तकिये की जगह रख और यह दृढ़सङ्कल्प कर कि, आज या तो मैं समुद्र के पार हो जाऊँगा अथवा समुद्र का मरण ही होगा ॥८॥

इति रामो मतिं कृत्वा महाबाहुर्महोदधिम् ।

अधिशिश्ये च विधिवत्प्रयतो नियतो मुनिः ॥९॥

यह विचार कर, महाबाहुश्रीरामचन्द्र जी समुद्र पार करने का दृढ़ निश्चय कर और मौन हो, यथाविधि एवं यथानियम लेट गए ॥९॥

तस्य रामस्य सुप्तस्य कुशास्तीर्णे महीतले ।

नियमादप्रमत्तस्य निशास्तिस्रो व्यतिक्रमुः ॥१०॥

सावधानी से नियमपूर्वक पृथिवी के ऊपर कुशों की चटाई पर लेटे लेटे श्रीरामचन्द्र जी ने तीन दिन और तीन रात बिता दी ॥१०॥

१ मरणं—सागरस्य मरणं । [गो०] * पाटान्तरे—“व्याघाताविघ-
तत्वचम् ।” वा “व्याघातविहतत्वचम्” ।† पाटान्तरे—“निशास्ति-
स्रोतिक्रमुः ।” वा “निशास्तिस्रोऽभिजन्तुः ।”

स त्रिरात्रोषितस्तत्र नयज्ञो धर्मवत्सलः ।

उपासत तदा रामः सागरं सरितां पतिम् ॥११॥

नीतिकुशल एवं धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार तीन रात वास कर, नदीपति समुद्र की आराधना की ॥ ११ ॥

न च दर्शयते मन्दस्तदा रामस्य सागरः ।

प्रयतेनापि रामेण यथार्हमभिपूजितः ॥१२॥

यद्यपि श्रीरामचन्द्र जी ने समुद्र का यथाविधि सत्कार कर उसको प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, तथापि वह मूर्ख श्रीरामचन्द्र जी के सामने प्रकट न हुआ ॥१२॥

समुद्रस्य ततः क्रुद्धो रामो रक्तान्तलोचनः ।

समीपस्थमुवाचेदं लक्ष्मणं शुभलक्षणम् ॥१॥

तब तो श्रीरामचन्द्र जी को समुद्र की इस मूर्खता पर बड़ा क्रोध उपला और मारे क्रोध के उनके दोनों नेत्र लाल हो गए। उन्होंने पास बैठे हुए और शुक लक्षणोंसे युक्त लक्ष्मण से कहा ॥१३॥

अवलेपः समुद्रस्य न दर्शयति यत्स्वयम् ।

प्रशमश्च क्षमा चैव आर्जवं प्रियवादिता ॥१४॥

देखो समुद्र को इतना अभिमान है कि, वह स्वयं प्रकट नहीं होता। इसका कारण भी स्पष्ट ही है। वह यह कि, अक्रोध, शान्ति, अपराध-सहिष्णुता, दूसरे के मन के अनुसार वर्ताव, अथवा सीधासाधा (कपट रहित) वर्ताव, प्यारी बोल, ३ ॥१४॥

असामर्थ्यं फलन्त्येते निर्गुणेषु सतां गुणाः ।

आत्मप्रशंसिनं दुष्टं धृष्टं विपरिधावकम् ॥१५॥

सर्वत्रोत्सृष्टदण्डं च लोकः सत्कुरुते नरम् ।

न साम्ना शक्यते कीर्तिर्न साम्ना शक्यते यशः ॥१६॥

ये सब शिष्ट सज्जनों के गुण हैं । ये गुणहीन मनुष्यों के प्रति प्रयोग करने से, प्रयोगकर्ता की असमर्थता प्रकट करते हैं । जो अपनी बड़ाई आप करता है, जो चञ्चक और निर्दयी है, जो हवर-ठहर दौड़ा करता है जो गुणी निर्गुणी सब से दण्ड द्वारा काम लेता है; उसका अज्ञान सम्मान करते हैं, शान्त बने रहने से न नामवरी होती है और न यश ही प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ १६ ॥

प्राप्तुं लक्ष्मण लोकेऽस्मिञ्जयो वा रणमूर्धनि ।

अथ मद्वाणनिर्भिन्नैर्मकरैर्मकरालयम् ॥१७॥

निरुद्धतोऽयं सौमित्रे प्लवङ्गिः पश्य सर्वतः ।

महाभोगानि मत्स्यानां करिणां च करानिह ॥१८॥

हे लक्ष्मण ! शान्त बने रहने से युद्ध में जीत भी नहीं होती सो आज तुम मेरे बाणोंसे कटे हुए मगर-मच्छों के जल के ऊपर उतराने से समुद्र के जल को सबत्र ढका हुआ देखोगे । बड़े-बड़े साँपों के और मत्स्यों के कटे हुए शरीर जल के ऊपर तैरते हुए देख पड़ेंगे और जलहाथियों की सूँड़े कटी हुई दीखेंगी ॥१७॥१८॥

रभोगिनां पश्य नागानां मया छिन्नानि लक्ष्मण ।

सशङ्खशुक्तिकाजालं समीनमकरं शरैः ॥१९॥

लक्ष्मण ! तुम देखोगे कि, बड़े-बड़े सर्पों के छिन्नभिन्न शरीर और शङ्ख, सीप और मोतियों के ढेर के ढेर तथा मछलियों और मगरों के शरीर बाणों से विदीर्ण हो, जल के ऊपर उतरा रहे हैं ॥ १९ ॥

अथ युद्धेन महता समुद्रं परिशोषये ।

क्षमया हि समायुक्तं मामयं मकरालयः ॥२०॥

असमर्थं विजानाति धिक्क्षमामीदृशे जने ।

न दर्शयति साह्ना मे सागरो रूपमात्मनः ॥२१॥

महायुद्ध कर आज ही मैं समुद्र के जल को सुखा डालूँगा, मुझको अपराधसहिष्णु न मान कर, यह समुद्र मुझे असमर्थ समझ रहा है । सो ऐसे के प्रति क्षमाप्रदर्शन को धिक्कार है ! मैंने अभी तक जो सामनीति से काम लिया है, इसीसे सागर अभी तक मेरे सामने प्रकट नहीं हुआ ॥ २० ॥ २१ ॥

चापमानय सौमित्रे शरांश्चाशीविषोपमान् ।

सागरं शोषयिष्यासि पद्भ्यां यान्तु प्लवङ्गमाः ॥२२॥

हे लक्ष्मण ! तुम जाकर मेरा धनुष और सर्प-समान विष-वाले मेरे धाणु-तो उठा लाओ ! मैं इस समुद्र का जल सुखा डालूँगा, जिससे मेरे वानर पैदल ही समुद्रपार जा सकेंगे ॥२२॥

अद्याचोभ्यमपि क्रुद्धः क्षोभयिष्यामि सागरम् ।

वेलासु कृतमर्यादं सहसोर्मिसमाकुलम् ॥२३॥

जो समुद्र सदा तटों की सीमा के भीतर बना रहता है और बड़ी-बड़ी लहरों से परिपूर्ण और अक्षोभ्य है उसे मैं आज ही खलवला दूँगा ॥ २३ ॥

निर्मर्यादं करिष्यामि सायकैर्वरुणालयम् ।

महार्णवं क्षोभयिष्ये ऋमहानक्रसमाकुलम् ॥२४॥

मैं अपने बाणों से बड़े-बड़े नकों से भरे हुए इस वरुणालय
महासागर को निर्मर्याद कर क्षुब्ध कर डालूँगा ॥ २४ ॥

एवमुक्त्वा धनुष्पाणिः क्रोधविस्फारितेक्षणः ।

बभूव रामो दुधर्षो युगान्ताग्निरिव ज्वलन् ॥२५॥

इस प्रकार कह रघुनाथ जी ने धनुष हाथ में लिया । उस समय
क्रोध के मारे उनकी त्वोरी बदल गई । उस समय वे प्रलयकालीन
अग्नि की तरह प्रज्वलित हो दुर्धर्ष हो गए ॥ २५ ॥

सम्पीड्य च धनुर्घोरं कम्पयित्वा शरैर्जगत् ।

मुमोच विशिखानुग्रान् वज्रानिव शतक्रतुः ॥२६॥

तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने धनुष पर रोड़ा चढ़ा, उसकी
टङ्कार से समस्त जगत को कंपा दिया । वे उग्र बाणों को उसी
प्रकार छोड़ने लगे, जिस प्रकार इन्द्र वज्र छोड़ते हैं ॥ २६ ॥

ते ज्वलन्तो महावेगास्तेजसा सायकोत्तमाः ।

प्रविशन्ति समुद्रस्य सलिलं त्रस्तपन्नगम् ॥२७॥

वे तेज से प्रज्वलित तीर बड़े वेग से समुद्र के जल में घुसने
लगे, जिससे समुद्र के जल में रहने वाले सर्प त्रस्त हो गए ॥२७॥

तोयवेगः समुद्रस्य सनक्रमकरो महान् ।

सम्बभूव महाघोरः समारुतरवस्तदा ॥२८॥

उस समय मछली मकरादि प्राणियों से युक्त समुद्रका
बड़ा भारी वेग, प्रचरद पवन के भोंकों से बड़ा भयङ्कर शब्द
करने लगा ॥ २८ ॥

महोर्मिजालविततः शङ्खशुक्तिसमावृतः ।

सधूमपरिवृत्तोर्मिः सहसाऽऽसीत् महोदधिः ॥

समुद्रमें चारों ओर से तरङ्गों के बड़े-बड़े समूह उठे, व स्थान-स्थान पर शङ्ख और साँपों की ढेर के ढेर छितराने लगे । सब तरफ से लहरों के साथ धुआँ सा उठता देख पड़ा । देखते ही देखते समुद्र का रूप विकराल-हो गया ॥ २६ ॥

व्यथिताः पन्नगाश्चासन् दीप्तास्या दीप्तलोचनाः ।

दानवाश्च महावीर्याः पातालतलवासिनः ॥३०॥

उसमें रहने वाले प्रदीप्त मुख वाले तथा प्रदीप्त नेत्रवाले साँप तथा पातालवासी महाबलवान् दानवगण व्यथित हुए ॥ ३० ॥

ऊर्मयः सिन्धुराजस्य सनक्रमकरास्तदा ।

विन्ध्यमन्दरसङ्काशाः समुत्पेतुः सहस्रशः ॥३१॥

सिन्धुराज की विन्ध्य और मन्दराचल के समान ऊँची-ऊँची तथा नक्र मकरों से युक्त हज़ारों लहरें उठने लगीं ॥ ३१ ॥

आघूर्णिततरङ्गौघः सम्भ्रान्तोरगराक्षसः ।

उद्वर्तितमहाग्राहः ऋसघोषोवरुणालयः ॥३२॥

उस समय तरङ्गमाला तो घूमने लगी । नाग और राक्षस घबड़ा उठे । बड़े-बड़े घड़ियाल उलट गए । समुद्र में बड़े-बड़े शब्द सुन पड़ने लगे ॥ ३२ ॥

ततस्तु तं राघवमुग्रवेगं

प्रकर्षमाणं धनुरप्रमेयम् ।

सौमित्रिरुत्पत्य समुच्छ्रवसन्तं

मामेति चोक्त्वा भनुराललम्बे ॥३३॥

इस प्रकार धनुष के खींचते, बड़ी शीघ्रतापूर्वक बाणों को छोड़ते और जोर से स्वास लेते हुए श्रीरामचन्द्र जी को देख, लक्ष्मण जी ने “ऐसा न कीजिये” कह कर धनुष को पकड़ लिया ॥ ३३ ॥

[एतद्विनापि ह्युदधेस्तवाद्य
सम्पत्स्यते वीरतमस्य कार्यम् ।
भवद्विधाः कोपवशं न यान्ति
दीर्घं भवान् पश्यतु साधुवृत्तम् ॥३४॥

और बोले—हे प्रभो ! इस उपाय को काम में लाए बिना भी, दूसरे उपाय से आपका काम हो सकता है । देखिए आप जैसे महापुरुष को क्रोध करना उचित नहीं । आप अपनी सदा की साधुवृत्ति की ओर देखिए ॥ ३४ ॥

अन्तर्हितैश्चैव तथाऽन्तरिक्षे
ब्रह्मर्षिभिश्चैव सुरर्षिभिश्च ।
शब्दः कृतः कष्टमिति त्रुवद्भिः
मामेति चोक्त्वा महता स्वरेण ॥ ५॥

तदनन्तर आकाशचारी और अदृश्य ब्रह्मर्षियों तथा देवर्षियों ने भी दुःख प्रकट कर चिल्ला कर कहा, ऐसा न कीजिए ॥ ३५ ॥

युद्धकाण्ड का इक्कीसवाँ सर्ग पूरा हुआ

द्वाविंशः सर्गः

—:☆:—

अथोवाच रघुश्रेष्ठः सागरं दारुणं वचः ।

अद्य त्वां शोषयिष्यामि सपातालं महार्णव ॥१॥

रघुश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी समुद्र को सम्बोधन कर यह दारुण वचन बोले कि, हे महार्णव ! आज मैं तेरा पाताल तक का जल सुखा डालूँगा ॥ १॥

शरनिर्दग्धतोयस्य परिशुष्कस्य सागर ।

मया शोषितसत्त्वस्य पांसुरुत्पद्यते महान् ॥२॥

हे सागर ! मेरे बाणों द्वारा तेरा जल सूख जायगा । तेरे भीतर रहने वाले समस्त जलजन्तु मर जाँयगे । फिर खूब धूल उड़ने लगेगी ॥ २ ॥

मत्कामुकविसृष्टेन शरवर्षेण सागर ।

पारं तेऽद्य गर्भिष्यन्ति पद्भिरेव स्रवङ्गमाः ॥३॥

हे सागर ! मेरे धनुष से छूटे हुए तीरों की वर्षा से, वानर उस पार पैदल ही चले जाँयगे ॥ ३ ॥

विचिन्वन्नाभिजानामि पौरुषं वाऽपि विक्रमम् ।

दानवालय सन्तापं मत्तो नाधिगमिष्यसि ॥४॥

हे दानवालय ! तू मेरे बल और पराक्रम को नहीं जानता और मत्ता होने के कारण न तुझे आगे होने वाले अपने सन्ताप ही का कुछ ज्ञान है ॥ ४ ॥

ब्राह्मणास्त्रेण संयोज्य ब्राह्मदण्डनिभं शरम् ।
संयोज्य धनुषि श्रेष्ठे विचर्ष्य महाबलः ॥५॥

यह कह महाबली श्री रामचन्द्रजी ने ब्रह्मशाप की तरह
अमोघ एक बाण ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिसंत्रित कर अपने श्रेष्ठ
धनुष पर चढ़ा कर, बड़ी जोर से खींचा ॥ ५ ॥

तस्मिन् विकृष्टे सहसा राघवेण शरासने ।

रोदसी रसम्पफालेव पर्वताश्च चकम्पिरे ॥६॥

जब श्रीरामचन्द्रजी ने सहसा वह बाण चलाने को रोदा
खींचा तब ऐसा जान पड़ा, मानों आकाश और पृथिवी फटी
पड़ती है । उस समय पहाड़ कांपने लगे ॥ ६ ॥

तमश्च लोकमावर्त्रे दिशश्च न चकाशिरे ।

परिचुक्षुभिरे चाशु सरांसि सरितस्तथा ॥७॥

सर्वत्रअन्धकार छा गया, दिशाएँ प्रकाशशून्य हो गयीं
सरोवरें और नदियां खलबला उठी ॥ ७ ॥

तिर्यक्च सहनक्षत्रः सङ्गतौ चन्द्रभास्करौ ।

भास्करांशुभिरादीप्तं तमसा च समावृतम् ॥८॥

नक्षत्रों सहित सूर्य चन्द्रकी गति तिरछी हो गई । उस समय
सूर्य के रहते भी आकाश में अन्धकार छाया हुआ था ॥ ८ ॥

प्रचकाशे तदाकाशमुल्काशतन्निदीपितम् ।

अन्तरिक्षाच्च निर्घाता निर्जग्मुरतुलस्वदाः ॥९॥

१ ब्रह्मदण्डः—ब्रह्मशापः तद्ब्रह्ममोघमित्यर्थः । गो० २ रोदसी—
घावासन्तः । गो० ३ सम्पफालेव—भिन्नेदज ।

सैकड़ों प्रदीप्त उल्काओं से आकाश प्रदीप्त हो गया और विजली की कड़क की तरह शब्द से बारबार नादित हो गया ॥ ६ ॥

पुस्फुरश्च घना दिव्या दिवि मारुतपङ्क्तयः ।

बभञ्ज च तदा वृक्षाञ्जलदानुद्धहन्नपि ॥१०॥

आकाश में बड़े वेग से पवन चलने लगा, जिसने अनेक वृक्षों को उखाड़ डाला और वह आकाश में मेघों को इधर—उधर उड़ाने भी लगा ॥ १० ॥

अरुजंश्चैव शैलाग्राञ्शिखराणि प्रभञ्जनः ।

दिविस्पृशो महामेघाः सङ्गताः समहास्वनाः ॥११॥

बड़े-बड़े पहाड़ों से टकरा कर पवन उनके शिखरों को गिराने लगा । आकाशस्पर्शी बड़े-बड़े वादल आकाश में बड़े जोर से गरजने लगे ॥ ११ ॥

मुमुचुर्वैद्युतानग्नींस्ते महाशनयस्तदा ।

यानि भूतानि दृश्यानि चुक्रुशुश्चाशनेः समम् ॥१२॥

आकाश से अग्निमय वज्रपात होने लगा । उस समय जितने जीवधारी दिखलाई पड़ते थे, वे सब के सब वज्र के समान महा-महा भयङ्कर शब्द कर रहे थे ॥ १२ ॥

अदृश्यानि च भूतानि मुमुचुर्भैरवस्वनम् ।

शिशियरे चापि भूतानि संत्रस्तान्युद्विजन्ति च ॥१३॥

जो जीवधारी अदृश्य थे, वे सब भी बड़ा भयङ्कर शब्द करने लगे । बहुत से मारे डर के विकल हो, लेट गए ॥ १३ ॥

सम्प्रविव्यथिरे चापि न च पस्पन्दिरे भयात् ।

सह भूतैः सतोयोर्मिः सनागः सहराक्षसः ॥ १४ ॥

अनेक विकल हो गए और बहुत से दुःखी हुए । बहुत से मारे डर के हिल भी न सके ; जहाँ के तहाँ निर्जीव से पड़े रहे । जलचर जन्तुओं, तरङ्गों, नागों और राक्षसों से युक्त समुद्र में बड़ी खलबली मच गई ॥ १४ ॥

सहसाऽभूत्ततो वेगाद्भीमवेगो महोदधिः ।

योजनं व्यतिचक्राम वेलामन्यत्र सम्प्लवात् ॥ १५ ॥

उस समय सहसा समुद्र का बड़ा भयङ्कर वेग बढ़ गया । जिससे उसका जल उसके तट को नाँच, एक योजन आगे बढ़ गया । ऐसा बिना जलप्रलय के कभी नहीं होता ॥ १५ ॥

तं तदा समतिक्रान्तं नातिचक्राम राघवः ।

समुद्धतममित्रघ्नो रामो नदनदीपतिम् ॥ १६ ॥

शत्रुहन्ता श्रीरामचन्द्र जी ने समुद्र को इस प्रकार पीछे हटते देख, उस पर शस्त्रप्रयोगरूपी आक्रमण न किया अर्थात् वाण न चलाया अथवा श्रीरामचन्द्र जी समुद्र को चलायमान होते देग्य कर भी, स्वयं विचलित न हुए और न अपना वाण ही रोदे से उतारा ॥ १६ ॥

ततो मध्यात्समुद्रस्य सागरः स्वयमुत्थितः ।

उदयन्धि महाशैलान् मेरोरिव दिवाकरः ॥ १७ ॥

तब समुद्र के जल में से स्वयं मूर्तिमान् समुद्र ऐसे निकला, जैसे कि, मेरु नाम क बड़े पर्वत पर सूर्य निकलता है ॥ १७ ॥

पन्नगैः सह दीप्तास्यैः समुद्रः प्रत्येदृश्यत ।

स्निग्धत्रैडूर्यसङ्काशो जाम्बुनदविभूषितः ॥ १८ ॥

उसके साथ वड़े वड़े प्रदीप्त मुँह वाले साँप देख पड़े । समुद्र के शरीर का रंग पन्न के तरह हरा और चमकीला था वह सोने के आभूषणों से भूषित था ॥ १८ ॥

रक्तमाल्याम्बरधरः पद्मपत्रनिभेक्षणः ।

सर्वपुष्पमयीं दिव्यां शिरसा धारयन् स्रजम् ॥१९॥

उसके कमलसदृश नेत्र थे और वह लाल फूलों की माला तथा लाल ही रंग के वस्त्र पहिने हुए था । उसके सिर पर सब प्रकार के पुष्पों की गुथी हुई दिव्य-पुष्प-माला लपटी हुई थी ॥१९॥

जातरूपमयैश्चैव तपनीयविभूषितैः ।

आत्मजानां च रत्नानां भूषितो भूषणोत्तमैः ॥२०॥

उसके समस्त भूषण उत्तम सुवर्ण के बने हुए थे, उन भूषणों में वे ही रत्न जड़े हुए थे, जो समुद्र ही में उत्पन्न होते हैं ॥ २० ॥

धातुभिर्मण्डितः शैलौ विविधैर्हिमवानिव ।

एकावलीमध्यगतं तर्लं *पाटलप्रभम् ॥ २१ ॥

वह सुवर्ण के आभूषणों को धारण किए हुए ऐसा जान पड़ता था, मानों अनेक धातुओं से भूषित हिमाचल हो । वह मोतियों का ऐसा हार पहने हुए था, जिसके बीच में गुलाबी रंग का रत्न जड़ा हुआ था ॥ २१ ॥

विपुलेनोरसा विभ्रत्कौस्तुभस्य सहोदरम् ।

आधूर्णिततरङ्गावः कालिकानिलप्रङ्खुलः ॥ २२ ॥

उसके प्रशस्त वक्षःस्थल पर वह रत्न कौस्तुभमणि के सहोदर भाई की तरह शोभायमान थी । उस समय वह उठती हुई तरङ्गों, मेघों और तेज हवा से पूर्ण था ॥ २२ ॥

गङ्गासिन्धुप्रधानाभिरापगामिः समावृतः ।

सागरः समुपक्रम्य शूर्वमामन्व्य वीर्यवान् ॥२३॥

गङ्गा सिन्धु आदि मुख्य मुख्य नदियाँ और नद उसके साथ थे । समुद्र ने श्रीरामचन्द्र जी की "हे राम !" कह कर प्रथम सम्बोधन किया ॥ २३ ॥

अत्रवीत्प्राञ्जलिर्वाक्यं राघवं शरपाणिनम् ।

पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च राघव ॥२४॥

तदनन्तर हाथ जोड़ कर हाथ में धनुष बाण लिये हुए श्रीरामचन्द्र जी से बोला । हे राघव ! पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश ॥ २४ ॥

स्वभावे सौम्य तिष्ठन्ति शाश्वतं मार्गमाश्रिताः ।

तत्स्वभावो ममाप्येष यद्गगाश्रोऽहमप्लवः ॥२५॥

अनादिकाल से अपने स्वभाव के वश हो वतते हैं, अथवा अपनी अपनी मर्यादा के भीतर रहते हैं । मेरा भी यही स्वभाव है कि, मैं अगाध हूँ और इसलिए पार जाने के अयोग्य हूँ ॥ २५ ॥

विकारस्तु भवेद्गाध एतत्ते वेदयाम्यहम् ।

न कोमान्न च लोभाद्वा न भयात्पार्थिवात्मज ॥२६॥

हे राजकुमार ! यदि मैं उथला हो जाऊँ तो मेरा अन्यथा भाव हो जाय अर्थात् मैं अपनी स्वाभाविकी सीमा से विचलित हो जाऊँ । यह जो मैं आपसे कह रहा हूँ सो अपने किसी लाभ लोभ या भय के वश हो नहीं कहता ॥ २६ ॥

ग्राहनक्राकुलजलं स्तम्भयेयं कथञ्चन ।

विधास्ये राम येनापि विषहिष्ये ह्यहं तथा ॥२७॥

मैं कभी भी नक्र और मत्स्यों से युक्त अपनी जलराशि को नहीं रोक सकता । हे राम ! आपकी इच्छानुसार कार्य करने को मैं उद्यत हूँ और आप जो करेंगे, उसे सहूँगा । अथवा आप जिस मार्ग से जाँयगे उसे वतलाऊँगा और उसका बोझ स्वयं सह लूँगा ॥ २७ ॥

ग्राहा न प्रहरिष्यन्ति यावत्सेना तरिष्यति ।

हरीणां तरणे राम करिष्यामि यथा स्थलम्? ॥२८॥

हे राम ! जब तक आपकी सेना पार न हो जायगी कोई भी मगर आदि जलजन्तु मार्ग में कुछ भी उपद्रव न करेंगे । मैं वानरों के उतरने के लिये पुल की योजना कर दूँगा ॥ २८ ॥

तमव्रवीत्तदा राम उद्यतो हि नदीपते ।

अमोघोऽयं महावाणः कस्मिन् देशे निपात्यताम् ॥२९॥

रास्ता देने के लिए उद्यत समुद्र से श्रीरामचन्द्र जी बोले— अच्छी बात है, पर मेरा यह महावाण अमोघ है (अर्थात् एक धार जब धनुष पर चढ़ा दिआ तब उतारा नहीं जा सकता) अतएव वतलाओ इसे मैं किस ओर चलाऊँ ॥ २९ ॥

रामस्य वचनं श्रुत्वा तं च दृष्ट्वा महाशरम् ।

महोदधिर्महातेजा राघवं वाक्यमत्रवीत् ॥३०॥

उस बड़े शर को देख और श्रीरामचन्द्र जी के वचन सुन समुद्र महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी से बोला ॥ ३० ॥

उत्तरेणावकाशोऽस्ति करिचत्पृण्यतमो मम ।

द्रुमकुल्यइति ख्यातो लोके ख्यातो यथा भवान् ॥३१॥

हे राम ! यहाँ से उत्तर की ओर अति पवित्र मेरा एक देश है । वह द्रुमकुल्य नाम से संसार में उनी प्रकार प्रसिद्ध है, जिस प्रकार आप प्रख्यात हैं ॥ ३१ ॥

उग्रदर्शनकर्माणो बहवस्तत्र दस्यवः ।

आभीरप्रमुखाः पापाः पिवन्ति सलिलं मम ॥३२॥

वहाँ पर भयङ्कर रूप वाले तथा भयङ्कर कार्य करने वाले पापी अहोर आदि डाकू रहते हैं, जो मेरा जल पियाश्च करते हैं ॥ ३२ ॥

तैस्तु संस्पर्शनं प्राप्तैर्न सहं पापकर्मभिः ।

अमोघः क्रियतां राम तत्र तेषु शरोत्तमः ॥३३॥

हे राम ! मुझे उन पापियों का स्पर्श भी मिला नहीं है । अतः और अपने इस उत्तम बाण का वहीँ गिरा, कर सकल कीजिये ॥ ३३ ॥

तस्थ तद्वचनं श्रुत्वा सागरस्य स राघवः ।

मुमोच त शरं दीप्तं वीरः सागरदशनान् ॥३४॥

सागरदशनान्—सागरमतेन । (गो०) * इससे जान पड़ता है उस समुद्र का जल खारी नहीं था ।

श्रीरामचन्द्र जी ने समुद्र के ये वचन सुन, उस प्रदीप्त वाण-
को समुद्र के बतलाए हुए स्थान पर गिरा दिखा ॥ ३४ ॥

तेन तन्मरुकान्तारं पृथिव्यां खलु विश्रुतम् ।

निपातितः शरो यत्र दीप्ताशनिसमप्रभः ॥३५॥

वह वज्र के समान प्रदीप्त वाण जहाँ पर गिरा, वह स्थान
उसी दिन से मरुकान्तार (मारवाड़) के नाम से प्रसिद्ध हो
गया ॥ ३५ ॥

ननाद च तदा तत्र वसुधा शल्यपीडिता ।

तस्माद्ब्रणमुखात्तोयमुत्पपात रसातलात् ॥३६॥

जहाँ वह वाण गिरा, वहाँ की भूमि से बड़ा भयङ्कर शब्द
हुआ और वहाँ एक बड़ा गहरा गढ़ा हो गया । उस गढ़े से रसा-
तल का जल निकल आया ॥ ३६ ॥

स बभूव तदा कूपो ब्रण इत्यभिविश्रुतः ।

सततं चोत्थितं तोयं समुद्रस्येव दृश्यते ॥३७॥

और वह एक कुआँ बन गया जिसका ब्रण नाम प्रसिद्ध है ।
इसमें जो जल रहता है, वह सदैव समुद्र के जल की तरह उछ-
लता हुआ देख पड़ता है ॥ ३७ ॥

अघदारणशब्दश्च दारुणः समपद्यत ।

तस्मात्तद्वाणपातेन त्वपः कुक्षिष्वशोपयत् ॥३८॥

वाण के गिरते समय पृथ्वी फटने का भयंकर शब्द हुआ
था और वाण जहाँ गिरा वहाँ की भीलों और तालाबों का जल
सूख गया ॥ ३८ ॥

विख्यातं त्रिषु लोकेषु मरुकान्तारमेव तत् ।

शोपयित्वा ततः कुक्षि रामो दशरथात्मजः ॥३९॥

वरं तस्मै ददौ विद्वान् मरुवेऽमरविक्रमः ।

पशव्यश्चाल्परोगश्च फलमूलरसायुतः ॥४०॥

वह स्थान तीनों लोकों में मरुकान्तर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उस समुद्रमध्यगत स्थान का जल सुखा, अकर-विक्रमी दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ने उसे यह वर दिया कि, यह देश पशुओं के लिए हितकारक, रोगरहित, फलों मूलों और शहद युक्त होगा ॥ ३६ ॥ ४० ॥

बहुस्नेहो बहुक्षीरसुगन्धिविधिविधौपधः ।

एवमेतैर्गुणैर्युक्तो बहुभिः सततं मरुः ॥४१॥

इस देश में घी, दूध की बहुतायत होगी और विविध प्रकार की सुगन्धित औषधियाँ होंगी । इस प्रकार यह नरुदेश बहुत से भोग्य पदार्थों से सदा युक्त हो गया ॥ ४१ ॥

रामस्य वरदानाच्च शिवः पन्थाः बभूव ह ।

तस्मिन् दग्धे तदा कुक्षौ समुद्रः सरितां पतिः ॥४२॥

श्रीरामचन्द्र जी के वरदान से वह शोभन प्रदेश हो गया । समुद्र के मध्यगत उस स्थान का जन दग्ध हो जाने पर नदीपति समुद्र ने ॥ ४२ ॥

राघवं सर्वशास्त्रज्ञमिदं वचनमब्रवीत् ।

अयं सौम्य नलो नाम तनुजो विश्वकर्मणः ॥४३॥

१ रसः—मधुः । (गो०) २ स्नेहः घृतः । (गो०) ३ क्षितः पन्था.—शोभनप्रदेश इत्यर्थः । (गो०)

सर्वशास्त्रज्ञ श्रीरामचन्द्र जी से यह वचन कहा । हे मौम्य ! यह नल नामक वानर विश्वकर्मा का पुत्र है ॥ ४३ ॥

पित्रा दत्तवरः श्रोमान् प्रतिमो विश्वकर्मणः ।

एष सेतुं महोत्साहः करोति मयि वानरः ॥४४॥

इसके पिता विश्वकर्माने इसको यह वर दिया है कि, तुम मेरे समान हो । सो, मेरे जल के ऊपर नल ही वड़े उत्साह के साथ पुल बाँधे ॥ ४४ ॥

तमहं धारयिष्यामि तथा ह्येष यथा पिता ।

एवमुक्त्वोदधिर्नष्टः समुत्थाय नलस्तदा ॥४५॥

मैं इसके बनाए पुत्र को धारण करूँगा क्योंकि जैसा इसका पिता है वैसा ही यह भी है । यह कह कर समुद्र अन्तर्द्वान हो गया । तब नल नामक वानर उठा ॥ ४५ ॥

अत्रवीद्वानरश्रेष्ठो वाक्यं रामं महाबलः ।

अहं सेतुं करिष्यामि विस्तीर्णो वरुणालये ॥४६॥

१पितुः सामर्थ्यमास्थाय तत्त्वमाह महोदधिः ।

दण्ड एव वरो लोके पुरुषस्येति मे मतिः ॥४७॥

और उस वानरश्रेष्ठ महाबली वानर ने श्रीरामचन्द्र जी से कहा । हे महाराज ! समुद्र ने जो कुछ कहा सत्य है । मैं पिता के वरदान के प्रभाव से इस विस्तृत वरुणालय महासागर पर पुल बाँधूँगा । इस सम्बन्ध में मैं यह अवश्य कहूँगा कि, संसार में दण्ड ही सब से बढ़ कर काम बनाने वाला है ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ -

धिकृत्तमामकृतज्ञेषु सान्त्वं दानमथापि वा ।

अयं हि सागरो भीमः सेतुकर्मदिदृक्षया ॥ ४८ ॥

ददौ दण्डभयाद्गाधं राघवाय महोदधिः ।

मम मातुर्वरो दत्तो मन्दरे विश्वकर्मणा ॥ ४९ ॥

उपकार न मानने वालों के प्रति क्षमा प्रदर्शित करना या उनको समझाना अथवा दान आदि से सन्तुष्ट करने का यत्न करना व्यर्थ है। यह भयङ्कर नागर दण्ड के भय ही से पुल बंधवाना स्वीकार कर, उथला हो गया है। इस समुद्र की वान सुन, मुझे याद आ गया कि, विश्वकर्मा ने मन्दराचल पर मेरी माता को यह वर दिया था ॥ ४९ ॥

औरसस्तरय पुत्रोऽहं सदृशो विश्वकर्मणा ।

[पित्रोः प्रसादात्काकुत्स्थ ततः सेतुं करोम्यहम्] ॥५०॥

कि—“ मेरे समान तेरे पुत्र होगा। ” सो मैं उसका औरत पुत्र होने से उसी के समान हूँ। हे रघुनन्दन ! पिताजी के वरदान से मैं सेतु की रचना करता हूँ ॥ ५० ॥

न चाप्यहमनुक्तो वै प्रब्रूयामात्मनो गुणान् ॥५१॥

आप के पूछे बिना मैंने अपने मुख से अपने गुणों का बयान करना उचित नहीं समझा ॥ ५१ ॥

समर्थश्चाप्यहं सेतुं कर्तुं वै वरुणालये ।

काममद्यैव बन्धनन्तु सेतुं वानरपुङ्गवाः ॥ ५२ ॥

मैं निस्सन्देह समुद्र पर पुल बांध सकूँगा जो अब इसी समय से वानरभेष्ट पुत्र बांधने में लगे ॥ ५२ ॥

शततोतिसृष्टा रामेण सर्वतो हरियूथपाः ।

अभिपेतुर्महारण्यं हृष्टाः शतसहस्रशः ॥ ५३ ॥

यह सुनते ही श्री रामचन्द्र जी ने वानरों को इस काम के लिए नियुक्त किया । तब तो लाखों वानर प्रसन्न हो वनों में घुस गए ॥ ५३ ॥

ते नगान्नगसङ्काशाः शाखामुगगणर्षभाः ।

वभञ्जुर्वानरास्तत्र प्रचकर्षुश्च सागरम् ॥ ५४ ॥

फिर वे पर्वताकार वानर यूथपति पर्वतशिखरों और वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर समुद्रतट पर ला ला कर ढेर लगाने लगे ॥ ५४ ॥

ते सालैश्चाश्वकर्णैश्च धवैर्वशैश्च वानराः ।

कुटजैर्जुनैस्तालैस्तिलकैस्तिमिशैरपि ॥ ५५ ॥

उन लोगों ने साखू, अश्वकर्ण, धव, बाँस, कोरैया, अर्जुन, ताल, तिलक, तिमिश ॥ ५५ ॥

विन्वैश्च सप्तपर्णैश्च कर्णिकारैश्च पुष्पितैः ।

चूतैश्चाशोकवृक्षैश्च सागरं समपूरयन् ॥ ५६ ॥

बेल, सप्तपर्ण, फूले हुए कनैर, आम और अशोक के पेड़ों से समुद्र को पाट दिया ॥ ५६ ॥

समूलांश्च विमूलांश्च पादपान् हरिसत्तमाः ।

इन्द्रकेतूनिबोधम्य प्रजहुर्हरयस्तरून् ॥ ५७ ॥

वे वानरश्रेष्ठ, मूल सहित और बिना मूलों के वृक्षों को, इन्द्र की ध्वजा की तरह उठा उठा कर लाने लगे ॥ ५७ ॥

१ अतिसृष्टाः—नियुक्ताः । (गो०) २ प्रचकर्षुः—आनयन्ति स्म । (गो०)

तालान् दाडिमगुल्मांश्च नारिकेलान् विभीतकान् ।

वकुलान् खदिरान्निम्बान् समाजहूः समन्ततः ॥५८॥

वे ताड़, अनार, नारियल, कत्या, बहेड़ा, मौलसिरी, खदिर और नीम के पेड़ों को इधर उधर से लाकर वहाँ डालने लगे ॥ ५८ ॥

हस्तिमात्रान् महाकायाः पापाणांश्च महाबलाः ।

पर्वतांश्च समुत्पाटय यन्त्रैः? परिवहन्ति च ॥५९॥

हाथी के समान बड़े बड़े शरीर वाले और महाबलवान् वानर बड़े बड़े पत्थरों को उखाड़ कर और गाड़ियों पर ढोकर वहाँ पहुँचाने लगे ॥ ५९ ॥

प्रक्षिप्यमाणैरचलैः सहसा जलमुद्धतम् ।

समुत्पतितमाकाशमुपासर्पत्ततस्ततः ॥ ६० ॥

उन पत्थरों के बड़े टुकड़ों का जन में डालने से समुद्र का जल इतना उछलता कि, आकाश को चला जाता और फिर नीचे गिर जाता था ॥ ६० ॥

समुद्रं क्षोभयामासुर्वानराश्च समन्ततः ।

सूत्राण्यन्ये प्रगृह्णन्ति व्यायतं शतयोजनम् ॥६१॥

इस प्रकार चारों ओर पेड़ों और पत्थरों को गिरा कर, वानरों ने समुद्र का जल खलबला दिया । कितने ही वानर नौ योजन लम्बे सूत को थाम पुल की मिथाई ठीक करने थे ॥ ६१ ॥

नलश्चक्रे महासेतुं मध्ये नदनदीपतेः ।

स तथा क्रियते सेतुर्वानरैर्घोरैरकर्मभिः ॥ ६२ ॥

इस प्रकार नल ने।घोरकर्मा वानरों की सहायता से नदीपति समुद्र के ऊपर पुत्र बाँधा ॥ ६२ ॥

१दण्डानन्ये प्रगृह्णन्ति विचिन्वन्ति तथा परे ।

वानराः शतशस्तत्र रामस्याज्ञापूरः सराः ॥ ६३ ॥

कोई कोई वानर हाथों में डंडे ले कर वानरों से काम जल्दी पूरा कराने के लिये खड़े थे, कोई इधर उधर घूम फिर कर बड़े बड़े पेड़ों को ढूँढ़ रहे थे । इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञा से सैकड़ों वानर ॥ ६३ ॥

मेघामैः पर्वताग्रैश्च वृणैः काण्ठैर्वन्धिरे ।

पुष्पिताग्रैश्च तरुभिः सेतुं बध्नन्ति वानराः ॥६४॥

जिनका शरीर पर्वत और मेघ की तरह विशाल था; वृण, काठ, पुष्पित वृक्षों तथा पत्थरों से पुत्र बाँधने का काम कर रहे थे ॥ ६४ ॥

पापाणांश्च गिरिप्रख्यान् गिरीणां शिखराणि च ।

दृश्यन्ते परिधावन्तो गृह्य वारणसन्निभाः ॥ ६५ ॥

हाथी के समान विशाल शरीर वाले बहुत से वानर, पर्वत के समान बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों और पर्वतशिखरों को लये हुये, हाथियों की तरह दौड़ते हुये जान पड़ते थे ॥ ६५ ॥

शिलानां क्षिप्यमाणानां शैलानां च निपात्यताम् ।

वभूव तुमुलः शब्दस्तदा तस्मिन् महोदधौ ॥६६॥

उस समुद्र में शिलाओं के डालने और पर्वतों के पटकने से बड़ा शब्द होता था ॥ ६६ ॥

कृतानि प्रथमेनाह्वा योजनानि चतुर्दश ।

प्रहृष्टैर्गजसङ्काशैस्त्वरमाणैः प्लवङ्गैर्मः ॥ ६७ ॥

इस प्रकार गज के समान शरीर वाले और फुर्तिले वानरों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रथम दिन चौदह योजन लंबा पुल बना डाला ॥ ६७ ॥

द्वितीयेन तथा चाह्वा योजनानि तु विंशतिः ।

कृतानि प्लवगैस्त्पूर्णं भीमकायैर्महावर्लैः ॥ ६८ ॥

फिर भयङ्कर शरीर वाले महाबली वानरों ने फुर्ती से दूसरे दिन बीस योजन लंबा पुल बांध कर तैयार किया ॥ ६८ ॥

अह्वा तृतीयेन तथा योजनानि कृतानि तु ।

त्वरमाणैर्महाकायैरेकविंशतिरेव च ॥ ६९ ॥

उन महाकाय और शीघ्र कर्मकारी वानरों ने तीसरे दिन २१ योजन लंबा और पुल बांधा ॥ ६९ ॥

चतुर्थेन तथा चाह्वा द्वाविंशतिरथापि च ।

योजनानि महावेगैः कृतानि त्वरितैस्तु तैः ॥ ७० ॥

उन बड़े फुर्तिले वानरों ने चौथे दिवस बड़ी फुर्ती से २२ योजन लंबा पुल और बांधा ॥ ७० ॥

पञ्चमेन तथा चाह्वा प्लवगैः निप्रकारिभिः ।

योजनानि त्रयोविंशत्सुबेलमधिकृत्य वै ॥ ७१ ॥

उन शीघ्र कर्मकारी वानरों ने पाँचवें दिन २३ योजन लंबा और पुल बांध वै लङ्कास्थित सुबेल पर्वत पर पहुँच गए । अर्थात् पुनः का काम नल ने पाँच दिन में पूरा कर टाला ॥ ७१ ॥

स वानरवरः श्रीमान्विश्वकर्मात्मजो बली ।

वचन्ध सागरे सेतुं यथा चास्य पिता तथा ॥ ७२ ॥

इस प्रकार विश्वकर्मा के बलवान् पुत्र कपिश्रेष्ठ नल ने अपने पिता के समान पराक्रम दिखा, समुद्र के ऊपर सेतु बाँधा ॥ ७२ ॥

स नलेन कृतः सेतुः सागरे मकरालये ।

शुशुभे सुभगः श्रीमान् स्वातीपथ इवाम्वरे ॥ ७३ ॥

नल द्वारा बना हुआ वह पुत्र ऐसी शोभा दे रहा था, जैसी शोभा आकाश में छायापथ की होती है ॥ ७३ ॥

ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः ।

आगम्य गगने तस्थुर्द्रष्टुकामास्तद्भ्रुतम् ॥ ७४ ॥

तब तो देवता, गन्धर्व, सिद्ध और महर्षि लोग उस अद्भुत पुल की रचना देखने को, आकाश में आ खड़े हुए ॥ ७४ ॥

दशयोजनविस्तीर्णां शतयोजनमायतम् ।

ददशुर्देवगन्धर्वा नलसेतुं सुदुष्करम् ॥ ७५ ॥

देवताओं और गन्धर्वों ने नल का बनाया हुआ, अत्यन्त दुष्कर सौ योजन लंबा और दस योजन चौड़ा पुल देखा ॥ ७५ ॥

आप्लवन्तः प्लवन्तश्च गजन्तश्च प्लवङ्गमाः ।

तदचिन्त्यमसह्यं च अद्भुतं रोमहर्षणम् ॥ ७६ ॥

काय पूरा होने के आनन्द में वानर लोग कूदने फाँदने और गर्जने लगे । उस अचिन्तनीय अद्भुत एवं रोमाञ्चकारी ॥ ७६ ॥

ददशुः सर्वभूतानि सागरे सेतुवन्धनम् ।

तानि कोटिसहस्राणि वानराणां महौजसाम् ॥ ७७ ॥

सेतु की रचना को सब प्राणियों ने देखा । महाबलवान्
लाखों करोड़ों वानर ॥ ७७ ॥

वध्नन्तः सागरे सेतुं जग्मुः पारं महोदधेः ।

विशालःसुकृतः१ श्रामान्सुभूमिःसुसमाहितः२ ॥ ७८ ॥

सेतु बाँध कर समुद्र के पार ही गए । नल ने जो पुरु बाँधा
था, वह बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़ा मजदूर था, सीधा था, नीचा
ऊँचा न हो कर समान चौरस था और उसमें गड्ढे भी न
थे ॥ ७८ ॥

अशोभत महासेतुः सीमन्त इव सागरे ।

ततः पारे समुद्रस्य गदापाणिर्विभीषणः ॥ ७९ ॥

परंपामभिवातार्थमतिष्ठत्सचिवैः सह ।

सुग्रीवस्तु ततः प्राह रामं सत्यपराक्रमम् ॥ ८० ॥

वह सेतु समुद्र के बीच ऐसा शोभायमान हो रहा था, जैसे
स्त्रियों के सर की मॉग । तदनन्तर हाथ में गदा ले विभीषण
अपने मंत्रियों सहित समुद्र के उस पार शत्रुओं को मारने के
लिए जा खड़े हुए । तब सुग्रीव ने सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी
से कहा ॥ ७९ ॥ ८० ॥

हनुमन्तं त्वमागोह अङ्गदं चापि लक्ष्मणः ।

अयं हि विपुलो वीर सागरो मकरालयः ॥ ८१ ॥

वैहायसौ युवामेतौ वानरौ तारयिष्यतः ।

अग्रतस्तस्य सैन्यस्य श्रीमान् रामः सलक्ष्मणः ॥ ८२ ॥

१ सुकृतः—दृढतयाकृत. । (गो०) २ श्रामान्—श्रुद्धत्वेन कान्तिमान् ।

(गो०) ३ सुभूमिः—निम्नोन्नतःवरहितः । (गो०) सुसमाहितः—
निर्विचरः । (गो०)

जगाम धन्वी धर्मात्मा सुग्रीवेण समन्वितः ।

अन्ये मध्येन गच्छन्ति पार्श्वतोऽन्ये प्लवङ्गमाः ॥ ८३ ॥

हे वीर ! आप हनुमान जी पर और लक्ष्मण जी अङ्गद पर सवार हो लें क्योंकि यह समुद्र मगर मच्छों का है और ये दोनों आकाशचारी वानर हैं, अतः आप दोनों को भली भाँति समुद्र पार पहुँचा देंगे । तब उस वानरी सेना के आगे आगे दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण हाथ में धनुष बाण ले धर्मात्मा सुग्रीव को अपने साथ लिये हुए चले । कोई कोई कपियूथपति बीच में और कोई अगल वगल और पीछे हो लिये ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥

सलिले प्रपतन्त्यन्ये मार्गमन्ये न लेभिरे !

केचिद्वैहायसगताः सुपर्णा इव पुण्ड्रवुः ॥ ८४ ॥

वानरों की संख्या अत्याधिक और रास्ता सङ्कीर्ण होने के कारण बहुत से वानर पानी में गिर पड़े और बहुत से रास्ता न मिलने के कारण समुद्रतट पर इस पार ठहरे रहे । बहुत से गरुड़ की तरह उड़ कर आकाश मार्ग से गये ॥ ८४ ॥

घोषेण महता तस्य सिन्धोर्वोषं समुच्छ्रितम् ।

भीममन्तर्दधे भीमा तरन्ती हरिवाहिनी ॥ ८५ ॥

समुद्र पार होते समय वानरी सेना के तुमुज शब्द के नीचे समुद्र का सिंहनाद दब गया ॥ ८५ ॥

वानराणां हि सा तीर्णा वाहिनी नलसोतुना ।

तीरे निविधिशे राज्ञो बहुमूलफलोदके । ८६ ॥

इस प्रकार नल के बनाए हुए पुल से वह सेना समुद्र के पार हो गयी । उस पार पहुँच, सुग्रीव ने उनको अधिक फलमूलपूर्ण समुद्रतट पर ठहरा दिया ॥ ८६ ॥

तदद्भुतं राघवकर्म दुष्करं

समीच्य देवाः सह सिद्धचारणैः !

उपेत्य रामं सहस्रा महर्षिभिः

समभ्यपिञ्चन् सुशभैर्जलैः पृथक् ॥ २७ ॥

श्रीरामचन्द्र जी के इस अद्भुत और दुष्कर कार्य को देख, देवता, सिद्ध, चारण और महर्षि सहजा वहाँ प्रकट हुए और समुद्र जल से अलग अलग श्रीरामचन्द्र जी का अभिषेक करने लगे ॥ २७ ॥

जयस्व शत्रून् नरदेव मेदिनीं

ससागरां पालय शाश्वतीः समाः ।

इतीव रामं नरदेवसत्कृतं

शुभैर्वचोभिर्विधैरपूजयन् ॥ २८ ॥

और स्तुति कर कहने लगे—हे नरदेव ! आप ब्राह्मणों द्वारा सत्कारित हो और शत्रुओं को पराजित कर दीर्घकाल तक इस ससागरा समस्त पृथिवी का पालन करें ॥ २८ ॥

युद्धकाण्ड का चौदहवां सर्ग पूरा हुआ ।

१ शुभैर्जलैः—सागरनारैः । (सि०) २ नरदेवाः—जातयाः (स०)

त्रयोविंशः सर्गः

—:०:—

निमित्तानि निमित्तज्ञो दृष्ट्वा लक्ष्मणपूर्वजः ।

सौमित्रिं सम्परिष्वज्य इदं वचनमब्रवीत् ॥ १ ॥

शकुनों और अपशकुनों को जानने वाले लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीरामचन्द्र जी उस समय के अपशकुनों को देख और लक्ष्मणजी को गले से लगा यह बोले ॥ १ ॥

परिगृह्योदकं शीतं वनानि फलवन्ति च ।

बलौघं संविभज्येम व्यूहच^१ तिष्ठेम लक्ष्मण ॥ २ ॥

हे लक्ष्मण ! जिस जगह शीतल जल समीप हो और फल वाले वृक्ष हों, वहीं पर सेना को विभाजित कर और गरुड़ाकार व्यूह रच कराठहरना उचित है ॥ २ ॥

लोकक्षयकरं भीमं भयं पश्याभ्युपस्थितम् ।

निबर्हणं प्रवीराणामृचवानररक्षसाम् ॥ ३ ॥

क्योंकि मुझे लोकक्षयकारी भयङ्कर भयप्रद अपशकुन देख पड़ते हैं । इससे जान पड़ता है कि, रीछ, बन्दर और राक्षसों का बड़ा भारी नाश होगा ॥ ३ ॥

वाताश्च क्लुषा^२ वान्ति कम्पते च वसुन्धरा ।

पर्वताग्राणि वेपन्ते पतन्ति च सहीरुहाः ॥ ४ ॥

१ व्यूह—गरुडरूपेण सन्निवेश्य । (गो०) २ क्लुषा—
रजोव्याता । (रा०)

देखो, अन्धड़ चल रहा है, पृथ्वी काँप रही है, पर्वत गिम्बर हिल रहे हैं और वृक्ष टूट टूट कर गिर रहे हैं ॥ ४ ॥

मेघाः क्रव्यादसङ्काशाः परुषाः परुषस्वनाः

क्रूराः क्रूरं प्रवर्षन्ति मिश्रं शोणितविन्दुभिः ॥ ५ ॥

गीध, शृगाल, श्येनादि के समान धूमर वर्षा, घुरे रूपवाने मेघ, श्रुतिकठोर शब्द कर रहे हैं और क्रूर रूप धारणकर रुधिर की बूँदों से मिश्रित जल की वर्षा कर रहे हैं ॥ ५ ॥

रक्तचन्दनसङ्काशा सन्ध्या परमदारुणा ।

ज्वलतः प्रपतत्येतदादित्यादग्निमण्डलम् ॥ ६ ॥

लाल चन्दन की तरह इस सन्ध्या का रूप कैसा दारुण देख पड़ता है । सूर्यमण्डल से दहकते हुए उल्का समूह गिर रहे हैं ॥ ६ ॥

दीना दीनस्वराः क्रूराः सर्वतो मृगपक्षिणः ।

प्रत्यादित्यं विनर्दन्ति जनयन्तोः महद्भयम् ॥ ७ ॥

सुर्य की ओर मुग्वकर क्रूर स्वभाव वाले पशु पक्षी दीन भाव से करुणा भरे स्वर से बार बार चिल्ला रहे हैं । ये जाने वाले बड़े भारी भय की सूचना दे रहे हैं ॥ ७ ॥

रजन्यामप्रकाशस्तु सन्तापयति चन्द्रमाः ।

कृष्णरक्तांशुपर्यन्तो लोकत्रय इवोदितः ॥ ८ ॥

रात में प्रकाशशून्य चन्द्रमा काले और लाल मण्डल के बीच उदय हो सन्तापित कर रहा है । ऐसा जान पड़ता है, मानों लोक का नाश करने को उदय हुआ हो ॥ ८ ॥

हस्त्रो रूक्षोऽप्रशस्तश्च परिवेषः सुलोहितः ।

आदित्ये विमले नीलं लक्ष्म लक्ष्मण दृश्यते ॥ ६ ॥

हे लक्ष्मण ! निर्मल सूर्य के चारों ओर कैसा छोटा किन्तु चौड़ा और रक्त लाल लाल मण्डल छाया हुआ है । उसके विम्ब में काला चिह्न देख पड़ता है ॥ ६ ॥

रजसा महता चापि नचात्राणि हतानि च ।

युगान्तमिव लोकानां पश्य शंसन्ति लक्ष्मण ॥१०॥

हे लक्ष्मण ! देखो आकाश में बहुत धूल छायी रहने के कारण नक्षत्र ढके हुए हैं और दिखलाई नहीं पड़ते । इनको देखने से जान पड़ता है कि, युगान्त का समय उपस्थित हुआ है ॥ १० ॥

काकाः श्येनास्तथा गृध्रा नीचैः परिपतन्ति च ।

शिवाश्चाप्यशिवान्नादान्नदन्ति सुमहाभयान् ॥११॥

काक, श्येन (बाज) और गीघ सहसा ऊपर से नीचे गिरते हैं । गीदड़ियाँ अशुभ और महाभयङ्कर बोलियाँ बोल रही हैं ॥ ११ ॥

शैलैः शूलैश्च खड्गैश्च विसृष्टैः कपिराक्षसैः ।

भविष्यत्यावृता भूमिर्मांसशोणितकर्दमा ॥ १२ ॥

इन अपशकुनों को देख जान पड़ता है, कि, पत्थरों, शूलों और तलवारों के आघात से वानरों और राक्षसों के माँस और रक्त की कीचड़ से पृथिवी पूर्ण हो जायगी ॥ १२ ॥

क्षिप्रमद्यैव दुर्धर्पां पुरीं रावणपालिताम् ।

अभियाम जवेनैव स्र्वतो हरिभिवृताः ॥ १३ ॥

सो हम लोग अभी रावण द्वारा रक्षित दुर्बर्ष लङ्कापुरी पर चारों ओर से, बड़े वेग से वानरों को साथ ले चढ़ाई करें ॥१३॥

इत्येवमुक्त्वा धर्मात्मा धन्वी संग्रामध्वर्षणः ।

प्रतस्थे पुरतो रामो लङ्कामभिमुखो विभुः ॥ १४ ॥

युद्ध में शत्रुओं का निरस्त्र करने वाले धर्मात्मा और धनुष-धारी, बलवान् श्रीरामचन्द्र जी, यह कह कर सब के आगे लङ्का की ओर चले ॥ १४ ॥

सविभीषणसुग्रीवास्ततस्ते वानरर्षभाः ।

प्रतस्थिरे विनर्दन्तो निश्चिता द्विषतां वधे ॥ १५ ॥

विभीषण, सुग्रीव और दूनरे वानर भी सिइनाद करते हुए श्रीरामचन्द्र जी के पीछे शत्रुकुल निर्मूल करने का निश्चय कर हो लिए ॥ १५ ॥

रावणस्य प्रियार्थं तु धृतानां वीर्यशालिनाम्

हरीणां कर्मचेष्टाभिस्ततोप रघुनन्दनः ॥१६॥

इति त्रयोविंशः सर्गः ॥

श्रीरामचन्द्र जी की प्रसन्नता के लिए धैर्यवान् और बलवान् वानरों को युद्ध के लिए कर्म और चेष्टा द्वारा तत्पर देख, (प्रधान उन वानरों में युद्ध की उमङ्ग या चाव देख) रघुनन्दन श्रीरामचन्द्र जी सन्तुष्ट हुए ॥ १६ ॥

युद्धकाण्ड का तेईसवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

चतुर्विंशः सर्गः



सा १वीरसमिती राज्ञा विरराज व्यवस्थिता

शशिना शुभनक्षत्रा पौर्णमासीव शारदी ॥१॥

समस्त वीर वानरों के दल, महाराज श्रीरामचन्द्र जी द्वारा गरुड़ाकार व्यूह में स्थापित हो, वैसे ही शोभित हुए जैसे नक्षत्र-राजि विराजित शारदीय पूर्णिमा की रात शोभित होती है ॥ १ ॥

प्रचचाल च वेगेन त्रस्ता चैव वसुन्धरा ।

पीडयमाना वलौघेन तेन सागरवर्चसा ॥ २ ॥

समुद्र के समान विशाल वानर-वाहिनी के वेग से वहाँ की भूमि पीड़ित हुई और डर कर काँप उठी ॥ २ ॥

ततः शुश्रुबुराकृष्टं लङ्कायां काननौकसः ।

भेरीमृदङ्गसंघुष्टं तुमुलं रोमहर्षणम् ॥ ३ ॥

लङ्का में भेरी और मृदङ्ग के शब्द से मिश्रित भयङ्कर और रोमाञ्चकारी शब्द वानरों ने सुना ॥ ३ ॥

वभ्रुवुस्तेन घोषेण संहृष्टा हरियूथपाः ।

अमृष्यमाणास्तं घोषं विनेदुर्घोषवत्तरम् ॥ ४ ॥

उस घोप को सुनने से कपियूथपति बहुत प्रसन्न हुए और उस शब्द को सहन न कर, ये वानर भी बड़े जोर से चिल्लाने लगे ॥ ४ ॥

राक्षसास्तु प्लवङ्गानां शुश्रुवुश्चापि गर्जितम् ।
नर्दतामिव दप्तानां मेघानामम्बरे स्वनम् ॥ ५ ॥

लङ्कावासी राक्षसों ने उन गर्बिले और सिद्धान्द करते हुए
वानरों का ऐसा शब्द सुना जैसा कि, आकाश में मेघों के गरजने
से हुआ करता है ॥ ५ ॥

दृष्ट्वा दाशरथिर्लङ्कां चित्रध्वजपताकिनीम् ।
जगाम मनसा सीतां दूयमानेन चेतसा ॥ ६ ॥

श्रीरामचन्द्र जी रंगविरंगी ध्वजा पताकाओं से शोभित लङ्का
को देख, सीता का स्मरण कर, अत्यन्त दुःखित हुए ॥ ६ ॥

अत्र सा मृगशात्राक्षी रावणेनोपरुध्यते ।
अभिभूता ग्रहेणैव लोहिताङ्गेन रोहिणी ॥ ७ ॥

और सोचने लगे कि, इस समय वह मृगलोचनी जानकी
रावण के घर में कैद है । सो इस समय उसकी बन्दी शोच्य दशा
होगी, जो मङ्गलग्रह से ग्रही हुई रोहिणी की होती है ॥ ७ ॥

दीर्घमुष्णं च निःश्वस्य ममुद्वीक्ष्य च लक्ष्मणम् ।
उवाच वचनं वीरस्तत्कालहितमात्मनः ॥ ८ ॥

लंबी और गर्म साँस ले तथा लक्ष्मण जी की ओर भली भौंनि
निहार, महावीर श्रीरामचन्द्र बुद्धयात्रा के मननानुरूप हिनप्रद
एवं शोक भुलाने वाले (तथा नगर का शोभावर्णनरूपी) वचन
बोले ॥ ८ ॥

आलिखन्तीमिवाकाशमुत्थितां पश्य लक्ष्मण ।
मनसेव कृतां लङ्कां नगाग्ने विश्वकर्मणा ॥ ९ ॥

हे लक्ष्मण ! देखो यह लङ्का मानों आकाश को छूना चाहती है । इसको विश्वकर्मा ने पर्वत शिखर के ऊपर बड़े मन से बनाया है ॥ ६ ॥

विमानैर्बहुभिर्लङ्का सङ्कीर्णा भुवि राजते ।

१विष्णोः २पदमिवाकाशं छादितं पाण्डुरैर्धनैः ॥१०॥

पृथिवी के ऊपर अनेक तलों के घरों से युक्त लङ्का ऐसी शोभायमान हो रही है; जैसे सफेद वादलों से ढका हुआ आकाश ॥ १० ॥

पुष्पितैः शोभिता लङ्का वनैश्चैत्ररथोपमैः ।

नानापतङ्गसंघट्टैः फलपुष्पोपगैः शुभैः ॥ ११ ॥

इसमें पुष्पित वृक्षों से युक्त अनेक वन, चित्ररथवन के तुल्य जान पड़ते हैं । इसमें तरह तरह के पक्षी बोल रहे हैं और विविध प्रकार के फलों और पुष्पों से वृक्ष लदे हुए हैं ॥ ११ ॥

पश्य मत्तविहङ्गानि प्रलीनभ्रमराणि च ।

कोकिलाकुलखण्डानि दोधवीतिश्शिवोऽनिलः ॥१२॥

देखो, मतवाले पक्षी वृक्षों पर बैठे हैं, मधुपान के भूखे भौरों गूँजते हुए फूलों में घुसे बैठे हैं । कौकिलाओं के भुँड के भुँड बैठे हैं । देखो, कैसी सुगन्ध हवा बह रही है, जो बार बार वृक्षों को हिला रही है ॥ १२ ॥

इति दाशरथी रामो लक्ष्मणं समभाषत ।

वलं च तद्वै ऋषिभजञ्जालदृष्टेन कर्मणा ॥ १३ ॥

१ विष्णोः — आदित्यस्य । (गो०) २ पदं—स्थानं ।
आकाशमध्यमिति-भावः । (गो०) ३ दोधवीति—पुनः पुनः कम्पयति ।
(गो०) ४ विभजन् — व्यूहयन् । (गो०)

इस प्रकार दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मण से कह कर, नीतिशास्त्रानुसार सेना से व्यूह रचना करवाने लगे ॥ १३ ॥

शशास कपिसेनाया बलमादाय वीर्यवान् ।

अद्भुदः सह नीलेन तिष्ठेदुरसि दुर्जयः ॥ १४ ॥

फिर वीर्यवान् श्रीरामचन्द्र जी ने समस्त कपिसेना को व्यूह रचने की इस प्रकार आज्ञा दी । उन्होंने दुर्जेय नील सहित अद्भुद को गरुड़ व्यूह के वक्षःस्थल पर रहने की आज्ञा दी ॥ १४ ॥

तिष्ठेद्धानरवाहिन्या वानरौघसमावृतः ।

आश्रित्य दक्षिणं पार्श्वमृषभो वानरर्षभः ॥ १५ ॥

(श्रीरामचन्द्र जी ने कहा) इम वानरसेना की दाहिनी ओर कपिश्रेष्ठ ऋषभ अपनी अधीनस्थ सेना के साथ रहें ॥ १५ ॥

गन्धहस्तीव दुर्धर्षस्तरस्त्री गन्धमादनः ।

तिष्ठेद्धानरवाहिन्याः सव्यं पार्श्वं समाश्रितः ॥ १६ ॥

सतवाले हाथी की तरह अजेय और वेगवान् गन्धमादन वानरी सेना की बाईं ओर रहें ॥ १६ ॥

मूर्ध्नि स्थास्याम्यहं युक्तो लक्ष्मणेन समन्वितः ।

जाम्बवांश्च सुपेणश्च १वेगदर्शी च वानरः ॥ १७ ॥

ऋक्षमुख्या महात्मानः कुक्षिं रक्षन्तु ते त्रयः ।

जघनं कपिसेनायाः कपिराजोऽभिरक्षतु ॥ १८ ॥

सेना के शिरोभाग में लक्ष्मण सहित मैं रहूँगा । रीछों की सेना के अध्यक्ष और महाबुद्धिमान् जाम्बवान्, और वेगवान् वानर सुपेण सेना के कुक्षिस्थान की रक्षा करें । कपिसेना के जंघाभाग की रक्षा कपिराज सुग्रीव (वेसे ही) करें ॥ १७ ॥ १८ ॥

रपश्चार्धमित्र लोकस्य प्रचेतास्तेजसा वृतः ।

सुविभक्तमहाव्यूहा महावानररक्षिता ॥ १६ ॥

जैसे वरुण पश्चिम दिशा की रक्षा अपने तेज से करते हैं । इस प्रकार भंलीभोंति गरुडाकार व्यूह की रचना से युक्त और वानरसेनापतियों द्वारा रक्षित ॥ १६ ॥

अनीकिनी सा विवधौ यथा द्यौः साभ्रसम्प्लवा

प्रगृह गिरिशृङ्गाणि महतश्च महीरुहान् ॥ २० ॥

उस समय वह वानरी सेना ऐसी शोभित हुई, जैसे आकाश मेघों से शोभित होता है । वानरगण गिरिशृङ्गों और बड़े बड़े वृक्षों को ले ॥ २० ॥

आसेदुर्वानरा लङ्कां विमर्दयिष्यो रणे ।

शिखरैर्विकिरामैनां लङ्कां मुष्टिभिरेव वा ॥ २१ ॥

इति स्म दधिरे सर्वे मनांसि हरिसत्तामाः ।

ततो रामो महातेजाः सुग्रीवमिदमब्रवीत् ॥ २२ ॥

लङ्का को ध्वस्त करने के लिए चढ़ाई करने की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे । वे सब अपने अपने मनो में सोचने लगे कि, पर्वतशिखरों अथवा घंसों से हम लङ्का को पीस डालेंगे । तब श्रीरामचन्द्र ने सुग्रीव से कहा ॥ २१ ॥ २२ ॥

सुविभक्तानि सन्यानि शुक एष विमुच्यताम्
रामस्य वचनं श्रुत्वा वानरेन्द्रो महाबलः ॥ २३ ॥

मित्र ! सेना तो यथाभ्यान टिक गई । अब शुक को छोड़ देना चाहिये । श्रीरामचन्द्र जी का यह वचन सुन, महाबली कपिराज सुग्रीव ने ॥ २३ ॥

मोचयामास तं दूतं शुकं रामस्य शासनात् ।
मोचितो रामवाक्येन वानरैश्चाभिपीडितः ॥ २४ ॥

श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञा से रावण के उस दूत शुक को छोड़ दिया । श्रीराम की आज्ञा से छूटा हुआ और वानरों द्वारा सताया हुआ ॥२४ ॥

शुकः परमसंत्रस्तो रक्षोऽधिपमुपागमत् ।
रावणः प्रहसन्नेव शुकं वाक्यमभाषत ॥ २५ ॥

शुक अत्यन्त डरा हुआ रावण के पास पहुँचा । रावण ने शुक को देख, गुसकुराते हुए पूँछा ॥ २५ ॥

किमिमौ ते मितौ पक्षौ लूनपक्षश्च दृश्यसे ।
कच्चिन्नानेकचित्तानां तेषां त्वं वशमागतः ॥ २६ ॥

हे शुक ! तुम्हारे ये नफेद पंख नोंचे लसोटे क्यों देख पड़ते हैं । तुम कहीं उन चञ्चलमना वानरों के फँदे ने तो नहीं फँस गये ॥ २६ ॥

ततः स भयसंविग्णस्तथा राज्ञामिचोदितः ।
वचनं प्रत्युवाचेदं राज्ञसाधिपमुत्तमम् ॥ २७ ॥

१ अनेकचित्ताना—चंचलचित्तानाम् । (गो०)

वह भयभीत शुक, राक्षसराज द्वारा पूँछा जाकर, रावण को इस प्रकार उत्तर देता हुआ ॥ २७ ॥

सागरस्योत्तरे ऋतीरेऽब्रवं ते वचनं तथा ।

यथा सन्देशमक्लिष्टं सान्त्वयञ्शलक्षणां गिरा ॥२८॥

हे राजन् ! समुद्र के उत्तरतट पर जा कर मैंने, आपका संदेशा जैसा कि, आपने कहा था, सुग्रीव को समझाने के लिये मधुर वाणी से कहना आरम्भ किया ॥ २८ ॥

क्रुद्धै स्तैरहमुत्प्लुत्य दृष्टमात्रैः प्लवङ्गमैः ।

गृहीतोस्म्यपि चारब्धो हन्तुं लोप्तुं चमुष्टिभिः ॥२९॥

कि, इतने में मुझे देखते ही क्रुद्ध हो वानरों ने कूद कर मुझे पकड़ लिया और वे मुझे घूँसों की मार से मार डालने को उद्यत हो गये ॥ २९ ॥

नैव सम्भाषितुं शक्याः सम्प्रश्नोऽत्र न लभ्यते ।

प्रकृत्या क्रोदनास्तीक्ष्णा वानरा राक्षसाधिप ॥ ५० ॥

उन वानरों ने न तो मुझसे कोई बात कही और न मुझे ही कोई प्रश्न पूँछने दिया । हे राक्षसराज वे सब वानर तो स्वभाव ही से बड़े उग्र और क्रोधी हैं ॥ ३० ॥

स च हन्ता विराधस्य कवन्धस्य खरस्य च ।

सुग्रीवसहितो रामः सीतायाः पदमागतः ॥ ३१ ॥

तत्पश्चान् मैंने विराध, कवन्ध और खर को मारने वाले श्रीरामचन्द्र जी को देखा, जो सुग्रीव के साथ सीता के रने के स्थान का पता पा कर, यहाँ आये हैं ॥ ३१ ॥

स कृत्वा सागरे सेतुं तीर्त्वा च लवणोदधिम्
एष रक्षांसि १निर्धूय धन्वी तिष्ठति राघवः ॥ ३२ ॥

समुद्र का पुल बाँध, लवणसागर को पार कर और राक्षसों को तिनके के समान जान, हाथ में धनुष लिये हुए श्रीरामचन्द्र जी आ पहुँचे हैं ॥ ३२ ॥

ऋक्षवानरमुख्यानामनीकानि सहस्रशः ।

गिरिमेघनिकाशानां छादयन्ति वसुन्धराराम् ॥ ३३ ॥

उनके साथ में बड़े बड़े रीछों और वानरों की हजारों सेनाएँ हैं। वे रीछ और वानर पर्वत अथवा मेघ की तरह विशालकाय हैं और उनकी संख्या इतनी अधिक है कि, वे पृथिवी को ढाँपे हुए हैं ॥ ३३ ॥

राक्षसानां बलौघस्य वानरेन्द्रवलस्य च ।

नैतयोर्विद्यते सन्धिर्देवदानवयोरिव ॥ ३४ ॥

राक्षसों की सेना और कपिराज की वानरी सेना के बीच मेल होना उसी प्रकार असम्भव है जिस प्रकार देवता और दानवों में मेल होना सम्भव नहीं ॥ ३४ ॥

पुरा प्रकारामायान्ति क्षिप्रमेकतरं कुरु ।

सीतां वाऽस्मै प्रयच्छाशु सुयुद्धं वा प्रदीयताम् ॥ ३५ ॥

वे लङ्का पर चढ़ाई करना ही चाहते हैं, अतएव आप अति शीघ्र इन दो में से एक काम कीजिए तो आप तुरन्त सीता को दे दें या भलीभाँति कमर कस व उनसे लड़ें ॥ ३५ ॥

१ निर्धूय—तृणीकृत्य । (गो०)

शुकस्य वचनं श्रुत्वा रावणो वाक्यमब्रवीत् ।

रोषसंरक्तनयनो निर्दहन्निव चक्षुषा ॥ ३६ ॥

शुक की इन बातों को सुन, रावण कहने लगा । उस समय मारे क्रोध के उसकी आँखें लाल हो रही थीं और ऐसा जान पड़ता था कि मानों वह नेत्राग्नि से शुक को भस्म कर डालेगा ॥ ३६ ॥

यदि मां प्रति युद्धयेरन्देवगन्धर्वदानवाः ।

नैव सीतां प्रयच्छामि सर्वलोकभयादपि ॥ ३७ ॥

यदि श्री रामचन्द्र जी के साथ मुझसे देवता गन्धर्व और दानव भी लड़ने आवें अथवा समस्त प्राणी मिल कर मुझे भयभीत करें ; तो भी मैं सीता को न दूँगा ॥ ३७ ॥

कदा नामाभिधावन्ति राघवं मामकाः शराः ।

वसन्ते पुष्पितं मत्ता भ्रमरा इव पादपम् ॥ ३८ ॥

वह समय कब आवेगा जब मेरे वाण श्रीराम की ओर वैसे ही दौड़ेंगे जैसे मतवाले भौरे वसन्तऋतु में पुष्पित वृक्षों की ओर दौड़ते हैं ॥ ३८ ॥

कदा तूणीशयैर्दीप्तैर्गणशः कामुं कच्युतैः ।

शरैरादीपयाम्येनमुल्काभिरिव कुञ्जरम् ॥ ३९ ॥

जिस प्रकार जलता हुआ उल्का दिखाने से हाथी भागता है, उसी प्रकार मैं अपने तरकस से निकले हुए चमचमाते वाणों के समूह की मार से, रक्त में डूबे हुए श्रीराम को कब भगाऊँगा ॥ ३९ ॥

तच्चास्य बलमादास्ये बलेन महता वृतः ।

ज्योतिषामिव सर्वेषां प्रभासुघन्दिवाकरः ॥ ४० ॥

हे शुक ! जिस प्रकार सूर्य उदय होकर छोटे छोटे तारों को नष्ट कर डालता है उसी प्रकार मैं अपनी बड़ी सेना के साथ श्रीराम की सेना को दबा लूँगा ॥ ४० ॥

सागरस्येव मे वेगो मारुतस्येव मे गतिः ।

न हि दाशरथिर्वेद तेन मां योद्धुमिच्छति ॥ ४१ ॥

सागर की तरह मेरा वेग है और पवन की तरह मेरी गति है । यह बात श्रीराम नहीं जानता, इसीसे तो वह मुझसे लड़ना चाहता है ॥ ४१ ॥

न मे तूणीशयान् बाणान् सविपानिव पन्नगान् ।

रामः पश्यति संग्रामे तेन मां योद्धुमिच्छति ॥ ४२ ॥

तरकस में, विपथर सांपों की तरह पड़े हुए मेरे विपथले बाण, श्रीराम को नहीं देख पड़ते, इसीसे वह मेरे साथ लड़ना चाहता है ॥ ४२ ॥

न जानाति पुरा वीर्यं मम युद्धे स राघवः ।

मम चापमयीं वीणां शरकोणैः प्रवादिताम् ॥ ४३ ॥

ज्याशब्दतुमुलां घोरामार्तभीतमहास्वनाम् ।

नाराचतलसन्नादां तां समाहितनाहिनीम् ।

अवगाह्य महारङ्गं वादयिष्याम्यहं रणे ॥ ४४ ॥

श्रीरामचन्द्र ने मेरे साथ पहिले कभी युद्ध नहीं किया । इसीसे वह मेरा बल पराक्रम नहीं जानता । जिस समय मैं शत्रु की सेनारूपी नदी में डुबकी लगा, अपनी चापमयी वीणा, अ

तीररूप गज से बजाऊँगा और जब रोदे की टड्कार होगी तथा घायलों और भयभीत हुए सैनिकों का हाहाकार सुन पड़ेगा और तीरों की सनसनाहट सुन पड़ेगी ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

न वासवेनापि सहस्रचक्षुषा

यथाऽस्मि शक्यो वरुणेन वा स्वयम् ।

यमेन वा धर्षयितुं शराग्निना

महाहवे वैश्रवणेन वा पुनः ॥ ४५ ॥

इति चतुर्विंशः सर्गः

उस समय न तो सहस्राक्ष इन्द्र की अथवा स्वयं वरुण की अथवा यम की अथवा कुवेर की यह मजाल है कि, इनमें से भी कोई मेरे साथ महायुद्ध में मेरे-वाणाग्नि का सामना कर सके ॥४५॥

युद्धकाण्ड का चौबीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—❀—

पञ्चविंशः सर्गः

—❀—

सबले सागरं तीर्थे रामे दशरथात्मजे ।

अमात्यौ रावणः श्रीमानब्रवीच्छुक्रसारणौ ॥ १ ॥

जब श्रीरामचन्द्र जी वानरी सेना सहित समुद्र के इस पार आ गये तब प्रमत्त रावण ने शुक्र और सारण नामक अपने मंत्रियों से कहा ॥ १ ॥

१ श्रीमान् इति—मदातिशयोक्तिः । (गो०)

समग्रं सागरं तीर्णं दुस्तरं वानरं बलम् ।

अभूतपूर्वं रामेण सागरे सेतुबन्धनम् ॥ २ ॥

देखो, दुस्तर समस्त सागर को वानरी सेना पार कर आयी । श्रीराम का समुद्र के ऊपर पुल बाँधना भी एक ऐसा काम है, जो इसके पहिले कभी किसी ने नहीं कर पाया था ॥२॥

सागरे सेतुबन्धं तु न श्रद्दष्यां कथञ्चन ।

अवश्यं चापि संख्येयं तन्मया वानरं बलम् ॥ ३ ॥

यद्यपि सागर के ऊपर पुल बाँध लेने से मुझे श्रीरामचन्द्र के ऊपर किसी प्रकार श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती तथापि मुझे यह जान लेना आवश्यक है कि, श्री रामचन्द्र के साथ कितनी सेना है ॥ ३ ॥

भवन्तौ वानरं सैन्यं प्रविश्यानुपलक्षितौ

परिमाणं च वीर्यं च ये च मुख्याः प्लवङ्गमाः ॥४॥

सो तुम छिप कर वानरी सेना में जाओ और वहाँ जा कर देख आओ कि, वानरी सेना कितनी है, उसकी कैसी शक्ति है । मुख्य मुख्य वानर कौन कौन हैं ॥ ४ ॥

मन्त्रिणो ये च रामस्य सुग्रीवस्य च सम्मताः ।

ये पूर्वमभिवर्तन्ते ये च शूराः प्लङ्गमाः ॥ ५ ॥

श्री रामचन्द्र और सुग्रीव के कौन कौन मंत्री हैं, जिनकी बातें वे दोनों मानते हैं या जिनका वे दोनों आदर करते हैं । वे कौन शूर हैं, जो सेना के आगे रहते हैं और उनमें जो वास्तव में शूर वानर हैं उन सब का पता लगा लाओ ॥ ५ ॥

१ नश्रद्दष्याम्—मह्यं न रोचते । (शि०)

वा० रा० यु०—१६

स च सेतुर्यथा बद्धः सागरे ऋसलिलाशये ।

निवेशं च यथा तेषां वानराणां महात्मनाम् ॥ ६ ॥

उन लोगों ने सागर पर पुल कैसे बाँधा और वे धैर्यवान् वानर किस प्रकार टिके हुये हैं। ये बातें भी जान लेना ॥ ६ ॥

रामस्य व्यवसायं च वीर्यं प्रहरणानि च ।

लक्ष्मणस्य च वीरस्य तत्त्वतो ज्ञातुमर्हथः ॥ ७ ॥

तुम लोग इसका भी ठीक ठीक पता लगाना कि राम और लक्ष्मण क्या करना चाहते हैं, उनमें बल कितना है, वे किन आयुधों से लड़ते हैं ॥ ७ ॥

कश्च सेनापतिस्तेषां वानराणां महौजसाम् ।

एतज्ज्ञात्वा यथातत्त्वं शीघ्रमागन्तुमर्हथः ॥ ८ ॥

उस बड़ी बलवती वानरी सेना का कौन सेनापति है। इन सब बातों का पता लगा तुम शीघ्र आ जाओ ॥ ८ ॥

इति प्रतिसमादिष्टौ राक्षसौ शुकसारणौ ।

हरिरूपधरौ वीरौ प्रविष्टौ वानरं बलम् ॥ ९ ॥

जब रावण ने इस प्रकार आज्ञा दी, तब वे दोनों वीर शुक सारण राक्षस, वानर का रूप धर वानरी सेना के शिविर में घुसे ॥ ९ ॥

ततस्तद्वानरं सैन्यमचिन्त्यं रोमहर्षणम् ।

संख्यातुं नाध्यगच्छेतां तदा तौ शुकसारणौ ॥ १० ॥

२ व्यवसायं—कर्त्तव्यनिश्चयं (गो०) * पाठान्ते—“सलिला रांवे ।”

किन्तु वे शुक सारण उस असंख्य और भयावह होने के कारण रोमाञ्चकारी कपिसेना की संख्या न जान पाए ॥ १० ॥

संस्थितं पर्वताग्रेषु ऋनिर्भरेषु गुहासु च ।

समुद्रस्य च तीरेषु वनेषूपवनेषु च ॥ ११ ॥

क्योंकि वह सेना (एक स्थान पर नहीं बल्कि) पर्वत शिखरों पर, ऋनों के समीप, गिरिगुहाओं में, समुद्र के तट पर, वनों और उपवनों में फैली हुई पड़ी थी ॥ ११ ॥

तरमाणं च तीर्णं च तर्तुकामं च सवशः ।

निविष्टं निविशंश्चैव भीमनादं महाबलम् ॥ १२ ॥

सो भी बहुत सी तो पार हो चुकी थी और बहुत सी पार होने की तैयारी कर रही थी । अनेक वानरनैतिक उस समय डेरे डाल चुके थे । वे सब के सब सिंह की तरह दहाड़ रहे थे और बड़े बलवान् थे ॥ १२ ॥

तद्वलार्णवमक्षोभ्यं ददृशाते निशाचरौ ।

तौ ददर्श महातेजाः प्रच्छन्नां च विभीषणः ॥ १३ ॥

वे दोनों राक्षस अपना अस्ली रूप छिपाये, उस सेनाक्षी अक्षोभ्य सागर को देख ही रहे थे कि, इतने में तंजस्वी विभीषण ने उनको पहचान लिया ॥ १३ ॥

आचक्षेऽथ रामाय गृहीत्वा शुकसारणी ।

तस्येमौ राजसेन्द्रस्य मन्त्रिणीं शुकसारणी ॥ १४ ॥

लङ्कायाः समनुप्राप्तौ चारौ परपुरञ्जय ।

तौ दृष्ट्वा व्यथितौ रामं निराशौ जीविते तदा ॥१५॥

और उन दोनों शुक सारण को पकड़ कर, वे श्रीरामचन्द्र जी के पास ले गये और कहा—हे शत्रु को जीतने वाले ! ये दोनों राक्षस राजा रावण के मंत्री हैं। इनके नाम शुक और सारण हैं। ये लङ्का से यहाँ गुप्तचर बन कर आए हैं। वे श्रीरामचन्द्र जी को देख बहुत व्यथित हुए और जीवन की आशा से भी हाथ धो बैठे ॥ १४ ॥ १५ ॥

कृताञ्जलिपुटौ भीतौ वचनं चेदमूचतुः ।

आवामिहागतौ सौम्य रावणग्रहितावुभौ ॥ १६ ॥

उन्होंने मारे डर के हाथ जोड़ कर यह कहा—हे सौम्य ! हम दोनों रावण के भेजे हुए यहाँ आये हैं ॥ १६ ॥

परिज्ञातुं बलं कृत्स्नं तवेदं रघुनन्दन ।

तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा रामो दशरथात्मजः ॥ १७ ॥

हे रघुनन्दन ! हम इसलिए भेजे गये हैं कि, हम तुम्हारी समस्त सेना की संख्या जान लें। दाशरथि श्रीरामचन्द्र जी ने उनके ये वचन सुने ॥ १७ ॥

अत्रवीत्प्रहसन्वाक्यं सर्वभूतहिते रतः ।

यदि दृष्टं बलं कृत्स्नं वयं वा सुपरीक्षिताः ॥१८॥

यथोक्तं वा कृतं कार्यं छन्दतः प्रतिगम्यताम् ।

अथ किञ्चिद्दृष्टं वा भूयस्तद्द्रष्टुमर्हथः ॥ १९ ॥

विभीषणो वा कात्स्नर्येन भूयः संदर्शयिष्यति ।

न चेदं ग्रहणं प्राप्य मेतव्यं जीवितं प्रति ॥ २० ॥

और मुस्कुरा कर सर्वप्राणिहितैषी श्रीरामचन्द्र जी ने उनसे यह कहा—ठीक है, अगर तुम हमारी समस्त सेना की संख्या जान चुके हो और हम लोगों के बलवीर्य आदि की भलीभाँति परीक्षा ले चुके हो और राजसराज की आज्ञा के अनुसार समस्त कार्य पूरा कर चुके हो तो, अब जहाँ तुम चाहो वहाँ चले जाओ। और यदि अभी कुछ देखना रह गया हो तो पुनः तुम देख सकते हो अथवा यदि तुम चाहोगे तो विभीषण ही तुमको भलीभाँति दिखा देंगे। यद्यपि तुम इस समय गिरफ्तार कर लिए गए हो तथापि तुम्हें अपने जीवन के लिए डरना न चाहिए। अर्थात् तुम मारे न जाओगे ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥

न्यस्तशस्त्रौ गृहीतौ वा न दूतौ वधमर्हथः ।

प्रच्छन्नौ च विमुञ्चतौ चारौ रात्रिचरावुभौ ॥ २१ ॥

शत्रुपक्षस्य सततं विभीषणविकर्षणौ ।

प्रविश्य नगरीं लङ्कां भवद्भ्यां धनदानुजः ॥ २२ ॥

वक्तव्यो रक्षसां राजा यथोक्तं वचनं मम ।

यद्बलं च समाश्रित्य सीता मे हतवानसि ॥ २३ ॥

क्योंकि तुम शस्त्ररहित पकड़े गए हो और दूत बन कर आए हो अतः तुम मार डालने योग्य नहीं हो। हे विभीषण ! यद्यपि ये रूप बदल कर आए हैं, शत्रु के भेड़िए हैं और नुग्रीवादि का भेद लेने आए हैं ; तथापि इन दोनों राजमचरों को छोड़ दो। (विभीषण से यह कह श्रीरामचन्द्र पुनः उन गुप्तचरों से कहने लगे।) हे राजसचरो ! लङ्का में जा कर आप लोग कुदेर के भाई राजसराज रावण से, मैं जो कहता हूँ नो ज्यों का त्यों कह देना। उनसे कहना कि, जिस बलवृत्ते पर नूने मेरी सीता हरी है ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥

तद्दर्शय यथाकामं ससैन्यः सहवान्धवः ।

श्वः काल्ये नगरीं लक्षां सप्राकारां सतोरणाम् ॥२४॥

रत्नसां च वलं पश्य शरैर्विध्वंसितं मया ।

क्रोधं भीममहं मोक्षये ससैन्ये त्वयि रावण ॥ २५ ॥

श्वः काल्ये वज्रवान्वज्रं दानवेष्विव वासवः ।

इति प्रतिसमादिष्टौ राक्षसौ शुक्रसारणौ ॥ २६ ॥

उस अपने बल को अपनी सेना और भाईवन्दों के सहित मुझे दिखला । तू कल सवेरे परकोटे और तोरण द्वारों सहित लङ्कापुरी को तथा समस्त राक्षसी सेना को मेरे बाणों से ध्वस्त हुआ देखेगा ! हे रावण ! कल सवेरे मैं सेनासहित तेरे ऊपर अपना भयङ्कर क्रोध वैसे ही प्रकट करूँगा जैसे वज्रधारी इन्द्र दानवों के ऊपर वज्र छोड़ कर, अपना क्रोध प्रकट करते हैं । इस प्रकार जब श्रीरामचन्द्र जी ने उन दोनों शुक्र सारण राक्षसों को आज्ञा दी ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥

जयेति प्रतिनन्द्यैतौ राघवं धर्मवत्सलम् ।

आगम्य नगरीं लङ्कामत्र तां राक्षसाधिपम् ॥ २७ ॥

तत्र वे धर्मवत्सल श्रीरामचन्द्र जी की जयजयकार करते हुए लङ्का में जा राक्षसराज रावण से बोले ॥ २७ ॥

विभीषणगृहीतौ तु वधाहौ राक्षसेश्वर ।

दृष्ट्वा धर्मात्मना मुक्तौ रामेणामिततेजसा ॥ २८ ॥

हे राक्षसेश्वर ! हमें मार डालने के लिए विभीषण ने हमें पकड़ लिया था ; किन्तु असीम तेजस्वी धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजी ने हमको देखते ही छोड़ दिया ॥ २८ ॥

एकस्थानगता यत्र चत्वारः पुरुषर्षभाः ।

लोकपालोपमाः शूराः कृतास्त्रा दृढविक्रमाः ॥ २६ ॥

रामो दाशरथिः श्रीमाल्लक्ष्मणश्च विभीषणः ।

सुग्रीवश्च महातेजा महेन्द्रसमविक्रमः ॥ ३० ॥

दाशरथी श्रीरामचन्द्र, शोभासम्पन्न लक्ष्मण, विभीषण और महातेजस्वी एवं इन्द्र के समान पराक्रमी सुग्रीव, ये चारों श्रेष्ठजन एक ही स्थान पर टिके हुए हैं। ये लोकपालों की तरह शूर हैं, शस्त्रविद्या में निपुण हैं और बड़े पराक्रमी हैं ॥ २६ ॥ ३० ॥

एते शक्ताः पुरीं लङ्कां सप्राकारां सतोरणाम् ।

उत्पाटय संक्रामयितुं सर्वे तिष्ठन्तु वानराः ॥ ३१ ॥

ये चार अकेले ही परकोटों और तोरणद्वारों सहित लङ्का को उखाड़ कर फेंक सकते हैं। आप समस्त वानर भले ही बैठे रहें ॥ ३१ ॥

यादृशं तस्य रामस्य रूपं प्रहरणानि च ।

वधिष्यति पुरीं लङ्कामेकस्तिष्ठन्तु ते त्रयः ॥ ३२ ॥

जिस प्रकार का श्रीराम आदि का रूप है और जैसे उनके हथियार हैं ; उनको देखते हुए कहा जा सकता है कि, श्रीराम अकेले ही लङ्का का नाश कर सकते हैं। लक्ष्मण सुग्रीव और विभीषण, इन तीनों की सहायता की भी उनको आवश्यकता नहीं है ॥ ३२ ॥

रामलक्ष्मणगुप्ता सा सुग्रीवेण च वाहिनी ।

बभूव दुर्धर्षतरा सेन्द्रैरपि सुरासुरैः ॥ ३३ ॥

श्रीराम लक्ष्मण और सुग्रीव से रक्षित वानरी सेना, इन्द्र सहित देवताओं और दानवों से भी अति अजेय हो गई ॥३३॥

ग्रहृष्टरूपा ध्वजिनी वनौकसां

महात्मनां सम्प्रति योद्धुमिच्छताम् ।

अलं विरोधेन शमो विधीयतां


प्रतीयतां दाशरथाय मैथिली ॥ ३४ ॥

हे राजन् ! वानरी सेना में प्रसन्नता छाई हुई है और वे सब दृढ़ मनस्क हैं और तुरन्त युद्ध करना चाहते हैं । अतएव आप अपना क्रोध शान्त कीजिए और दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र को जानकी दे कर, उनके साथ शत्रुता की इतिश्री कर डालिए ॥३४॥

युद्धकाण्ड का पच्चीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ।



षड्विंशः सर्गः



तद्वचः पथ्यमक्लीवं सारणेनाभिभाषितम् ।

निशम्य रावणो राजा प्रत्यभाषत सारणम् ॥ १ ॥

सारण के हितकर और अकातर वचन सुन राक्षसराज रावण ने सारण को उत्तर देते हुए कहा ॥ १ ॥

यदि मामभियुञ्जीरन् देवगन्धर्वदानवाः ।

नैव सीतां प्रदास्यामि सर्वलोकभयादपि ॥ २ ॥

यदि देवता, गन्धर्व और दानव मेरे ऊपर चढ़ाई करें, अथवा समस्त लोक ही मेरे विरुद्ध हो जाय, तो भी मैं भयभीत हो कभी सीता राम को न दूँगा ॥ २ ॥

त्वं तु सौम्य परित्रस्तो हरिमिनिर्निर्जितो भृशम् ।

प्रतिप्रदानमद्यैव सीतायाः साधु मन्यसे ॥ ३ ॥

हे-सौम्य ! तुम तो वानरों से कष्ट पा कर डर गए हो । इन्हीं से तो तुम आज ही सीता को लौटा देना अच्छा समझते हो ॥३॥

को हि नाम शसपत्नो मां समरे जेतुमर्हति ।

इत्युक्त्वा परुषं वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः ॥ ४ ॥

ऐसा कौन शत्रु है, जो मुझे युद्ध में जीत नके । राक्षमराल रावण, इस प्रकार के कठोर वचन कह ॥ ४ ॥

आरुरोह ततः श्रीमान् प्रासादं हिमपाण्डुरम्

बहुतालसमुत्सेधं रावणोऽथ दिदृक्षया ॥ ५ ॥

वर्ष की तरह सफेद रंग की अटारी पर सेना देखने की इच्छा से चढ़गया । वह अटारी कई तालवृक्षों के तर उपर रखने की ऊँचाई से भी कहीं बढ़ कर ऊँची थी ॥ ५ ॥

ताभ्यां चराभ्यां सहितो रावणः क्रोधमृच्छितः ।

पश्यमानः समुद्रं च पर्वतांश्च वनानि च ॥ ६ ॥

ददर्श पृथिवीदेशं सुसम्पूर्णं स्रज्जमैः ।

तदपारमसङ्ख्येयं वानराणां महद्वलम् ॥ ७ ॥

सपत्नः—शत्रुः । (गो०) १. पृथिवीदेशं—त्रिकूटाक्षः प्रदेशं (गो०)

उस समय रावण बड़ा क्रुपित था और उसके साथ वे दोनों राक्षसदूत शुक और सारणा भी थे । उस अटारी से उसने समुद्र वन, त्रिकूटाचल पर्वत की तराई और पहाड़ों पर बंदर ही बंदर देखे । उसने उस अपार असंख्य और बड़े बलवान् बानरों की सेना को देखा ॥ ६ ॥ ७ ॥

आलोक्य रावणो राजा परिपग्रच्छ सारणम् ।

एषां वानरमुख्यानां के शूराः के महाबलाः ॥ ८ ॥

उस सेना का अवलोकन कर, रावण सारण से पूँछने लगा । इन वानरों में कौन कौन मुख्य, कौन कौन वीर और बड़े बड़े बलवान् हैं ? ॥ ८ ॥

के पूर्वमभिवर्तन्ते महोत्साहाः समन्ततः ।

केषां शृणोति सुग्रीवः के वा यूथपयूथपाः ॥ ९ ॥

और कौन कौन वानर अत्यन्त उत्साहित हो चारों ओर से वानरी सेना की रक्षा करते हैं ? सुग्रीव किसकी सुनते हैं, अर्थात् किसे अधिक मानते हैं ? यूथपति कौन हैं ॥ ९ ॥

सारणाचक्ष्व तत्त्वेन के प्रधानाः प्लवङ्गमाः ।

सारणो राक्षसेन्द्रस्य वचनं परिपृच्छतः ॥ १० ॥

हे सारण ! तुम ठीक ठीक बतलाओ कि इस वानरी सेना में प्रधान वानर कौन कौन हैं ? राक्षसराज रावण के इन प्रश्नों को सुन ॥ १० ॥

आचक्ष्वेऽथ मुख्यज्ञो ☆मुख्यांस्तत्र वनौकसः ।

एष योभिमुखो लङ्कां नर्दस्तिष्ठति वानरः ॥ ११ ॥

मुख्य अमुख्य वानर वीरों को जानने वाला सारण, मुख्य वानरों के नाम, धाम, बल, विक्रम का निरूपण करके कहने लगा। वह बोला—हे रावण ! यह वानर जो लङ्का की ओर मुख कर गरज रहा है ॥ ११ ॥

यूथपानां सहस्राणां शत्रेण परिवारितः ।

यस्य घोषेण महता सप्राकारा सतोरणा ॥ १२ ॥

इसके साथ एक लाख वानर यूथपति है। इसके सिंहनाद परकोटे, तोरण द्वारों ॥ १२ ॥

लङ्का प्रवेपते सर्वा सशैलवनकानना ।

सर्वशाखामृगेन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ॥ १२ ॥

पहाड़ों, वनों और उपवनों सहित समस्त लङ्का काँप रही है और जो समस्त वानरों के राजा महाबुद्धिमान् सुग्रीव ॥ १३ ॥

बलाग्रे तिष्ठते वीरो नीलो नामैव यूथपः ।

बाहू प्रगृह्य यः पद्भ्यां महीं गच्छति वीर्यवान् ॥ १४ ॥

की सेना के आगे खड़ा है इसका नाम नील है और यह बड़ा वीर और यूथपति है। जो बलवान वानरों को उठाए, पृथिवी हर टहल रहा है ॥ १४ ॥

लङ्कामभिमुखः क्रोधादभीक्ष्णं च विजृम्भते ।

गिरिशृङ्गप्रतीकाशः पद्मकिञ्चनकसन्निभः ॥ १५ ॥

और जो लङ्का की ओर मुख कर और क्रोध में भर तिरछी दृष्टि से देखता हुआ जँहाई ले रहा है और जो पर्वतशिखर के समान विशाल शरीरधारी है तथा जिसके शरीर का रंग कमलरत्न की तरह पीला है ॥ १५ ॥

स्फोटयत्यभिसंरब्धो लाङ्गूलं च पुनः पुनः ।

यस्य लाङ्गूलशब्देन स्वनन्ति प्रदिशो दश ॥ १६ ॥

और जो क्रोध में भर अपनी पूँछ बारंबार पृथिवी पर पटक रहा है और जिसकी पूँछ की फटकार के शब्द से दसों दिशाएँ प्रतिध्वनित हो रही हैं ॥ १६ ॥

एष वानराजेन सुग्रीवेणाभिषेचितः ।

यौवराज्येऽङ्गदो नाम त्वामाह्वयति संयुगे ॥ १७ ॥

सो यह अंगद नाम का वानर है। इसे कपिराज सुग्रीव ने यौवराज्यपद पर अभिषिक्त किया है और यह तुमको युद्ध के लिये ललकार रहा है ॥ १७ ॥

वालिनः सदृशः पुत्रः सुग्रीवस्य सदा प्रियः ।

राघवार्थे पराक्रान्तः शक्रार्थे वरुणो यथा ॥ १८ ॥

यह वालि का पुत्र अङ्गद अपने पिता के समान बलवाने और पराक्रमी है और सुग्रीव का सदा प्रिय पात्र है। जिस प्रकार वरुण जी इन्द्र के लिए पराक्रम प्रदर्शित करने को इच्छत रहते हैं; उसी प्रकार यह भी श्रीरामचन्द्र जी के लिए पराक्रम दिखाने को तत्पर रहता है ॥ १८ ॥

एतस्य सा मतिः सर्वा यद्दृष्टा जनकात्मजा ।

हनूमता वेगवता राघवस्य हितैषिणा ॥ १९ ॥

श्रीरामचन्द्र जी के हितैषी वेगवान् हनुमान् जी, जो लङ्का में आ जानकी को देख गए थे, सो उन्होंने ये सभस्त कार्य इन्हीं अंगद की सम्मति से किए थे ॥ १९ ॥

बहूनि वानरेन्द्राणामेव यूथानि वीर्यवान् ।

परिगृह्णाभियाति त्वां स्वेनानीकेन दुर्जयः ॥२० ॥

बलवान् अद्भुत असंख्य वानरयूथपतियों के साथ तुम्हारा मर्दन करने को आगे बढ़ा आता है । यह दुर्जेय है ॥ २० ॥

अनु वालिसुतस्यापि घलेन महता वृतः ।

वीरस्तिष्ठति संग्रामे सेतुहेतुरयं नलः ॥ २१ ॥

जिस वीर ने समुद्र के ऊपर पुल बाँधा है, वह नल नामक वीर वानर लड़ने की अभिलाषा करता हुआ बड़ी भारी सेना के साथ वालिसुत अद्भुत के पीछे खड़ा हुआ है ॥ २१ ॥

ये तु विष्टभ्यः गात्राणि च्वेलयन्ति नदन्ति च ।

उत्थाय च विजृम्भन्ते क्रोधेन हरिपुङ्गवाः ॥ २२ ॥

ये जो कपिश्रेष्ठ अपने अङ्गों को मल मल कर, सिहनाद करते हुए गरज रहे हैं तथा उच्चक्र क्रोध में भर जँमुहाई ले रहे हैं ॥ २२ ॥

एते दुष्प्रसहा घोराश्चण्डाश्चण्डपराक्रमाः ।

अष्टौ शतसहस्राणि दशकोटिशतानि च ॥ २३ ॥

ये सब शत्रुओं के लिये असह्य और प्रचण्ड पराक्रमी हैं । इनकी संख्या एक खर्व आठ लाख है ॥ २३ ॥

य एनमनुगच्छन्ति वीराश्चन्दनवासिनः ।

एषैवाशंसते लङ्कां स्वेनानीकेन मर्दितुम् ॥२४॥

१ सेतुहेतुः—सेतुकर्ता । (नो०) २ विष्टभ्य—उष्भ्य । (नो०)

३ आशंसते प्रार्थयते । (नो०)

उनके पीछे जो वीर वानर हैं, वे सब चन्दनवन निवासी हैं, ये अपनी सेना द्वारा लङ्का को ध्वस्त करने की आज्ञा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं ॥ २४ ॥

श्वेतो रजतसङ्काशश्चपलो भीमविक्रमः ।

बुद्धिमान् वानरौ वारह्निषु लोकेषु विश्रुतः ॥ २५ ॥

श्वेत नामक वानर, जिसका रंग चाँदी की तरह सफेद है और जो बड़ा पराक्रमी बुद्धिमान और तीनों लोकों में एक प्रसिद्ध वीर समझा जाता है ॥ २५ ॥

तूर्णं सुग्रीवमागम्य पुनर्गच्छति सत्वरः ।

विभजन् वानरीं सेनामनीकानि प्रहर्षयन् ॥ २६ ॥

देखिए, कैसी शीघ्रता से सुग्रीव के पास जाता और लौट आता है । जो वानरी सेना को विभाजित कर रहा है, जो अपनी सेना को प्रसन्न कर रहा है ॥ २६ ॥

यः पुरा गोमतीतीरे रम्यं पर्येति१ पर्वतम् ।

नाम्नां सङ्कोचनो नाम नानानगयुतो गिरिः ॥२७॥

तत्र राज्यं प्रशास्त्येष कुमुदो नाम यूथपः ।

योऽसौ शतसहस्राणां सहस्रं परिकर्षति२ ॥२८ ॥

जो पहिले गोमती तटवर्ती रमणीक पर्वत के चारों ओर घूमा करता था, तथा अब अनेक पर्वतों से घिरे हुए सङ्कोचन नामक पर्वत पर राज्य करता है । इसका नाम कुमुद है और यह भी एक यूथपति है । यह एक लाख वानर लेकर आया हुआ है ॥ २७ ॥ २८ ॥

१ पर्येति—परितः सञ्चरति । (गो०) २ परिकर्षति—आनयति । (गो०)

यस्य बाला बहुव्यामा दीर्घा लाङ्गूलमाश्रिताः ।

ताम्राः पीताः सिताः श्वेताः प्रकीर्णाघोरकर्मणः ॥२६॥

जिसकी बड़ी भारी पूँछ के इधर उधर बहुत लंबे बाल लटकते हैं और जिनमें कुछ लाल, कुछ पीले, कुछ धौले, कुछ सफेद हैं और बड़े भयानक जान पड़ते हैं ॥ २६ ॥

अदीनो गोपणश्चण्डः संग्राममभिकाङ्क्षति ।

एषोऽप्याशंसते लङ्कां स्वेनानीकेन मर्दितुम् ॥ ३० ॥

जो अदीन है और बड़ा बोधी है इसका नाम चण्ड है । यह बड़ा संग्रामप्रिय है । यह भी अपनी सेना को साथ ले लङ्का को ध्वस्त करने की आज्ञा पाने के लिए सुग्रीव से प्रार्थना करता है ३० ।

यस्त्वेप सिंहसङ्काशः कपिलो दीर्घकेसरः ।

निभृतः प्रेक्षते लङ्कां दिधक्षन्निव चक्षुषा ॥ ३१ ॥

यह सिंह के समान पीले रंग का दानर, जिसकी गर्दन पर लंबे लंबे बाल हैं, जो लङ्का की ओर ऐसे घूर रहा है, मानों दृष्टि से लङ्का को भस्म कर डालेगा ॥ ३१ ॥

विन्ध्यं कृष्णगिरिं सह्यं पर्वतं च सुदर्शनम् ।

राजन् सततमध्यास्ते रम्भो नामैष यूथपः ॥ ३२ ॥

और जिसका विन्ध्य, कृष्णगिरि, सहायि तथा सुदर्शन नामक तीन पर्वतों पर रहने का स्थान है ; हे राजन् ! वह रम्भ नाम का यूथपति है ॥ ३२ ॥

१ निभृतः—एकाम्रः । (रा०) • पाठान्तरे—“दीर्घलोचनः” ।

शतं शतसहस्राणां त्रिंशच्च हरिपुङ्गवाः ।

यमेते वानराः शूराश्चण्डाश्चण्डपराक्रमाः ॥ ३३ ॥

परिवार्यानुगच्छन्ति लङ्कां मर्दितुमोजसा ।

यस्तु कर्णौ विवृणुते जृम्भते च पुनः पुनः ॥३४॥

इसको एक करोड़ तीस प्रचण्ड शूरवीर और पराक्रमी वानर घेर कर चलते हैं। यह भी अपने पराक्रम से लङ्का को ध्वस्त करना चाहता है। देखो, यह जो अपने कानों को सकोड़ता और बार बार जँभाई लेता है ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

न च संविजते मृत्योर्न च युद्धाद्विधावति ।

प्रकम्पते च रोपेण तिर्यक्च पुनरीक्षते ॥ ३५ ॥

पश्यँल्लाङ्गूलमपि च च्वेलते च महाबलः ।

महाजवो वीतभयो रम्यं साल्वेयपर्वतम् ॥ ३६ ॥

यह न तो मरने से डरता है और न युद्ध से मुँह मोड़ता है। यह मारे क्रोध के थर थर काँप रहा है और तिरछी दृष्टि से देख रहा है। देखिए, पूँछ फटकार कर कैसा सिंहनाद कर रहा है तथा अपने बल विक्रम पर निर्भर रह कर, निर्भय हो साल्वेय नामक रमणीय पहाड़ पर रहता है ॥ ३५ ॥ ३६ ॥

राजन् सततमध्यास्ते शरभो नाम यूथपः ।

एतस्य बलिनः सर्वे विहारा नाम यूथपाः ॥ ३७ ॥

हे राजन् ! यह शरभ नामक यूथपति है। इसके अधीनस्थ यूथप, विहार नाम से पुकारे जाते हैं ॥ ३७ ॥

राजन् शतसहस्राणि चत्वारिंशत्तथैव च ।

यस्तु मेघ इवाकाशं महानावृत्य तिष्ठति ॥३८॥

हे राजन्! उनकी संख्या एक लाख चालीस हजार है। यह जो आकाश को बड़े मेघ की तरह ढके हुए ॥ ३८ ॥

मध्ये वानरवीराणां सुराणामिव वासवः ।

भेरीणामिव सन्नादो यस्यैष श्रूयते महान् ॥३९॥

घोषः शाखामृगेन्द्राणां संग्राममभिकाङ्क्षताम् ।

एष पर्वतमध्यास्ते पारियात्रमनुत्तमम् ॥ ४० ॥

वानरों के बीच वैसे ही बैठा है, जैसे देवताओं के बीच इन्द्र और जिसकी सेना के युद्धाकांक्षी वानरों का महागर्जन नगाड़ों के शब्द की तरह सुनाई पड़ता है, उत्तम पारियात्र पर्वत पर रहता है ॥ ३९ ॥ ४० ॥

युद्धे त्वं गन्धो नित्यं पनसो नाम यूथपः ।

एनं सप्तसहस्राणां शतार्थं पर्युपासते ॥ ४१ ॥

युद्ध में इसका वार सहना कठिन है। यह यूथपति है और इसका नाम पनस है। इसके अधीनस्थ ढेड़ लाख वानरवीर हैं ॥ ४१ ॥

यूथपा यूथपश्रेष्ठं येषां यूथानि रागशः ।

यस्तु भीमां प्रवल्गन्तीं चम्बू तिष्ठति शोभयन् ॥४२॥

स्थितां तीरे समुद्रस्य द्वितीय इह सागरः ।

एष दर्दरसङ्काशो विनलो नाम यूथपः ॥ ४३ ॥

इन वानर यूथपतियों के यूथ पृथक् पृथक् हैं। जो सागर तट पर खलपकती और समुद्रतट पर स्थित तथा घूमने लगे

तरह शोभायमान सेना को शोभित कर रहा है और जो दर्दराचल की तरह बड़ा दिखलाई पड़ता है, यह विनत नामक यूथपति हैं ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

पिबंश्चरति पर्णासां नदीनामुत्तमां नदीम् ।

षष्टिः शतसहस्राणि बलमस्य प्लवङ्गमाः ॥ ४४ ॥

यह घूमता फिरता रहता है और सदा नदियों में श्रेष्ठ पर्णासा (पनासा) नदी का पानी पिया करता है । इसकी सेना में साठ लाख वानर हैं ॥ ४४ ॥

त्वामाह्वयति युद्धाय क्रोधनो नाम यूथपः ।

विक्रान्ता बलवन्तरच यथा यूथानि भागशः ॥ ४५ ॥

यह देखिये क्रोधन नामक यूथपति तुमको युद्ध करने के लिए ललकार रहा है । इसके अधीनस्थ सैनिक बड़े बलवान और पराक्रमी हैं और वे सैनिक यूथों में विभक्त हैं ॥ ४५ ॥

यस्तु गैरिक्वर्णाभं वपुः श्पुष्यति वानरः !

अवमत्य सदा सर्वान् वानरान् बलदर्पितान् ॥ ४६ ॥

जिसके शरीर का रंग गेरु जैसा है और जो युद्ध करने की आशा से आनन्दित हो अपने शरीर को फुला रहा है और जो अपने बल के दर्प से दर्पित हो, अन्य वानरों को सदा तुच्छ समझा करता है; ॥ ४६ ॥

गवयो नाम तेजस्वी त्वां क्रोधादभिवर्तते ।

एनं शतसहस्राणि सप्ततिः पर्युपासते ।

एषैवाशंसते लङ्का स्वनानीकेन मर्दितुम् ॥ ४७ ॥

तेजस्वी गवय नामक यूथपति है। यह क्रोध में भरा हुआ आपका सामना करने की वाट जोड़ रहा है। इसके अधिकार में सत्तर लाख वीर वानर हैं। वह अकेला ही अपनी सेना के साथ लड़का को ध्वस्त करना चाहता है ॥ ४७ ॥

एते दुष्प्रसहा घोरा बलिनः कामरूपिणः ।

यूथपा यूथपश्रेष्ठा एषां यूथानि भागशः ॥ ४८ ॥

इति पट्टविंशः सर्गः ॥

हे महाराज ! ये सबके सब दुस्तह, भयङ्कर, दलवान् एवं कामरूपी वानरयूथ और यूथपश्रेष्ठ हैं। इनके अर्धानस्थ यूथ पृथक् पृथक् हैं ॥ ४८ ॥

युद्धकाण्ड का छठीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—❀—

सप्तविंशः सर्गः

—❀—

तांस्तु तेऽहं प्रवक्ष्यामि प्रेक्षमाणस्य यूथपान् ।

राघवार्थे पराक्रान्ता ये न रक्षन्ति जीवितम् ॥ १ ॥

सारन बोला—हे राजन् ! आप जिन पराक्रान्ती यूथों को देख रहे हैं, वे अपनी जान को रक्षेगी परन्तु आपकी सेना-चन्द्र जी के लिये बलविद्रुन प्रकट करने में तैयार हैं। मैं सभी यूथपतियों का और भी वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥

स्निग्धा यस्य चतुष्पादाः श्वानाः शतशोऽपि ताः ।

ताम्राः पीताः सिताः श्वेताः प्रकीर्णा रौप्यवर्णाः ॥

❀पाठान्तरे—“दीर्घं लाम्बुलमाधिराः ।”

जिसकी पूँछ के बाल चिकने लंबे और बड़े सघन हैं तथा जिनकी रंगत, लाल, पीली, धुमैली, सफेद है और जो पूँछ के इधर उधर-छिटके हुए बड़े भयङ्कर जान पड़ते हैं ॥ २ ॥

प्रगृहीताः प्रकाशन्ते सूर्यस्येव मरीचयः ।

पृथिव्यां चानुकृष्यन्ते हरो नामैष यूथपाः ॥ ३ ॥

और जो सूर्य की किरणों की तरह चमक रहे हैं और जो पूँछ भटकारने से खड़े हो जाते और जो चलते समय भूमि पर लथिरते जाते हैं, सो वही हर नाम यूथपति है ॥ ३ ॥

यंपृष्ठतोऽनुगच्छन्ति शतशोथ सहस्रशः ।

द्रुमानुद्यम्य सहसा लङ्कारोहणतत्पराः ॥ ४ ॥

इसके ही पीछे सैकड़ों, हजारों वानरवीर चलते हैं जो वृक्षों को लिये हुए, सहसा लङ्का पर चढ़ाई करने को तैयार हैं ॥ ४ ॥

एष कोटिसहस्रेण वानराणां महौजसाम् ।

आकाङ्क्षते त्वां संग्रामे जेतुं परपुरञ्जय ॥ ५ ॥

ह परपुरञ्जय ! ये सहस्र कोटि बड़े बलवान् वानर तुमको युद्ध में जीतने की आकांक्षा रखते हैं ॥ ५ ॥

यूथपा हरिराजस्य किङ्कराः समुपरिथताः ।

नीलानिब मत्तामेघांस्तिष्ठतो यांस्तु पश्यसि ॥ ६ ॥

असिताञ्जनसङ्घान्युद्धे सत्यराक्रमान् ।

असंख्येयाननिश्यान् परं पारमिवोदधेः ॥ ७ ॥

कपिराज के ये किङ्कर यूथपति हैं (वेतनभोगी यूथपति) और युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए हैं हे रावण ! नील मेघ

की तरह आप जिनको खड़ा देखते हैं और काले अञ्जन की तरह जिनके शरीर का रंग है और जो युद्ध में यथाथे पराक्रम प्रदर्शिन किआ करते हैं, असंख्य हैं, समुद्र के अपर पार की तरह इनकी मंख्या नहीं बतलाई जा सकती ॥ ६ ॥ ७ ॥

पर्वतेषु च ये केचिद्विषमेषु नदीषु च ।

एते त्वामभिधत्तन्ते राजन्नृचाः सुदारुणाः ॥ ८ ॥

हे राजन् ! इनमे से बहुत से तो पहाड़ों पर, बहुत से अटपट (ऊँची नीची) जगहों में और बहुत से नदियों के तटों पर रहा करते हैं । हे राजन् ! ये सब अत्यन्त दारुण रीछ आपका सामना करने को तैयार हैं ॥ ८ ॥

एषां मध्ये स्थितो राजन् भीमानो भीमदर्शनः ।

पर्जन्य इव जीमूतैः समन्तात्परिवारितः ॥ ९ ॥

ऋक्षवन्तं गिरिश्रेष्ठमध्यास्ते नर्मदां पिबन् ।

सर्वक्षीणामधिपतिर्धूम्रो नामैष यूथपः ॥ १० ॥

हे राजन् ! इनके बीच में आप, जिसे खड़ा देख रहे हैं, जिसके भयङ्कर नेत्र और भयङ्कर रूप हैं और जो मेघों से घिरा हुआ महामेघ की तरह रीछों से घिरा हुआ है, वह सब रीछों का राजा धूम्राक्ष नामक सेनापति है । यह ऋक्षवान पर्वत पर रहा करना और नर्मदा नदी नाम पानी पिआ करता है ॥ ९ ॥ १० ॥

यवीयानस्य तु भ्रात्रा पश्यैनं पर्वतोपमम् ।

भ्राता समानो रूपेण विशिष्ठस्तु पराक्रमः ॥ ११ ॥

इसको देखिये, यह इसका छोटा भाई, पर्वत की तरह विशाल शरीरधारी है और अपने बड़े भाई जैसा ही रूप वाला है । किन्तु पराक्रम में अपने भाई से बड़ कर है ॥ ११ ॥

स एष जाम्बवान्नाम महायूथपयूथपः ।

❀प्रक्रान्तो गुरुवर्ती च सम्प्रहारेष्वमर्षणः ॥ १२ ॥

उसीका नाम जाम्बवान है और वह यूथपतियों का भी यूथ-पति अर्थात् सरदार है । बड़ा पराक्रमी है, बड़ों का सम्मान करने वाला है और बड़े क्रोध में भर आक्रमण करता है ॥१२॥

एतेन साह्यं सुमहत्कृतं शक्रस्य धीमता

दैवासुरे जाम्बवता लब्धाश्च बहवो वराः ॥ १३ ॥

जब देवासुर-संग्राम हुआ था, तब उस बुद्धिमान ने देवराज की बड़ी सहायता की थी और उस सहायता के उपलक्ष्य में उसने बहुत से वरदान भी पाए थे ॥ १३ ॥

आरुह्य पर्वताग्रैभ्यो महाभ्रविपुलाः शिलाः ।

मुञ्चन्ति विपुलाकारा न मृत्योरुद्विजन्ति च ॥ १४ ॥

उसकी सेना के बड़े बड़े आवार के रीछ पर्वतशिखरों पर चढ़ कर, वहाँ से बड़ी भारी भारी शिलायें फेंकते हैं और मौत से भी नहीं डरते ॥ १४ ॥

राक्षसानां च सदृशाः पिशाचानां च लोमशाः ।

एतस्य सैन्या बहवो विचरन्त्यग्नितेजसः ॥ १५ ॥

उसके शरीर में बड़े बड़े बाल हैं, वे राक्षस और पिशाचों की तरह क्रूरवभाव हैं । जाम्बवान की अग्नि के समान तेजसम्पन्न बड़ी सेना है, जो इधर-उधर विचरती है ॥ १५ ॥

यं त्वेनमभिसंरब्धं लवमानमिव स्थितम् ।

प्रेक्षन्ते वानराः सर्वे स्थिता यूथपयूथपम् ॥ १६ ॥

सब वानरगण जिसके कूदने का तमाशा देख रहे हैं, वह भी अनेक यूथपतियों के यूथों का नायक है ॥ १६ ॥

एष राजन् सहस्राक्षं पर्युपास्ते हरीश्वरः ।

बलेन बलसम्पन्नो दम्भो नामैष यूथपः ॥ १७ ॥

हे राजन् ! यह वानरराज इन्द्र के पास रहने वाला है । देखिये बड़ी भारी सेना को साथ लिये हुए यह दम्भ नामक यूथप है ॥ १७ ॥

यः स्थितं योजने शैलं गच्छन् पार्श्वेन सेवते ।

ऊर्ध्वं तथैव कायेन गतः प्राप्नोति योजनम् ॥ १८ ॥

यह एक योजन के अन्तर पर स्थित पर्वत की बगल से कूद जाता है तथा उड़ल कर आकाशमार्ग से एक योजन तक चला जाता है । अथवा जिसके गमनकाल में एक एक कदम में एक एक योजन के पर्वत पार्श्वस्थ अर्थात् अत्यन्त निकटवर्ती हो जाते हैं और जो शरीर से उछलने पर एक कुलांच में एक योजन कूद जाता है । अर्थात् इसके शरीर की ऊंचाई एक योजन की है ॥ १८ ॥

यस्मान्न परमं रूपं चतुष्पादेषु विद्यते ।

श्रुतः सन्नादनो नाम वानराणां पितामहः ॥ १९ ॥

अतएव चौपायों में इसके गमान शरीर वाला और कोई नहीं है । सो यह सन्नादन नामक यूथपति वानरों का पितामह है ॥ १९ ॥

येन युद्धं पुरा दत्तं रणे शक्रस्य धीमता ।

पराजयश्च न प्राप्तः सोऽयं यूथपयूथपः ॥ २० ॥

इसने बुद्धिमान इन्द्र के साथ युद्ध किया, परन्तु हारा नहीं—सो यह भी यूथपतियों का सरदार है ॥ २० ॥

यस्य विक्रममाणस्य शक्रस्येव पराक्रमः ।

एष गन्धर्वकन्यायामुत्पन्नः कृष्णवर्त्मनः ॥ २१ ॥

यह पराक्रम में इन्द्र के समान है। यह गन्धर्वकन्या के गर्भ से अग्नि द्वारा उत्पन्न हुआ है ॥ २१ ॥

तदा दवासुरे युद्धे साह्यार्थं त्रिदिवोकसाम् ।

यस्य वैश्रवणो राजा जम्बूमुपनिषेवते ॥ २२ ॥

यो राजा पर्वतेन्द्राणां बहु किन्नरसेविनाम् ।

विहार सुखदो नित्यं भ्रातुस्ते राजसाधिप ॥ २३ ॥

तत्रैव वसति श्रीमान् बलवान् वानरर्षभः ।

युद्धेष्वकथनो नित्यं क्रथनो नाम यूथपः ॥ २४ ॥

देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करने के लिए यह उत्पन्न किया गया था। यह बलवान वानरश्रेष्ठ उस पर्वत पर रहता है, जो पर्वतों का राजा है, जिसके ऊपर अनेक किन्नर रहा करते हैं और जिस पर तुम्हारे भाई राजा कुवेर को विहार करने में आनन्द प्राप्त होता है तथा जहाँ पर कुवेर जी जामुन के वृक्ष के नीचे बैठा करते हैं। इसका नाम क्रथन है और युद्ध में क्रियात्मक रूप से पराक्रम प्रदर्शन करता है, (वाणी से अपने पराक्रम की डींगें नहीं हँकता।) यह भी एक यूथपति है ॥२२॥२३॥२४॥

वृतः कोटिसहस्रेण हरीणां समुपस्थितः ।

एषैवाशंसते लङ्कां स्वेनानीकेन मर्दितुम् ॥ २५ ॥

सहस्र कोटि वानरों को साथ ले यह आया है। यह वीर भी केवल अपनी सेना ही से लड़ा को ध्वस्त करने की इच्छा रखता है ॥ २५ ॥

यो गङ्गामनु पर्येति त्रासयन् हस्तियूथपान् ।

हस्तिनां वानराणां च पूर्ववैरमनुस्मरन् ॥ २६ ॥

जो हाथियों और वानरों के पूर्वकालीन पारस्परिक वैर का स्मरण कर, गजेन्द्रों के यूथपतियों को गङ्गा के निकट डराना है ॥ २६ ॥

एष यूथपतिर्नेता गच्छन् गिरिगुहाशयः ।

गजान्योधयते वन्यान् गिरींश्चैव महीरुहान् ॥ २७ ॥

सो यह यूथपतियों का सरदार है और घूमकर कर अर्थान् ढूँढ़-ढूँढ़ कर गिरिगुहाओं में रहने वाले गजों, जंगली वृक्षों और पहाड़ों से लड़ाता है। अर्थान् गजों को उठा कर वृक्षों पर दे मारता है और वृक्षों को उखाड़ कर गजों पर पटक देता है। इसी प्रकार पर्वतों पर हाथियों को पटक देना है और पर्वत हाथियों पर ॥ २७ ॥

हरीणां वाहिनी मुख्यो नदी हैमवतीमनु ।

उशीरवीजमाश्रित्य पर्वतं मन्दरोत्तमम् ॥ २८ ॥

रमते वानरश्रेष्ठो दिवि शक्र इव स्वयम् ।

एनं शतसहस्राणां सहस्रमनुवर्तते ॥ २९ ॥

यह वानरों की सेना का मुखिया समझा जाता है, यह पर्वतोत्तम मन्दराचल के उशीरवीज नामक पर्वत पर स्वर्ग में इन्द्र की तरह रहता है। इसके अधीन कई लाख वानर हैं ॥ २९ ॥

वीर्यविक्रमदृप्तानां नर्दतां बलशालिनाम् ।

स एष नेता चैतेषां वानराणां महात्मनाम् ॥ ३० ॥

इसकी सेना के वीर अपने बलपराक्रम के अभिमान में चूर हो, गरजा करते हैं। यह वानर उन सब बलवान् वानरों का नायक है ॥ ३० ॥

स एष दुर्धरो राजन् प्रमाथी नाम यूथपः ।

वातेनेवोद्धतं मेघं यमेनमनुपश्यसि ॥ ३१ ॥

हे राजन्! इधर देखिये, वायु से प्रेरित मेघ की तरह जो दिखलाई दे रहा है, सो यह बड़ा दुर्धर्ष वानर है। इसका नाम प्रमाथी है और यह भी यूथपति है ॥ ३१ ॥

अनीकमपि संरब्धं वानराणां तरस्विनाम् ।

उद्भूतमरुणाभासं पवनेन समन्ततः ॥ ३२ ॥

इसकी सेना के वानर क्रोधी और बड़े फुर्तीले हैं। वीं पर हवा से चारों ओर लाल रंग की ॥ ३२ ॥

विर्वतमानं बहुधा यत्रैतद्वहुलं रजः ।

एतेऽसितमुखा घोरा गोलाङ्गूला महाबलाः ॥ ३३ ॥

बहुत सी धूल का ववंडर वह रहा है। ये काले मुख के भयङ्कर महाबली गोलाङ्गूल ॥ ३३ ॥

शतं शतसहस्राणि दृष्ट्वा वै सेतुबन्धनम् ।

गोलाङ्गूलं महावेगं गवाक्षं नाम यूथपम् ॥ ३४ ॥

लाखों की संख्या में सेतु के ऊपर देख पड़ते हैं, उनका यूथपति गवाक्ष है जो बड़ा वेगवान है ॥ ३४ ॥

परिवार्याभिवर्तन्ते लङ्का मर्दितुमोजसा ।

भ्रमराचरिता यत्र ❀ सर्वकालफलद्रुमाः ॥ ३५ ॥

इसी गवाक्ष युथपति को घेरे हुए समस्त गोलाङ्गुल, लङ्का को अपने बल से ध्वस्त करना चाहते हैं। जहाँ पर भौरों सदा मँडराया करते हैं। और जहाँ वृक्षों में सदा फल लगे रहते हैं ॥ ३५ ॥

यं सूर्यस्तुल्यवर्णाभमनु पर्येति पर्वतम् ।

यस्य भासा सदा भान्ति तद्वर्णा मृगपक्षिणः ॥ ३६ ॥

सूर्य अपना वर्ण वाला समझ, जिस पर्वत की सदा परिक्रमा किआ करते हैं और जहाँ की अरुण कान्ति से उम स्थानवासी समस्त मृग और पक्षी उसी रंग जैसे देव पड़ते हैं ॥ ३६ ॥

यस्य प्रस्थं महात्मानो न त्यजन्ति महर्षयः ।

सर्वकामफला वृक्षाः सदा फलममविन्ताः ॥ ३७ ॥

जिसके शिखर को महात्मा महर्षि कभी परित्याग नहीं करते, जहाँ पर सर्वकामना पूरी करने वाले वृक्ष सदा फल करते हैं ॥ ३७ ॥

मधुनि च महार्हाणि यस्मिन् पर्वतसत्तमे ।

तत्रैष रमते राजन् रम्ये काञ्चनपर्वते ॥ ३८ ॥

मुख्यो वानरमुख्यनां केशरी नाम युथपः ।

पण्डिर्गिरिसहस्राणां रम्याः काञ्चनपर्वताः ॥ ३९ ॥

तेषां मध्ये पारिवरस्त्वमिवाव रक्षसाम् ।

तत्रैते कपिलाः श्वेतास्ताम्रास्या मधुपिङ्गलाः ॥ ४० ॥

और जिस पर्वत श्रेष्ठ पर बढ़िया मधु आदि मीठे पदार्थ उत्पन्न होते हैं, हे राजन् ! उसी रमणीय काञ्चनमय पर्वत पर, वानरश्रेष्ठों में मुख्य, केसरी नामक यूथपति रमता है। साठ हजार रमणीक काञ्चनमय पर्वतों के बीच सौवर्णि नामक पर्वत सब पर्वतों में वैसा ही श्रेष्ठ है जैसे कि, राक्षसों में आप पाप-रहित पीले, सफेद, मधुपिङ्गल (शहद की तरह पीले) रंग के लाल मुख वाले वानर ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥

निवसन्त्युत्तमगिरौ तीक्ष्णादंष्ट्रा नखायुधाः ।

सिंहा इव चतुर्दंष्ट्रा व्याघ्रा इव दुरासदाः ॥ ४१ ॥

उस पर्वतोत्तम पर रहते हैं। उनके शस्त्र हैं उनके पैने पैने दाँत और नख। सिंह की तरह इनके चौघड़े हैं और व्याघ्र की तरह ये दुर्धर्ष हैं ॥ ४१ ॥

सर्वे वैश्वानरसमा ज्वलिताशीविषोपमाः ।

सुदीर्घाश्रितलाङ्गूला मत्तमातङ्गसन्निभाः ॥ ४२ ॥

यह सब के सब अग्नि की तरह उग्र हैं और कुपित सर्प के विष की तरह महाभयङ्कर हैं। इनकी बड़ी लंबी और उमठवाँ पूँछ हैं और मतवाले हाथी की तरह ये चलते हैं ॥ ४२ ॥

महापर्वतसङ्काशा महाजीमूतनिःस्वनाः ।

वृत्तपिङ्गलरक्ताक्षा भीमभीमगतिस्वराः ॥ ४३ ॥

बड़े पर्वत की तरह लंबे तडंगे हैं और महामेघ की तरह गरजा करते हैं। उनकी गोल गोल पीली पीली आँखें हैं। वे बड़ी ही भयङ्कर गति वाले और डरावनी बोली बोलने वाले हैं ॥ ४३ ॥

मर्दयन्तीव ते सर्वे तस्थुर्लङ्कां समीच्य ते ।

एष चैपामधिपतिर्मध्ये तिष्ठति वीर्यवान् ॥ ४४ ॥

वे सब लङ्का को ध्वस्त करने की अभिलाषा से लङ्का की ओर निगाह गड़ाए हुये हैं । इनके बीच में यह बलवान इनका अधिपति वानर खड़ा है ॥ ४४ ॥

जयार्थी नित्यमादित्यमुपतिष्ठति बुद्धिमान् ।

नाम्ना पृथिव्यां विख्यातो राजन् शतवलीतियः ॥४५॥

यह बुद्धिमान वानर विजय प्राप्त की इच्छा से नित्य सूर्य की आराधना किया करता है और हे राजन् ! उम ससार में यह शतवली के नाम से प्रसिद्ध है ॥ ४५ ॥

एषैवाशंसते लङ्कां स्वेनार्नाकेन मर्दितुम् ।

विक्रान्तो बलवाञ्छूरः पौरुषे स्वे व्यस्थितः ॥ ४६ ॥

यह भी अपनी सेना को साथ ले लङ्का को ध्वस्त करना चाहता है । यह बड़ा पराक्रमी और बलवान और शूर है । उसे अपने पुरुषार्थपर विश्वास है ॥ ४६ ॥

रामप्रियार्थं प्राणानां दयां न कुरुते हरिः ।

गजो गयाक्षो गवयो नलो नीलश्च वानरः ॥ ४७ ॥

यह श्रीरामचन्द्र जी की प्रसन्नता सम्पादन करने के लिए अपने प्राणों को तुच्छ समझता है । हे राजन् ! गज, गवाक्ष, गवय, नल और नील नामक जो वानर हैं ॥ ४७ ॥

एकैक एव यूपानां कोटिभिर्दशभिवृतः ।

तथाऽन्ये वानरश्रेष्ठा विन्ध्यपर्वतवामिनः ।

न शक्यन्ते बहुत्वाच्च संख्यातुं लघुविक्रमाः ॥४८॥

इनमे से प्रत्येक दस दस करोड़ वानरों के यूथपति हैं। इस वानरी सेना के बहुत से वानरश्रेष्ठ बिन्ध्याचलवासी हैं और ये फुर्तीले वानर संख्या में इतने अधिक हैं कि इनको गिनना असम्भव है ॥ ४८ ॥

सर्वे महाराज महाप्रभावाः

सर्वे महाशैलनिकाशकायाः ।

सर्वे समर्थाः पृथिवीं क्षणेन

कर्तुं प्रविध्वस्तविकीर्णशैलाम् ॥ ४९ ॥

इति सप्तविंशः सर्गः ॥

हे महाराज ! इन सब वीर वानरश्रेष्ठों की देह बड़े पर्वतों की तरह विशाल है। सभी बड़े प्रभावशाली और सब ही शिलाएँ वर्षा कर क्षण भर में सारी पृथिवी को विध्वस्त कर सकते हैं। अथवा हे राक्षसराज ! समस्त कपिश्रेष्ठ पर्वताकार शरीरधारी और प्रभाव वाले हैं। वे मन पर धरें तो पलक मारते पृथिवी के समस्त पर्वतों को उखाड़ कर फेंक सकते हैं ॥ ४९ ॥

युद्धकाण्ड का सत्ताइसवाँ सर्ग पूरा हुआ

६—❀—

अष्टाविंशः सर्गः

—❀—

सारणस्य वचः श्रुत्वा रावणं राक्षसाधिपम् ।

बलमादिश्य तत्सर्वं शुक्रो वक्ष्यमथाब्रवीत् ॥ १ ॥

सारण के ये वचन सुन, समस्त वानरी सेना को पहिचनवाता हुआ शुक्र, राक्षसराज रावण से कहने लगा ॥ १ ॥

स्थितान् पश्यसि यानेतान्मत्तानिव महाद्विपान्
न्यग्रोधानिव गाङ्गेयान् सालान् हेमवतानिव ॥ २ ॥

हे राजन् ! आप जिन वानरों को मतवाले गजराजों, गङ्गा-
तटवर्ती बटवृक्षों, हिमालयस्थित शालवृक्षों की तरह खड़े हुए
देख रहे हैं ॥ २ ॥

एते दुष्प्रसहा राजन् बलिनः कामरूपिणः ।
दैत्यदानवसङ्काशा युद्धे देवपराक्रमाः ॥ ३ ॥

ये सब केसव दुर्धर्ष, बलवान और उच्छ्वा-रूपवारी हैं और
दैत्यदानवों की तरह बलसम्पन्न तथा युद्ध में देवतओं की तरह
पराक्रमी हैं ॥ ३ ॥

एषां कोटिसहस्राणि नव पञ्च च सप्त च ।
तथा शङ्खसहस्राणि तथा वृन्दशतानि च ॥ ४ ॥

येसंख्या में २१ हजार करोड़ तथा सहस्र शङ्ख एवं सौ वृन्द
हैं ॥ ४ ॥

एते सुग्रीवसचिवाः किष्किन्धानिलयाः सदा ।
हरयो देवगन्धर्वैरुत्पन्नाः कामरूपिणः ॥ ५ ॥

ये सब सुग्रीव के सहायक हैं और किष्किन्धानिमर दा करते
हैं । इन वानरों की उत्पत्ति, गन्धर्वों से है और ये इच्छानुसार
रूप धारण करनेवाले हैं ॥ ५ ॥

यौ तौ पश्यसि तिष्ठन्तौ रजुमारौ देवरूपिणौ ।
मैन्दश्च द्विविदश्चोर्भा ताभ्यां नास्ति समो युधि ॥ ६ ॥

आप जिन देवताओं के समान रूपवान् दो युवकों को बैठा हुआ देख रहे हैं, वे दोनों मैन्द् और द्विविद् हैं। युद्ध में उन दोनों का सामना करने वाला कोई नहीं है ॥ ६ ॥

ब्राह्मणा समनुज्ञातावमृतप्राशिनावुभौ ।

आशंसेते युधा लङ्कामेतौ मर्दितुमोजसा ॥ ७ ॥

क्योंकि ब्रह्मा की आज्ञा से इन दोनों ने अमृत पान किया है। ये दोनों अपने पराक्रम से लङ्का को ध्वस्त करना चाहते हैं ॥७॥

यावेतावेतयोः पार्श्वे स्थितौ पर्वतसन्निभौ ।

सुमुखोसुमुखश्चैव मृत्युपुत्रौ पितुःसमौ ॥ ८ ॥

जो दो वानर इन दोनों के पास पहाड़ की तरह खड़े हैं, वे दोनों मृत्यु के पुत्र अपने पिता के समान भयङ्कर हैं और इनके नाम सुमुख और असुमुख है ॥ ८ ॥

प्रेक्षन्तौ नगरीं लङ्कां कोटिभिर्दशभिवृत्तौ ।

यं तु पश्यसि तिष्ठन्तं प्रभिन्नमिव कुञ्जरम् ॥ ९ ॥

यो बलात्त्तोभयेत्क्रुद्धः समुद्रमपि वानरः ।

एषोभिमन्ता लङ्काया वैदेह्यास्तव च प्रभो ॥ १० ॥

ये अपने अधीनस्थ दस करोड़ वानरों सहित लङ्का की ओर ताक रहे हैं मत्त गज की तरह जिस वानर को तुम खड़े देख रहे हो और जो क्रुद्ध होने पर समुद्र को भी खल्लवला सकता है; हे प्रभो ! यही सीता और तुम्हारी लङ्का का पता लगाने आया था ॥ ९ ॥ १० ॥

एनं पश्य पुरा दृष्टं वानरं पुनरागतम् ।

ज्येष्ठः केसरिणाः पुत्रो वातात्मज इति श्रुतः ॥ ११ ॥

सो इसे आप पहिले देख ही चुके हैं, वही फिर आया है । यह केसरी का श्रेष्ठ पुत्र है और वातात्मज अर्थात् वायुपुत्र के नाम से प्रसिद्ध है ॥ ११ ॥

हनुमानिति विख्यातो लङ्घितो येन सागरः ।

कामरूपी हरिश्रेष्ठो १ बलरूपसमन्वितः ॥ १२ ॥

इसका हनुमान भी नाम है और इसीने समुद्र लॉंघा था । यह इच्छानुसार रूप धारण कर लेता है, वानरों में श्रेष्ठ है और बड़ा बलवान् है ॥ १२ ॥

अनिवार्यगतिश्चैव यथा २ सततगः प्रभुः ।

उद्यन्तं भास्करं दृष्ट्वा बालः किल ३ बुभुक्षितः ॥१३॥

वायु की तरह इसकी गति कहीं भी नहीं रुकती, लड़कपन में एक दिन इसे भूख लगी । उस समय नूर्य उदय हो रहा था ॥१३॥

त्रियोजनसहस्रं तु अध्वानमवतीर्य हि ।

आदित्यमाहरिष्यामि न मे क्षुत्प्रतियास्यति ॥ १४ ॥

इति सञ्चिन्त्य मनसा पुरैष बलदर्पितः ।

अनाष्टृष्यतमं देवमपि देवर्षिदानवैः ॥ १५ ॥

उस समय इसने यह सोचा कि, जब तक मैं नूर्य को न खाऊँगा तब तक मेरी भूख न मिटेगी—मो यह विचार कर, बल से दर्पित सूर्य को पकड़ने के लिये, तीन हजार योजन ऊपर उछल गया । किन्तु सूर्यदेव नो देवर्षियों और राक्षसों द्वारा तिरस्कार करने योग्य नहीं हैं ॥ १४ ॥ १५ ॥

१ बलरूपसमन्वितः—प्रशस्तबलसमन्वितः । (गो०) २ सततगः—वायुः । (गो०) ३ पाठान्तरे—“विगमितः ।”

अनासाद्यैव पतितो भास्करोदयने गिरौ ।

पतितस्य कपेरस्य हनुरेका शिलातले ॥ १६ ॥

सो यह सूर्य को न पकड़ सका और उदयाचल पर गिर पड़ा । इतनी दूर से शिला के ऊपर गिरने के कारण, इसकी एक ओर की टोड़ी ॥ १६ ॥

किञ्चद्भिन्ना दृढहोर्हनुमानेष तेन वै ।

सत्यमागमयोगेन भूमैष विदितो हरिः ॥ १७ ॥

थोड़ी सी टूट गई । क्योंकि टोड़ी इसकी बड़ी मजबूत थी, इसीसे इसका नाम हनुमान हुआ । वानरों के सहवास से यद्यपि मैंने इस वानर का यह हाल जान लिया है ॥ १७ ॥

नास्य शक्यं बलं रूपं प्रभावो वाऽपि भाषितुम् ।

एष आशंसते लङ्कामेको मर्दितुमोजसा ॥ १८ ॥

तथापि मैं इसका बल, रूप और प्रभाव बर्णन नहीं कर सकता । यह अकेला, अपने बल ही से लङ्का को ध्वस्त करना चाहता है ॥ १८ ॥

[येन जाज्वल्यते सौम्य १ धूमकेतुस्तवाद्य वै ।

लङ्कायां निहितश्चापि कथं न स्मरसेऽपिम् ॥ १९ ॥

हे सौम्य ! जिस वानर ने तुम्हारी लङ्का को फूँका और इतने राक्षस मारे, उसे आप कैसे भूल गए ॥ १९ ॥

यश्चै पोऽनन्तरः शूरः श्यामः पद्मनिभैक्षणः ।

इदवाकूणामतिरथो लोके विख्यातपौरुषः ॥ २० ॥

१ धूमकेतुरग्निः । (रा०) = पाटान्तरे—“जाज्वल्यतेऽसौवै”

हनुमान के पास ही जो शूर श्यामवर्ण, कमलनयन, इन्द्रवाहु कुल में अजेय योद्धा और संनार में विरयान पराक्रमी है ॥२०॥

यस्मिन्न चलते धर्मो यो ऋमात्रातिवर्तते ।

यो ब्राह्ममखं वेदांश्च वेद वेदविदां वरः ॥ २१ ॥

जो धर्म से न तो कभी डिगते हैं और न धर्म की मर्यादा को उल्लङ्घन ही करते हैं, जो ब्रह्माख का चलाना जानते हैं, जो वेदों को केवल जानते ही नहीं, बल्कि वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ माने जाते हैं ॥ २१ ॥

यो भिन्धाद्गगनं वाणैः पर्वतानपि दारयेत् ।

यस्य मृत्योरिव क्रोधः शक्रस्यैव पराक्रमः ॥ २२ ॥

जो अपने वाणों से आकाश को छेद सकते हैं और पर्वतों को विदीर्ण कर सकते हैं, जिनका क्रोध, मृत्यु के समान और पराक्रम इन्द्र की तरह है ॥ २२ ॥

यस्य भार्या जनस्थानात्सीता चापहृता त्वया ।

स एष रामस्त्वां योद्धुं राजन् समभिवर्तते ॥ २३ ॥

और जिनकी स्त्री सीता को तुम जनस्थान से हर लगे हो, हे राजन्! वे ही श्रीरामचन्द्र तुमसे लड़ने के लिए यहां आए हैं ॥ २३ ॥

यस्यैष दक्षिणे पार्श्वे शुद्धजाम्बूनदप्रमः ।

विशालवक्षास्तान्नाक्षो नीलकुञ्चितमूर्धजः ॥ २४ ॥

उनकी दहिनी ओर विशुद्ध सुवर्ण बरों जैसे, चौड़ी नाती वाले, अरुणनयन तथा नीले रंग के और पुंघ्राहे दातों से भूषित ॥ २४ ॥

* पाठान्तरे—“धर्म नातिवर्तते ।”

एषोऽस्य लक्ष्मणो नाम भ्राता प्राणसमः प्रियः ।

नये युद्धे च कुशलः सर्वशस्त्रभृतां वरः ॥ २५ ॥

जिस पुरुष को तुम देख रहे हो, वह श्रीरामचन्द्र के प्राणसम प्यारे भाई लक्ष्मण हैं। क्या नीति, क्या युद्ध ये सब विषयों में निपुण हैं और शस्त्रधारियों में सर्वश्रेष्ठ है ॥ २५ ॥

अमर्षी दुर्जयो जेता विक्रान्तो बुद्धिमान् बली ।

रामस्य दक्षिणो बाहुर्नित्यं प्राणो वहिश्चरः ॥२६॥

श्रीरामचन्द्र जी का अपचार इनसे नहीं सहा जाता, इनको रण में कोई जीन नहीं सकता। ये सबको जीतने वाले हैं, ये वड़े पराक्रमी, बुद्धिमान् और बलवान् है। ये श्रीरामचन्द्र जी की दहिनी बाँह और उनके प्राणों के सरलक है ॥ २६ ॥

न ह्येष राघवस्यार्थे जीवितं परिरक्षति ।

एषैवाशंसते युद्धे निहन्तुं सर्वराक्षसान् ॥ २७ ॥

ये श्रीरामचन्द्र जी की रक्षा के लिए अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए, सदा तैयार रहते हैं। युद्ध में ये अकेले ही समस्त राक्षसों को मार डालने का उत्साह रखते हैं ॥ २७ ॥

यस्तु सव्यमसौ पक्षं रामस्याश्रित्य तिष्ठति ।

रक्षोगणपरिक्षिप्तो राजा ह्येष विभीषणः ॥२८॥

जो अपने चार मंत्री राक्षसों के बीच श्रीरामचन्द्र जी की बाईं ओर बैठे हैं—ये राजा विभीषण हैं ॥ २८ ॥

श्रीमता राजराजेन लङ्कायामभिषेचितः ।

त्वामेव प्रतिसंरब्धो युद्धायैषौऽभिवर्तते ॥२९॥

श्रीमान् राजाधिराज महाराज श्रीरामचन्द्र जी ने लङ्का के राज-
सिंहासन पर इनको अभिषिक्त कर दिया है । यह तुम्हारे नाथ
युद्ध करने का क्रोध में भरा बैठा है ॥ २६ ॥

यं तु पश्यसि तिष्ठन्तं मध्ये गिरिमिवाचलम् ।

सर्वशाखामृगेन्द्राणां भर्तारमपराजितम् ॥ ३० ॥

जिनको आप एक अचल पर्वत की तरह श्रीरामचन्द्र और
विभीषण के बीचमें बैठा हुआ देखते हैं, वे ही ममत्त वानरों
के राजा हैं, इनको पराजित करना सहज नहीं ॥ ३० ॥

तेजसा यशसा बुद्ध्या ज्ञानेनाभिजनेन च ।

यः कपीनतिवभ्राज हिमशानिव पर्वतान् ॥ ३१ ॥

तेजस्विता, यश, ऊहापोहरूपी-ज्ञान, शान्त्रजन्य-ज्ञान तथा,
कुल की विशिष्टता के कारण, पर्वतों में हिमाचल पर्वत की तरह,
समस्त वानरों से यह अधिक शोभा पा रहा है ॥ ३१ ॥

किष्किन्धां यः समध्यास्ते गुहां सगहनद्रुमाम् ।

दुर्गा पर्वतदुर्गस्थां प्रधानैः सह यूथपैः ॥ ३२ ॥

हे राजन् ! यह वानरराज, वानर यूथपनियों के नाथ किष्कि-
न्धा में एक ऐसी गिरगुहा में रहते हैं, जो मत्तन वृक्षों से
आच्छादित है और जहाँ पहुँचना बड़ा कठिन है ॥ ३२ ॥

यस्यैषा काञ्चनी माला शोभते शतपुष्करा ।

कान्ता देवमनुष्याणां यस्यां लक्ष्मीः प्रतिष्ठिता ॥ ३३ ॥

देवताओं और मनुष्यों की वाञ्छनीय लक्ष्मी जिनमें नदा
वास करती हैं, वह शतपद्मा सोने की माला कपिराज के गले में
कैसी शोभित हो रही है ॥ ३३ ॥

एतां च मालां तारां च कपिराज्यं च शाश्वतम् ।
सुग्रीवो वालिनं हत्वा रामेण प्रतिपादितः ॥ ३४ ॥

श्रीरामचन्द्र जी ने यह माला, तारा और वानरों का सनातन (प्राचीन) राज्य वाली को मार कर इस सुग्रीव को दिलाया है ॥ ३४ ॥

शतं शतहस्राणां कोटिमाहुर्मनीषिणः ।

शतं कोटिसहस्राणां शङ्ख इत्यभिधीयते ॥ ३५ ॥

हे राजन् ! सौ से गुणा करने पर सौ सहस्र को पण्डित लोग "कोटि" कहते हैं और सौ हजार कोटि का एक शङ्ख होता है ॥ ३५ ॥

शतं शङ्खसहस्राणां महाशङ्ख इति स्मृतः ।

महाशङ्खसहस्राणां शतं वृन्दमिति स्मृतम् ॥ ३६ ॥

सौ हजार शङ्ख का एक महाशङ्ख होता है । सौ हजार महाशङ्ख का एक वृन्द होता है ॥ ३६ ॥

शतं वृन्दसहस्राणां महावृन्दमिति स्मृतम् ।

महावृन्दसहस्राणां शतं पद्ममिति स्मृतम् ॥ ३७ ॥

सौ हजार वृन्द का एक महावृन्द होता है । सौ हजार महावृन्द का एक पद्म होता है ॥ ३७ ॥

शतं पद्मसहस्राणां महापद्ममिति स्मृतम् ।

महापद्मसहस्राणां शतं खर्वमिहोच्यते ॥ ३८ ॥

सौ हजार पद्म का महापद्म और सौ हजार महापद्म का एक खर्व होता है ॥ ३८ ॥

शतं खर्वसहस्राणां महाखर्वमिति स्मृतम् ।

महाखर्वसहस्राणां समुद्रमभिधीयते ॥ ३६ ॥

सौ हजार खर्व का एक महाखर्व और सौ हजार महाखर्व का एक समुद्र होता है ॥ ३६ ॥

शतं समुद्रसाहस्रमोघ इत्यभिधीयते ।

शतमोघसहस्राणां महाघ इति विश्रुतः ॥ ४० ॥

सौ हजार समुद्र का एक मोघ और सौ हजार मोघ का एक महाघ होता है ॥ ४० ॥

एवं कोटिसहस्रेण शङ्खानां च शतेन च ।

महाशङ्खमहस्रेण तथा वृन्दशतेन च ॥ ४१ ॥

हे राजन् ! इस विनाश से कोटिसहस्र, उनका सौ हजार उनका हजार महाशङ्ख उनका सौ वृन्द ॥ ४१ ॥

महावृन्दमहस्रेण तथा पद्मशतेन च ।

महापद्ममहस्रेण तथा खर्वशतेन च ॥ ४२ ॥

उनका हजार महावृन्द, उनका सौ पद्म, उनका हजार महापद्म, उनका सौ खर्व ॥ ४२ ॥

समुद्रेण शतेनैव महौघेन तथैव च ।

एष कोटिमहौघेन समुद्रसदृशेन च ॥ ४३ ॥

एक सौ समुद्र और एक सौ कोटि महौघ समुद्र की भाँती समान हैं, जो समुद्र की तरह देख पड़ती हैं ॥ ४३ ॥

विभीषणेन सचिवैः राजनैः पञ्चिारितः ।

सुग्रीवो वानरेन्द्रस्त्वां युद्धार्थमभिवर्तते ।

महाबलहतो निर्व्यं महाबलवराक्रमः ॥ ४४ ॥

इतनी बड़ी वानरी सेना तथा सचिवों सहित विभीषण को साथ लिए हुए कपिराज सुग्रीव, आपसे लड़ने को उपस्थित हुए हैं। वानरेन्द्र के साथ बड़ी भारी सेना है ; जो बड़ी बलवान् और पराक्रमी है ॥ ४४ ॥

इमां महाराज समीच्य वाहिनीम्

उपस्थितां प्रज्वलितग्रहोपमाम् ।

ततः प्रयत्नः परमो विधीयतां

यथा जयः स्यान्न परैः पराजयः ॥ ४५ ॥

इति अष्टाविंशः सर्गः

हे महाराज ! जाज्वल्यमान ग्रह की तरह इस उपस्थित वानरी सेना को देख कर, आप ऐसा प्रयत्न करें, जिससे आपकी जीत हो और शत्रु से हार खानी न पड़े ॥ ४५ ॥

युद्धकाण्ड का अष्टादशवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—❀—

एकोनत्रिंशः सर्गः

—❀—

शुकेन तु समाख्यातांस्तान् दृष्ट्वा हरियूथपान् ।

समीपस्थं च रामस्य आतरं स्वं विभीषणम् ॥ १ ॥

इस प्रकार शुक के बतलाने पर रावण ने वानरयूथपतियों को तथा अपने भाई विभीषण को श्रीरामचन्द्र जी के समीप बैठा हुआ देखा ॥ १ ॥

लक्ष्मणं च महावीर्यं भुजं रामस्य दक्षिणम् ।

सर्ववानरराजं च सुग्रीवं भीमविक्रमम् ॥ २ ॥

(इनको ही नहीं बल्कि) उसने महावीर्यवान् और श्रीगम-
चन्द्र की दक्षिण भुजा रूपी लक्ष्मण को, ममन्त वानरयूयपतियों
को, भीम पराक्रमी सुग्रीव को ॥ २॥

[गजं गवाक्षं गवयं मैन्दं द्विविदमेव च ।

अङ्गदं चैव बलिनं वज्रहस्तात्मजात्मजम् ॥३॥

गज, गवाक्ष, गवय, मैन्द, द्विविद, जो; इन्द्रपुत्र बालि के
आत्मज अङ्गद को ॥ ३ ॥

हनुमन्तं च विक्रान्तं जाम्बवन्तं च दुर्जयम् ।

सुपेण कुपुदं नीलं नलं च सवर्षभम् ॥ ४ ॥

विक्रमी हनुमान को, दुर्जेय जाम्बवान को और दक्षिण
सुपेण, कुमुद, नील, नल को भी देखा ॥ ४ ॥

किञ्चिदाविग्नहृदयोः जातक्रोधश्च रावणः ।

भर्त्सयामास तौ वीरौ कथन्ति शुकसारणी ॥ ५ ॥

इनको देख कर रावण मन ही मन कुद कुद उद्विग्न हुआ
और जब शुक नारण ने अपना कथन समाप्त किया, तब उसने
क्रोध में भर, उन दोनों वीर शुक सारण की भर्त्सना की अर्थात्
ढाटा ढपटा ॥ ५ ॥

अधोमुखौ तौ प्रसृतावत्रयीच्छुकसारणी ।

रोपगद्गदया वाचा संरब्धः परुषं वचः ॥ ६ ॥

शुक और सारण अत्यन्त नम्रतापूर्वक सिर झुकाए खड़े थे । परन्तु रावण क्रोध में भर उनसे बड़े कठोर वचन कहने लगा ॥ ६ ॥

न तावत्सदृशं नाम सचिवैरुपजीविभिः ।

विप्रियं नृपतेर्वक्तुं निग्रहप्रग्रहे प्रभुः ॥ ७ ॥

तुम लोगों ने मुझसे जैसे वचन कहे हैं, वैसे वचन क्या किसी वेतनभोगी सचिव को अपने उस स्वामी के सामने, जो निग्रह अनुग्रह करने में ममर्थ है, कहना उचित है ? ॥ ७ ॥

रिपूणां प्रतिकूलानां युद्धाथमभिवर्तताम् ।

उभाभ्यां सदृशं नाम वक्तुमग्रस्तवे स्तवम् ॥ ८ ॥

युद्ध के लिए प्रस्तुत एव अपने विरोधी शत्रुओं की इस प्रकार अनवसर प्रशंसा करना; क्या तुम दोनों को उचित था ? ॥८॥

आचार्या गुरवो वृद्धा वृथा वां पर्यपाशिताः ।

सारं यद्राजशास्त्राणामर्नजीव्यं न गृह्यते ॥ ९ ॥

छिः! आज तक आचार्य, गुरु और वृद्धजनों के पास रह कर तुमने भाड़ ही भोंका । एक वेतनभोगी को जो समस्त राजनीति की मुख्य मुख्य बातें सीखनी उचित हैं—वे भी तुमने न सीखीं ॥ ९ ॥

गृहीतो वा न विज्ञातो भारो ज्ञानस्य बोह्यते ।

ईदृशैः सचिवैर्युक्तो मूर्खे दिष्ट्या धराम्यहम् ॥ १० ॥

यदि सीखों भी तो उनका मर्म तुमने न जाना । तुम तो केवल अज्ञान का बोझ ढो रहे हो । अर्थान् तुम पल्लेसिरे के अज्ञानी हो ! इसे मैं अपना सौभाग्य ही समझता हूँ कि, तुम जैसे मूर्ख मंत्रियों को, अपने पास रख कर भी, मैं आज तक राज्य कर रहा हूँ ॥ १० ॥

किंनु मृत्योर्भयं नास्ति वक्तुं मां परुषं वचः ।

यस्य मे शासतो जिह्वा प्रयच्छति शुभाशुभम् ॥ ११ ॥

अरे ! क्या तुमको अपनी जान जाने का डरा भी भय नहीं, जो तुमने मुझसे ऐसे कठोर वचन कहे ! क्या तुम नहीं जानते लोगों का मरना जीना मेरी जिह्वा के हिलने डुलने पर अर्थात् मेरी आज्ञा पर निर्भर है ? ॥ ११ ॥

अप्येव दहनं स्पृष्ट्वा वने तिष्ठन्ति पादपाः ।

राजदोषपरामृष्टान्तिष्ठन्ते नापगधिनः ॥ १२ ॥

यह तुम लोग भलीभाँति जान रखो कि, वन में आग लगने पर, उस वन के वृक्ष भले ही भस्म होने से बच जाँय, किन्तु राज-द्रोह के अपराधी कभी नहीं बच सकते ॥ १२ ॥

हन्वामहं त्विमां पापौ शत्रुपक्षप्रशंसकौ ।

यदि पूर्वोपकारैस्तु न क्रोधो मृदुनां व्रजेत् ॥ १३ ॥

शत्रुपक्ष की प्रशंसा करने वाले तुम दोनों को मैं परमेश्वर प्राण दण्ड देता, पर क्या कहूँ, तुम्हारे पतिले के उपकारों का स्मरण आने पर मेरा क्रोध नम हो जाता है ॥ १३ ॥

अपध्वंसत गच्छध्वं सन्निकर्षादितो मम ।

न हि वां हन्तुमिच्छामि स्मराम्युपकृतानि वाम् ॥ १४ ॥

अब तुम मेरी आँखों के मानने से हट जाओ, गन्धर्वर फिर मेरे सामने मन चाना । मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता । क्योंकि मुझे तुम्हारे उपकारों का स्मरण उता हुआ है ॥ १४ ॥

हतावेव कृतघ्नौ तौ मयि स्नेहपगङ्मुखा ।

एवमुक्त्वा तु सत्रीढौ तावुर्भा शुक्रतारया ॥ १५ ॥

तुम लोग जैसे कृतघ्न और मेरे प्रति स्नेहशून्य हो रहे हो, इससे तो तुम निश्चय ही मार डालने योग्य हो। जब रावण ने उन दोनों शुक सारण से इस प्रकार कहा, तब वे बहुत लज्जित हुए ॥ १५ ॥

रावणं जयशब्देन प्रतिनन्द्यामिनिःसृतौ ।

अब्रवीत्तु दशग्रीवः समीपस्थं महोदरम् ॥ १६ ॥

और वे “जय जय” कह रावण को प्रणाम कर वहाँ से चले गए। तदनन्तर पास बैठे हुए महोदर से रावण ने कहा ॥ १६ ॥

उपस्थापय मे शीघ्रं चारान्नीतिविशारदान् ।

महोदरस्तथोक्तस्तु शीघ्रमाज्ञापयच्चरान् ॥ १७ ॥

तुम नीति विशारद चरों को तुरन्त हाजिर करो। इस पर महोदर ने “जो हुकुम” कह कर, तुरन्त चरों को उपस्थित होने की आज्ञा दी ॥ १७ ॥

ततश्चाराः सन्त्वरिताः प्राप्ताः पार्थिवशासनात् ।

उपस्थिताः प्राञ्जलयो वर्धयित्वा जयाशिषा ॥ १८ ॥

रावण की आज्ञा सुनते ही चर लोग तुरन्त ही उसके पास जा पहुँचे और “जय हो” ऐसा आशीर्वाद दे, हाथ जोड़े हुए खड़े हो गए ॥ १८ ॥

तानब्रवीत्ततो वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः ।

चारान् प्रत्यायिताञ्शूगान् भक्तान् विगतसाध्वसान् ? ॥ १९ ॥

तब राक्षसेश्वर रावण ने उनको विश्वस्त, शूर, अपने में भक्तिमान और शत्रुभय से निर्भय जान कर कहा ॥ १९ ॥

१ विगत साध्वसान् — विगतशत्रुभयान् । (गो०)

इतो गच्छत रामस्य व्यवसायं परीक्ष्य ।

मन्त्रिष्वभ्यन्तरा येऽस्य प्रीत्या तेन समागताः ॥२०॥

तुम लोग यहाँ से श्रीरामचन्द्र के पास जाओ और पता लगाओ, कि, उनका इरादा किस समय क्या क्या करने का है। उनके अन्तरंगमंत्रों जो प्रीतिवश उनके साथ आये हैं, उनके कामों की भी टोह लगाना ॥ २० ॥

कथं स्वपिति जागति किमन्यञ्च करिष्यति ।

विज्ञाय निपुणं२ सर्वमागन्तव्यमशेषतः ॥ २१ ॥

राम क्या अकेले सोते हैं अथवा वे सोते हैं और अन्य लोग सोने के समय जाग कर उनकी रखवाली करते हैं ? आगे वे क्या करने वाले हैं—इन सब बातों का चुपके चुपके पता लगा कर, चले आना ॥ २१ ॥

चारेण विदितः शत्रुः परिहर्तव्यमुधाधिपैः ।

युद्धे स्वल्पेन यत्नेन समासाद्य निरस्यते ॥ २२ ॥

क्योंकि जो राजा चतुर होते हैं, वे दूतों ही के द्वारा अपने वैरी का सब हाल जान कर, रण में अल्पप्रयत्न ही से, शत्रु को भगा देते हैं ॥ २२ ॥

चारास्तु ते तथेत्युक्त्वा प्रहृष्टा राजसेश्वरम् ।

शार्दूलमग्रतः कृत्वा ततश्चक्रुः प्रदक्षिणम् ॥ २३ ॥

चरों ने " जो आता " कह कर और शार्दूल नामक चर को अपना अग्रगण्य बना कर तथा प्रसन्न हो कर राजसेश्वर को प्रदक्षिणा की ॥ २३ ॥

१ व्यवसायं—वर्तमानव्यवसाय । २ निपुण—प्रवृत्तनिपुण । (गी०)

ततस्ते तं महात्मानं चारा राक्षससत्तमम् ।

कृत्वा प्रदक्षिणं जग्मुर्यत्र रामः सलक्ष्मणः ॥२४॥

तब वे चर लोग राक्षसोत्तम राक्षस की परिक्रमा कर वहाँ गए जहाँ लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्र जी ठहरे हुए थे ॥ २४ ॥

ते सुवेलस्य शैलस्य समीपे रामलक्ष्मणौ ।

प्रच्छन्ना ददृशुर्गत्वा ससुग्रीवविभीषणौ ॥२५॥

वे सुवेल पर्वत के निकट पहुँच और अपना भेष बदल कर श्रीरामचन्द्र जी, लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण को देखने लगे ॥ २५ ॥

प्रेक्षमाणाश्चमूं तां च बभूवुर्भयविक्लवाः ।

ते तु धर्मात्मना दृष्टा राक्षसेन्द्रेण राक्षसाः ॥२६॥

विभीषणेन तत्रस्था निगृहीताः यदृच्छया २ ।

शार्दूलो ग्राहितस्त्वेकः पापोऽयमिति राक्षसः ॥२७॥

उस वानरी सेना को देख ये लोग मारे भय के बड़बड़ा गये । इतने में श्रीरामचन्द्र जी और उस समय वहाँ पर उपस्थित राक्षसेन्द्र विभीषण ने उन राक्षसचरों को पहिचान लिया और मनमाना उनको डाँटा डपटा । उनमें से उनके सरदार शार्दूल को पकड़वा लिया क्योंकि वह बड़ा दुष्ट था ॥ २६ ॥ २७ ॥

१ निगृहीताः—तजिताइत्यर्थः । (गो०) २ यदृच्छया—शार्दूलो-तिरिक्काराक्षसाविभीषणेनदृष्टा अपियदृच्छया विभीषणाज्ञांविनैवगृहीताः-शार्दूलस्तु अयमत्यन्तपापइतिकपिभिर्ग्राहितः । (रा०)

मोचितः सोऽपि रामेण बध्यमानः स्वङ्गमैः ।

आनृशंस्येन रामस्य मोचिता राज्ञाः परे ॥२८॥

वानर तो उसको मार डालना चाहते थे, किन्तु श्रीरामचन्द्र जी ने उसे छुड़वा दिया। इसी प्रकार अन्य राक्षसचरों ने भी श्रीरामचन्द्र जी की दया ने छुड़वा दिया ॥ २८ ॥

वानरैरदितास्ते तु विक्रान्तैर्लघुविक्रमैः ।

पुनर्लङ्कामनुप्राप्ताः श्वसन्तो नष्टचेतसः ॥२९॥

उन पराक्रमी और फुर्तीले वानरों ने कुछ पिट कर वे राजस-
चर लंबी लंबी सामें लेते और अधमरे से हो, सिन्धो नरह नरु
मे पहुँचे ॥ २९ ॥

ततो दशग्रीवमुपस्थितास्तु ते

चारा बहिर्नित्यचरा निशाचराः ।

गिरेः सुबेलस्य समीपवानिनं

न्यवेदयन् भीमवलं महाबलाः ॥३०॥

इति एकोनविंशः सर्गः

तदनन्तर, परराष्ट्रों का वृत्तान्त जानने के लिए मद्रा राजा
फिरने वाले उन राक्षसचरों ने दशग्रीव नामक के पास जा,
सुबेल पर्यंत के समीप छावनी डाले हुए पर्वतों पर रहने
वाहिनी का वृत्तान्त कहा ॥ ३० ॥

युद्धकाण्ड का अन्तीमवां सर्ग पूरा हुआ ।

त्रिंशः सर्गः

—❀—

ततस्तमक्षोभ्यवलं लङ्काधिपतये चराः ।

सुवेले राघवं शैले निविष्टं प्रत्यवेदयन् ॥१॥

रावण के उन चरों ने, सुवेल पर्वत के समीप जा, श्रीराम-चन्द्र जी की अक्षुब्ध सेना का जो कुछ हाल देखा था, वह सब रावण से कहा ॥१॥

चाराणां रावणः श्रुत्वा प्राप्तं रामं महाबलम् ।

जातोद्वेगोऽभवत्किञ्चिच्छार्दूलं वाक्यमब्रवीत् ॥२॥

राक्षसराज रावण, चरों के मुख से महाबली श्रीरामचन्द्र जी का लङ्का में आना सुन, कुछ कुछ घबड़ाया और शार्दूल से कहने लगा ॥ २ ॥

अथथावच्च ते वरुणो दीनश्चासि निशाचर ।

नासि कच्चिदमित्राणां क्रुद्धानां वशमागतः ॥३॥

हे राक्षस ! तेरे मुख का बदला हुआ सा रंग हो रहा है, तू दीन की तरह देख पड़ता है, कहीं तू क्रुद्ध वैरियों के हाथों में तो नहीं पड़ गया ॥ ३ ॥

इति तेनानुशिष्टस्तु वाचं मन्दमुदीरयत् ।

तदा राक्षसशार्दूलं शार्दूलो भयविह्वलः ॥४॥

जब रावण ने इस प्रकार पूँछा, तब रावण भय से विह्वल शार्दूल, राक्षसश्रेष्ठ (रावण) से धीरे धीरे कहने लगा ॥ ४ ॥

न ते चारयितुं शक्या राजन् वानरपुङ्गवाः ।

विक्रान्ता बलवन्तश्च राघवेण च रक्षिताः ॥ ५ ॥

हे राजन् ! उस वानरी सेना मे जासूसी नहीं हो सकती । यकॉकि उसमे बड़े बड़े पराक्रमी और बलवान् वानर हैं और श्रीरामचन्द्र सदा उनकी रक्षा क्रिया करते हैं ॥५॥

नापि सम्भापितुं शक्याः सम्प्रश्नोऽत्र न लभ्यते ।

सर्वतो रक्ष्यते पन्था वानरैः पर्वतोपमैः ॥ ६ ॥

उनसे न तो बातचीत ही हो सकती है और न कुछ पूछपाँछ ही की जा सकती है । पर्वतों की तरह आकार वाले वानर, शिविर के रास्तों की चारों ओर रक्षा क्रिया करते हैं । अर्थात् शिविर के मार्गों पर बड़े बड़े वानरों का बिकट पहरा है ॥६॥

प्रविष्टमात्रे ज्ञातोऽहं बले तस्मिन्न चारिते ।

बलाद्गृहीतो रक्षोभिर्बहुधोऽस्मि विचालितः ॥७॥

मैं व्योही सैन्य शिविर मे घुना, त्योंही पहिचान किया गया । विभीषण के माथी राक्षसों ने मुझे बरजोरी पकड़ लिखा और पकड़ कर मुझे वहाँ खूब घुमाया फिराया ॥ ७ ॥

जानुभिर्मुष्टिभिर्दन्तैस्तलैश्चाभिहतो भृशम् ।

परिणीतोऽस्मि हरिभिर्बलवद्भिरमर्षणैः ॥ ८ ॥

बोध कर ले जाने व घुमाने के समय जोधी वानरों ने मुझे घुटनों, मूँकों दाँतों, और घपपटों से तूट नारा जटा ॥ ८ ॥

परिणीय च सर्वत्र नीतोऽहं रामसंसदम् ।

रुधिरादिग्धसर्वाङ्गो विह्वलश्चलितेन्द्रियः ॥ ९ ॥

इस प्रकार सैन्य शिविर में घुमा कर मैं श्रीरामचन्द्र जी की सभा में लाया गया। उस समय मेरे सारे शरीर से रुधिर बहर रहा था और घबड़ाहट के कारण मैं विकल था ॥ ९ ॥

हरिभिर्वध्यमानश्च याचमानः कृताञ्जलिः ।

राघवेण परित्रातो जीवामीति यदृच्छया ॥ १० ॥

जब वानर मुझे मार डालने को तैयार हुए, तब मैंने हाथ जोड़ कर प्राणों की भिक्षा माँगी। तब श्री रामचन्द्र जी ने अपनी हृच्छा से (किसी के अनुरोध से नहीं) मेरे प्राण बचाए ॥१०॥

एष शैलः शिलाभिश्च पूरयित्वा महार्णवम् ।

द्वारमाश्रित्य लङ्काया रामस्तिष्ठति सायुधः ॥ ११ ॥

हे महाराज ! श्रीरामचन्द्र पर्वतों और शिलाओं से महासागर पर पुल बाँध कर, लङ्का के द्वार पर हथियारों से सुसज्जित आ पहुँचे हैं ॥ ११ ॥

गारुडव्यूहमास्थाय सर्वतो हरिभिवृत्तः ।

मां विसृज्य महातेजा लङ्कामेवाभिवर्तते ॥ १२ ॥

उन्होंने अपनी सेना का गारुडव्यूह बना कर वानरों को चारों ओर फैल फुट कर ठहराया है। मुझे तो उन महातेजस्वी ने छोड़ दिया, पर वे लङ्का की ओर निगाह गड़ाए हुए हैं ॥ १२ ॥

पुरा प्राकारमायाति क्षिप्रमेकतरं कुरु ।

सीतां वाऽस्मै प्रयच्छाशु सुयुद्धं वा प्रदीयताम् ॥१३॥

वे आपकी राजधानी के परकोटे पर चढ़ाई करने ही वाले हैं, अतः आप शीघ्र ही दो में से एक काम कीजिए। अर्थात् या तो उनको सीता दे डालिए अथवा उनसे खूब डट कर युद्ध कीजिए ॥ १३ ॥

श्मनसा तं तदा प्रेक्ष्य तच्छ्रुत्वा राजसाधिपः ।

शार्दूलं मुमहद्वाक्ष्यमथोवाच स रावणः । १४ ॥

राजसाधिप रावण ने शार्दूल की इन बातों को सुन और उन पर मन ही मन कुछ विचार कर, उससे कहा ॥ १४ ॥

यदि मां प्रति युध्यन् देवगन्धर्वदानवाः ।

नैव सीतां प्रदास्यामि सर्वलोकभयादपि ॥ १५ ॥

यदि देवता, गन्धर्व और दानव भी मुझसे लड़ें अर्थात् त्रिलोकी भी मेरे विरुद्ध हो जाय, तो भी मैं उर कर सीता, श्रीरामचन्द्र को न दूंगा ॥ १५ ॥

एवमुक्त्वा महानेजा रावणः पुनरब्रवीत् ।

चारिता भवता सेना केऽत्र शूराः प्लवङ्गमाः ॥ १६ ॥

यह कह कर महातेजसी रावण फिर कहने लगा—तुमलोग तो वानरी सेना में घूम फिर आए हो, जो चढ नों बनलाओ कि, वानरों में शूर कौन कौन हैं ॥ १६ ॥

कीदृशाः किंप्रभाः सौम्या वानरा ये दुर्गमदाः ।

कस्य पुत्राश्च पौत्राश्च तत्त्वमाख्याहि राजम ॥ १७ ॥

हे राक्षस ! जो वानर दुर्धर्ष हैं उनके प्रकार कैसे हैं, उनका प्रभाव कैसा है ; वे किसके पुत्र और पौत्र हैं ? सो तुम मुझसे ठीक ठीक कहो ॥ १७ ॥

तथाऽत्र प्रतिपत्स्यामि ज्ञात्वा तेषां बलावलम् ।

अवश्यं बलसंख्यानं कर्तव्यं सुद्धमिच्छताम् ॥ १८ ॥

१ मनसाप्रेक्ष्य—आलोच्य । (गो०); विचार्य । (धि०) २ किंप्रभाः—
किंप्रभावाः । (गो०)

जिससे मैं उनके बलावल को जान कर तदनुसार प्रबन्ध करूँ। क्योंकि जो युद्ध करना चाहे, उसे पहिले शत्रु के बलावल का विचार और उसकी सेना के सैनिकों की गिनती अवश्य कर लेनी चाहिए ॥ १८ ॥

ॐ अथैवमुक्तः शार्दूलो रावणेनोत्तमश्वरः ।

इदं वचनमारेभे वक्तुं रावणसन्निधौ ॥ १९ ॥

जब रावण ने दूतश्रेष्ठ शार्दूल से इस प्रकार पूछा, तब उसने रावण से इस प्रकार कहना आरम्भ किया ॥ १९ ॥

अथर्क्षरजसः पुत्रो युधि राजा सुदुर्जयः ।

गद्गदस्याथ पुत्रोऽत्र जाम्बवानिति विश्रुतः ॥२०॥

महाराज ! ऋक्षराज का पुत्र (सुग्रीव) तो युद्ध में बड़ी कठिनाई से जीता जा सकता है और यही हाल गद्गद के पोष्यपुत्र का है, जो जाम्बवान के नाम से प्रख्यात है ॥ २० ॥

[टिप्पणी—जाम्बवान की उत्पत्ति इसके पूर्व ब्रह्मा की जँभुआई से कही जा चुकी है, यहाँ वह गद्गद का पुत्र बतलाया गया है। इस विरोध मीमांसा में टीकाकारों ने जाम्बवान को गद्गद का पोष्यपुत्र बतलाया है।]

गद्गदस्यैव पुत्रोऽन्योः गुरुपुत्रः शतक्रतोः ।

कदनं यस्य पुत्रेण कृतसैकेन रक्षसाम् ॥ २१ ॥

गद्गद का दूसरा पुत्र धूम्र भी यहाँ है। इन्द्र के गुरु बृहस्पति का पुत्र केसरी भी आया है। उसीके पुत्र हनुमान ने अकेले ही (लङ्का)में बहुत से राक्षसों को नाश किया था ॥ २१ ॥

सुपेणश्चापि धर्मात्मा पुत्रो धर्मस्य वीयवान् ।

सौम्यः सोमात्मजश्चात्र राजन् दधिमुखः कपिः ॥२२॥

धर्मपुत्र सुपेण बड़ा धर्मात्मा और पराक्रमी है। दे राजन ! चन्द्र का पुत्र दधिमुख वानर बड़ा सौम्य अर्थात् नरल स्वभाव का है ॥ २२ ॥

सुमुखो दुर्मुखश्चात्र वेगदर्शी च वानरः ।

मृत्युवानररूपेण नूनं मृत्युः स्वयंभुवा ॥२३॥

सुमुख, दुर्मुख और वेगदर्शी वानर तो माझान् मृत्यु के अवतार ही हैं। मानों ब्रह्मा ने वानररूप में मृत्यु को रचा है ॥२३॥

पुत्रो हुतवहस्याय नीलः सेनापतिः स्वयम् ।

अनिलस्य च पुत्रोऽत्र हनुमानिति विश्रुतः ॥२४॥

अग्निपुत्र नील वानरी सेना का सेनापति है। पवनपुत्र, जो हनुमान के नामसे प्रसिद्ध है, सेना में है ॥ २४ ॥

नप्ता शक्रस्य दुर्धरो बलवानङ्गदो युवा ।

मैन्द्रश्च द्विविदश्चोभौ बलिनावश्विसम्भवौ ॥२५॥

इन्द्र का पौत्र अङ्गद भी, जो बलवान युवा और दुर्धर है, सेना में है। बलवान मैन्द्र और द्विविद अश्विनीकुमार के पुत्र हैं ॥ २५ ॥

पुत्रा वैवरवतस्यात्र पञ्च कालान्तकोपमः ।

गजो गवाक्षो गवयः शरनो गन्धमादनः ॥२६॥

गज, गवाक्ष, गवय, शरभ और गन्धमादन; ये पांच वनगाज के पुत्र हैं, और ये उन्हीं के तुल्य हैं। ये भी यहाँ आए हुए हैं ॥२६॥

दश वानरकोट्यश्च शूराणां युद्धकाङ्क्षिणाम् ।

श्रीमतां देवपुत्राणां शेषं नाख्यातुमुत्सहे ॥२७॥

हे राजन् ! इस सेना में दस करोड़ वानर तो देवताओं के सन्तान हैं । ये सब के सब शूरवीर, बलशाली एवं युद्धाभिलाषी हैं । अवशिष्ट वानरों के वर्णन की शक्ति मुझमें नहीं है ॥ २७ ॥

पुत्रो दशरथस्यैष सिंहसंहननो युवा ।

दूषणो निहतो येन खरश्च त्रिशिरास्तथा ॥२८॥

ये दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र हैं और जिनकी सिंह की सी चाल है, जो अभी जवान हैं और जिन्होंने खर, दूषण और त्रिशिरा को अकेले ही मारा था ॥ २८ ॥

नास्ति रामस्य सदृशो विक्रमे भुवि कश्चन ।

विराधो निहतो येन कवन्धश्चान्तकोपमः ॥२८॥

इस पृथिवी पर तो राम-के समान पराक्रमी कोई दूसरा है नहीं, क्योंकि ये वे ही हैं, जिन्होंने यमराज के समान विराध और कवन्ध को मारा था ॥ २८ ॥

वक्तुं न शक्तो रामस्य नरः कश्चिद् गुणान् दितौ ।

जनस्थानगता येन यावन्तो राक्षसा हताः ॥३०॥

इस पृथिवी-तल पर ऐसा कोई नर नहीं है जो श्रीराम के गुणों का बखान कर सके । क्योंकि इन्होंने अकेले ही जनस्थान-वासी समस्त (१४ हजार) राक्षसों को मार डाला था ॥३०॥

लक्ष्मणश्चात्र धर्मात्मा श्मातङ्गानामिवर्षभः ।

यस्य चाणपथं प्राप्य न जीवेदपि वासवः ॥३१॥

१ श्मातङ्गानामिवर्षभः—गजश्रेष्ठ इव स्थितः । (गो०)

धर्मात्मा लक्ष्मण भी एक श्रेष्ठगज के समान बलवान् हैं। इनके बाणों की मार के भीतर आ जाने पर इन्द्र भी जीना जागता नहीं बच सकता ॥ ३१ ॥

श्वेतो ज्योतिर्मुखश्चात्र भास्करस्यात्मसम्भवो ।

वरुणस्य च पुत्रोऽन्यो हेमकूटः प्लवङ्गमः ॥ ३२ ॥

श्वेत और ज्योतिर्मुख नामक दोनो वानर, सूर्य के पुत्र हैं। वरुण का पुत्र हेमकूट नाम का वानर है ॥ ३२ ॥

विश्वकर्मसुतो वीरो नलः प्लवगसत्तमः ।

विक्रान्तो बलवानत्र वसुपुत्रः सुदुर्धरः ॥ ३३ ॥

विश्वकर्मा का पुत्र वानरश्रेष्ठ एवं वीर नल है। वसु का पुत्र सुदुर्धर है, जो बड़ा विक्रमी है और बलवान है ॥ ३३ ॥

राक्षसानां वरिष्ठश्च तव भ्राता विभीषणः ।

परिगृह्य पुरीं लङ्कां राघवस्य हिते रतः ॥ ३४ ॥

राक्षसों में श्रेष्ठ और तुम्हारा भाई विभीषण, राम ने लङ्का का राज्य पाकर, श्रीरामचन्द्र जी का हितैर्षी बन गया है ॥ ३४ ॥

इति सर्वं समाख्यातं तवेदं वानरं बलम् ।

सुबलेऽधिष्ठितं शैले शेषकार्ये भवान् गतिः ॥ ३५ ॥

इति त्रिंशः सर्गः ॥

मैंने सुबलशैल पर ठहरी हुई वानरसेना पा जो कुद हाल जान पाया, वह आपको बतला दिया; अब आगे जो कुछ करना हो, आप करें ॥ ३५ ॥

सुदुर्धर का तेईसवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

एकत्रिंशः सर्गः

—❀—

ततस्तमक्षोभ्यवलं लङ्काधिपतये चराः ।

सुबेले राघवं शैले निविष्टं प्रत्यवेदयत् ॥ १ ॥

लङ्का में सुबेल पर्वत पर टिके हुए श्रीरामचन्द्र जी और उनकी अक्षोभ्यसेना का वृत्तान्त इस प्रकार रावण के चरों ने रावण को बतलाया ॥ १ ॥

चाराणां रावणः श्रुत्वा प्राप्तं रामं महाबलम् ।

जातोद्वेगोऽभवत्किञ्चित्सचिवानिदमब्रवीत् ॥ २ ॥

चरों द्वारा महाबलवान् श्रीरामचन्द्र का लङ्का आना सुन कर, रावण कुछ घबड़ाया और अपने मंत्रियों से यह बोला ॥२॥

मन्त्रिणः शीघ्रमायान्तु सर्वे वै सुसमाहिताः ।

अयं नो मन्त्रकालो हि सम्प्राप्त इति राक्षसाः ॥ ३ ॥ <

हे राक्षसो ! मेरे समस्त नीतिकुशल दर्वारी या सलाहकार मेरे सामने तुरन्त उपस्थित हों—क्योंकि अब मंत्रणा करने का समय आ पहुँचा है ॥ ३ ॥

तस्य तच्छासनं श्रुत्वा मन्त्रिणोऽभ्यागमन् द्रुतम् ।

ततः स मन्त्रयामास सचिवै राक्षसैः सह ॥ ४ ॥

रावण की यह आज्ञा पा, सब मंत्री तुरन्त आ कर उपस्थित हो गए। तब रावण उन राक्षस मंत्रियों के साथ परामर्श करने लगा ॥ ४ ॥

१ सुसमाहिताः—नीतिकुशला इत्यर्थः । (गो०)

मन्त्रयित्वा स दुर्धर्षः क्षमं यत्समनन्तरम् ।

विसर्जयित्वा सचिवान् प्रविवेश स्वमालयम् ॥ ५ ॥

श्रीरामचन्द्र जी के लङ्का के समीप आने के अनन्तर, रावण की जो करना उचित था, उसके सम्बन्ध ने परामर्श कर चुकने के बाद, दुर्धर्ष रावण मंत्रियों को विदा कर, स्वयं भी अपने अन्तःपुर में चला गया ॥ ५ ॥

ततो राक्षसमाहूय विद्युज्जिह्वं महाबलम् ।

मायाविदं महामायः प्राविशद्यत्र मैथिली ॥ ६ ॥

अन्तःपुर में पहुँच कर, रावण ने महाबली विद्युज्जिह्व राक्षस को बुलवाया और उस मायावी वाजीगर को अपने साथ ले वहाँ, जहाँ सीता रहती थीं जाने की इच्छा प्रकट की ॥६॥

विद्युज्जिह्वं च मायाज्ञमब्रवीद्राक्षसाधिपः ।

मोहयिष्यावहे सीता मायया जनकात्मजाम् ॥ ७ ॥

जाने के समय रावण भलीभाँति माया के जानने वाले विद्युज्जिह्व राक्षस से कहने लगा कि, हे निशाचर! मायो हम दोनों माया की सहायता से अर्थात् वाजीगर द्वारा सीता को धोखा दें ॥ ७ ॥

शिरो मायामयं गृह्य राववस्य निशाचर ।

त्वं मां समुपतिष्ठस्व महच्च सशरं धनुः ॥ ८ ॥

अतः तुम श्रीरामचन्द्र जी का घनावटी मिर और घाणु नहीं एक बड़ा धनुष, उस समय लेकर मेरे पास आना (जिन समय में सीता के पास होऊँ) ॥ ८ ॥

एवमुक्तस्तथेत्याह विद्युज्जिह्वो निशाचरः ।

तस्य तुष्टोऽभवद्राजा प्रददौ च विभूषणम् ॥ ६ ॥

तब मायावी विद्युज्जिह्व ने रावण की आज्ञा मान कर कहा बहुत अच्छा इस पर उसने (रावण ने) पारितोषिक में विद्युज्जिह्व को एक आभूषण दिया ॥ ६ ॥

अशोकवनिकायां तु सीतादर्शनलालसः ।

नैर्ऋतानामधिपतिः संविवेश महाबलः ॥ १० ॥

तदनन्तर महाबली राक्षसराज रावण सीता से मिलने की लालसा से अशोकवाटिका में गया ॥ १० ॥

ततो दीनामदन्याहं ददर्श धनदानुजः ।

अधोमुखीं शोकपराप्सुपविष्टां महीतले ॥ ११ ॥

वहाँ कुवेर के छोटे भाई रावण ने उदास मन होने के अयोग्य होने पर भी, सीता को उदास मन हो, गर्दन झुकाए, शोक से विकल, ज़मीन पर बैठा हुआ देखा ॥ ११ ॥

भर्तारमेव ध्यायन्तीमशोकवनिकां गताम् ।

उपास्यमानां घोराक्षी राक्षसीभिरितस्ततः ॥ १२ ॥

सीता अशोकवाटिका में अपने पति श्रीरामचन्द्र जी के ध्यान में डूबी हुई थीं और भयङ्कर राक्षसियाँ उनके समीप इधर उधर बैठी थीं ॥ १२ ॥

उपसृत्य ततः सीतां प्रहर्षं नाम कीर्तयन् ।

इदं च वचनं धृष्टमुवाच जनकात्मजाम् ॥ १३ ॥

रावण सीता के निकट गया और प्रमत्त हो अनना नाम सुना कर डिठाई से जानकी जी से कहने लगा ॥ १३ ॥

सान्त्वमाना मया भद्रे यमुपाश्रित्य बलासे ।

खरहन्ता स ते भर्ता राघवः समरे हतः ॥१४॥

हे भद्रे ! मैंने तुम्हे बहुत समझाया, पर नू (आज तक) जिसके भरोसे मेरे बचनों का अनादर करनी रही, गर वा बध करने वाला तेरा वह पति राघव युद्ध में मारा गया ॥ १४ ॥

छिन्नं ते सर्वतो मूलं दर्पस्ते विहतो मया ।

व्यसनेनात्मनः सीते मम भार्या भविष्यसि ॥१५॥

अब तो मैंने तेरे सहारे को जड़ सब प्रकार से काट डाली और तेरा अभिमान चूर चूर कर डाला । अनप्य अब तो नू अपने आप ही मेरी भार्या बनेहींगी अथवा अब तो तुम्हे मेरी पत्नी बनना ही पड़ेगा ॥ १५ ॥

विसृजेमां मतिं मूढे किं मृतेन करिष्यसि ।

भवस्व भद्रे भार्याणां सर्वासामीश्वरी मम ॥१६॥

अब तू इन विचारों को त्याग दे । अरे मूढ़ा ! अब नू इन मेरे हुए शरीर को ले कर क्या करेगी ? हे भद्रे ! अब नू मेरे साथ चल कर मेरी समस्त स्त्रियों की स्वामिनी बन ॥ १६ ॥

अल्पपुण्ये निवृत्तार्थे मूढे पण्डितमानिनि ।

शृणु भर्तृवधं सीते घोरं वृत्रवधं यथा ॥१७॥

हे अल्पपुण्यवाली, नष्टार्थे ! हे मूढ़ ! हे पण्डितमानिनि ! नू अब दास्य वृत्रासुर के वध की तरह अपने स्वामी के घोर वध का वृत्तान्त सुन ॥ १७ ॥

समायातः समुद्रान्तं मां हन्तुं किल राघवः ।

वानरेन्द्रप्रणीतेनः बलेन महता वृतः ॥१८॥

सुग्रीव की एक बड़ी भारी वानरी सेना को साथ ले राम, मुझे मारने के लिए समुद्र के इस पार अवश्य आया था ॥१८॥

संनिविष्टः समुद्रस्य पीड्य तीरमथोत्तरम् ।

बलेन महता रामो व्रजत्यस्तं दिवाकरे ॥१९॥

जिस समय सूर्य अस्ताचलगामी हुए, उसी समय उसने समुद्र के उत्तरतट पर सेना को ला टिकाया और स्वयं भी वहीं टिका हुआ था ॥१९॥

अथाध्वनि परिश्रान्तमर्धरात्रे स्थितं बलम् ।

सुखसुप्तं समासाद्य चारितं प्रथमं चरैः ॥२०॥

तत्प्रहस्तप्रणीतेन बलेन महता मम ।

बलमस्य हतं रत्रौ यत्र रामः सलक्ष्मणः ॥२१॥

मार्ग चलने की थकावट से आधीरात को सेना वेखवर पड़ी सो रही थी । प्रथम से नियुक्त किए हुए जासूसों से जब यह हाल जाना गया, तब रात को बड़ी भारी सेना लेकर प्रहस्त ने वहाँ चढ़ाई की, जहाँ राम तथा लक्ष्मण थे और उनकी सेना को मार डाला ॥ २० । २१ ॥

पट्टिशान् परिधांश्चक्रान् दण्डान् खड्गान् महायसान् ।

वाणजालानि शूलानि भास्वरान् कूटमुग्दरान् ॥२२॥

यष्टीश्च तोमराञ्शक्तीश्चक्राणि मुसलानि च ।

उद्यम्योद्यम्य रक्षोभिर्वानरेषु निपातिताः ॥२३॥

पट, परिध, चक्र और ईसपान के बने डंडे, चड्ग तीर शूल, काँटेदार चमचमाते मुग्दर, लाठी, तोमर, शक्ति चन्द्राकार मुशलादि शस्त्रों को ले ले कर, राक्षसों ने वानरों को उनके आघात से मार गिराया ॥२२॥२१॥

अथ सुप्तस्य रामस्य प्रहस्तेन प्रमाथिना ।

असक्तं कृतहस्तेन शिरश्छिन्नं महासिना ॥२४॥

तदनन्तर शत्रुसैन्य का मथन करने वाले प्रहस्त ने अपने को फुर्ती दिखला कर, एक बड़ी तलवार से मट श्रीगामचन्द्र का सिर काट डाला ॥२४॥

विभीषणः समुत्पत्य निगृहीतो यदृच्छया ।

दिशः प्रव्राजितः सर्वैर्लक्ष्मणः स्वर्गैः सह ॥२५॥

विभीषण को जितना दण्ड देना चाहिए था, उतना दण्ड देने में कसर नहीं की गई । तब लक्ष्मण वचें हुए, नव वानरों को साथ ले भाग गया ॥२५॥

सुग्रीवो ग्रीवया शेते भग्नया स्रवगाधिपः ।

निरस्तहनुकः शेते हनुमान् राक्षसैहतः ॥२६॥

वानरराज सुग्रीव गरदन टूट जाने से रक्तभूमि में मरा पड़ा है । राक्षसों ने हनुमान की ठोड़ी तोड़ डाली और वह भी रक्तक्षेत्र में मरा पड़ा है ॥२६॥

जाम्बवानथ जानुभ्यामुत्पतन्निहतो युधि ।

पट्टिशैर्वहुभिश्छिन्नो निकृत्तः पादपो यथा ॥२७॥

जाम्बवान छूट भागना चाहता था, किन्तु राक्षसों ने पट्टियों की मार से उनका जाँघें तोड़ दीं । वह भी पट्टियों की तरह वहाँ पर मरा पड़ा है ॥२७॥

मैन्दश्च द्विविदश्चोभौ निहतौ वानरर्षभौ ।

निश्वसन्तौ रुदन्तौ च रुधिरेण परिप्लुतौ ॥२८॥

वानरश्रेष्ठ मैन्द और द्विविद लंबी लंबी साँसें लेते और रोते हुए तथा रक्त से (न्हाये हुए) लथपथ हो, मारे गए ॥२८॥

असिना १व्यायतौ छिन्नौ मध्ये२ ह्यरिनिषूदनौ ।

अनुतिष्ठति मेदिन्यां पनसः पनसो यथा ॥२९॥

इन बड़े डीलडौल वाले शत्रुहन्ता दोनों वानरों की कमरें तलवार से काट डाली गई थीं । पनस नामक वानर पनस (कटहर) पेड़ की तरह ज़मीन पर कटा हुआ पड़ा है ॥२९॥

नाराचैर्बहुभिशिख्नः शेते दर्या दरीमुखः ।

कुमुदस्तु महातेजा निष्कूजः सायकैः कृतः ॥३०॥

दरीमुख अनेक बाणों के प्रहार से मरा हुआ, कन्दरा में पड़ा सो रहा है । महातेजस्वी कुमुद भी बाणों की मार से सदा के लिए निःशब्द (मूक-गूंग) बना दिआ गया ॥३०॥

अङ्गदो बहुभिशिखन्नः शरैरासाद्य राक्षसैः ।

पतितो रुधिरोद्गारी क्षितौ निपतिताङ्गदः ॥३१॥

अङ्गद भी राक्षसों द्वारा चलाए हुए अनेक बाणों से क्षत विक्षत ही, मारा गया । उसका बाजू सहित बाहु भूमि पर पड़ा है और उसके सब अङ्गों से रुधिर वह रहा है । अथवा रक्त की वमन करता हुआ वह मरा है ॥३१॥

हरयो मथिता नागै रथजातैस्तथाऽपरे ।

शायिता मृदिताश्चार्षवैर्वायुवेगैरिवाम्बुदाः ॥३२॥

१ व्यायतौ—दीर्घ शरीरौ । (गो०) २मध्ये—कटिस्थाने ।

अनेक वानर तो हाथियों के पैरों के नीचे कुचल कर मर गए। बहुत से रथों की चपेटों में आ कर मारे गए। बहुत से सोते हुए कुचले गए। जिस प्रकार हवा के वेग से बादल अदृश्य हो जाते हैं, उसी प्रकार राक्षसी सेना के आक्रमण से सब वानर अदृश्य हो गए हैं ॥३२॥

प्रहृताश्चापरे त्रस्ता हन्यमाना जघन्यतः ।

अभिद्रुतास्तु रक्षोभिः सिंहैरिव महाद्विपाः ॥३३॥

बहुत से वानर तो मारकाट के समय डर कर भागते नमन्य पीछे से मारे गए। बहुत से राक्षसों से पिछियाये जा कर ऐसे भागे जैसे सिंह के झपटने पर बड़े बड़े हाथी भागते हैं ॥३३॥

सागरे पतिताः केचित्केचिद्गगनमाश्रिताः ।

ऋक्षा वृक्षानुपारूढा ऋक्षानर्घ्यतिमिश्रिताः ॥३४॥

कोई कोई तो समुद्र में कूद पड़े और कोई कोई आकाश में उड़ गए। रीछ वानरों के साथ वृक्षां पर चढ़ गया ॥३४॥

सागरस्य च तीरेषु शैलेषु च वनेषु च ।

रपिङ्गलास्ते विरूपाक्षैर्वहुभिर्वहवो हताः ॥३५॥

समुद्र के तट पर, पर्वतों और वनों में जिन वानरों ने आश्रय लिया था उनमें से बहुत से राक्षसों द्वारा मार डाले गए ॥३५॥

एवं तव हतो भर्ता ससैन्योमम सेनया ।

क्षतजार्द्रं रजोध्वस्तमिदं वास्याहतं शिरः ॥३६॥

१ जघन्यतः पृष्ठतः । (गी०) २ पिङ्गलाः—बानरः । (गी०)

३ विरूपाक्षैः—वानरैः । (गी०) ४ रादान्तरे—“वानरैर्वृक्षानुश्रिताः ।”

इस प्रकार तेरा भर्ता ससैन्य मेरी सेना द्वारा मारा गया ।
उसका यह कटा हुआ सिर तुझे दिखलाने को लाया गया है ।
देख, यह रक्त और धूल से सना है ॥३६॥

ततः परमदुर्धर्षो रावणो राक्षसाधिपः ।

सीतायामुपश्रुण्वन्त्यां राक्षसीमिदमब्रवीत् ॥३७॥

तदनन्तर परम दुर्धर्ष राक्षसराज रावण सीता को सुना कर
एक राक्षसी से यह बोला ॥३७॥

राक्षसं क्रूरकर्माणं विद्युज्जिह्वं त्वमानय ।

येन तद्राघवशिरः संग्रामात्स्वयमाहृतम् ॥३८॥

तू जाकर उस क्रूरकर्मा विद्युज्जिह्व राक्षस को बुला ला, जो
स्वयं रणक्षेत्र से उस राम का सिर लाया है ॥३८॥

विद्युज्जिह्वस्ततो गृह्य शिरस्तत्सशरासनम् ।

प्रणामं शिरसा कृत्वा रावणस्याग्रतः स्थितः ॥३९॥

(राक्षसी द्वारा बुलाए जाने पर) विद्युज्जिह्व उस सिर को
तथा धनुष को लिये हुए, रावण के सामने आ खड़ा हुआ
और सिर नवा कर उसको प्रणाम किया ॥३९॥

तमब्रवीत्ततो राजा रावणो राक्षसं स्थितम् ।

विद्युज्जिह्वं महाजिह्वं समीपपरिवर्तिनम् ॥४०॥

बड़ी जाभ वाले विद्युज्जिह्व को अपने निकट खड़ा देख,
राजा रावण ने उससे कहा ॥४०॥

अग्रतः कुरु सीतायाः शीघ्रं दाशरथेः शिरः ।

१अवस्थां पश्चिमां भर्तुः कृपणा साधु पश्यतु ॥४१॥

राम का कटा हुआ सिर सीता के सामने रख दे, जिन्से यह वापुरी अपने मरे हुये राम को अच्छी तरह देख ले ॥ ४१ ॥

एवमुक्तं तु तद्रक्षः शिरस्तत्प्रियदर्शनम् ।

उप निक्षिप्य सीतायाः क्षिप्रमन्तरधीयत ॥ ४२ ॥

ज्योंही रावण ने विद्युज्जिह्व से यह कहा, त्योंही वह प्रियदर्शन राम का कटा हुआ सिर सीता के पास रख, स्वयं तुरन्त अन्तर्धान हो गया ॥ ४२ ॥

रावणश्चापि चिक्षेप भास्वरं कामुकं महत् ।

त्रिषु लोकेषु विख्यातं सीतामिदमुवाच च ॥ ४३ ॥

तब रावण ने भी उम चमचमाते और त्रिलोकी में प्रसिद्ध विशाल धनुष को सीता के सामने फेंक कर, यह कहा ॥ ४३ ॥

इदं तच्च रामस्य कामुकं ज्यासमायुतम् ।

इह प्रहस्तेनानीतं हत्वा तं निशि मानुषम् ॥ ४४ ॥

यह तेरे राम का रोड़ा-सहित धनुष है। रात में उस मनुष्य को मार प्रहस्त इसे ले आया है ॥ ४४ ॥

स विद्युज्जिह्वेन सहैव तच्छिरो

धनुश्च भूमौ विनिकीर्य रावणः ।

विदेहराजस्य सुतां यशस्विनीं

ततोऽब्रवीत्तां भव मे वशानुगा ॥४५॥

इति एकत्रिंशः सर्गः ॥

तदनन्तर रावण विद्युज्जिह्व का लाया हुआ वह कटा हुआ रामचन्द्र का मस्तक और धनुष पृथिवी पर सीता के आगे छितरा कर, यशस्विनी विदेहतनया सीता से बोला—अब तो तू मेरी वशवर्तिनी हो जा। अर्थान् मेरी पत्नी बन जा ॥ ४५ ॥

युद्धकाण्ड का इकतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—*—

द्वात्रिंशः सर्गः

—*—

सा सीता तच्छिरो दृष्ट्वा तच्च कामुर्कमुत्तमम् ।

सुग्रीवप्रतिसं सर्गमाख्यातं च हनूमता ॥ १ ॥

सीता को उस कटे सिर और उस श्रेष्ठ कामुक को, देख, हनुमान जी की वतलाई हुई सुग्रीव के साथ श्रीरामचन्द्र जी की मैत्री का स्मरण हो आया ॥ १ ॥

नयने मुखवर्णं च भर्तुस्तत्सदृशं मुखम् ।

केशान् केशान्तदेशं च तं च चूडामणिं शुभम् ॥२॥

सीता ने देखा कि, उस कटे हुए मस्तक के दोनों नेत्र चेहरे की रंगत और मुख हूबहू उनके पति श्रीरामचन्द्र जी जैसा है। उस कटे हुए सिर के बाल और ललाट भी ज्यों के त्यों वैसे ही हैं और वह श्रेष्ठ चूडामणि भी वही है ॥ २ ॥

एतैः सर्वैरभिज्ञानैरभिज्ञाय सुदुःखिता ।

विजगर्हेऽत्र कैकेयीं क्रोशन्ती कुररी यथा ॥ ३ ॥ ।

सीता जी और भी अनेक प्रकार की बातों से अपने पति जा मारा जाना निश्चित जान, अत्यन्त दुखी हुई और कुररी की तरह शोक से विकल हो, कैकेई को उपात्तन्भ देती हुई अथवा उसकी निन्दा कर विलाप करने लगी ॥ ३ ॥

सकामा भव कैकेयि हतोऽयं कुलनन्दनः ।

कुलमुत्सादितं सर्वं त्वया कलहशीलया ॥ ४ ॥

हे कैकेई ! अब तो तेरी माध पूरा हुई । देख, यह इक्ष्वाकु-कुलनन्दन मारे गये । तुम, कलहप्रिया ने इस कुल की जड़ ही उखाड़ फेंकी ॥ ४ ॥

आर्येण किं ते कैकेयि कृतं रामेण विप्रियम् ।

तद्गृहान्चीरवसनं दत्त्वा प्रव्राजितो वनम् ॥ ५ ॥

अरी कैकेई ! अर्य राम ने तेरा क्या विप्रिय था, जो तुने उनको चीरवस्त्र पहिना कर, घर से वन में निदान दिया था ॥५॥

एवमुक्त्वा तु वैदेही वेपमाना तपस्विनी ॥ ६ ॥

दुखिचारी जानकी यह कह कर धरधर जोपने लगी ॥ ६ ॥

जगाम जगतीं बाला छिन्ना तु कदली यथा ।

सा मुहूर्तात्समाश्वास्य प्रतिलभ्य च चेतनाम् ॥७ ॥

और कटे हुए केले के पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ी । फिर थोड़ी देर बाद वे लावधान हो सचेत हुई ॥ ७ ॥

तच्छिरः समुपाश्राय विललापायत्कला ।

हा हताऽस्मि महाबाहो वीरव्रतमनुव्रत ॥ ८ ॥

और उस सिर को भली भाँति सूँघ कर विशालनेत्र वाली सीता विलाप कर के कहने लगी—हे महाबाहो ! हे वीरव्रतधारी ! हाय मैं मर गई ॥ ८ ॥

इमां ते पश्चिमावस्थां गताऽस्मि विधवा कृता ।

प्रथमं मरणं नार्यो भर्तुर्वैगुण्यमुच्यते ॥ ९ ॥

तुम्हारे मरने से मैं तो विधवा हो गई । स्त्री के रहते उसके पति का मरना स्त्री के दोष ही से होता है ॥ ९ ॥

सुवृत्ता साधुवृत्तायाः संवृत्तस्त्वं ममाग्रतः ।

दुःखाद्दुःखं प्रपन्नाया मग्नाया शोकसागरे ॥ १० ॥

सो हे साधुवृत्त ! सो आप मुझ धर्मचारिणी से पहिले ही परलोक को सिधार गए । मैं तो अत्यन्त दुखी हो, पहिले ही शोक सागर में डूबी हुई थी ॥ १० ॥

यो हि मामुद्यतस्नातुं सोऽपि त्वं विनिपातितः ।

सा श्वश्रूमम कौसल्या त्वया पुत्रेण राघव ॥ ११ ॥

आप मेरा उद्धार करने को उद्यत हुए थे, सो आप भी मारे गए । हे राघव ! आप सरीखा पुत्र पा, मेरी सास कौसल्या पुत्र-वत्सला कहलाती थी ॥ ११ ॥

वत्सेनेव यथा धेनुर्विवत्सा वत्सला कृता ।

आदिष्टं दीर्घमायुस्ते यैरचिन्त्यपराक्रम ॥ १२ ॥

सो वह भी विना बछड़े की गौ की तरह निर्वत्सला हो गई । ज्योतिषी ने तुम्हारा अचिन्त्य पराक्रम देख, तुमको दीर्घायु वत्सलाया था ॥ १२ ॥

अनृतं वचनं तेषामल्पायुरसि राघव ।

अथवा नश्यति प्रज्ञा प्राज्ञस्यापि सतस्तव ॥ १३ ॥

हे राघव ! (सो मेरे दुर्भाग्य से) तुम अल्पायु हुए और उनके वचन असत्य ठहरे । अथवा उनका वचन मिथ्या नहीं है अर्थान् वे असत्यवादी नहीं हैं, किन्तु तुम्हारे भाग्यविपर्यय से उनकी बुद्धि भी मारी गई ॥ १३ ॥

पचत्येनं यथा कालो भूतानां प्रभवो ह्ययम् ।

अदृष्टं मृत्युमापन्नः कस्मात्त्वं नयशास्त्रवित् ॥ १४ ॥

व्यसनानामुपायज्ञः कुशलो ह्यसि वर्जने ।

तथा त्वं सम्परिष्वज्य रौद्रयातिनृशंसया ॥ १५ ॥

कालरात्र्या मयाच्छिद्य हतः कमललोचन ।

उपशेषे महाबाहो मां विहाय तपस्विनीम् ॥ १६ ॥

प्रियामिव समाश्लिष्य पृथिवीं पुरुषर्षभ ।

अर्चितं सततं यत्तद्गन्धमाल्यैर्मया तव ॥ १७ ॥

काल की करतूत ही ऐसी है । क्योंकि प्राणियों का कारण-भूत वही है । हे राम ! तुम तो नीतिशास्त्रविशारद थे, उपाय करने में निपुण थे, विपदों के निवारण में समर्थ हो कर भी, तुम्हारी इस प्रकार अचानक मृत्यु कैसे हुई ? हाय ! भयङ्कर निष्ठुर कालरात्रि ने तुम कमललोचन को मुझसे बरजोरी छीन लिया । हे महाबाहो ! मुझ दुखियारी को त्याग कर, प्यारी स्त्री की नाईं पृथ्वी से लिपट कर तुम कहाँ पड़े हो ! मैं तुम्हारे साथ सुगन्धित द्रव्य और पुष्पमालाओं से सदा जिसका पूजन किआ करती थी ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥

इदं ते मत्प्रियं वीर धनुः काञ्चनभूषणम् ।

पित्रा दशरथेन त्वं श्वशुरेण ममानघ ॥ १८ ॥

और जो मुझे अत्यन्त प्यारा था; हे वीर ! उसी तुम्हारे इस सुवर्णभूषित धनुष की यह क्या दशा है ? हे पापरहित ! तुम अपने पिता और मेरे पापरहित ससुर महाराज दशरथ ॥१८॥

सर्वैश्च पितृभिः सार्धं नूनं स्वर्गं समागतः ।

१दिवि नक्षत्रभूतस्त्वं महत्कर्मकृतां प्रियम् ॥ १९ ॥

पुण्यं राजर्षिवंशं त्वमात्मनः समवेक्षसे ।

किं मां न प्रेक्षसे राजन् किं मां न प्रतिभाषसे ॥२०॥

तथा अन्य सब पितरों से स्वर्ग में निश्चय ही मिले होंगे । बड़े बड़े यज्ञानुष्ठान करने वाले और विमानों में स्थित, अपने पवित्र इक्ष्वाकादिराजर्षियों को तुम देखते होंगे । हे राजन् ! तुम मुझे क्यों नहीं देखते और मुझसे क्यों नहीं बोलते ? ॥१९॥२०॥

वालां बाल्येन सम्प्राप्ता भार्या मां सहचारिणीम् ।

संश्रुतं गृह्णता पाणिं चरिष्यामीति यत्त्रया ॥ २१ ॥

हे राजन् ! तुमने लड़कपने में ही मुझ वाला को अपनी सम-दुःख-सुख भोग करने वाली स्त्री कह कर अंगीकार किया था और पाणिग्रहण के समय तुमने प्रतिज्ञा की थी कि, मैं तेरे साथ रहूँगा ॥ २१ ॥

स्मर तन्मम काकुत्स्थ नय मामपि दुःखिताम् ।

कस्मान्मामपहाय त्वं अतो गतिमर्तां धर ॥ २२ ॥

सो दे काकुत्स्थ ! उसे याद करो और मुझ दुखिया को भी अपने साथ लेते चलो । हे भली गति को प्राप्त ! तुम मुझे क्यों छोड़ कर चले गए ? ॥ २२ ॥

अस्माल्लोकादमुं लोकं त्यक्त्वा मामपि दुःखिताम् ।
कन्याणैरुचितं यत्तत्परिष्वक्तं मयैव तु ॥ २३ ॥

मुझ दुखिया को भी त्याग कर, तुम इस लोक से परलोक में क्यों चले गये ? तुम्हारे आभूषणों से भूषित होने योग्य जिस शरीर का मैं अलिङ्गन किया करती थी ॥ २३ ॥

क्रव्यादैस्तच्छरीरं ते नूनं विपरिक्रिष्यते ।
अग्निष्टोमादिभिर्यज्ञैरिष्टवानाप्तदक्षिणः ॥ २४ ॥

अग्निहोत्रेण संस्कारं केन त्वं तु न लप्स्यसे ।
प्रव्रज्यामुपपन्नानां त्रयाणामेकमागतम् ॥ २५ ॥

उसको मांसभक्षी गिद्ध आदि निश्चय ही नोंचते खसोटते होंगे । वनवास की अवधि समाप्त होने पर तुमको तो पर्याप्त दक्षिणा प्रदान पूर्वक (प्रायश्चित्तात्मक) अग्न्याधान ग्रहण करना उचित था और जब तुम्हारी आयु शेष होती तब उसी अग्न्याधान के अग्नि से तुम्हारे शरीर का अग्निसंस्कार होना चाहिए था, परन्तु यह नीच ही में क्या का क्या हो गया । तुम्हारे मृतशरीर का अग्निसंस्कार क्यों नहीं हुआ । (गो०) हम तीन वनवासियों में से जब एक (लक्ष्मण) लौट कर अयोध्या में जायगा ॥२४॥२५॥

परिप्रच्यति कौसल्या लक्ष्मणं शोकलालसा ।

स तस्याः परिपृच्छन्त्याः वधं मित्रवलस्य ते ॥२६॥

तव शोकविह्वला कौशल्या लक्ष्मण से पूँछेगी । तव लक्ष्मण उसके पूँछने पर तुम्हारा और तुम्हारे मित्रकी सैन्य के मारे जाने का वृत्तान्त कहेंगे ॥ २६ ॥

तव चाख्यास्यते नूनं निशायां राक्षसैर्वधम् ।

सा त्वां सुप्तं हतं श्रुत्वा मम च रक्षोगृहं गताम् ॥२७॥

उस समय लक्ष्मण निश्चय ही कहेंगे कि, रात में सोते हुए तुम राक्षसों द्वारा मार डाले गये । तब कौशल्या सोते में तुम्हारा मारा जाना और मेरा राक्षस के घर में रुद्ध होना सुनेगी ॥२७॥

हृदयेनावदीर्णैर्न न भविष्यति राघव ।

मम हेतोरनार्याया ह्यनर्हः पार्थिवात्मजः ॥ २८ ॥

हे राघव ! तब अवश्य ही उसका हृदय फट जायगा और वह मर जायगी । हे राजकुमार ! मुझ अभागिनी के कारण तुम्हारा इस प्रकार का सौप्तिकवध (सोते में वध) सर्वथा अयोग्य है ॥ २८ ॥

रामः सागरमुत्तीर्य सत्त्वन्नान् गोष्पदे हतः ।

अहं दाशरथेनोढा मोहात्स्वकुलपांसनी ॥ २९ ॥

हा ऐसे बलवान राम, सागर तो पार कर आए किन्तु गौ के खुर भर पानी में डूब कर मर गए अर्थात् खर दूषण त्रिशिरा कन्धादि दुर्दान्त राक्षसों के मारने वाले राम को एक क्षुद्र प्रहस्त ने मार डाला । हा ! मुझ कुलकलङ्किनी के साथ रामचन्द्र जी ने विवाह कर बड़ी भूल की ॥ २९ ॥

आर्यपुत्रस्य रामस्य भार्या मृत्युरजायत ।

नूनमन्यां मया जातिं वारितं दानमुत्तमम् ॥३०॥

क्योंकि मैं उस राजकुमार की भार्या हो कर उसको मृत्यु का कारण हुई । मैंने पूर्वजन्म में किसी के कन्यादान में अवश्य ही बाधा डाली होगी ॥ ३० ॥

याऽहमद्येह शोचामि भार्या सर्वातिथेरपि ।

साधु पातय मां क्षिप्रं रामस्योपरि रावण ॥ ३१ ॥

इसीसे तो इस जन्म में सब की रक्षा करने वाले अथवा सब का आतिथ्य करने वाले श्रीरामचन्द्र की भार्या हो कर भी और सुखभोग का समय उपस्थित होने पर भी, मैं ऐसी दुर्दशा में पड़ी हुई हूँ ! हे रावण ! तू बड़ा अच्छा काम करे, जो मुझे भी शीघ्र मार कर, राम के ऊपर डाल दे ॥ ३१ ॥

समानय पतिं पत्न्या कुरु कल्याणमुत्तमम् ।

शिरसा मे शिरश्चास्य कार्यं कायेन योजय ॥३२॥

हे रावण ! पति को पत्नी से मिला कर यह एक बड़ी भलाई का काम कर और राम के सिर से मेरा सिर और राम के शरीर से मेरा सिर मिला दे ॥ ३२ ॥

रावणानुगमिष्यामि गतिं भर्तुर्महात्मनः ।

[मुहूर्तमपि नेच्छामि जीवितुं पापजीविता ॥३३॥]

हे रावण ! मैं अपने महात्मा पति की अनुगामिनी होऊँगी । मैं इस प्रकार का (पति विना) पापमय जीवन एक क्षण भी धारण करना नहीं चाहती ॥ ३३ ॥

इति सा दुःखसन्तप्ता विललापायतेक्षणा ।

भर्तुः शिरो धनुस्तत्र समीक्ष्य च पुनः पुनः ॥३४॥

१ सर्वातिथेरपि—सर्वरक्षितु रित्ययः । सर्वातिथिपूजकत्येतिवार्थः । (गो०)

एवं लालप्यमानायां सीतायां तत्र राक्षसः ।

अभिचक्राम भर्तारमनीकस्थः कृताञ्जलिः ॥ ३५ ॥

बड़े बड़े नेत्रवाली दुखिया जानकी पति के कटे सीस और धनुष को बार बार देख कर विलाप कर रही थी कि, इतने में रावण की सेना का एक राक्षस आया और रावण के सामने हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया ॥ ३४ ॥ ३५ ॥

विजयस्वार्यपुत्रेति सोऽभिवाद्य प्रसाद्य च ।

न्यवेदयदनुप्राप्तं प्रहस्तं वाहिनीपतिम् ॥ ३६ ॥

अमात्यैः सहितैः सर्वैः प्रहस्तः समुपस्थितः ।

तेन दर्शनकामेन वयं प्रस्थापिताः प्रभो ॥ ३७ ॥

“आर्यपुत्र की जय हो” कह कर उसने रावण को प्रणाम किया और रावण को प्रसन्न कर उसने यह समाचार दिया कि सब मंत्रियों सहित सेनापति प्रहस्त उपस्थित हैं । हे प्रभो ! आपसे मिलने की इच्छा से उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है ॥ ३६ ॥ ३६ ॥

नूनमस्ति महाराज राजभावात्क्षमान्वितम् ।

किञ्चिदात्ययिकं कार्यं तेषां त्वं दर्शनं कुरु ॥३८॥

हे महाराज ! कोई वैसा महत्वपूर्ण कार्य उपस्थित है, जो बिना आपकी आज्ञा नहीं किया जा सकता, अतएव आप उनको दर्शन दीजिए ॥ ३८ ॥

एतच्छ्रुत्वा दशग्रीवो राक्षसप्रतिवेदितम् ।

अशोकवनिकां त्यक्त्वा मन्त्रिणां दर्शनं ययौ ॥३९॥

उस राक्षस के इस प्रकार के वचन सुन, दशानन रावण
अशोकवाटिका त्याग, मंत्रियों से मिलने के लिए चल डिआ ॥३६॥

स तु सर्वं समर्थैव मन्त्रिमिः कृत्यमात्मनः ।

सभां प्रविश्य विदधे विदित्वा रामविक्रमम् ॥ ४० ॥

मंत्रियों के परामर्श से सब कार्यों का निश्चय कर, वह सभा
में गया और वहाँ श्रीरामचन्द्र जी के बल विक्रम को भली भाँति
समझ बूझ कर, उसने आवश्यक प्रवन्ध करवाया ॥ ४० ॥

अन्तर्धानं तु तच्छीर्षं तच्च कार्मुकमुत्तमम् ।

जगाम रावणस्यैव निर्याणसमनन्तरम् ॥ ४१ ॥

जिस समय रावण अशोकवाटिका से प्रस्थानित हुआ था;
उसी समय श्रीरामचन्द्र जी का कटा हुआ वह वनावटी तिर
और धनुष भी न.जाने कहाँ गाय हो गया ॥ ४१ ॥

राक्षसेन्द्रस्तु तैः सार्धं मन्त्रिमिर्भामविक्रमैः ।

समर्थयामास तदा रामकार्यविनिश्चयम् ॥ ४२ ॥

रावण ने उन भीम विक्रमो मंत्रियों के साथ श्रीरामचन्द्र
जी के सम्बन्ध में अपना कर्तव्य निश्चय किया ॥ ४२ ॥

अविदूरस्थितान् सर्वान् लाघ्यद्धान्हितैपिणः ।

अत्रवीत्कालसदृशं रात्रणो राक्षसाधिपः ॥ ४३ ॥

फिर निकट ही खड़े हुए अपने हितैपी सेनापतियों से राक्षस-
राज रावण ने समयानुकूल वचन कहे ॥ ४३ ॥

शीघ्रं भेरीनिनादेन स्फुटकोणाहतेन मे ।

समानयध्वं सैन्यानि वक्तव्यं च न कारणम् ॥४४॥

तुम अति शीघ्र नगाड़े पर चोत्र पड़वा कर मेरी सेना को बुला लाओ, किन्तु उनको बुलाने का कारण मत बतलाना ॥४४॥

ततस्तथेति प्रतिगृह्य तद्वचो

बलाधिपास्ते महदात्मनो बलम् ।

समानयंश्चैव समागमं च ते

न्यवेदयन् भर्तारि युद्धकाङ्क्षिणि ॥४५॥

इति द्वात्रिंशः सर्गः ॥

रावण की आज्ञा मान और बहुत अच्छा कह, वे सेनापति अपनी महती एवं युद्धकाङ्क्षिणी सेना को लिवा लाये और सेना के आने की सूचना अपने स्वामी—रावण को दी ॥ ४४ ॥

युद्धकाण्ड का बत्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—*—

त्रयस्त्रिंशः सर्गः

—*—

सीतां तु मोहितां दृष्ट्वा सरमा नाम राक्षसी ।

आससादाथ वैदेहीं प्रियां प्रणायिनी सखीम् ॥ १ ॥

श्रीरामचन्द्र जी के विषय में सीता की विपरीत धारणा देख, अथवा सीता को धोखे में पड़ी देख, सीता जी की हितैषिणी प्यारी सरमा नाम की राक्षसी (विभीषण की पत्नी) जानकी जी के पास आ कर बैठ गई ॥ १ ॥

१ सरमा—सरमा विभीषण भार्या । (गो०)

मोहितां राक्षसेन्द्रेण सीतां परमदुःखिताम् ।

आश्वासयामास तदा सरमा मृदुभाषिणी ॥ २ ॥

राक्षसराज रावण द्वारा सीता को छली हुई और उसे अत्यन्त दुःखी देख, मधुरभाषिणी सरमा ने सीता को धीरज बँधाया ॥२॥

सा हि तत्र कृता मित्रं सीतया रक्ष्यमाणया ।

रक्षन्ती रावणादिष्टा सानुक्रोशा दृढव्रता ॥ ३ ॥

रावण ने इस सरमा को दयावती और दृढप्रतिज्ञ देख, सीता की रखवाली के लिए रख दिया था । एर साथ रहते रहते इन दोनों में परस्पर मैत्री हो गई थी ॥३॥

सा ददर्श ततः सीतां सरमा नष्टचेतनाम् ।

उपावृत्योत्थितां ध्वस्तां बडवामिव पांसुलाम् ॥ ४ ॥

सरमा ने देखा कि, सीता अत्यन्त व्याकुल हो और शोकाकुल हो भूमि पर धूल में लोटी हुई घोड़ी की तरह लोट रही है, उसके समस्त अंगों में धूल लगी हुई है और वह अपने आपे में नहीं है ॥४॥

तां समाश्वासयामास सखीस्नेहेन सुव्रता ।

समाश्वसिहि वैदेही मामूत्ते मनसो व्यथा ॥ ५ ॥

सखीस्नेह के वशवर्ती हो पतिव्रता सरमा ने सीता जी को धीरज बँधाया और कहा—तू अपने मन को दुखी मत कर ॥५॥

उक्ता यद्रावणेन त्वं प्रत्युक्तं च स्वयं त्वया ।

सखीस्नेहेन तद्गीरु मया सर्वं प्रतिश्रुतम् ॥ ६ ॥

हे भीरु ! रावण ने जो कुछ तुझ से कहा और उसे सुनतूने जो प्रलाप रूप से उत्तर दिया सो सब मैंने सखी भाव से सुना है ॥६॥

लीनया गगने शून्ये भयमृत्सृज्य रावणात् ।

तव हेतोर्विशालाक्षि न हि मे जीवितं प्रियम् ॥ ७ ॥

मैं रावण के भय से तुझको छोड़, अब तक अन्तरिक्ष में (आड़ में) छिपी हुई थी ; किन्तु हे विशालाक्षी ! मुझे तेरे सामने अपने प्राण भी प्रिय नहीं हैं ॥७॥

[टिप्पणी—जब रावण ने सरमा को स्वयं सीता जो के निकट रखा था; तब उसके छिपने की आवश्यकता ही क्या थी ? आवश्यकता यह थी कि सरमा पतिव्रता थी—अतः वह अपने जेठ के सामने नहीं आ सकती थी ।]

स सम्भ्रान्तश्च निष्क्रान्तो यत्कृते राक्षसाधिपः ।

तच्च मे विदितं सर्वमभिनिष्क्रम्य मैथिलि ॥ ८ ॥

हे मैथिली ! राक्षसराज रावण जिस कारण घबड़ा कर यहाँ से गया था—वह समस्त कारण मैं वाहिर जा कर जान आई हूँ ॥८॥

न शक्यं सौप्तिकं कर्तुं रामस्य विदितात्मनः ।

वधश्च पुरुषव्याघ्रे तस्मिन्नैवोपपद्यते ॥ ९ ॥

उन आत्मज्ञ श्रीरामचन्द्र जी का वध सोते में कोई नहीं कर सकता । वह पुरुषव्याघ्र किसी प्रकार मारा ही नहीं जा सकता ॥९॥

न त्वेव वानरा हन्तुं शक्याः पादपयोधिनः ।

सुरा देवर्षभेणैव रामेण हि सुरक्षिताः ॥ १० ॥

जिस प्रकार नाशयण द्वारा सुरक्षित देवताओं को कोई नहीं मार सकता, उसी प्रकार श्रीरामचन्द्र द्वारा रक्षित और वृत्तों से लड़ने वाले वानरों को भी कोई मार नहीं सकता ॥१०॥

दीर्घवृत्तभुजः श्रीमान्महोरस्कः प्रतापवान् ।

धन्वी १संहननोपेतो धर्मात्मा भुवि विश्रुतः ॥ ११ ॥

श्रीरामचन्द्र जी की बड़ी बड़ी और रोल गोल भुजाएँ हैं, वे कान्तिमान् हैं, उनकी छाती चौड़ी है, वे बड़े तेजस्वी हैं, वे धनुष चलाने में बड़े निपुण हैं और सुन्दर शारीरिक अवयवों से सम्पन्न हैं। वे बड़े धर्मात्मा हैं और पृथिवीतल पर प्रसिद्ध हैं ॥११॥

विक्रान्तो रक्षिता नित्यमात्मनश्च परस्य च ।

लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा कुशली नयशास्त्रवित् ॥ १२ ॥

वे बड़े विक्रमी हैं और अपनी तथा दूसरों की सदा रक्षा करनेवाले हैं। वे नीतिशास्त्र के ज्ञाता हैं और अपने भाई लक्ष्मण सहित युद्धकला से निपुण हैं ॥१२॥

हन्ता परवलीघानामचिन्त्यबलपौरुषः ।

न हतो राघवः श्रीमान् सीते शत्रुनिवर्हणः ॥ १३ ॥

वे शत्रुसैन्य के मारने वाले हैं। उनका बल तथा पौरुष अचिन्त्य है। हे सीते ! शत्रुहन्ता श्रीमान् रामचन्द्र जी मारे नहीं गए

२अयुक्तबुद्धिकृत्येन सर्वभूतविरोधिना ।

इयं प्रयुक्ता रौद्रेण माया मायाविदा त्वयि १४ ॥

रावण की बुद्धि और उसके कृत्य, दोनों ही ठीक नहीं हैं; वह प्राणिमात्र का विरोधी है। सो उस क्रूर स्वभाव रावण ने तुम्हें छला था ॥१४॥

१ संहननोपेतः—शोभनावयवसंस्थानः । (गो०) २ अयुक्तबुद्धिः—अनुचिता बुद्धिः कृत्यं च यस्य । (रा०)

शोकस्ते विगतः सर्वः कल्याणं त्वामुपस्थितम् ।

ध्रुवं त्वां भजते लक्ष्मीः प्रियं प्रीतिकरं शृणु ॥१५॥

हे सीते ! तेरा शोक नष्ट हुआ । अब तो हर्ष का समय उपस्थित हुआ है । अब अवश्य ही विजयलक्ष्मी तुम्हें प्राप्त होगी । तू प्रीतिकर प्रियवचन को अब सुन ॥१५॥

उत्तीर्य सागरं रामः सह वानरसेनया ।

सन्निविष्टः समुद्रस्य तीरमासाद्य दक्षिणम् ॥ १६ ॥

वानरी सेनासहित श्रीरामचन्द्र जी समुद्र को पार कर, समुद्र के दक्षिण तट पर ठहरे हुए हैं ॥१६॥

दृष्टो मे परिपूर्णार्थः काकुत्स्थः सहलक्ष्मणः ।

स हि तैः सागरान्तस्थैर्वलैस्तिष्ठति रक्षितः ॥ १७ ॥

मैंने स्वयं देखा है कि, परिपूर्ण मनोरथ श्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मण-सहित समुद्र तट पर ठहरे हुए हैं और उनकी सेना उन्हें घेरे हुए उनकी रक्षा कर रही है ॥१७॥

अनेन प्रेषिता ये च राक्षसा लघुविक्रमाः ।

राघवस्तीर्ण इत्येव प्रवृत्तिस्तैरिहाहता ॥ १८ ॥

रावण ने जिन फुर्तीले जासूसों को उनका भेद लेने के लिये भेजा था, उन्होंने लौट कर एतावन्मात्र कहा कि, श्रीरामचन्द्र समुद्र के इस पार आ गए हैं ॥१८॥

स तां श्रुत्वा विशालाक्षि प्रवृत्तिं राक्षसाधिपः ।

एष मन्त्रयते सर्वैः सचिवैः सह रावणः ॥ १९ ॥

हे विशालाक्षी ! यह समाचार पा कर, अत्र रावण अपने सब मंत्रियों से परामर्श कर रहा है ॥१६॥

इति ब्रुवाणा सरमा राक्षसी सीतया सह ।

सर्वोद्योगेन सैन्यानां शब्दं शुश्राव भैरवम् ॥ २० ॥

सरमा जानकी से यह सब कह ही रही थी कि, इतने में सेना की तैयारी का बड़ा भारी कोलाहल सुन पड़ा ॥२०॥

दण्डनिर्घातवादिन्याः श्रुत्वा भेर्या महास्वनम् ।

उवाच सरमा सीतामिदं मधुरभाषिणी ॥ २१ ॥

नगाड़ों पर चोत्र के पड़ने और रणसिंहों के बजने का घोर शब्द सुन, मधुरभाषिणी सरमा सीता से यह बोली ॥२१॥

सन्नाहजननी ह्येषा भैरवा भीरु भेरिका ।

भेरीनादं च गम्भीरं शृणु तोयदानिःस्वप्नम् ॥२२॥

हे भीरु ! सुन, युद्ध के लिए उत्साहित करने को, यह नगाड़े (मारु बाजे) का भयङ्कर शब्द हो रहा है, जो ठीक मेघगर्जन के तुल्य है ॥२२॥

कल्प्यन्ते मत्तमातङ्गा युज्यन्ते रथवाजिनः ।

हृष्यन्ते तुरगारूढा प्रासहस्ताः सहस्रशः ॥ २३ ॥

लड़ाई के लिए मतवाले हाथी तैयार किए जा रहे हैं, रथों में घोड़े जोते जा रहे हैं और हाथों में भाले लिए हुए, हज़ारों घुड़सवार हर्षनाद कर रहे हैं ॥२३॥

तत्र तत्र च सन्नद्धाः सम्पतन्ति पदातयः ।

आपूर्यन्ते राजमार्गाः सैन्यैरद्भुतदर्शनैः ॥ २४ ॥

१ सम्पतन्ति—सङ्गीभवन्ति । (गो०)

जहाँ तहाँ पैदल सिपाही जिरहवख्तरों को पहिन कर इकट्ठे हो रहे हैं। उन अद्भुत सूरत शकल वाले सैनिकों से राजमार्ग, खचा-खच वैसे ही भरे हुए हैं ; ॥२४॥

वेगवद्भिर्नदद्भिश्च तोयौघैरिव सागरः ।

शस्त्राणां च ? प्रसन्नानां चर्मणां वर्मणां तथा ॥२५॥

जैसे कलकल करती हुई और बड़े वेग से वहती हुई जल की धार से समुद्र भर जाता है। देखो चमचमाते अस्त्र शस्त्रों, कवचों तथा ढालों से ॥२५॥

रथवाजिगजानां च भूषितानां च रक्षसाम् ।

प्रभां विसृजतां पश्य नानावर्णां तसमुत्थिताम् ॥२६॥

तथा रथों, घोड़ों हाथियों और रावण के सुसज्जित राक्षस योद्धाओं की सजावट से, रंग बिरंगी चमक या प्रभा वैसी ही निकल रही है ॥२६॥

वनं निर्दहतो घर्मो यथा रूपं विभावसोः ।

घटानां शृणु निर्घोषं रथानां शृणु निःस्वनम् ॥२७॥

जैसी ग्रीष्मकाल में वन जलाने वाले अग्नि की रंग बिरंगी चमक या प्रभा निकलती है। घटों के धजने का शब्द और रथों के चलने की घरघराहट तो सुन ॥२७॥

हयानां ह्येषमाणानां शृणु तूर्यध्वनिं तथा ।

उद्यतायुधहस्तानां राक्षसेन्द्रानुयायिनाम् ॥ २८ ॥

घोड़ों की हिनहिनाहट और तुरही के बजने का शब्द तो जरा सुन । आयुधों को ऊपर उठाए हुए रावण के सैनिक ॥ २८ ॥

संभ्रमो रक्षसामेष तुमुलो रोमहर्षणः ।

श्रीस्त्वां भजति शोकघ्नो रक्षसां भयमागतम् ॥२९॥

रामः कमलपत्राचोऽदैत्यानामित्र वासवः ।

विनिर्जित्य जितक्रोधस्त्वामचिन्त्यपराक्रमः ॥ ३० ॥

रावणं समरे हत्वा भर्ता त्वाधिगमिष्यति ।

विक्रमिष्यति रक्षःसु भर्ता ते सहलक्ष्मणः ॥ ३१ ॥

राक्षसों का जो घबड़ाए हुए हैं यह तुमुल एव रोमाञ्चकारी रव (शोर) है । हे देवि ! तुम्हको अब शोक नाश करने वाली विजयश्री प्राप्त होने वाली है । कमलनयन श्रीरामचन्द्र से राक्षस उसी प्रकार डर रहे हैं ; जिस प्रकार इन्द्र से दैत्य डरते हैं । जितक्रोध और अथाह पराक्रमी तेरे पति श्रीरामचन्द्र जी, युद्ध में रावण को मार कर, तुम्हको प्राप्त करेंगे । तेरे पति श्रीरामचन्द्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण-सहित राक्षसों पर वैसे ही विक्रम प्रकट करेंगे ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥

यथा शत्रुषु शत्रुघ्नो विष्णुना सह वासवः ।

आगतस्य हि रामस्य क्षिप्रमङ्गमतां सतीम् ॥ ३२ ॥

अहं द्रक्ष्यामि सिद्धार्थां त्वां शत्रौ विनिपातिते ।

अश्रूणयानन्दजानि त्वं वर्तयिष्यसि शोभने ॥ ३३ ॥

जैसे शत्रु हन्ता इन्द्र ने भगवान विष्णु की सहायता प्राप्त कर अपने शत्रु दैत्यों पर प्रकट किया था । जब शत्रु का नाश हो जायगा

तव तेरा मनोरथ भी पूरा होगा और मैं तुझ पतिव्रता को यहाँ आए हुए श्रीरामचन्द्र जी की गोद में शीघ्र ही बैठी हुई देखूँगी । हे शोभने ! उस समय तेरे नेत्र आनन्दाश्रुओं से शोभित होंगे ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

समागम्य परिष्वज्य तस्योरसि महोरसः ।

अचिरात् मोक्षयते सीते देवि ते जघनं गताम् ॥३४॥

धृतामेतां बहून्मासान्वेणीं रामो महाबलः ।

तस्य दृष्ट्वा मुखं देवि पूर्णचन्द्रमिवोदितम् ॥ ३५ ॥

तू मिल कर चौड़ी छाती वाले श्रीरामचन्द्र जी की छाती से लिपटेगी । हे सीते ! दीर्घकाल से सम्हाले न जाने के कारण तेरे वालों के उलझे हुए जूड़े को महाबली श्रीरामचन्द्र जी अति शीघ्र अपने हाथों से सुलभावेँगे । हे देवि ! उदित हुए पूर्णमासी की चन्द्रमा की तरह उमके मुखमंडल को देख ॥ ३४ ॥ ३५ ॥

मोक्ष्यसे शोकजं वारि निर्मोकमिव पन्नगी ।

रावणं समरे हत्वा न चिरादेव मैथिलि ।

त्वया समग्रः प्रियया सुखाहो लप्स्यते सुखम् ॥३६॥

तू शोकाश्रुवहाना वैसे ही छोड़ देगी, जैसे नागिन कैचुली छोड़ देती है । हे मैथिली ! समर में रावण को मार कर, सदा रहने योग्य श्रीरामचन्द्र जी शीघ्र ही तुझको प्राप्त कर, सुखी होंगे ॥ ३६ ॥

समागता त्वं वीर्येण मोदिष्यसि महात्मना ।

सुवर्षेण समायुक्ता यथा सस्येन मेदिनी ॥ ३७ ॥

जिस प्रकार सुवृष्टि मे धान्ययुक्त पृथिवी की शोभा होती है, उसी प्रकार श्रीरामचन्द्र जी से समागम होने पर तू उनके प्रेम व्यवहार से हर्षित होगी ॥३७॥

गिरिवरमभितोऽनुवर्तमानो

हय इव मण्डलमाशु यः करोति ।

तमिह शरणमभ्युपेहि देवं

दिवसकरं प्रभवो ह्ययं प्रजानाम् ॥ ३८ ॥

इति त्रयस्त्रिंशः सर्गः ॥

हे सीते ! जो पर्वतश्रेष्ठ सुमेरु के चारों ओर घोंड़े की तरह शीघ्र शीघ्र मण्डलाकार घूमा करते हैं, तू अब उन्हीं देव, तिर्यक् मनुष्य तथा स्थावर जङ्गमादि की उत्पत्ति के कारणभूत दिनकर सूर्य भगवान् की शरणागति कर अर्थान् उनसे प्रार्थना कर ॥३८॥

युद्धकाण्ड का तैंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—*—

चतुस्त्रिंशः सर्गः

—❀—

अथ तां जातसन्तापां तेन वाक्येन मोहिताम् ।

सरमा ह्लादयामास पृथिवीं द्यौरिवाम्भसा ॥ १ ॥

ग्रीष्मऋतु के ताप से तप्त पृथिवी, जिस प्रकार वर्षा के जल से शान्त होती हैं : उसी प्रकार रावण के वचनों से सन्तप्त सीता के मन को सरमा ने इन मधुर वचनों से हर्षित (शान्त) कर दिया ॥१॥

ततस्तस्या हितं सख्याश्चिकीर्षन्ती सखीवचः ।

उवाच काले कालज्ञा स्मितपूर्वाभिभाषिणी ॥ २ ॥

तदनन्तर समय को पहचानने वाली सरमा ने अपनी प्यारी सखी जानकी की हितकामना से मुसकिया कर, उस समय के अनुरूप वचन कहे ॥२॥

उत्सहेयमहं गत्वा त्वद्राक्यमसितेक्षणे ।

निवेद्य कुशलं रामे प्रतिच्छन्ना निवर्तितुम् ॥ ३ ॥

हे असित लोचने ! मैं चाहती हूँ कि, मैं छिप कर श्रीराम-चन्द्र के पास जाऊँ और तुम्हारा कुशल चेम उनसे कहूँ और उनका कुशल पूँछ कर यहाँ चली आऊँ ॥३॥

न हि मे क्रममाणाया निरालम्बे विहायसि ।

समर्थो गतिमन्वेतुं पवनो गरुडोऽपि वा ॥ ४ ॥

मेरे निरवलम्ब आकाशमार्ग से चलने पर, गरुड़ या वायु में भी ऐसी सामर्थ्य नहीं, जो मुझे पकड़ ले या मेरा पीछा कर सके ॥४॥

एवं ब्रुवाणां तां सीतां सरमां पुनरब्रवीत् ।

मधुरं श्लक्ष्णया वाचा पूर्वं श्लोकाभिपन्नया ॥५॥

इस प्रकार कहती हुई सरमा से सीता जी ने अब प्रसन्न हो कोमल वाणी से फिर कहा—॥५॥

समर्था गगनं गन्तुमपि वा त्वं रसातलम् ।

अवगच्छाम्यकर्तव्यं कर्तव्यं ते मदन्तरे ॥ ६ ॥

हैं प्यारी ! यह मैं जानती हूँ कि, आकाश ही नहीं ; किन्तु तू रसातल में भी बड़ी आसानी से जा सकती है और ऐसा कोई कार्य भी नहीं, जो तू मेरे लिये न कर सके ॥ ६ ॥

मत्प्रियं यदि कर्तव्यं यदि बुद्धिः स्थिरा तव ।

ज्ञातुमिच्छामि तं गत्वा किं करोतीति रावणः ॥७॥

किन्तु ; यदि तू मेरा कोई काम करना ही चाहती है और यदि तेरी बुद्धि स्थिर है ; तो तू जा कर यह पता लगा ला कि, इस समय रावण क्या कर रहा है ? क्योंकि इस समय मेरी इच्छा यही जानने की है ॥ ७ ॥

स हि मायावलः क्रूरो रावणः शत्रुरावणः ।

मां मोहयति दुष्टात्मा पीतमात्रेव वारुणी ॥ ८ ॥

शत्रुओं को रुलाने वाला रावण निष्ठुर है और माया का बड़ा बल रखता है । वह दुष्ट सच पीता वारुणी की तरह मुझको बेसुध क्रिआ करता है ॥ ८ ॥

तर्जापयति मां नित्यं भर्त्सापयति वासकृत्

राक्षसीभिः सुघोराभिर्या मां रक्षन्ति नित्यशः ॥९॥

वह इन भयङ्कर राक्षसियों द्वारा मुझे नित्य ही बार बार धमकाया करता है और मेरी विद्वत् कराया करता है । इन्हें जलमुही राक्षसियों को उसने मेरी रक्षा के लिए भी नियत कर रखा है ॥ ९ ॥

उद्विग्ना शङ्किता चास्मि न स्वस्थं च मनो मम ।

तद्गयाच्चाहमुद्विग्ना अशोकवनिकां गता ॥ १० ॥

इसीसे मैं सदा उद्विग्न और सशङ्कित रहा करती हूँ। मैं रावण के भय ही से अशोकवन में रहती हूँ, किन्तु एक घड़ी भर के लिए भी मेरे मन की विकलता दूर नहीं होती ॥ १० ॥

यदि नाम कथा तस्या निश्चितं वाऽपि यद्भवेत् ।

निवेदयेथाः सर्वं तत्परो मे स्यादनुग्रहः ॥ ११ ॥

रावण की सभा में मेरे छोड़ देने के सम्बन्ध में अथवा अन्य कोई परामर्श हो; उसे यदि तू मुझे बतला दे तो मैं अपने ऊपर तेरी बड़ी दया समझूँ ॥ ११ ॥

सा त्वेवं ब्रुवतीं सीतां सरमा वन्दुभाषिणी ।

उवाच वदनं तस्याः स्पृशन्ती वाष्पविकलवम् ॥ १२ ॥

मृदुवचन बोलने वाली सरमा ने सीता के ऐसे वचन सुन कर, अपने आँचल से सीता का आँसूयुक्त मुखमण्डल पोंछ कर कहा ॥ १२ ॥

एष ते यद्यभिप्रायस्तदा गच्छामि जानकि ।

गृह्य शत्रोरभिप्रायमुपावृत्तां च पश्य माम् ॥ १३ ॥

हे जानकी ! यदि तेरी यही इच्छा है, तो ले मैं यह चली और तू देख मैं अभी तेरे शत्रु रावण का सब हाल जान कर यहाँ लौट आती हूँ ॥ १३ ॥

एवमुक्त्वा ततो गत्वा समीपं तस्य रक्षसः ।

शुश्राव कथितं तस्य रावणस्य समन्त्रिणः ॥ १४ ॥

इस प्रकार कह सरमा रावण के यहाँ गयी और मंत्रियों के साथ रावण की जो सलाह हो रही थी, वह समस्त उसने सुनी ॥ १४ ॥

सा श्रुत्वा निश्चयं तस्य निश्चयज्ञा दुरात्मनः ।

पुनरेवागमत्प्रमशोकवनिकां तदा ॥ १५ ॥

तदनन्तर सरमा निश्चय रूप से दुरात्मा रावण के कई भेद जान शीघ्र ही अशोकवाटिका में लौट आई ॥ १५ ॥

सा प्रविष्टा पुनस्तत्र ददर्श जनकात्मजाम् ।

प्रतीक्षमाणां स्वामेव षड्रष्टपद्मामिव श्रियम् ॥ १६ ॥

और अशोकवाटिका में आ वह फिर जानकी जी से मिली । सरमा ने जानकी को उस समय अपनी प्रतीक्षा में वैसे ही बैठे हुए देखा; मानों पद्मासनहीन लक्ष्मी बैठी हो ॥ १६ ॥

तां तु सीता पुनः प्राप्तां सरमां वल्गुभाषिणीम् ।

परिष्वज्य च सुस्निग्धं ददौ च स्वयमासनम् ॥ १७ ॥

मधुरभाषिणी सरमा को पुनः आते देख, सीता उससे उठ कर स्वयं भैँटी और बैठने के लिये उसे आसन दिखा ॥ १७ ॥

इहासीना सुखं सर्वमाख्याहि मम तत्त्वतः ।

क्रूरस्य निश्चयं तस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥ १८ ॥

फिर बोली, सुख से चहाँ बैठो और उस नृशंस दुरात्मा रावण ने जो कुछ निश्चय किया हो, वह मुझसे सब ठीक-ठीक कहो ॥ १८ ॥

एवमुक्ता तु सरमा सीतया वेपमानया ।

कथितं सर्वमाचष्ट रावणस्य समन्त्रिणः ॥ १९ ॥

जब धरधर काँपती हुई सीता ने सरमा से इस प्रकार कहा, तब सरमा ने वे सब बातें कहीं जो मंत्रियों के साथ रावण ने परामर्श कर निश्चित की थीं ॥ १९ ॥

जनन्या राक्षसेन्द्रो वै त्वन्मोक्षार्थं बृहद्वचः ।

अविद्वेन च वैदेहि मन्त्रिवृद्धेन बोधितः ॥ २० ॥

उसने कहा—हे वैदेही ! बूढ़े मंत्री के द्वारा, रावण की माता कैकसी ने रावण को अनेक प्रकार से हितकारी बातें समझाईं ॥ २० ॥

दीयतामभिसत्कृत्य मनुजेन्द्राय मैथिली ।

निदर्शनं ते पर्याप्तं जनस्थाने यदद्भुतम् ॥ २१ ॥

उसने कहलाया कि, मनुजेन्द्र श्रीरामचन्द्र को सत्कारपूर्वक सीता लौटा दो, क्योंकि जनस्थान में श्रीरामचन्द्र जी द्वारा जो विस्मयोत्पादक कार्य हुआ है वह उनके पराक्रमी होने का पर्याप्त नमूना है ॥ २१ ॥

लङ्घनं च समुद्रस्य दर्शनं च हनूमतः ।

वधं च रक्षसां युद्धे कः कुर्यात् मानुषो भुवि ॥२२॥

फिर हनुमान जी का समुद्र फाँद कर लङ्का में आ कर सीता को देखना तथा युद्ध में राक्षसों का वध करना, भला कहो तो सही, क्या इस पृथिवी तल पर और भी कोई मनुष्य ऐसे काम कर सकता है ? ॥ २२ ॥

एवं स ऋमन्त्रिवृद्धेन मात्रा च बहु भाषितः ।

न त्वामुत्सहते माक्तु मर्थमर्थपरो यथा ॥ २३ ॥

इस प्रकार उसके बूढ़े मंत्री तथा उसकी माता ने उसे बहुत समझाया । परन्तु यह तुम्हें वैसे ही छोड़ना नहीं चाहता जैसे धन का लोभी धन को ॥ २३ ॥

नोत्सहत्यमृतो मोक्तुं युद्धे त्वामिति मैथिलि ।

सामात्यस्य नृशंसस्य निश्चयो ह्येष वर्तते ॥ २४ ॥

हे देवि ! युद्ध में मरे बिना वह तुमको न छोड़ेगा । उस नृशंस का तथा उसके मंत्रियों का यही निश्चय है ॥ २४ ॥

तदेषा निश्चिता बुद्धिमृत्युलोभादुपस्थिता ।

भयान्न शक्तस्त्वां मोक्तुमनिरस्तस्तु संयुगे ॥ २५ ॥

हे देवि ! उसके सिर पर काल खेल रहा है, अतः उसने ऐसा निश्चय कर रखा है । जब तक वह युद्ध में मारा न जायगा, तब तक तुम उसके पंजे से नहीं छूट पावोगी । डर कर तो वह कभी तुमको न छोड़ेगा ॥ २५ ॥

राक्षसानां च सर्वेषामात्मनश्च वधेन हि ।

निहत्य रावणं संख्ये सर्वथा निशितैः शरैः ।

प्रतिनेष्यति रामस्त्वामयोध्यामसितेक्षणे ॥ २६ ॥

हे श्यामनेत्रवाली ! रावण ने अपने तथा अन्य समस्त राक्षसों के वध के निमित्त ही ऐसा निश्चय किया है । श्रीरामचन्द्र जो युद्ध में अपने पैने बाणों से रावण को मार, तुम्हें अपनी राजधानी अयोध्या में ले जायेंगे ॥ २६ ॥

एतस्मिन्नन्तरे शब्दो भेरीशङ्खसमाकुलः ।

श्रुतो वानरसैन्यानां कम्पयन् धरणीतलम् ॥ २७ ॥

सरमा यह कह ही रही थी कि, इतने में वानरों सेनाओं का शङ्ख और तुरही का मिला हुआ शब्द, पृथिवी को कंपावमान करता हुआ, सुनाई पड़ा ॥ २७ ॥

[टिप्पणी—किष्किन्धाकाण्ड में बर्णन किया जा चुका है कि, वानरी सेना में तुरही और शङ्ख थे ।]

श्रुत्वा तु तद्वानरसैन्यशब्दं

लङ्कागता राक्षसराजभृत्याः ।

नष्टौजसो दैन्यपरीतचेष्टाः

श्रेयो न पश्यन्ति नृपस्य दोषैः ॥ २८ ॥

वानरी सेना का वह रणारम्भसूचक शब्द सुन, लङ्कावासी रावण के भृत्य राक्षस लोग अत्यन्त हीनपुरुषार्थ और दीन हो गये । उनको रावण की बुद्धिके दोष से अपनी भलाई न देख पड़ी ॥ २८ ॥

युद्धकाण्ड का चौतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—*—

पञ्चत्रिंशः सर्गः

—*—

तेन शङ्खविमिश्रेण भेरीशब्देन राघवः ।

उपयाति महाबाहु रामः परपुरञ्जयः ॥ १ ॥

शत्रु के पुर को जीतने वाले महाबाहु श्रीरामचन्द्र जी शङ्ख और तुरही बजवाते हुए लङ्का पर चढ़ाई करने तैयार हुए ॥ १ ॥

तं निनादं निशम्याथ रावणो राक्षसेश्वरः ।

मुहूर्तं ध्यानमास्थाय सचिवानभ्युदैक्षत ॥ २ ॥

राक्षसराज रावण ने उस घोर शब्द को सुन कर और कुछ देर तक विचार कर, वह मंत्रियों के मुख को निहारने लगा ॥२॥

अथ तान् सचिवांस्तत्र सर्वानाभाष्य रावणः ।

सभां सन्नादयन् सर्वामित्युवाच महाबलः ॥ ३ ॥

महाबलवान् रावण समस्त मंत्रियों को सम्बोधन कर और सभाभवन को गुंजाता हुआ कहने लगः ॥ ३ ॥

जगत्सन्तापनः क्रूरो गर्हयन् राक्षसेश्वरः ।

तरणं सागरम्यापि विक्रमं बलसञ्चयम् ॥ ४ ॥

यदुक्तवन्तो रामस्य भवन्तस्तत् मया श्रुतम् ।

भवतश्चाप्यहं वेत्ति युद्धे सत्यपराक्रमान् ॥ ५ ॥

तूष्णीकानीक्षतोऽन्योन्यं विदित्वा रामविक्रमम् ।

ततस्तु सुमहाप्राज्ञो माल्यवान्नाम राक्षसः ॥ ६ ॥

संसार भर को सन्तापित करने वाला नृशंस राक्षसराज रावण श्रीरामचन्द्र जी की निन्दा करता हुआ बोला—आप लोगों ने राम के पार उतरने, उनके पराक्रम तथा उनके सैन्यसंग्रह के सम्बन्ध में जो कुछ कहा, वह सब मैंने सुना । मैं यह भी जानता हूँ कि, आप लोग युद्ध में सत्यपराक्रमी हैं; पर आश्चर्य है कि, इस समय आप लोग रामचन्द्र को महापराक्रमी समझ, चुपचाप आपस में एक दूसरे का मुख निहार रहे हैं । वहाँ पर उस समय एक बड़ा भारी पंडित माल्यवान नामक राक्षस था ॥४॥ ॥६॥

रावणस्य वचः श्रुत्वा इति मातामहोऽब्रवीत् ।

विधास्वभिविनीतो^१ यो राजा राजन्नयानुगः^२ ॥७॥

स शास्ति चिरमैश्वर्यमरींश्च कुरुते वशे ।

सन्दधानो हि कालेन विगृह्णंश्चारिभिः सह ॥८॥

१ अभिविनीतः—अभितः शिद्धितः । (मो०) २ नयानुगः—नीतिशास्त्रानुसारी । (गो०)

स्वपक्षवर्धनं कुर्वन्महदैश्वर्यमश्नुते ।

हीयमानेन कर्तव्यो राज्ञा सन्धिः समेन च ॥ ६ ॥

वह रावण का नाना था—सो वह रावण के इन वचनों को सुन बोला—हे राजन् ! जो राजा शिक्षित हो, नीति शास्त्रानुसार कार्य करता है वह बहुत दिनों तक प्रजा पर शासन करता हुआ ऐश्वर्य भोगता है, तथा अपने शत्रुओं को अपने वश में करता है । ऐसा राजा सब बातों का अनुसन्धान करता है और अवसर पाकर शत्रु से लड़ता है । जो राजा समय के अनुसार शत्रु के साथ सन्धि और विग्रह करके अपने पक्ष को दृढ़ करता है, वही बड़े भारी ऐश्वर्य को प्राप्त करता है । राजा को उचित है कि, जब वह अपने को शत्रु से हीनबल या समानबल जाने तब शत्रु से मेल कर ले ॥ ७ ॥ ८ ॥ ६ ॥

न शत्रुमवमन्येत ज्यायान् कुर्वीत विग्रहम् ।

तन्मह्यं रोचते सन्धिः सह रामेण रावण ॥१०॥

हे रावण ! शत्रु कैसा भी हो, उसे तुच्छ कभी न मानना चाहिए । यदि स्वयं शत्रु से बलवान हो तो शत्रु से युद्ध करे । इस समय (इस सिद्धांतानुसार) मुझे तो यही अच्छा जान पड़ता है कि, राम के साथ तुम सन्धि (मेल) कर लो ॥ १० ॥

यदर्थमभियुक्ताः स्म सीता तस्मै प्रदीयताम् ।

यस्य देवर्षयः सर्वे गन्धर्वाश्च जयैपिणः ॥ ११ ॥

जिस सीता के लिए राम ने लङ्का पर चढ़ाई की है, उससीता को तुम उन्हें लौटा दो । देखो, क्या देवता, क्या ऋषि और क्या गन्धर्व सब ही उनकी जीत चाहते हैं ॥ ११ ॥

विरोधं मा गमस्तेन सन्धिस्ते तेन रोचताम् ।

असृजद्भृगवान् पक्षौ द्वावेव हि पितामहः ॥ १२ ॥

अतः मुझे तो यही अच्छा लगता है कि, तुम उनसे युद्ध न कर के उनके साथ मेल कर लो । हे राक्षसराज ! ब्रह्मा ने दो पक्ष बनाए हैं ॥ १२ ॥

सुराणामसुराणां च धर्माधर्मौ तदाश्रयौ ।

धर्मो हि श्रूयते पक्षौ ह्यमराणां महात्मनाम् ॥ १३ ॥

अर्थात् देवता और असुर । क्रमानुसार धर्म और अधर्म इन दोनों के आश्रय-भूत-पक्ष हैं । सुना जाता है, महात्मा देवताओं का धर्म का पक्ष है ॥ १३ ॥

अधर्मो रक्षसां पक्षो ह्यसुराणां च रावण ।

धर्मो वै ग्रसतेऽधर्मं ततः कृतमभृद्युगम् ॥ १४ ॥

हे रावण ! इसी प्रकार असुरों और राक्षसों का अधर्म का पक्ष है । जब धर्म, अधर्म को ग्रसता है, तब सत्ययुग होता है अथवा सत्ययुग में अधर्म को धर्म ग्रस लेता है ॥ १४ ॥

अधर्मो ग्रसते धर्मं ततस्तिप्यः प्रवर्तते ।

तच्चया चरता लोकान् धर्मो विनिहतो महान् ॥ १५ ॥

और जब धर्म को अधर्म ग्रस लेता है, तब कलियुग प्रवृत्त होता है । तुमने संसार में अपने आचरणों से धर्म का बड़ा सत्यानाश कर ॥ १५ ॥

अधर्मः प्रगृहीतश्च तेनास्मद्वलिनः परेः ।

स प्रमादाद्विवृद्धस्तेऽधर्मोऽभिग्रसते हि नः ॥ १६ ॥

अधर्म बढोरा है, इसीसे शत्रु हम लोगों से बलवान् हो गए हैं। तुम्हारे प्रमाद से अधर्म बढ़ कर, हम लोगों को घास कर रहा है ॥ १६ ॥

विवर्धयति पक्षं च सुराणां सुरभावनः ।

विषयेषु प्रसक्तेन यत्किञ्चित्कारिणा त्वया ॥ १७ ॥

धर्म, देवताओं के अनुकूल होने के कारण उनके पक्ष को बलवान् कर रहा है। विषयासक्त हो तुमने जो कुछ किया ॥१७॥

ऋषीणामग्निक्ल्पानामुद्वेगो जनितो महान् ।

तेषां प्रभावो दुर्धर्षः प्रदीप्त इव पावकः ॥ १८ ॥

उससे अग्नितुल्य ऋषि बहुत दुःखी हुए। उन ऋषियों का प्रभाव प्रदीप्त अग्नि के समान अत्यन्त ही दुर्धर्ष है ॥ १८ ॥

तपसा भावितात्मानो धर्मस्यानुग्रहे रताः ।

मुख्यैर्यज्ञैर्यजन्त्येते नित्यं तैस्तैर्द्विजातयः ॥ १९ ॥

क्योंकि वे लोग तप द्वारा अपने आत्मा को निर्मूल कर, धर्म की अभिवृद्धि में सदा लगे रहते हैं। वे प्रधान प्रधान अग्निष्टोमादि यज्ञों को नित्य ही किया करते हैं ॥ १९ ॥

जुह्वत्यग्नींश्च विधिवद्वेदांश्चोच्चैरधीयते ।

अभिभूय च रक्षांसि ब्रह्मघोषानुदैरयन् ॥ २० ॥

विधिवत् हवन करते और वेद का पाठ किया करते हैं। उस वेदपाठ से राक्षसों का पराजय होता है ॥ २० ॥

१ सुरभावनः—सुरानुकूलः । (गो०)

दिशोऽपि विद्रुताः सर्वाः स्तनयित्त्नुरिवोष्णगे ।

ऋषीणामग्निकल्पानामग्निहोत्रसमुत्थितः ॥२१॥

जैसे ग्रीष्मकाल में सूर्य के आतप से वादल इधर उधर भाग जाते हैं, वैसे ही वेदध्वनि को सुन राक्षस चारों ओर भाग जाते हैं। अग्निसमान तेजस्वी ऋषियों के अग्निहोत्र से निकला हुआ ॥ २१ ॥

आवृत्य रक्षसां तेजो धूमो व्याप्य दिशो दश ।

तेषु तेषु च देशेषु पुण्येष्वेव दृढव्रतैः ॥ २२ ॥

चर्यमाणं तपस्तीव्रं सन्तापयति राक्षसान् ।

देवदानवयक्षेभ्यो गृहीतरश्च वरस्त्वया ॥ २३ ॥

धूम, दशों दिशाओं में व्याप्त हो कर राक्षसों के तेज को दबा देता है। वे दृढव्रतधारी ऋषिगण जिन जिन पुण्यप्रद देशों में, उग्र तप करते हैं, वह वहाँ के राक्षसों को दुःख देता है। हे राक्षस! तुमने ब्रह्मा से यही वर पाया है कि, देवता, दानव और यक्ष तुम्हें न मार पावें ॥ २२ ॥ २३ ॥

मानुषा वानरां ऋक्षा गोजाङ्गूला महाबलाः ।

बलवन्त इहागम्य गर्जन्ति दृढविक्रमाः ॥ २४ ॥

पर यहाँ तो महाबली मनुष्य, वानर, रीछ, गोजाङ्गूल आये हुए हैं और वे बलवान् और दृढपराक्रमी सिहनाद कर रहे हैं ॥ २४ ॥

उत्पातान् विविधान् दृष्ट्वा घोरान् बहुविधास्तथा ।

विनाशमनुपश्यामि सर्वेषां रक्षसामहम् ॥ २५ ॥

विविध प्रकार के और बहुत से भयङ्कर उत्पातों को देख, मुझे तो समस्त राक्षसों का नाश देख पड़ता है ॥ २५ ॥

खराभिस्तनिता घोरा मेघाः प्रतिभयङ्कराः ।

शोणितेनाभिर्वर्षन्ति लङ्कामुष्णेन सर्वतः ॥ २६ ॥

हे रावण ! गधे भयङ्कर आवाज से रेंकते हैं और बादल भयङ्कर गर्जना कर लङ्का में सर्वत्र गर्मागर्म लोहू वरसाते हैं ॥२६॥

रुद्रतां वाहनानां च प्रपतन्त्यस्त्रविन्दवः ।

ध्वजा ध्वस्ता विवर्णाश्च न प्रभान्ति यथा पुरा ॥२७॥

सवारी के घोड़ों और हाथियों के रोने से उनकी आँखों से आँसू टपका करते हैं । ध्वजाएँ धूलधूसरित वदरंग हो रही हैं और उनमें अब पहिले जैसी चमक दमक नहीं देख पड़ती ॥२७॥

व्याला गोमायवो गृध्रा वाशयन्ति च सुभैरवम् ।

प्रविश्य लङ्कामनिशं समवायांश्च कुर्वते ॥ २८ ॥

रात को लङ्कापुरी में घुस कर गीदड़, गीध, सर्प आदि दल बाँध कर, भयङ्कर चीत्कार करते हैं ॥ २८ ॥

कालिकाः पाण्डुरैर्दन्तैः प्रहसन्त्यग्रतः स्थिताः ।

स्त्रियः स्वप्नेषु मुष्णन्त्यो गृहाणि प्रतिभाष्य च ॥२९॥

स्वप्न में काली काली औरतें (पूतना प्रमुख) पीले दाँत चमकाती और हँसती हुई सामने आ खड़ी होती हैं । फिर वे घर की चीजों को देख, उल्टी सीधी-बातें करती हैं ॥ २९ ॥

गृहाणां बलिकर्माणि श्वानः पर्युग्भुञ्जते ।

खरा गोषु प्रजायन्ते मृपिका नकुलैः सह ॥ ३० ॥

घरों में जो बलिकर्म होता है, उसको कुत्ते खा जाते हैं ।
गौओं के साथ गधे और नेबलों के साथ मूषिका (चुहियाँ) देख
पड़ती हैं ॥ ३० ॥

मार्जारा द्वीपिभिः सार्धं शूकराः शुनकैः सह ।

किंनरा राक्षसैश्चापि ऽसमीयुर्मानुषैः सह ॥ ३१ ॥

व्याघ्रों के साथ विलावों का, कुत्तों के साथ मुअरों का, राक्षसों
और मनुष्यों के साथ किन्नरों का जोड़ा दिखाई देता है ॥ ३१ ॥

[टिप्पणी—अर्थात् इन स्वाभाविक परस्पर विरोधी जीवों का
एकत्र रहना अमङ्गलकारक है ।]

पांडुरा रक्तपादाश्च विहङ्गाः कालचोदिताः ।

राक्षसानां विनाशाय कपोता विचरन्ति च ॥ ३२ ॥

पीले रंग के लाल पैरों वाले बहुत से कबूतर राक्षसों के नाश
की सूचना देते हुए, मानों कालप्रेरित हो घरों में घूमते हैं ॥ ३२ ॥

वीचीकूचीति वाश्यन्त्यः शारिका वेश्मसु स्थिताः ।

पतन्ति ग्रथिताश्चापि निर्जिताः कलहैपिणः ॥ ३३ ॥

घरों में पालतू मैनाएँ आपस में लड़ती और मीठे बोल न
बोल कर चीचीं चीचीं करती हैं और अन्य पक्षियों से गुय कर
एवं उनसे हार कर नीचे गिर पड़ती हैं ॥ ३३ ॥

पक्षिणश्च मृगाः सर्वे प्रत्यादित्यं रुदन्ति च ।

करालो विकटो मुण्डः परुषः कृष्णपिङ्गलः ॥ ३४ ॥

कालो गृहाणि सर्वेषां काले कालेऽन्ववेक्षते ।

एतान्यन्यानि दुष्टानि निमित्तान्युत्पतन्ति च ॥ ३५ ॥

पशु पक्षी सूर्य की ओर मुँह करके रोते हैं। भयङ्कर विकराल रूपधारी, सिर मुँड़ाये, काले पीले रंग का कालपुरुष, हम सब लोगों के घरों की ओर सुत्रह शाम, ताकता हुआ सा देख पड़ता है। हे राजन् ! ये तथा इसी प्रकार के और भी अनेक बुरे शकुन दिखलाई पड़ते हैं ॥ ३४ ॥ ३५ ॥

[विष्णुं मन्यामहे देवं मानुषं दंहमास्थितम् ।

न हि मानुषमात्रोऽसौ राघवो दृढविक्रमः ।

येन बद्धः समुद्रस्य स सेतुः परमाद्भुतः ॥ ३६ ॥

मुझे तो जान पड़ता है कि, ये श्रीरामचन्द्र मनुष्य का रूप धारण किए हुए साक्षात् विष्णु भगवान हैं ; जिन्होंने समुद्र के रूपर कैसा अद्भुत पुल बाँधा है। ऐसे दृढ़पराक्रमी श्रीरामचन्द्र को केवल मनुष्य ही न समझना चाहिए ॥ ३६ ॥

कुरुष्व नरराजेन सन्धिं रामेण रावण ।]

ज्ञात्वा प्रथार्य कार्याणि क्रियतामायतिक्षमम् ॥ ३७ ॥

अतएव हे रावण ! तुम अपने कल्याण का निश्चय कर तथा आगे के कर्तव्यकर्म का उचित विचार कर, नरेन्द्र श्रीरामचन्द्र जी के साथ सन्धि कर लो ॥ ३७ ॥

इदं वचस्तत्र निगद्य माल्यवान्

परीक्ष्य रक्षोधिपतेर्मनः पुनः ।

अनुत्तमेपूत्तमपौरुषो वली

वभूव तूष्णीं समवेक्ष्य रावणम् ॥ ३८ ॥


इति पंचत्रिंशः सर्गः ॥

उत्तम पुरुषार्थ वाला बलवान् माल्यवान् इस प्रकार राक्षस-पति को वचन सुना कर और रावण के मनोगत भावों को वाइ कर चुप हो गया ॥ ३८ ॥

युद्धकांड का पैंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ



षट्त्रिंशः सर्गः



तच्च माल्यवतो वाक्यं हितमुक्तं दशाननः ।

न मर्षयति दुष्टात्मा कालस्य वशमागतः ॥ १ ॥

रावण के हित के लिए कहीं हुई माल्यवान की बातें, दुष्टात्मा रावण को भली न जान पड़ी। अच्छी जान ही क्यों पड़ती ? उसके सिर तौ मौत सवार थी ॥ १ ॥

स बद्ध्वा भ्रुकुटिं वक्त्रे क्रोधस्य वशमागतः ।

अमर्षात्परिवृत्ताच्चो माल्यवन्तमधात्रवीत् ॥ २ ॥

वह क्रोध में भर और भौंहें टेढ़ी कर तथा आंखें तरेर माल्यवान से बोला ॥ २ ॥

हितबुद्ध्या यदहितं वचः परुषमुच्यते ।

परपक्षं प्रविश्यैव नैतच्छ्रोत्रं गतं मम ॥ ३ ॥

शत्रु का पक्ष ले कर, मेरी हितकामना की बुद्धि से तुमने जैसे कठोर और अहितकारी वचन कहे हैं, उनका मेरे कानों पर कुछ भी असर नहीं पड़ा ॥ ३ ॥

मानुषं कृपणं राममेकं शाखामृगाश्रयम् ।

समर्थं मन्यसे केन त्यक्तं पित्रा वनालयम् ॥ ४ ॥

उस दुखिया राम को, तुम क्यों कर सामर्थ्यवान् समझ रहे हो ? क्योंकि वह अकेला है, वानरों के अधीन है, पिता ने उसे घर से निकल दिया और वह वन में रहता है ॥ ४ ॥

रक्षसामीश्वरं मां च देवतानां भयङ्करम् ।

हीनं मां मन्यसे केन ह्यहीनं सर्वविक्रमैः ॥ ५ ॥

और मुझे जो रक्षसों का राजा हूँ, देवताओं का भयदाता हूँ और सब प्रकार से पराक्रमी हूँ, किस प्रकार हीन समझते हो ? ॥ ५ ॥

वीरद्वेषेण वा शङ्के पक्षपातेन वा रिपोः ।

त्वयाऽहं परुषायुक्तः परप्रोत्साहनेन वा ॥ ६ ॥

मुझे तुम पर सन्देह हो रहा है कि, तुमने ऐसे कठोर वचन मुझसे क्यों कहे ? क्या तुम्हें मेरी वीरता से द्वेष है अथवा शत्रु का पक्षपात करना इसका कारण है। अथवा मुझे उभाड़ने के लिए तुमने ऐसे कठोर वचन कहे हैं ॥ ६ ॥

प्रभवन्तं पदस्थं हि परुषं कोऽभिधास्यति ।

पण्डितः शास्त्रतत्त्वज्ञो विना प्रोत्साहनाद्रिपोः ॥७॥

जो पंडित है और शास्त्रतत्त्वज्ञ है, वह प्रभावशाली और राज्यपदारूढ़ को, उत्साहित करने के सिवाय कठोर वचन नहीं कहता ॥ ७ ॥

आनीय च वनात्सीतां पद्महीनामिव श्रियम् ।

किमर्थं प्रतिदास्यामि राघवस्य भयादहम् ॥ ८ ॥

हे माल्यवान् ! कमलहीन, लज्जामी की तरह सीता को जनस्थान से ला कर, राम के भय से मैं उसे क्यों हूँ ॥ ८ ॥

वृतं वानरकोटीभिः ससुग्रीवं सलक्ष्मणम् ।

पश्य कैश्चिदहोभिस्त्वं राघवं निहतं मया ॥ ९ ॥

इन करोड़ों वानरों और सुग्रीव तथा लक्ष्मण सहित राम को मेरे हाथ से मरा हुआ तुम देखोगे ॥ ९ ॥

द्वन्द्वे यस्य न तिष्ठन्ति दैवतान्यपि संयुगे ।

स कस्माद्रावणो युद्धे भयमाहारयिष्यति ॥ १० ॥

अरे जिसके द्वन्द्व-युद्ध में देवता भी खड़े नहीं रह रह सकते, वह रावण भला! युद्ध में किससे भयभीत होगा ॥ १० ॥

द्विधा भ्रज्येयमध्येवं न नमेयं तु कस्यचित् ।

एष मे सहजो दोषः स्वभावो दुरतिक्रमः ॥ ११ ॥

मैं क्या करूँ—मेरा यह स्वाभाविक दोष है कि, भले ही मेरे दो दुकड़े हो जायँ, पर मैं किसी के सामने नवने वाला नहीं। स्वभाव होता ही दुरतिक्रम है ॥ ११ ॥

यदि तावत्समुद्रे तु सेतुर्वद्धो यदृच्छया ।

रामेण विस्मयः कौऽत्र येन ते भयमागतम् ॥ १२ ॥

अदि रामचन्द्र ने किसो प्रकार समुद्र पर पुल बाँध ही लिया, तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है, जिससे तुम डर गये ॥ १२ ॥

स तु तीर्त्वाण्वं रामः सह वानरसेनया ।

प्रतिजानामि ते सत्यं न जीवन् प्रतियास्यति ॥ १३ ॥

समुद्र पर पुल बाँध, वानरी सेना सहित राम यदि इस पार आ गये हैं तो मैं तुमसे सत्य सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि, वह यहाँ से जीते जागते न लौट पावेंगे ॥ १३ ॥

एवं ब्रुवाणं संरब्धं रुष्टं विज्ञाय रावणम् ।

व्रीडतो माल्यवान् वाक्यं नोत्तरं प्रत्यपद्यत ॥१४॥

क्रोध में भर ऐसी बातें कहते हुए, रावण को रुष्ट हुआ जान, माल्यवान् अत्यन्त लज्जित हुआ और उसने फिर कुछ भी न कहा ॥ १४ ॥

चिन्तेयत् अनसा तस्य दुष्कर्मपरिपाकजम् ।

पापं नाशयति ह्ये नं स्वस्य राष्ट्रस्य राक्षसैः ॥१५॥

उसने मन में निश्चय कर लिया कि, अब रावण के दुष्कर्मों का परिपाककाल समीप आ गया है। पाप इसको, इसके राज्य को और समस्त राक्षसों को नाश करने वाला है ॥ १५ ॥

जयाशिषा च राजानं वर्धयित्वा यथोचितम् ।

माल्यवानभ्यनुज्ञातो जगाम स्वं निवेशनम् ॥१६॥

“महाराज की जय हो” इस आशीर्वाद से रावण की बढ़ती मना और उससे विदा माँग, माल्यवान् अपने घर को चला गया ॥ १६ ॥

रावणस्तु सहामात्यो मन्त्रयित्वा विमृश्य च ।

लङ्कायामतुलां गुप्तिं कारयामास राक्षसः ॥१७॥

रावण भी अपने मंत्रियों के साथ परामर्श और विचार कर, लङ्का की भली भाँति रक्षा का प्रबन्ध करता हुआ ॥ १७ ॥

स व्यादिदेश पूर्वस्यां ग्रहस्तं द्वारि राक्षसम् ।
 दक्षिणस्यां महावीर्यं महापार्श्वमहोदरौ ॥ १८ ॥
 व्यादिदेश महाकायौ राक्षसैर्वहुभिर्वृतौ ।
 पश्चिमायामथो द्वारि पुत्रमिन्द्रजितं तथा ॥ १९ ॥
 व्यादिदेश महामायं बहुभी राक्षसैर्वृतम् ।
 उत्तरस्यां पुरद्वारि व्यादिश्य शुकसारणौ ॥ २० ॥

उसने लङ्का के पूर्वद्वार की रक्षा के लिये ग्रहस्त को और दक्षिणद्वार की रक्षा के लिए महावली महाकाय महापार्श्व और महोदर को बहुत से राक्षसों के साथ नियुक्त किया । इसी प्रकार पश्चिमद्वार की रक्षा के लिए बहुत सी राक्षसी सेना के साथ महामायावी इन्द्रजीतोंको आज्ञा दी । लङ्कापुरी के उत्तरद्वार की रक्षा का भार उसने शुक और सारण को सौंपा ॥१८॥१९॥२०॥

स्वयं चात्र भविष्यामि मन्त्रिणस्तानुवाच ह ।
 राक्षसं तु विरूपार्क्षं महावीर्यपराक्रमम् ॥ २१ ॥

उसने मंत्रियों से कहा कि, उत्तरद्वार पर मैं स्वयं जाऊंगा ।
 बड़े बलवान् और पराक्रमी विरूपार्क्ष राक्षस को ॥ २१ ॥
 मध्यमेऽस्थापयद्गुल्मे बहुभिः सह राक्षसैः ।
 एवं विधानं लङ्कायाः कृत्वा राक्षसपुङ्गवः ।

कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यते कालचोदितः ॥ २२ ॥

उसने लङ्कापुरी के बीच बहुत से राक्षस सैनिकों सहित छावनी डाल कर रहने की आज्ञा दी । इस प्रकार लङ्का की रक्षा का राक्षसश्रेष्ठ रावण ने, जिसकी मौत निकट आई हुई थी, प्रबन्ध कर अपने को कृत्यकृत्य माना ॥ २२ ॥

विसर्जयामास ततः स मन्त्रिणो

विधानमाज्ञाप्य पुरस्य पुष्कलम् ।

जयाशिषा मन्त्रिगणेन पूजितो

विवेश चान्तः पुरमृद्धिमत् महत् ॥ २३ ॥

इति पटत्रिंशः सर्गः

रावण लड्डा की चौकसी का इस प्रकार भली भाँति प्रबन्ध कर तथा मंत्रियों को विदा कर और उनके जयसूचक आशीर्वाद से सम्मानित हो, धन-जन-पूर्ण अपने विशाल अन्तःपुर में चला गया ॥ २३ ॥

युद्धकांड का छत्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—❀—

सप्तत्रिंशः सर्गः

—❀—

नखानरराजौ तौ स च वायुसुतः कपिः ।

जाम्बवानृक्षराजश्च राक्षसश्च विभीषणः ॥ १ ॥

अङ्गदो वालिपुत्रश्च सौमित्रिः शरभः कपिः ।

सुपेणः सहदायादो मैन्दो द्विविद एव च ॥ २ ॥

गजो गवाक्षः कुमुदो नलोऽथ पनसस्तथा ।

अमित्रविषयं प्राप्ताः समवेताः समर्थयन् ३ ॥३॥

१ सहदायादः—सवान्धवः । (शि०) २ -अमित्रु विषयं—शत्रुदेशं (गो०) ३ समर्थयन्—अमंत्रयन् । (गो०)

इधर नरेन्द्र श्रीरामचन्द्र और वानरेन्द्र सुग्रीव, पवनन्दन हनुमान जी, ऋक्षराज जाम्बवान, राक्षस विभीषण, बालिपुत्र अङ्गद, सुमित्रानन्दन लक्ष्मण, शरभ वानर, वान्धवों सहित सुपेण, मैन्द, द्विविद, गज, गवान्न, कुमुद, नल, पनस, अपने वैरी के देश में पहुँच और एकत्र हो परामर्श करने लगे ॥ १ ॥२॥३॥

इयं सा लक्ष्यते लङ्का पुरी रावणपालिता ।

सासुरोरगगन्धर्वैर्मरैरपि दुर्जया ॥ ४ ॥

वे कहने लगे—देखो, रावण-शासित लङ्का नगरी, दैत्यों नागों और गन्धवों से भी अजेय है ॥ ४ ॥

१ कार्यसिद्धिं पुरस्कृत्य २ मन्त्रयध्वं ३ विनिर्णये ।

नित्यं सन्निहितो ह्यत्र रावणो राक्षसाधिपः ॥ ५ ॥

राक्षसराज रावण यहाँ सदा सतर्क रहता है । अतः अब हम सब लोगों को प्रधानतः विजयप्राप्ति के लिए मिल कर, विचार करना चाहिए ॥ ५ ॥

तथा तेषु ब्रुवाणेषु रावणावरजोऽब्रवीत् ।

४ वाक्यमग्राम्यपदवत्पुष्कलार्थं ५ विभीषणः ॥ ६ ॥

उन लोगों के इस प्रकार कहने पर रावण के छोटे भाई विभीषण ने, अपनी राक्षसी भापा न बोल, ऐसी भापा में, जिसे वे सब लोग साफ साफ समझ सकें—कहा । विभीषण ने जो शब्द कहे, वे थे तो थोड़े ही, किन्तु उनमें अभिप्राय बहुत सा भरा हुआ था ॥ ६ ॥

१ कार्यसिद्धिं—विजयसिद्धि । (गो०) २ पुरस्कृत्य—प्रधानीकृत्य ।

(गो०) ३ विनिर्णये—निमित्ते मन्त्रयध्वं । (गो०) ४ अग्राम्यपदवत्—स्व देशभाषा पदरहितमुक्तवान् । (गो०) ५ पुष्कलार्थं—अपार्याल्पशब्दं ।

(रा०)

अनलः शरभश्चैव सम्पातिः प्रघसस्तथा ।

गत्वा लङ्कां ममामात्याः पुरीं पुनरिहागताः ॥ ७ ॥

अनल, शरभ, सम्पाति और प्रघस मेरे ये चार मंत्री लङ्का में गए थे और वहाँ से लौट कर आए हुए हैं ॥ ७ ॥

भूत्वा शकुनयः सर्वे प्रविष्टाश्च रिपोर्वलम् ।

विधानं विहितं यच्च तद्दृष्ट्वा समुपस्थिताः ॥ ८ ॥

वे सब पक्षी वन कर, शत्रु सैन्य में गये थे और वहाँ रावण ने जिस विधान से अपनी सेना को नगर की रक्षा के लिए नियुक्त किया है—सो सब देख आए हैं ॥ ८ ॥

संविधानं यदाहुस्ते रावणस्य दुरात्मनः ।

राम तद्ब्रुवतः सर्वं यथा तत्त्वेन मे शृणु ॥ ९ ॥

हे राम ! दुरात्मा रावण ने अपनी सेना को जिस प्रकार नगररक्षा के लिए नियुक्त किया है और जो मेरे मंत्रियों ने मुझे बतलाया है, सो सब मैं आपसे ठीक ठीक निवेदन करता हूँ, आप सुनिये ॥ ९ ॥

पूर्वं प्रहस्तः सबलो द्वारमासाद्य तिष्ठति ।

दक्षिणं च महावीर्यौ महापार्श्वमहोदरौ ॥ १० ॥

लङ्का के पूर्वद्वार पर सेनापति प्रहस्त अपनी सेना सहित डेरा डाले हुए हैं, दक्षिण द्वार पर बड़े बलवान् महापार्श्व और महोदर हैं ॥ १० ॥

इन्द्रजित्पश्चिमद्वारं राक्षसैर्वहुभिवृतः ।

पट्टिशासिधनुष्मद्भिः शूलमुद्गरपाणिभिः ॥ ११ ॥

राक्षसों की एक भारी सेना के साथ इन्द्रजीत पश्चिमद्वार की रक्षा कर रहा है। उसकी सेना के सैनिकों के हाथों में पटा, तलवारे, कमानें, त्रिशूल, और मुगद्दर हैं ॥ ११ ॥

नानाप्रहरणैः शूरैरावृतो रावणात्मजः ।

राक्षसानां सहस्रैस्तु बहुभिः शस्त्रपाणिभिः ॥१२॥

अनेक प्रकार के आयुध धारण किये शूरवीर योद्धा रावण के पुत्र के साथ हैं और हजारों हथि गरवन्द राक्षससैनिकों को वह अपने साथ लिए हुए हैं ॥ १२ ॥

[टिप्पणी—“शूरवीर योद्धाओं” से अभिप्राय सेनानायकों से है और सैनिकों से अभिप्राय साधारण सिपाहियों से ।]

युक्तः परमसंविग्नो' राक्षसैर्वहुभिर्वृतः ।

उत्तरं नगरद्वारं रावणः स्वयमास्थितः ॥ १३ ॥

अकम्पित हृदय बहुत से प्रधान प्रधान योद्धाओं को अपने साथ लिए हुए रावण, स्वयं लङ्कापुरी के उत्तरद्वार की रक्षा कर रहा है ॥ १३ ॥

विरूपाक्षस्तु महता शूलखड्गधनुष्मता ।

बलेन राक्षसैः सार्धं मध्यमं गुल्ममास्थितः ॥ १४ ॥

बड़ा बलवान् विरूपाक्ष शूल, खड्ग और धनुष-धारिणी राक्षसी सेना को लिए हुए नगरी के बीचों बीच छावनी डाले हुए पड़ा है ॥ १४ ॥

एतानेवंविधान् गुल्माँलङ्कायां समुदीच्य ते ।

मामकाः सचिवाः सर्वे पुनः शीघ्रमिहागताः ॥१५॥

मेरे मंत्रीगण लङ्का के समस्त मोर्चों को इस प्रकार देख कर तुरन्त मेरे पास चले आए हैं ॥ १५ ॥

गजानां च सहस्रं च रथानामयुतं पुरे ।

हयानामयुते द्वे च साग्रकोटिश्च रक्षसाम् ॥ १६ ॥

लङ्का में दस हजार हाथीसवार, दस हजार रथसवार, बीस हजार घोड़सवार और एक करोड़ से कुछ अधिक पैदल राक्षस सैनिक हैं ॥ १६ ॥

विक्रान्ता बलवतन्तश्च संयुगेष्व्राततायिनः^१ ।

२इष्टा राक्षसराजस्य नित्यमेते निशाचराः ॥ १७ ॥

रावण के खास सैनिक बड़े पराक्रमी और बलवान हैं और युद्ध करने में बड़े क्रूर हैं । (इनके अतिरिक्त और भी सैनिक हैं) ॥ १७ ॥

एकैकस्यात्र युद्धार्थं राक्षसस्य विशांपते ।

परिवारः सहस्राणां सहस्रमुपतिष्ठते ॥ १८ ॥

हे विशाम्पते ! इनमें से प्रत्येक योद्धा की सहायता के लिए यदूध में असंख्य लक्ष परिवार उपस्थित हो जाते हैं ॥ १८ ॥

एतां प्रवृत्तिं लङ्कायां मन्त्रिप्रोक्तां विभीषणः ।

एवमुक्त्वा महाबाहू राक्षसांस्तानदर्शयत् ॥ १९ ॥

महाबलवान् विभीषण ने अपने मंत्रियों से सुना हुआ यह लङ्का का वृत्तान्त सुना कर, अपने चारों राक्षस मंत्रियों को श्रीराम चन्द्र जी के सामने उपस्थित किया ॥ १९ ॥

१ आततायिनः-क्रूरा इत्यर्थः । (गो०) २ रावणस्येष्टा-अन्तरङ्गाः (गो०)

लङ्कार्या सचिवैः सर्वं रामाय प्रत्यवेदयत् ।
 रामं कमलपत्राचामिदमुत्तरमब्रवीत् ॥ २० ॥
 रावणावरजः श्रीमान् रामप्रियचिकीर्षया ।
 कुवेरं तु यदा राम रावणः प्रत्ययुध्यत ॥ २१ ॥

उन चारों मंत्रियों ने श्रीरामचन्द्र जी से यह सब हात
 तब कमल नेत्र श्रीरामचन्द्र जी से रावण के झोटे भाई
 ने, उनकी प्रसन्नता के लिए आगे यह कहा । हे राम ! रा
 कुवेर से लड़ने गया था ॥ २० ॥ २१ ॥

पृष्टिः शतसहस्राणि तदा निर्यान्ति राक्षसाः ।
 पराक्रमेण वीर्येण तेजसा सत्त्वगौरवात् ॥ २२ ॥
 सदृशा येऽत्र दर्पेण रावणस्य दुरात्मनः ।
 अत्र मन्व्युर्न कर्तव्यो रोपयेत् त्वां न भीषेत् ॥

तब उसके साथ साठ लाख राक्षस गये थे । वे परा
 तेज, साहस और गर्व में दुष्ट रावण हैं । न समान जा
 थे । हे राम ! आपको मेरी इन बातों को सुन न क्रुद्ध हो
 और न डरना ही चाहिए ; बल्कि मैंने इन प्रकार कथन
 आपको शत्रु निरसन के लिए उत्तेजित करने का है ॥

समर्थो ह्यसि वीर्येण सुराणामपि निग्रहे ।
 तद्भवांश्चतुरङ्गेण वलेन महता वृत्तः ॥ २४ ॥

१ मन्वुः—क्रोधः । (गो०) २ रोपये—शत्रु निरसनाय रोपमुत्पाद
 ३ चतुरङ्गे—रावणसेनावचतुरवयवेन । (गो०) ४ पादान्तरे-

देव
 ॥
 वीर
 राक्ष
 ॥
 न ह
 और भी
 के लिए
 ॥
 ॥
 आ यह
 श्रीराम
 (गो०)

क्योंकि आप तो अकेले ही अपने बल पराक्रम से देवताओं को भी दण्ड दे सकते हैं। फिर आपके साथ यह बड़ी भारी रावण की चतुरङ्गिणी सेना भी तो है ॥ २४ ॥

व्यूहघेदं वानरानीकं निर्मथिष्यसि रावणम् ।

रावणावरजे वाक्यमेवं ब्रुवति राघवः ॥ २५ ॥

शत्रूणां प्रतिघातार्थमिदं वचनमब्रवीत् ।

पूर्वद्वारे तु लङ्काया नीलो वानरपुङ्गवः ॥ २६ ॥

प्रहस्तप्रतियोद्धा स्याद्वानरैर्बहुभिवृतः ।

अङ्गदो वालिपुत्रस्तु बलेन महता वृतः ॥ २७ ॥

सो आप वानरी सेना को व्यूह रचना करके रावण को भली भाँति नष्ट कर डालेंगे। यह सुन श्रीरामचन्द्र जी ने शत्रुओं का सामना करने के लिये विभीषण से कहा। लङ्का के पूर्वद्वार पर वानरश्रेष्ठ नील चढ़ाई कर प्रहस्त के साथ युद्ध करे और बहुत से वानर उसकी सहायता के लिए उसके साथ जाँय। वालिपुत्र अंगद एक बड़ी सेना को अपने साथ ले ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥

दक्षिणे बांधतां द्वारे महापार्श्वमहोदरौ ।

हनुमान् पश्चिमद्वारं निपीड्य पवनात्मजः ॥ २८ ॥

प्रविशत्वप्रमेयात्मा बहुभिः कपिभिवृतः ।

दैत्यदानवसङ्घानामृषीणां च महात्मनाम् ॥ २९ ॥

दक्षिणद्वार पर महापार्श्व और महोदर से युद्ध करें । अमित बलशाली पवननन्दन हनुमान जी बहुत से वानरों को साथ ले लङ्का के पश्चिमद्वार पर चढ़ाई करें । दैत्यों, दानवों और महात्मा ऋषियों को ॥ २८ ॥ २९ ॥

विप्रकारप्रियः क्षुद्रो वरदानबलान्वितः ।

परिक्रामति यः सर्वाँल्लोकान् सन्तापयन्प्रजाः ॥३०॥

सताने वाले, नीच, वरदान से बलवान, सब लोकों में घूमने वाले; समस्त प्रजाजनों को सन्तप्त करने वाले ॥ ३० ॥

तस्याहं राक्षसेन्द्रस्य स्वयमेव वधे धृतः ।

उत्तरं नगरद्वारमहं सौमित्रिणा सह ॥ ३१ ॥

उस राक्षसराज रावण का वध करने का निश्चय मैंने स्वयं किया है । सो लङ्का के उस उत्तरद्वार पर, लक्ष्मण को साथ ले, मैं ॥ ३१ ॥

निपीड्याभिप्रवेक्ष्यामि सग्नलो यत्र रावणः ।

वानरेन्द्रश्च बलवानृक्षराजश्च वीर्यवान् ॥ ३२ ॥

चढ़ाई करूँगा, जिस पर अपनी सेना सहित रावण है । बलवान् वानरराज सुग्रीव और पराक्रमी ऋक्षराज जाम्बवान् ॥ ३२ ॥

राक्षसेन्द्रानुजश्चैव गुल्मो भवतु मध्यमः ।

न चैव मानुष रूपं कार्यं हरिभिराहवे ॥ ३३ ॥

और विभीषण ये सेनासमूह के बीच में रह कर, सेना का परिचालन करें । रणस्थल में कोई भी वानर मनुष्य का रूप धारण न करें । क्योंकि ऐसा करने से अपने पराए की पहचान न हो सकेगी ॥ ३३ ॥

वा० रा० यु०—२३

एषां भवतु संज्ञा? नो युद्धेऽस्मिन् वानरे वले ।

वानरा एव नश्चिह्नं स्वजनेऽस्मिन् भविष्यति ॥३४॥

इस युद्ध में हमारी उस वानरी सेना का यही सङ्केत रहेगा ।
क्योंकि हमारी ओर के सैनिकों की पहिचान वानर ही होंगे ॥३४॥

वयं तु मानुषेणैव सप्त योत्स्यामहे परान् ।

अहमेष सह आत्रा लक्ष्मणेन महौजसा ॥ ३५ ॥

हम सात जन मनुष्य का रूप धारण कर शत्रु से लड़ेंगे ।
मैं और महातेजस्वी मेरे छोटे भाई लक्ष्मण ॥ ३५ ॥

आत्मना पञ्चमश्चायं सखा मम विभीषणः ।

स रामः कृत्यसिद्ध्यर्थमेवमुक्त्वा विभीषणम् ॥३६॥

तथा अपने चारों मंत्रियों सहित मेरे मित्र विभीषण । (ये
सात जन मनुष्य रूप धारण कर लड़ेंगे ।) कार्यसिद्धि के लिए
श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार कहा ॥ ३६ ॥

सुवेलारोहणे बुद्धिं चकार मतिमान् मतिम् ।

रमणीयतरं दृष्ट्वा सुवेलस्य गिरेस्तटम् ॥ ३७ ॥

फिर बुद्धिमान् श्रीरामचन्द्र जी ने सुवेलपर्वत पर चढ़ने की
इच्छा की । क्योंकि उस समय सुवेलपर्वत बड़ा रमणीक दिख-
लाई पड़ता था । (अर्थात् श्रीरामचन्द्र जी सुवेलपर्वत पर युद्ध
करने के अभिप्राय से नहीं, किन्तु केवल उसकी रमणीकता
देखने के लिए उस पर चढ़े) ॥ ३७ ॥

ततस्तु रामो महता बलेन

प्रच्छाद्य सर्वां पृथिवीं महात्मा ।

प्रहृष्टरूपोभिजगाम लङ्कां

कृत्वा मतिं सोऽरिवधे महात्मा ॥ ३० ॥

इति सप्तत्रिंशः सर्गः ॥

तव महाबुद्धिमान् श्रीरामचन्द्र जी अपनी महती सेना से सुवेलपर्वत के मध्यभाग को ढक कर और अत्यन्त प्रसन्न हो कर, शत्रुवध की इच्छा से सुवेलपर्वत पर चढ़ गये ॥ ३० ॥

युद्धकाण्ड का सैंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—*—

अष्टात्रिंशः सर्गः

—*—

स तु कृत्वा सुवेलस्य मतिमारोहणं प्रति ।

लक्ष्मणानुगतो रामः सुग्रीवमिदमब्रवीत् ॥ १ ॥

विभीषणं च धर्मज्ञमनुरक्तं निशाचरम् ।

मन्त्रज्ञं च विधिज्ञं च श्लक्ष्णया परया गिरा ॥२॥

श्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मणसहित सुवेलपर्वत पर चढ़ने की इच्छा कर, धर्मज्ञ, अनुरक्त एवं उचित परामर्श देने वाले, तथा कार्य करने की रीति जानने वाले कपिराज सुग्रीव तथा राक्षस विभीषण से मधुर शब्दों में कहने लगे ॥ १ ॥ २ ॥

१ पृथिवी—सुवेलकटकभूमिं । (गो०) २ महात्मा—महाबुद्धिः । (गो०)

३ लङ्का—लङ्कैकदेशसुवेलं । (गो०) ४ विधिज्ञम्—कार्यज्ञं । (गो०)

सुवेलं साधुशैलेन्द्रमिमं धातुशतैश्चितम् ।

अध्यारोहामहे सर्वे वत्स्यामोऽत्र निशामिमाम् ॥३॥

चलो हम सब, विविध प्रकार की धातुओं से भरे पुरे, इस सुन्दर पर्वतराज सुवेज पर चढ़ चले और आज की रात वहीं बितावें ॥ ३ ॥

लङ्कां चालोकयिष्यामो निलयं तस्य रक्षसः ।

येन मे मरणान्ताय हृता भार्या दुरात्मना ॥ ४ ॥

उस पर चढ़कर, हम लोग उस दुष्ट रावण की आवास-स्थली लङ्का को भी देखेंगे, जो अपनी जान खोने के लिए मेरी स्त्री को हर लाया है ॥ ४ ॥

येन धर्मो न विज्ञातो न तद्वृत्तं कुलं तथा ।

राक्षस्या नीचया बुद्ध्या येन तद्गर्हितं कृतम् ॥५॥

ऐसा पापकृत्य करते समय उसने न तो धर्म की, न सच्चरित्रता की और न अपने श्रेष्ठकुल ही की कुछ परवाह की और अपनी नीच राक्षसी बुद्धि ही से यह गर्हित कर्म कर डाला ॥ ५ ॥

तस्मिन् मे वर्तते रोषः कीर्तिते राक्षसाधमे ।

यस्यापराधान्नीचस्य वधं द्रक्ष्यामि रक्षसाम् ॥६॥

अब तो मुझे उस राक्षसाधम का नाम लेते ही क्रोध आ जाता है । क्योंकि इसी नीच के अपराध से मुझे असंख्य राक्षसों का वध देखना पड़ेगा ॥ ६ ॥

एको हि कुरुते पापं कालपाशवशं गतः ।

नीचेनात्मापचारेण कुलं तेन विनश्यति ॥ ७ ॥

देखो, मृत्यु के पाश में फँस, एक जीव पाप करता है, किन्तु उस एक नीच के अपराध से उसके सारे कुल का नाश होता है ॥ ७ ॥

एवं संमन्त्रयन्नेव सक्रोधो रावणं प्रति ।

रामः सुवेलं वासाय चित्रसानुमुपारूढत् ॥ ८ ॥

इस प्रकार वार्तालाप करते और रावण पर खीजते, श्रीराम-चन्द्र जी सुवेलपर्वत पर वास करने के लिए उसके रंग विरंगे शृङ्गों पर चढ़ गए ॥ ८ ॥

पृष्ठतो लक्ष्मणश्चैनमन्त्रगच्छत्समाहितः ।

सशरं चापमुद्यम्य सुमहद्विक्रमे रतः ॥ ९ ॥

पराक्रमी लक्ष्मण जी भी बाणसहित बड़े धनुष को हाथ में लिए हुए, सावधानतापूर्वक श्रीरामचन्द्र जी के पीछे पीछे चले ॥ ९ ॥

तमन्वरोहत्सुग्रीवः सामात्यः सत्रिभीषणः ।

हनुमानङ्गदो नीलो मैन्दो द्विविद् एव च ॥ १० ॥

गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः ।

पनसः कुमुदश्चैव हरो रम्भश्च यूथपः ॥ ११ ॥

जाम्ब्रवांश्च सुषेणश्च ऋषभश्च महामतिः ।

दुर्मुखश्च महातेजास्तथा शतवलिः कपिः ॥ १२ ॥

एते चान्ये च ब्रह्मो वानराः शीघ्रगामिनः ।

ते वायुवेगप्रवणास्तं गिरिं गिरिचारिणः ॥ १३ ॥

अभ्यारोहन्त शतशः सुवेलं यत्र राघवः ।

ते त्वदीर्घेण कालेन गिरिमारूढ्य सर्वतः ॥ १४ ॥

उनके पीछे सुग्रीव और मंत्रियों सहित विभीषण चले । फिर हनुमान जी, अङ्गद, नील, मैन्द, द्विविद, गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गन्धमादन, पनस, कुमुद, रम्भ, जाम्बवान, सुषेण, महा-बुद्धिमान ऋषभ, महातेजस्वी दुर्मुख, तथा वानर शतबलि आदि तथा अन्य बहुत से तेज चलने वाले, तथा पर्वतों पर विचरने वाले वानर; वायुवेग से उस सुवेलपर्वत पर चढ़ कर, जहाँ श्रीरामचन्द्र जी थे, वहाँ जा पहुँचे । उस पर्वत पर चढ़ने में उन समस्त वानरों को कुछ भी न लगा ॥१०॥११॥१२॥१३॥१४॥

दृशुः शिखरे तस्य श्विषक्तामिव खे पुरीम् ।

तां शुभां प्रवरद्वारां प्राकारपरिशोभिताम् ॥१५॥

सुवेलपर्वत के शिखर पर चढ़, उन्होंने लङ्का को देखा, जो ऐसी जान पड़ती थी, मानों आकाश को छू रही हो । लङ्का अच्छे द्वारों और परकोटे से शोभित थी ॥ १५ ॥

लङ्कां राक्षससम्पूर्णां दृशुर्हरियूथपाः ।

प्राकारचयसंस्थैश्च तदा नीलैर्निशाचरैः ॥ १६ ॥

दृशुस्ते हरिश्रेष्ठाः प्राकारमपरं कृतम् ।

ते दृष्ट्वा वानराः सर्वे राक्षसान् युद्धकाङ्क्षिणः ।

मुमुक्षुर्विविधान्नादांस्तत्र रामस्य पश्यतः ॥ १७ ॥

वानरयूथपतियों ने देखा कि, लङ्का राक्षसों से खचाखच भरी हुई है । प्राकार की दीवारों तथा बुर्जों पर चढ़ी हुई नीले रंग की पोशाक (वर्दी) पहिने हुए, निशाचरों की श्रेणी ऐसी जान पड़ती थी; मानों परकोटे की दीवार के ऊपर दूरे परकोटे की दीवार

खड़ी हो । उन सब वानरों ने यह भी देखा कि, वे सब राक्षस युद्ध करने को तैयार हैं । तब तो श्रीरामचन्द्र जी के सामने ही वे वानरश्रेष्ठ विविध प्रकार की बोलियों बोल कर, सिंहनाद करने लगे ॥ १६ ॥ १७ ॥

ततोऽस्तमगमत्सूर्यः सन्ध्यया प्रतिरञ्जितः ।

पूर्णचन्द्रप्रदीप्ता च क्षपा समभिवर्तते ॥ १८ ॥

तदनन्तर भगवान् सूर्य अस्ताचलगामी हुए और रक्तवर्ण सन्ध्या आ उपस्थित हुई । उस समय पूर्णमासी के चन्द्र से भूपित रात्रि का प्रादुर्भाव हुआ ॥ १८ ॥

ततः स रामो हरिवाहिनीपतिः

विभीषणेन प्रतिनन्द्य सत्कृतः ।

सलक्ष्मणो यूथपयूथसंवृतः


सुबेलपृष्ठे न्यवसद्यथासुखम् ॥१९॥

इति अष्टत्रिंशः सर्गः ॥

तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी कपिसेनापतियों और विभीषण से पूजित और सम्मानित हो कर, लक्ष्मण जी के साथ सुबेलपर्वत के शिखर पर सुख से बसे ॥ १९ ॥

युद्धकाण्ड का अड़तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

एकोनचत्वारिंशः सर्गः



तां रात्रिमुषितास्तत्र सुवेले हरिपुङ्गवाः ।

लङ्कायां ददृशुर्वीरा वनान्युपवनानि च ॥ १ ॥

वानरयूथपतियों ने सुवेलपर्वत के शिखर पर, उस रात को-
विता कर, लङ्कापुरी के समस्त वनों और उपवनों को देखा ॥१॥

समसौम्यानि रम्याणि विशालान्यायतानि च ।

दृष्टिरम्याणि ते दृष्ट्वा बभूवुर्जातविस्मयाः ॥ २ ॥

वे वन उपवन चौरस, सुन्दर, रमणीक, विशाल, चौड़े तथा
नेत्रों को सुख देने वाले थे । उनको देख, वे वानरयूथपति विस्मित
हुए ॥ २ ॥

चम्पकाशोकपुन्नागसालतालसमाकुला ।

तमालवनसंछन्ना नागमालासमावृता ॥ ३ ॥

वे वन उपवन चम्पा, अशोक, मौलसिरी, साखू और ताड़
वृक्षों से परिपूर्ण थे और तमाल के वृक्षों के वन से व्याप्त और
नागकेसर के पेड़ों से घिरे हुए थे ॥ ३ ॥

हिन्तालैरर्जुनैर्नैर्नैः सप्तपर्णैश्च पुष्पितैः ।

तिलकैः कर्णिकारैश्च पाटलैश्च समन्ततः ॥ ४ ॥

उनमें चारों ओर हिन्ताल, अर्जुन, कदम्ब, तिलन्द, कर्णिकार
(कठचम्पा) व पाटल आदि के अच्छे फूले हुए वृक्ष लगे हुए
थे ॥ ४ ॥

शुशुभे पुष्पिताग्रैश्च लतापरिगतैर्द्रुमैः ।

लङ्कां बहुविधैर्दिव्यैर्यथेन्द्रस्यामरावती ॥ ५ ॥

लताओं से लिपटे हुए ये वृक्ष कलियों से सुशोभित थे । उनसे लङ्का की ऐसी शोभा हो रही थी, जैसी इन्द्र की अमरावती की हो ॥ ५ ॥

विचित्रकुसुमोपेतै रक्तकोमलपल्लवैः ।

शाद्वलैश्च तथा नीलैश्चित्राभिर्वनराजिभिः ॥ ६ ॥

रंगविरंगे फूलों से, लाल लाल पत्तों से, मन हरने वाले वृक्षों से हरी हरी दूब से और रंगविरंगी वृक्षावली से, उस भूमि की अपूर्व शोभा हो रही थी ॥ ६ ॥

गन्धाढ्यान्यभिरम्याणि पुष्पाणि च फलानि च ।

धारयन्त्यगमास्तत्र भूषणानीव मानवाः ॥ ७ ॥

जैसे मनुष्य भूषणों से भूषित या शोभायमान होते हैं, वैसे ही वहाँ के वृक्ष गन्धयुक्त सुन्दर फूलों और फलों को धारण किए हुए शोभायमान जान पड़ते थे ॥ ७ ॥

तच्चैत्ररथसङ्काशं मनोज्ञं नन्दनोपमम् ।

वनं सर्वर्तुकं रम्यं शुशुभे पट्पदायुतम् ॥ ८ ॥

लङ्का के वे वन चैत्ररथ वन के तुल्य अथवा मनोहर नन्दन कानन की तरह सब ऋतुओं में रमणोक्त थे और भारों की मधुर गुंजार से मन को मोहित किआ करते थे ॥ ८ ॥

नत्यूहकोयष्टिभकैर्नृत्यमानैश्च वर्हिभिः ।

रुतं परभृतानां च शुश्रुवुर्वननिर्भरे ॥ ९ ॥

उनमें भरनों के तटों पर चकई चकवा, जलमुर्ग, मोर कोकिल
आदि पक्षी नाच नाच कर चिहक रहे थे ॥ ६ ॥

नित्यमत्तविहङ्गानि भ्रमराचरितानि च ।

कोकिलाकुलपण्डानि* विहङ्गाभिरुतानि च ॥१०॥

सदा ही मतवाले पक्षियों से युक्त, भौरों से परिपूर्ण, कोइलों
से सेवित, वृत्तों से पूर्ण तथा विविध प्रकार के पक्षियों से कूजित
वे वन थे ॥ १० ॥

भृङ्गराजाभिगीतानि भ्रमरैः सेवितानि च ।

कोणालकविघुष्टानि सारसाभिरुतानि च ॥ ११ ॥

भृङ्गराज पक्षी उनमें मधुर गान और भौरों गुजार कर रहे
थे । खञ्जन पक्षियों की बोली से वे सुहावने हो रहे थे । उनमें
सारस पक्षी बोल रहे थे ॥ ११ ॥

विविशुस्ते ततस्तानि वनान्युपवनानि च ।

हृष्टाः प्रमुदिता वीरा हरयः कामरूपिणः ॥ १२ ॥

इस प्रकार के सुशोभित उन वनों और उपवनों में, कामरूपी
वीर वानर, प्रसन्न हो कर, घुस गए ॥ १२ ॥

तेर्पा प्रविशतां तत्र वानराणां महौजसाम् ।

पुष्पसंसर्गसुरभिर्ववै घ्राणसुखोऽनिलः ॥ १३ ॥

उन महातेजस्वी वानरों के घुसते समय, पुष्पों की सुगन्ध से
युक्त और ताक को सुख देने वाली हवा बहने लगी ॥ १३ ॥

अन्ये तु हरिषीराणां यूथान्निष्क्रम्य यूथपाः ।

सुग्रीवेणाभ्यनुज्ञाता लङ्कां जग्मुः पताकिनीम् ॥१४॥

* पाठान्तरे०--“खण्डानि ।” १ पण्डाः—वृक्षसमूहाः । (गो०)

वानरी सेना के कुछ यूथपति, सैन्यदल से निकल कर, कपि-
राज की आज्ञा के अनुसार, ध्वजा पताकाओं से सुशोभित लङ्का
में घुस गए ॥ १४ ॥

वित्रासयन्तो विहगांस्त्रासयन्तो मृगद्विपान् ।

कम्पयन्तश्च तां लङ्कां नादैस्ते नदतां वराः ॥१५॥

वे गर्जने वालों में श्रेष्ठ वानरयूथपति पक्षियों, मृगों और
हाथियों को त्रस्त करते तथा लङ्का को कम्पायमान करते हुए
सिंहनाद करने लगे ॥ १५ ॥

कुर्वन्तस्ते महावेगा महीं चरणपीडिताम् ।

रजश्च सहसैवोर्ध्वं जगाम चरणोत्थितम् ॥ १६ ॥

वे पृथिवी पर पैर पटकते हुए ऐसे जोर से चले कि, धूल उड़
कर सहसा सारे आकाश में छा गई ॥ १६ ॥

ऋक्षाः सिंहा वराहाश्च महिषा वारणा मृगाः ।

तेन शब्देन वित्रस्ता जग्मुर्भीता दिशो दश ॥१७॥

रीछ, सिंह, वराह, भैसे, हाथी और हिरन उनके इस गर्जन
तर्जन से भयभीत हो, चारों ओर भाग गए ॥ १७ ॥

शिखरंत तूत्रिकूटस्य प्रांशु चैकं दिविस्पृशम् ।

समन्तात्पुष्पसंछन्नं महारजतसन्निभम् ॥ १८ ॥

त्रिकूटाचल पर्वत का एक शृङ्ग आकाशस्पर्शी था । उसके
चारों ओर फूल लगे हुए थे । वह खरी चोंदी के समान दमक
रहा था ॥ १८ ॥

शतयोजनविस्तीर्णं विमलं चारुदर्शनम् ।

श्लक्ष्णं श्रीमन् महच्चैव दुष्प्रापं शकुनैरपि ॥१९॥

वह सौ योजन तक फैला हुआ था। बड़ा स्वच्छ साफ था और देखने में बड़ा मनोहर था। वह सुन्दर शिखर इतना ऊँचा था कि, कोई पत्नी भी उड़ कर उसके ऊपर नहीं पहुँच पाता था ॥१९॥

मनसाऽपि दुरारोहं किं पुनः कर्मणा जनैः ।

निविष्टा तत्र शिखरे लङ्का रावणपालिता ॥२०॥

उस पर जब कल्पना द्वारा भी चढ़ना सम्भव न था, तब क्रियात्मक रूप से उसके ऊपर कौन चढ़ सकता था। उसी शिखर के ऊपर रावण द्वारा पालित लङ्का बसाई गई थी ॥ २० ॥

शतयोजनविस्तीर्णा त्रिंशद्योजनमायता ।

सा पुरी गोपुरैरुच्चैः पांडुराम्बुदसन्निभैः ॥२१॥

वह लङ्का सौ योजन लंबी और तीस योजन चौड़ी थी। उसके बड़े ऊँचे ऊँचे गोपुरद्वार सफेद बादलों की तरह जान पड़ते थे ॥२१॥

काञ्चनेन च सालेन१ राजतेन च शोभिता ।

प्रासादैश्च विमानैश्च लङ्का परमभूषिता ॥ २२ ॥

वह सुवर्ण और चाँदी के परकोटे से शोभित थी। बड़े बड़े भवनों और सतखनी हवेलियों से लङ्का की वैसी ही परम शोभा हो रही थी ॥ २२ ॥

घनैरिवातपापाये मध्यमं वैष्णवं पदम् २ ।

यस्यां स्तम्भसहस्रेण प्रासादः समलंकृतः ॥२३॥

जैसी कि, ग्रीष्मऋतु के अन्त में, मेघों की धाराओं से आकाश की परम शोभा होती है। लङ्का में एक ऐसा भवन था, जिसकी शोभा एक सहस्र खम्भों से हो रही थी ॥ २३ ॥

१ सालेन—प्राकारेण । (गो०) २ आकाश-वैष्णवपद । (गो०)

कैलासशिखराकारो दृश्यते खमियोल्लिखन् ।

चैत्यः स राक्षसेन्द्रस्य बभूव पुरभूषणम् ॥ २४ ॥

वह कैलासशिखर के आकार का या उसके समान ऊँचा था और आकाश को छूना हुआ सा जान पड़ता था । राक्षसराज रावण का वह भवन लङ्कापुरी का एक भूषण सा था ॥ २४ ॥

शतेन रक्षसां नित्यं यः समग्रेण रच्यते ।

मनोज्ञां काननवर्ती पर्वतरूपशोभिताम् ॥ २५ ॥

नानाधातुविचित्रैश्च उद्यानैरुपशोभिताम् ।

नानाविहगसंघुष्टां नानामृगनिषेविताम् ॥ २६ ॥

उसकी रक्षा सैकड़ों राक्षस सदा किया करते थे। वाग वगीचों से लङ्कापुरी बड़ी मनोहर हो रही थी और रंगविरंगी धातुओं से युक्त पर्वतों से वह शोभित थी । इसमें बीच बीच में रमने (उद्यान) बने हुए थे, जिनमें अनेक प्रकार के पक्षी बोला करते थे और, मृग विचरा करते थे ॥ २५ ॥ २६ ॥

नानाकुसुमसम्पन्नां नानाराक्षसेविताम् ।

तां समृद्धां समृद्धार्थां लक्ष्मीवाञ्छलक्ष्मणाग्रजः ।

रावणस्य पुरीं रामो ददर्श सह वानरैः ॥ २७ ॥

उन उद्यानों में तरह तरह के फूल खिल रहे थे । अनेक राक्षसों से सेवित इस उन्नत और समस्त पदार्थों से भरी पूरी रावण की लङ्कापुरी को, लक्ष्मण के बड़े भाई एवं कान्तिमान् श्रीरामचन्द्रजी ने और वानरों ने देखा ॥ २७ ॥

१ समृद्धां-उन्नता । (गो०) २ समृद्धार्थम्-समृद्धव्यां । (गो०)

* पाठान्तरे-“ नाना काननसन्तानां.” वा “नानागृहत्वमार्कण्ड्यां ।”

तां महागृहसम्वाधां दृष्ट्वा लक्ष्मणपूर्वजः ।

नगरीयमरप्रख्यो विस्मयं प्राप्त वीर्यवान् ॥ २८ ॥

लक्ष्मण के दड़े भाई बलवान् श्रीरामचन्द्र, बड़े-बड़े ऊँचे भवनों से युक्त एवं अमरावती सदृश उस लङ्कापुरी को देख, विस्मित हुए ॥ २८ ॥

तां श्रत्नपूर्णां बहुसंविधानांः

प्रासादमालाभिरलंकृतां च ।

पुरीं महायन्त्रकवाटमुख्यां

ददर्श रामो महता बलेन ॥ २९ ॥

इति एकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥

इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी ने वानरों की महती सेना सहित सुबेल पर्वत पर बैठे ही बैठे, उस लङ्कापुरी को देखा, जो श्रेष्ठ वस्तुओं से भरी पुरी थी, जो पुरी की रक्षा के लिए नियत किए हुए सैनिकों से पूर्ण थी, जो ऊँचे-ऊँचे भवनों की श्रेणियों से अलंकृत थी और जो बड़ी बड़ी कलों और फाटकों (किवाड़ों) से युक्त थी ॥ २९ ॥

युद्धकाण्ड का उन्तालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—*—

चत्वारिंशः सर्गः

—*—

ततो रामः सुबेलाग्रं योजनद्वयमण्डलम् ।

आरुरोह ससुग्रीवो हरियूथपसंवृतः ॥ १ ॥

दो योजन के घेरे में व्याप्त उस सुवेलपर्वत के शिखर पर सुग्रीव तथा वानरयूथपतियों को साथ लिए हुए श्रीरामचन्द्र जी चढ़ गए ॥ १ ॥

स्थित्वा मुहूर्तं तत्रैव दिशो दश विलोकयन् ।

त्रिकूटशिखरे रम्ये निर्मितां विश्वकर्मणा ॥ २ ॥

वहाँ एक घड़ी ठहर, चारों ओर दृष्टि डाल उन्होंने देखा । रमणीय त्रिकूटाचल के शृङ्ग पर विश्वकर्मा की बनाई हुई ॥ २ ॥

ददर्श लङ्कां सुन्यस्तां रम्यकाननशोभिताम् ।

तस्यां गोपुरशृङ्गस्थं राक्षसेन्द्रं दुरासदम् ॥ ३ ॥

लङ्का को श्रीरामचन्द्र जी ने देखा । लङ्कापुरी बड़ी सुन्दर रीति से बसाई गई थी और बड़े रमणीक काननों से सुशोभित थी । उसके फाटक के शिखर पर दुर्धर्ष रावण बैठा हुआ था ॥३॥

श्वेतचामरपर्यन्तं विजयच्छत्रशोभितम् ।

रक्तचन्दनसंलिप्तं रत्नाभरणभूषितम् ॥ ४ ॥

उसके साथे पर विजयसूचक छत्र तना हुआ था, उसके अगल वगल दो सफेद चँवर डुलाए जा रहे थे । उसके शरीर में लाल चन्दन लगा हुआ था और वह रत्नजटित आभूषण पहिने हुए था ॥ ४ ॥

नीलजीमूतसङ्काशं हेमसंछादिताम्वरम् ।

ऐरावतविषाणग्रैरुत्कृष्टकिणवत्तसम् ॥ ५ ॥

नील मेघ की तरह उसके शरीर की कान्ति थी और वह जूरे-दोजी (कलावत्तू) के काम के कपड़े पहिने हुए था । उसकी छाती में ऐरावत हाथी के दाँत लगाने का चिह्न था ॥ ५ ॥

शशलोहितरागेण संवीतं रक्तवाससा ।

सन्ध्यातपेन संशीतं मेघराशिमिवाम्बरे ॥ ६ ॥

उसकी पोशाक खरगोश के रक्त की तरह लाल रंग की थी । इस सजावट से वह ऐसा जान पड़ता था, मानों सन्ध्याकालीन धूप से ढकी हुईं मेघघटाएँ ॥ ६ ॥

पश्यतां वानरेन्द्राणां राघवस्यापि पश्यतः ।

दर्शनाद्राक्षसेन्द्रस्य सुग्रीवः सहसोत्थितः ॥ ७ ॥

इस प्रकार के राक्षसराज रावण को सुग्रीव ने तथा श्रीरामचन्द्र जी ने भी देखा । किन्तु रावण को देख सुग्रीव से न रहा गया और वे सहसा उठ खड़े हुए ॥ ७ ॥

क्रोधवेगेन संयुक्ताः सत्त्वेन च बलेन च ।

अचलाग्रादथोत्थाय पुप्लुवे गोपुरस्थले ॥ ८ ॥

सुग्रीव, क्रुद्ध हों तथा अपने बल पराक्रम से उत्साहित हो, पर्वतशिखर से छलांग मार, उस पाटक के ऊपर जा पहुँचे (जहाँ-रावण बैठा हुआ था) ॥ ८ ॥

स्थित्वा मुहूर्तं सम्प्रेक्ष्य निर्भयेनान्तरात्मना ।

तृणीकृत्य च तद्रक्षः सोऽब्रवीत्परुषं वचः ॥ ९ ॥

वहाँ पहुँच सुग्रीव कुछ देर तक निर्भय हो, रावण की ओर टकटकी बाँध देखते रहे । फिर रावण को तिनके के समान समझ अर्थात् तिरस्कारपूर्वक उससे कठोर वचन कहने लगे ॥९॥

लोकनाथस्य रामस्य सखा दासोऽस्मि राक्षस ।

न मया मोक्ष्यसेऽद्य त्वं पार्थिवेन्द्रस्य तेजसा ॥१०॥

अरे राजस ! मैं त्रिलोकीनाथ श्रीरामचन्द्र का मित्र और दास भी हूँ । राजेन्द्र श्रीरामचन्द्र जी के प्रताप से तू आज मुझसे बच कर न जा पाएगा ॥ १० ॥

इत्युक्त्वा सहस्रोत्पत्य पुप्लुवे तस्य चोपरि ।

आकृष्य मुकुटं चित्रं पातयित्वाऽपतद्भुवि ॥ ११ ॥

यह कह सुग्रीव सहसा छलांग मार रावण के ऊपर जा पहुँचे और रावण के सिर से उसका विचित्र मुकुट उतार कर, ज़मीन पर पटक दिआ ॥ ११ ॥

समीक्ष्य तूर्णमायान्तमावभापे निशाचरः ।

सुग्रीवस्त्वं परोक्षं मे हीनग्रीवो भविष्यसि ॥ १२ ॥

मुकुट गिरा कर उनको फिर भी फुर्ती के साथ अपने ऊपर झपटते देख, रावण ने कहा—सुग्रीव जब तक तू मेरे नेत्रों की आड़ में था तभी तक तू सुग्रीव था, पर अब तू हीनग्रीव हो जायगा ॥१२॥

इत्युक्त्वोत्थाय तं क्षिप्रं बाहुभ्यामाक्षिपत्तले ।

कन्दुवत् स सगुत्थाय बाहुभ्यामाक्षिपद्दरिः ॥ १३ ॥

यह कह रावण उठा और हाथों से पकड़ सुग्रीव को ज़मीन पर दे पटका । सुग्रीव ने गैँड़ की तरह उछल कर और रावण को पकड़ कर, उसे ज़मीन पर पटक दिआ ॥ १३ ॥

परस्परं स्वेदविदिग्धगात्रौ

परस्परं शोणितदिग्धदेहौ ।

परस्परं श्लिष्टनिरुद्धचेष्टौ

परस्परं शान्मलिकिंशुकौ यथा ॥ १४ ॥

जब वे दोनों इस प्रकार एक दूसरे से लड़ने लगे तब दोनों के शरीर पसीना व रुधिर से तर बतर हो गए । वे एक दूसरे से लिपट जाते थे और कुछ काल के लिए दोनों चेष्टारहित (भी) हो जाते थे । खून से लथपथ वे सेमर और ढाक के पेड़ की तरह देख पड़ते थे ॥ १४ ॥

मुष्टिप्रहारैश्च तलप्रहारै-

ररत्तिघातैश्च कराग्रघातैः ।

तौ चक्रतुर्युद्धमसह्यरूपं

महावलीवानरराक्षसेन्द्रौ ॥ १५ ॥

महावली वानरराज और राक्षसराज एक दूसरे को घुँसों से, थप्पड़ों से और कोहनियों की मार से वेदम कर, युद्ध कर रहे थे ॥ १५ ॥

कृत्वा नियुद्धं भृशमुग्रवेगौ

कालं चिरं गोपुरवेदिमध्ये ।

उत्क्षिप्य खाक्षिप्य विनम्य देहौ

पादक्रमाद्गोपुरवेदिलग्नौ ॥ १६ ॥

फाटक की छत पर इस तरह वे दोनों उग्र पराक्रमी बहुत देर तक युद्ध करते रहे । हाथापाई करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची कि, कभी रावण सुग्रीव को और कभी सुग्रीव रावण को पकड़ कर, ऊपर उछाल देता था । कभी कभी पैतरे बदलते हुए दोनों, कुछ देर के लिए, एक दूसरे की घात में खड़े हो जाते थे ॥ १६ ॥

अन्यान्यमाधिध्य विलग्नदेहौ

तौ पेततुः सालनिखातमध्ये ।

उत्पेततुर्भूतलमस्पृशन्तौ

स्थित्वा मुहूर्तं त्वभिनिश्वसन्तौ ॥ १७ ॥

दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे से लिपटे हुए परकोटे की खाँई में गिर पड़े । किन्तु खाँई की तली में पहुँचने के पूर्व वे दोनों उछल कर, पुनः ऊपर आए और ऊपर आ कर कुछ देर तक दम लेते हुए खड़े रहे ॥ १७ ॥

आलिङ्ग्य चावल्ग्य च बाहुयोक्त्रैः

संयोजयामासतुराहवे तौ ।

संरम्भशिञ्जावलसम्प्रयुक्तौ ।

सञ्चरतुः सम्प्रति युद्धमार्गैः ॥ १८ ॥

तदनन्तर फिर उन दोनों की भिड़न्त हुई और दोनों में हाथापाई होने लगी । आवेश में भर वे अपने अपने (मल्लयुद्ध के) अभ्यास और (शारीरिक) शक्ति को दिखाते हुए एक दूसरे को पकड़ने की घात में लगे हुए घूम रहे थे ॥ १८ ॥

शार्दूलसिंहाविव जातदपैौ

गजेन्द्रपोताविव सम्प्रयुक्तौ ।

संहत्य चापीडय च तावुरोभ्यां

निपेततुर्वै युगपद्भरण्याम् ॥ १९ ॥

शार्दूल और सिं. ी तरह वे बल से दर्पित हो रहे थे । हाथी के पाठों की तरह वे दोनों भिड़ जाते थे और घुटनों की ठोकरें एक दूसरे के जमाते हुए, दोनों ही पृथिवी पर गिर जाते थे ॥ १९ ॥

उद्यम्य चान्योन्यमधिक्षिपः

सञ्चक्रमाते बहुयुद्धमार्गैः ।

व्यायामशिचावलसम्प्रयुक्तौ

ल्कमं न तौ जग्मतुराशु वीरौ ॥ २० ॥

एक दूसरे को उठा उठा कर पटक देते थे और दोनों ही उठ उठ कर वहाँ चक्कर लगाने लगते थे । क्योंकि दोनों ही मल्लयुद्ध-विद्या में अभ्यस्त होने के कारण पर्याप्त बलसम्पन्न थे । इसीसे वे दोनों वीर शीघ्र थके भी नहीं थे ॥ २० ॥

बाहूनामैवीरणावारणाभैः

निवारयन्तौ वरवारणाभौ ।

चिरेण कालेन तु सम्प्रयुक्तौ

सञ्चरेतुर्मण्डलमार्गमाशु ॥ २१ ॥

मतवाले हाथियों की सूँड़ों की तरह अपने हाथों से एक दूसरे को रोकते हुए, वे बहुत देर तक कुश्ती लड़ कर, मण्डलाकार हो, लड़ने लगे ॥ २१ ॥

तौ परस्परमासाद्य यत्तावन्योन्यसृदने ।

मार्जारविष भक्षार्थे वितस्थाते मुहुर्मुहुः ॥ २२ ॥

किसी खाद्य पदार्थ के लिए लड़ने वाले दो विलारों की तरह, वे दोनों आपस में एक दूसरे की ओर निश्चल भाव से खड़े हुए चक्कर लगाते थे ॥ २२ ॥

मण्डलानि विचित्राणि स्थानानि विविधानि च ।

सोमूत्रिकाणि चित्राणि गतप्रत्यागतानि च ॥ २३ ॥

तिरश्चीनगतान्येव तथा वक्रगतानि च ।

परिमोक्षां प्रहाराणां वर्जनं परिधावनम् ॥ २४ ॥

अभिद्रवणमाप्लावमास्थानं च सविग्रहम् ।

परावृत्तमपावृत्तमवद्भुतमवप्लुतम् ॥ २५ ॥

उपन्यस्तमपन्यस्तं युद्धमार्गविशारदौ ।

तौ सञ्चरेतुरन्योन्यं वानरेन्द्रश्च रावणः ॥ २६ ॥

वे कभी विचित्र रीति से चक्कर काट, कभी पैरों को तिरछे रख, कभी टेढ़ी मेढ़ी चाल से, कभी बैँड़े हो कर, कभी चक्कर काट कर, कभी वार वचा कर, कभी दौड़ कर, कभी उछल कर, कभी घात लगा कर खड़े रह कर, कभी पीछे देखते हुए चल कर, कभी घुटनों के बल परस्पर समीप खड़े रह कर, कभी लात मारने के लिए उछल कर, कभी बाहों की पकड़ बचाने को छाती फुजा और आगे कर के, कभी शत्रु की भुजाओं को पकड़ने के लिए हाथों को फैना कर, वे दोनों मल्लयुद्ध विशारद वानरराज और राक्षसराज, घूम घूम कर लड़ रहे थे ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥

एतस्मिन्नन्तरे रक्षो मायाबलमथात्मनः ।

आरब्धुमुपसम्पेदे ज्ञात्वा तं वानराधिपः ॥२७ ॥

इतने में रावण ने अपना कुछ मायाजाल रचना चाहा, जिसे वानरराज सुग्रीव तुरन्त ताड़ गए ॥ २७ ॥

उत्पपात तदाकाशं श्रजितकाशी जितन्कमः ।

रावणः स्थित एवात्र हरिराजेन वञ्चितः ॥ २८ ॥

तब तो पूरी दम रखने वाले एवं विजयी सुग्रीव ने वहाँ से ऊपर को छलाँग मारी । रावण भौंचक सा खड़ा देखता ही रह गया । कपिराज ने उसे खूब छकाया ॥ २८ ॥

अथ हरिवरनाथः प्राप्य संग्रामकीर्तिः

निश्चिचरपतिमाजौ योजयित्वा श्रमेण ।

गगनमतिविशालं लङ्घयित्वाऽर्कसूनुः

हरिवरगणमध्ये रामपार्श्वे जगाम ॥२६॥

इस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने बल लगा कर, राक्षसराज रावण को थका डाला और इस प्रकार विजय रूपी कीर्ति प्राप्त कर, फिर सूर्यपुत्र सुग्रीव विशाल आकाश को लाँघ कर, वानरों के बीच बैठे हुए श्रीरामचन्द्र जी के पाप आ पहुँचे २६ ॥

‘इति स सवितृसूनुस्तत्र तत्कर्म कृत्वा

पवनगतिरनीकं प्राविशत्सम्प्रहृष्टः ।

रघुवरनृपसूनोर्वर्धयन्पृथ्वीहर्ष

तरुमृगगणमुख्यैः पूज्यमानो हरीन्द्रः ॥३०॥

इति चत्वारिंशः सर्गः ॥

इस प्रकार सूर्यपुत्र सुग्रीव ने लङ्का में जा वहाँ यह करनी कर, हर्षित हो पवनवेग से लौट और वानरयूथपतियों से सम्मानित हो, राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी को इस मल्लयुद्ध का वृत्तान्त सुना, उनको हर्षित किया ॥ ३० ॥

युद्धकाण्ड का चालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

एकचत्वारिंशः सर्गः

—❀—

अथ तस्मिन्निति तानि दृष्ट्वा लक्ष्मणपूर्वजः ।

सुग्रीवं सम्परिप्लव्य तदा वचनमब्रवीत् ॥ १ ॥

लक्ष्मण के ज्येष्ठभ्राता श्रीरामचन्द्र जी ने सुग्रीव के शरीर पर युद्ध के चिह्न अर्थात् घाव देख और उन्हें अपने गले से लगा कर उनसे कहा ॥ १ ॥

असम्मन्य मया सार्धं तदिदं साहसं कृतम् ।

एवं साहसकर्माणि न कुर्वन्ति जनेश्वराः ॥ २ ॥

हे मित्र ! तुमने मुझसे परामर्श किए बिना ही जैसे दुस्साहस का यह काम किया है, वैसा दुस्साहस का काम राजा लोगों को करना उचित नहीं ॥ २ ॥

संशये स्थाप्य मां चेदं बलं च सविभीषणम् ।

कण्ठं कृतमिदं वीर साहसं साहसप्रिय ॥ ३ ॥

हे साहसप्रिये ! हे वीर ! मुझे, विभीषण वो तथा समस्त वानरी सेना को चिन्ता में डाल, तुमने यह जोखों का काम किया है ॥ ३ ॥

इदानीं मा कृथा वीर एवंविधमचिन्तितम् ।

त्वयि किञ्चित्समाप्त्ने किं कार्यं सीतया मम ॥ ४ ॥

हे वीर ! इस प्रकार बिना समझे वृत्ते फिर कोई काम मत करना । कहीं तुम्हारा कुछ भी अनभल हो जाता तो, मैं सीता को लेकर ही क्या करता ? ॥ ४ ॥

भरतेन महाबाहो लक्ष्मणेन यवीयसा ।

शत्रुघ्नेन च शत्रुघ्न स्वशरीरेण वा पुनः ॥ ५ ॥

हे महाबाहो ! यदि तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आ जाती, तो भरत से, लक्ष्मण से तथा शत्रुहन्ता लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न से और अपने शरीर ही से मैं क्या करता ॥ ५ ॥

त्वयि चानागते पूर्वमिति मे निश्चिता मतिः ।

जानतश्चापि ते वीर्यं महेन्द्रवरुणोपम ॥ ६ ॥

हत्वाऽहं रावणं युद्धे सपुत्रवलवाहनम् ।

अभिषिच्य च लङ्कायां विभीषणमथापि च ॥ ७ ॥

भरते राज्यमावेश्य त्यज्ये देहं महाबल ।

तमेवंवादिनं रामं सुग्रीवः प्रत्यभाषत ॥ ८ ॥

यद्यपि मैं जानता हूँ कि, तुममें इन्द्र और वरुण के समान पराक्रम है, तथापि जब तक तुम नहीं लौटे थे, तब तक मैंने यही अपने मन में निश्चय कर रखा था कि, युद्ध में पुत्र, सेना और वाहनों सहित रावण को मार कर, मैं विभीषण को लङ्का के राजसिंहासन पर बैठाऊँगा । हे महाबली ! तदनन्तर अयोध्या में जा और वहाँ के राजसिंहासन पर भरत जी को बैठा, मैं अपना शरीर त्याग दूँगा । इस प्रकार कहते हुए श्रीरामचन्द्र जी से सुग्रीव बोले ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥

तव भार्यापहर्तारं दृष्ट्वा राघवरावणम् ।

मर्षयामि कथं वीर जानन्पौरुषमात्मनः ॥ ९ ॥

हे राघव ! तुम्हारी स्त्री को हरने वाले रावण की सूरत देख, और अपना पौरुष जान कर, मैं कैसे रह सकता था ॥ ९ ॥

इत्येवंवादिनं वीरमभिनन्द्य स राघवः ।

लक्ष्मणं लक्ष्मिसम्पन्नमिदं वचनमब्रवीत् ॥ १० ॥

सुग्रीव के ऐसा कहने पर, उनकी वड़ाई करते हुए श्रीराम-चन्द्र जी कान्तिवान् लक्ष्मण जी से बोले ॥ १० ॥

परिगृह्योदकं शीतं वनानि फलवन्ति च ।

बलौघं संविभज्येमं व्यूह त्रिष्टेम लक्ष्मण ॥ ११ ॥

हे लक्ष्मण ! जहाँ सुन्दर शीतल जल हो और जहाँ पर फलों से भरे पूरे वन हों, वहाँ पर इस सेना को ठहरा कर व्यूह रचना चाहिए ॥ ११ ॥

लोकक्षयकरं भीमं भयं पश्याम्युपस्थितम् ।

निवर्हणं प्रवीराणामृक्षवानररक्षसाम् ॥ १२ ॥

सुमे जान पड़ता है कि, लोकक्षयकारी बड़ा भयङ्कर युद्ध होने वाला है । अब भालुओं, वानरों और राक्षसों में बड़ा नाश होगा ॥ १२ ॥

वातश्च परुषा वान्ति कम्पते च वसुन्धरा ।

पर्वताग्राणि वेपन्ते पतन्ति धरणीरुहाः ॥ १३ ॥

देखो, हवा वेग से चल रही है, पृथिवी हिल रही है, पर्वत-शिखर काँप रहे हैं और पहाड़ टूट टूट कर गिर रहे हैं ॥ १३ ॥

मेघाः क्रव्यादसङ्काशाः परुषाः परुस्वनाः ।

क्रूराः क्रूरं प्रवपन्ति मिश्रं शोणितविन्दुभिः ॥ १४ ॥

आकाश में मेघ, हिंसक जन्तुओं की तरह कठोर शब्द कर रहे हैं और क्रूर मेघ, रक्तमिश्रित जलविन्दुओं की भयंकर वर्षा कर रहे हैं ॥ १४ ॥

रक्तचन्दनसङ्काशा सन्ध्या परमदारुणा ।

ज्वलच्च निपतत्येतदादित्यादग्निमण्डलम् ॥ १५ ॥

लाल चन्दन की तरह सन्ध्या ने अत्यन्त दारुण लाल रूप धारण किया है और आदित्यमण्डल से जलते हुए उल्का गिरते हैं ॥ १५ ॥

आदित्यमभिवाश्यन्ति जनयन्तो महद्भयम् ।

दीना दीनस्वरा घोरा अप्रशस्ता मृगद्विजाः ॥ १६ ॥

ये भयङ्कर रूप वाले एवं अमङ्गलरूपी मृग तथा पक्षी, वड़ा भय दिखलाते हुए, दीन हो और सूर्य की ओर मुख कर, रो रहे हैं ॥ १६ ॥

रजन्यामप्रकाशश्च सन्तापयति चन्द्रमाः ।

कृष्णरक्तांशुपर्यन्तो यथा लोकस्य संचये ॥ १७ ॥

रात में धुँधला चन्द्रमा निकलता है, जो जीवधारियों को सन्तप्त करता है और प्रलयकाल जैसा उसके चारों ओर काला और लाल रंग का घेरा दिखलाई पड़ता है ॥ १७ ॥

ह्रस्वो रूक्षोऽप्रशस्तश्च परिवेषः सुलोहितः ।

आदित्यमण्डले नीलं लक्ष्म लक्ष्मण दृश्यते ॥ १८ ॥

हे लक्ष्मण ! सूर्य के चारों ओर छोटा, रूखा और अमङ्गल रूप लाल कोर का काला घेरा देख पड़ता है ॥ १८ ॥

दृश्यन्ते न यथाग्रच्च नक्षत्राण्यभिवर्तते ।

युगान्तमिव लोकस्य पश्य लक्ष्मण शंसति ॥ १९ ॥

हे लक्ष्मण ! देखो, आकाश में उपस्थित होते हुए भी नक्षत्र ठीक ठीक नहीं देख पड़ते । यह होने वाले जीवधारियों के नाश की सूचना दे रहे हैं ॥ १९ ॥

काकाः श्येनास्तथा गृध्रा नीचैः परिपतन्ति च ।

शिवाश्चाप्यशिवा वाचः प्रवदन्ति महास्वनाः ॥२०॥

काक, वाज और गीध बार बार नीचे पृथिवी की ओर गिर गिर पड़ते हैं । सृगालियों (लोमड़ियाँ) उच्चस्वर से अशुभसूचक शब्द बोल रही हैं ॥ २० ॥

क्षिप्रमद्य दुराधर्षां लङ्कां रावणपालिताम् ।

अभियाम जवेनैव सर्वतो हरिभिर्वृताः ॥ २१ ॥

अतः चलो हम सब वानरी सेना को साथ ले रावण की दुर्धर्ष लङ्का पर तुरन्त आज ही बड़े वेग से चढ़ाई करें ॥ २१ ॥

इत्येवं संवदन् वीरो लक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजः ।

तस्माद्वातरच्छीर्षं पर्वताग्रात् महाबलः ॥ २२ ॥

वीरवर बलवान् श्रीरामचन्द्र जी, लक्ष्मण से इस प्रकार कह कर सुवेलपर्वत के शिखर से तुरन्त नीचे उतरे ॥ २२ ॥

अवतीर्य च धर्मात्मा तस्माच्छैलात्स राघवः ।

परैः परमदुर्धर्षं ददर्श बलमात्मनः ॥ २३ ॥

धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने उस पर्वत से नीचे उतर शत्रु से कभी परास्त न होने वाली अपनी सेना देखी ॥ २३ ॥

ऽसन्नह्य तु स सुग्रीवः र्कपिराजबलं महत् ।

कालज्ञो राघवः काले संयुगायाभ्यचोदयत् ॥ २४ ॥

१ संनह्य-प्रोत्साह्य । (गो०) २ कपिराजबलम्-कपिश्रेष्ठानां बलं ।

(गो०)

इसके बाद सुग्रीव और श्रीरामचन्द्र जी ने कपिश्रेष्ठों की उस सेना को उत्साहित कर और युद्ध का उचित समय जान, युद्ध करने के लिये आज्ञा दी ॥ २४ ॥

ततः काले महाबाहुर्वलेन महता वृतः ।

प्रस्थितः पुरतो धन्वी लङ्कामभिमुखः पुरीम् ॥ २५ ॥

तदनन्तर महाबाहु श्रीरामचन्द्र जी विजयसुहूर्त में महती वानरी सेना को साथ ले आगे आगे हाथ में धनुष लिए हुए लङ्कापुरी की ओर प्रस्थानित हुए ॥ २५ ॥

तं विभीषणसुग्रीवौ हनुमाञ्जाम्बवान्नलः ।

ऋक्षराजस्तथा नीलो लक्ष्मणश्चान्वयुस्तदा ॥ २६ ॥

उनके पीछे पीछे विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, नल, ऋक्षराज, नील और लक्ष्मण चले ॥ २६ ॥

ततः पश्चात्सुमहती पृतनर्द्वनौकसाम् ।

प्रच्छाद्य महतीं भूमिमनुयाति स्म राभवम् ॥ २७ ॥

श्रीरामचन्द्र जी के पीछे पीछे रीछ और वानरों की महती सेना पृथिवीके एक लंबे चौड़े भाग को छेक कर चली ॥ २७ ॥

शैलशृङ्गाणि शतशः प्रवृद्धांश्च महीरुहान् ।

जगृहः कुञ्जरप्रख्या वानराः परवारणाः ॥ २८ ॥

शत्रु की गति को रोकने वाले और हाथियों के समान डील डौल वाले वानर, युद्धयात्रा के समय सैकड़ों बड़े बड़े वृक्ष और पर्वतशिखर हाथों में लिए हुए थे ॥ २८ ॥

तौ तु दीर्घेण कालेन भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ।

रावणस्य पुरीं लङ्कामासेदतुररिन्दमौ ॥ २६ ॥

इस प्रकार शत्रुहन्ता दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण चलते चलते बहुत देर बाद रावण की लङ्कापुरी के समीप पहुँच गए ॥ २६ ॥

पताकमालिनीं रम्यामुद्यानवनशोभिताम् ।

१ चित्रवप्रां सुदुष्प्रापामुच्चैःप्राकारतोरणाम् ॥ ३० ॥

लङ्कापुरी अनेक ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थी—उद्यानों और उपवनों से शोभित होने के कारण बड़ी रमणीक जान पड़ती थी । चित्र समूहों से उसकी दीवारें व द्वार अलंकृत थे । उसके परकोटे की दीवारें और द्वार बड़े बड़े ऊँचे होने के कारण, उन तक पहुँचना अत्यन्त कठिन था ॥ ३० ॥

तां सुरैरपि दुर्धर्षीं रामवाक्यप्रचोदितः ।

यथानिवेशं सम्पीड्य न्यविशन्त वनौकसः ३१ ॥

देवताओं के लिए भी दुष्प्रवेश्य, लङ्कापुरी पर श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञा से वानर यथायोग्य स्थानों को अविकृत कर खड़ हो गए ॥ ३१ ॥

लङ्कायास्तूत्तरद्वारं शैलशृङ्गमिवोन्नतम् ।

रामः सहानुजो धन्वी जुगोप च रुरोध च ॥ ३२ ॥

लङ्का के उत्तरद्वार को जो पर्वतशिखर की तरह ऊँचा था रोक कर श्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मण सहित, धनुषबाण ले वानरी सेना की रक्षा करने लगे ॥ ३२ ॥

लङ्कापनिविष्टश्च रामो दशरथात्मजः ।

लक्ष्मणानुचरो वीरः पुरीं रावणपालिताम् ॥ ३३ ॥

दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जो ने वीर लक्ष्मण सहित रावण से रक्षित लङ्कापुरी को घेरा ॥ ३३ ॥

उत्तरद्वारमासाद्य यत्र तिष्ठति रावणः ।

नान्यो रामाद्धि तद्द्वारं समर्थः परिरक्षितुम् ॥ ३४ ॥

लङ्का के उत्तर द्वार को, जिसकी रक्षा स्वयं रावण कर रहा था, श्रीरामचन्द्र जो को छोड़ अन्य किसी को सामर्थ्य नहीं थी, जो उसे घेरता ॥ ३४ ॥

रावणाधष्ठितं भीमं वरुणेनेर सागरम् ।

सायुधैराक्षसैर्भीमैरभिगुप्तं समन्ततः ॥ ३५ ॥

आयुधधारी भयङ्कर राक्षसों को साथ लिये हुए रावण चारों ओर से उस द्वार की रक्षा उसी तरह कर रहा था जिस तरह समुद्र की रक्षा वरुण जी करते हैं ॥ ३५ ॥

लघूनां त्रासजननं पातालमिव दानवैः

विन्यस्तानि च योधानां बहूनि विविधानि च ॥ ३६ ॥

लङ्का का उत्तरद्वार, रावण के वहाँ रहने से ऐसा भयङ्कर जान पड़ता था, जैसा विविध और बहुत से अल्पवीर्यवान् दानवों द्वारा रक्षित पाताल भयंकर जान पड़ता है ॥ ३६ ॥

द्रदर्शयुधजालानि तत्रैव क्वचानि च ।

पूर्वं तु द्वारमासाद्य नीलो हरिचमूपतिः ॥ ३७ ॥

वानरों ने उस द्वार पर अस्त्रों के तथा कवचों के ढेर देखे ।
वानरसेनापति नील लङ्का के पूर्वद्वार पर ॥ ३७ ॥

अतिष्ठत्सह मैन्देन द्विविदेन च वीर्यवान् ।

अङ्गदो दक्षिणद्वारं जग्राह सुमहाबलः ॥ ३८ ॥

वीर्यवान् मैन्द और द्विविद् को साथ ले जा खड़ा हुआ ।
महाबली अङ्गद ने दक्षिण द्वार को जा घेरा ॥ ३८ ॥

ऋषभेण गवाक्षेण गजेन गवयेन च ।

हनुमान् पश्चिमद्वारं ररक्ष बलवान् कपिः ॥ ३९ ॥

इनके सहायक ऋषभ, गवाक्ष, गज, गवय, नामक वानर
थे । बलवान् वानर हनुमान् जी ने पश्चिमद्वार जा घेरा ॥ ३९ ॥

प्रमाथिप्रघसाभ्यां च वीरैरन्यैश्च सङ्गतः ।

मध्यमे च स्वयं गुल्मे सुग्रीवः समतिष्ठत् ॥ ४० ॥

इनके साथ प्रमाथि, प्रघस, प्रमुख अन्य वीर वानर थे ।
बीच में वानरराज सुग्रीव स्वयं खड़े हुए थे ॥ ४० ॥

सह सर्वैर्हरिश्रेष्ठैः सुपर्णश्वनोपमैः ।

वानराणां तु षट्त्रिंशत्कोटयः प्रख्यातयूथपाः ॥४१॥

वहाँ उनके साथ गरुड़ और वायु की तरह सब बड़े बड़े परा-
क्रमी वानरश्रेष्ठ थे । छत्तीस करोड़ प्रसिद्ध वानरयूथपति ॥४१॥

निपीडधोपनिविष्टाश्च सुग्रीवो यत्र वानरः ।

शासनेन तु रामस्य लक्ष्मणः सविभीषणः ॥ ४२ ॥

द्वारे द्वारे हरीणां तु कोटिं कोटिं न्यवेशयत् ।

१पश्चिमेन तु रामस्य सुग्रीवः सहजाम्बवान् ॥ ४३ ॥

अदूरात् मध्यमे गुल्मे तस्थौ बहुवलानुगः ।

ते तु वानरशार्दूलाः शार्दूला इव दंष्ट्रिणाः ।

भी उस स्थान को, जहाँ सुग्रीव थे, घेर कर युद्ध के लिए तैयार खड़े हुए थे । (अर्थात् ३६ करोड़ वानरी सेना (Reserve) थी और उस सेना के अतिरिक्त थी जो लङ्का के चारों द्वारों को घेरे हुए खड़ी थी ।) तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञा से विभीषणसहित लक्ष्मण ने लङ्का के हरेक द्वार पर एक एक करोड़ वानर और नियत कर दिए थे । श्रीरामचन्द्र जी के पीछे और बीच के मोर्चे के समीप जाम्बवान सहित सुग्रीव, बहुत सी सेना लिए खड़े हुए थे । शार्दूल के समान पैनी पैनी दाढ़ों वाले वानरश्रेष्ठ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

गृहीत्वा द्रुमशैलाग्रान् हृष्टा यद्वाय तस्थिरे ।

सर्वे विकृतलाङ्गूलाः सर्वे दंष्ट्रानखायुधाः ॥४५॥

वृक्षों तथा पर्वतशिखरों को हाथों में ले और प्रसन्न हो युद्ध की प्रतीक्षा करने लगे । वे सब के सब अपनी पूँछें ऊपर को उठाए हुए थे । वे सब के सब दाँतों और नखों से लड़ने वाले थे । अर्थात् उन सब के आयुध नख और दाँत थे ॥ ४५ ॥

सर्वे विकृतचित्राङ्गाः सर्वे च द्विकृताननाः ।

दशनागवलाः केचित्केचिद्दशगुणोत्तराः ॥ ४६ ॥

१ पश्चिमेन—आसन्नपृष्ठभागावष्टंमेन । (रा०) २ विकृतलाङ्गूलाः ऊर्ध्वप्रसारितपुच्छाः । (गो०) ३ विकृताननाः—राक्षसविडम्बनायकुटिलितमुखाः । (गो०)

मारे क्रोध के उन सब के मुख और नेत्र लाल लाल हो रहे थे और राक्षसों को चिढ़ाने के लिए वे उनको विरा रहे थे। उनमें से किसी किसी के शरीर में दश हाथियों का और किसी किसी के शरीर में सौ हाथियों का बल था ॥ ४६ ॥

केचिन्नागसहस्रस्य बभूवुस्तुल्यविक्रमाः ।

सन्ति चौधवलाः केचित्केचिच्छतगुणोचाराः ॥ ४७ ॥

इस प्रकार कोई कोई ऐसे भी वानर थे, जिनके शरीर में हजार हाथियों जितना बल पराक्रम था। किसी किसी में ओघ-संख्यक हाथियों का बल था और किसी किसी में सौ ओघसंख्यक हाथियों जितना बल था ॥ ४७ ॥

अप्रमेयबलाश्चान्ये तत्रासन्हरियूथपाः ।

अद्भुतश्च विचित्रश्च तेषामासीत्समागमः ॥ ४८ ॥

तत्र वानरसैन्यानां शलभानामिवोद्यमः ।

परिपूर्णमिवाकाशं संछन्नेव च मेदिनी ॥ ४९ ॥

लङ्कामुपनिविष्टैश्च सम्पतद्भिश्च वानरैः ।

शतं शतसहस्राणां पृथगृक्षवनीकसाम् ॥ ५० ॥

लङ्काद्वाराण्युपाजग्मुरन्ये योद्धुः समन्ततः ।

आवृतः स गिरिः सर्वैस्तैः समन्तात्प्लवङ्गमैः ॥ ५१ ॥

कोई कोई वानरयूथपति ऐसे भी थे, जिनके शरीर में अमित बल पराक्रम था। टिड्डीदल की तरह उस वानरी सेना का अद्भुत और विचित्र समागम था। लङ्का पर धावा बोलने वाले वानरों और रीछों से वहाँ की पृथ्वी और कूदते फँदते हुए वानरों

से वहाँ का आकाश भर गया था। इनके अतिरिक्त युद्ध की अभि-
लाषा किए हुए असंख्य वानर और रीछ लङ्का के द्वारों पर चारों
ओर से आ आ कर जमाव करने लगे। उस समय चित्रकूटाचल
पर्वत को वानरों ने चारों ओर से घेर लिया ॥४८॥४९॥५०॥५१॥

अयुतानां सहस्रं च पुरीं तामभ्यवर्तत ।

वानरैर्वलवद्धिश्च बभूव द्रुमपाणिभिः ॥ ५२ ॥

लाखों करोड़ों वानर और भालू लङ्का में जा उपास्थित हुए,
बलवान वानर हाथों में बड़े बड़े वृक्ष लेकर, ॥ ५२ ॥

संवृता सर्वतो लङ्का दुष्प्रवेशापि वायुना ।

राक्षसा विस्मयं जग्मुः सहसाऽभिनिपीडिताः १ ॥ ५३ ॥

वानरैर्मर्धसङ्काशैः शक्रतुल्यपराक्रमैः ।

महाजशब्दोऽभवत्तत्र बलौघस्याभिवर्ततः ॥ ५४ ॥

उस लङ्का को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए, जिसमें
घुसने की शक्ति वायु में भी न थी। मेघों के समान विशाल वपु-
धारी और इन्द्र के समान पराक्रमी वानरों द्वारा सहसा लङ्का के
घेरे जाने से राक्षस विस्मित हुए। वहाँ पर वानरी सेना एकत्रित
होने से ऐसा भयङ्कर शब्द हुआ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥

सागरस्येव रमिन्नस्य यथा स्यात्सलिलस्वनः ।

तेन शब्देन महता सप्राकारा सतोरणा ॥ ५५ ॥

लङ्का प्रचलिता सर्वा सशैलवनकानना ।

रामलक्ष्मणगुप्ता सा सुग्रीवेण च वाहिनी ॥ ५६ ॥

१ अभिनिपीडिताः—उपरुद्धाः । (गो०) २ भिन्नस्य भिन्नमर्यादस्य ।

जैसा कि, मर्यादा तोड़ने वाले समुद्र के पानी का होता है । उस भयङ्कर शब्द से परकोटा, तोरणद्वार; पर्वत, वन और उपवन सहित सारी लट्का काँप उठी ! उस समय श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण और सुग्रीव द्वारा रक्षित वह कपिसेना ॥ ५५ ॥ ५६ ॥

बभूव दुर्धर्षतरा सर्वैरपि सुरासुरैः ।

राघवः सन्निवेश्यैव सैन्यं स्वं रक्षसां वधे ॥ ५७ ॥

संमस्त सुरों और असुरों से भी अत्यन्त दुर्धर्ष हो गई । श्रीरामचन्द्र जी राक्षसों का वध करने के लिए इस प्रकार सेना स्थापित कर ॥ ५७ ॥

१सम्मन्थ मन्त्रिभिः सार्धं २निश्चित्य च पुनःपुनः ।

३आनन्तर्यमभिप्रेप्सुः ४ क्रमयोगार्थतत्त्ववित् ॥५८॥

साम दानादि उपायों को जानने वाले श्रीरामचन्द्र जी ने आगे कर्त्तव्य के सम्बन्ध में कुछ निर्णय करने की अभिलाषा से मंत्रियों से परामर्श किया और रावण के पास दूत भेजने का विचार कर अङ्गद को भेजना निश्चित किया ॥ ५८ ॥

विभीषणस्यानुमते राजधर्ममनुस्मरन् ।

अङ्गदं वालितनयं समाहूयेदमब्रवीत् ॥ ५९ ॥

फिर युद्ध आरम्भ करने के पूर्व शत्रु को दूत द्वारा युद्ध के लिए आमंत्रित करना उचित है—इस राजधर्मानुसार तथा विभीषण की सम्मत्यनुसार पालितनय अङ्गद को बुला कर श्रीरामचन्द्र जी ने उनसे यह कहा ॥ ५९ ॥

१ सम्मन्थ-दूतः प्रेषणीय इति विचार्य । (गो०) २ निश्चित्य-अंगद- एव प्रेषणीय इति निर्धार्य । (गो०) ३ आनन्तर्यम्—अनन्तर-कर्त्तव्यं । (गो०) ४ अभिप्रेप्सुः—प्राप्तुमिच्छुः । (गो०)

गत्वा सौम्य दशग्रीवं ब्रूहि मद्रचनात्कपे ।

लङ्घयित्वा पुरीं लंकां भयं त्वक्त्वा ऽगतव्यथः ॥६०॥

हे सौम्य ! तुम लङ्का के परकोटे को नाँव कर, निरुपद्रव जाओ और मेरी ओर से दशानन रावण से निर्भय हो कहो कि, ॥६०॥

अष्टश्रीक गतैश्वर्यं मुमूर्षो नष्टचेतन ।

ऋषीणां देवतानां च गन्धर्वाप्सरसां तथा ॥ ६१ ॥

नागानामथ यक्षाणां राज्ञां च रजनीचर ।

यच्च पापं कृतं मोहादवलिप्तोऽन राक्षस ॥ ६२ ॥

नूनमद्य गतो दर्पः स्वयंभूवरदानजः ।

यस्य दण्डधरस्तेऽहं दाराहरणकर्षितः ॥ ६३ ॥

दण्डं धारयमाणस्तु लंकाद्वारे व्यवस्थितः ।

रपदवीं देवतानां च महर्षीणां च राक्षस ॥ ६४ ॥

राजर्षीणां च सर्वेषां गमिष्यसि मया हतः ।

बलेन येन वै सीतां मायया राक्षसाधम ॥ ६५ ॥

हे लक्ष्मणरहित ! हे ऐश्वर्यहीन ! हे मुमूर्षो ! हे अचेत राक्षस ! ऋषि, देवता, गन्धर्व, अप्सरा, सर्प यक्ष और राजाओं पर तूने जो अत्याचार, ब्रह्मा जी के जिस वरदान के बल के गर्व से गर्वित हो अज्ञानवश किए हैं—उस वरदान का दर्प आज निश्चय ही प्रायः दूर हो चुका है । तूने मेरी स्त्री को हरन कर, जो अपराध किया है, उसका उचित दण्ड देने के लिए, साक्षात् काल की तरह मैं,

लङ्का के द्वारा पर आ पहुँचा हूँ । तू मेरे हाथ से मारे जाने पर, तुझे वही लोक प्राप्त होगा, जो देवताओं, महर्षियों और राजर्षियों को प्राप्त होता है । अरे राजसाधम ! जिस बल बूते पर तूने सीता को, मुझे षोखा दे ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥

मामतिक्रामयित्वा त्वं हृतवांस्तद्विदर्शय ।

अराक्षसमिमं लोकं कर्ताऽस्मि निशितैः शरैः ॥ ६६ ॥

कर, आश्रम से हटा कर, हरा था ; उस बल को अब मुझे दिखला तो । मैं अपने पैसे पैसे बाणों से इस लोक को राक्षसशून्य करता हूँ ॥ ६६ ॥

न चेच्छरणमभ्येषि मामुपादाय मैथिलीम् ।

धर्मात्मा रक्षसां श्रेष्ठः सम्प्राप्तोऽयं विभीषणः ॥ ६७ ॥

यदि मेरे शरण में आ, मुझे सीता को न दे देगा, तो यह धर्मात्मा और राक्षसश्रेष्ठ विभीषण, जो मेरे शरण में आ चुका है ॥ ६७ ॥

लंकैश्वर्यं ध्रुवं श्रीमानयं प्राप्नोत्यकण्टकम् ।

न हि राज्यमधर्मेण भोक्तुं क्षणमपि त्वया ॥ ६८ ॥

शक्यं मूर्खसहायेन शपापेनाविदितात्मना २ ।

युध्यस्व वा धृतिं कृत्वा शौर्यमालम्ब्य राक्षस ॥ ६९ ॥

निश्चय ही लङ्का का अकण्टक ऐश्वर्य पावेगा और यही लङ्का का राजा होगा । तू अधर्मी और पापी है, तेरे सहायक मूर्ख हैं । तू अपनी बुद्धि से नहीं, दूसरों की बुद्धि से काम करने वाला है,

१ पापेन-पापिष्टेन । (गो०) २ अविदितात्मना-अस्वाधीनमनस्केन ।

(गो०)

अतः तू अब एक क्षण भी राज्य नहीं कर सकता । मेरे साथ अब तू धैर्य और शूरता का सहारा ले लड़ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥

मच्छरैस्त्वं रणे शान्तस्ततः पूतो भविष्यसि ।

यद्वा विशसि लोकांस्त्रीन् पक्षिभूतो मनोजवः ॥७०॥

मम चक्षुष्पथं प्राप्य न जीवन् प्रतियास्यसि ।

ब्रवीमि त्वां हितं वाक्यं क्रियतामौर्ध्वदैहिकम् ॥७१॥

क्योंकि, जब तू मेरे बाणों से मारा जायगा तभी तू अब तक के किए पापों से छूट कर पवित्र होगा । अब तू पक्षी का रूप धर कर तीनों लोकों में भी छिपता फिरेगा ; तो भी तू मुझसे न तो छिप ही सकेगा और न अपनी जान ही बचा सकेगा । अतः मैं तुझसे अब तेरे हित के लिए यह कहता हूँ कि, तू अपना जीव-च्छादक कर ले ; (क्योंकि पीछे तुझे चिल्लु भर पानी देने वाला कोई भी राक्षस न रह जायगा) ॥ ७० ॥ ७१ ॥

सुदृष्टा क्रियतां लंका जीवितं ते मयि स्थितम् ।

इत्युक्तः स तु तारेयो रामेणात्किष्टकर्मणा ॥ ७२ ॥

और लंका को जी भर अन्तिम वार देख ले, क्योंकि तेरा जीवन अब मेरे हाथ है । अत्किष्टकर्मा श्रीरामचन्द्र जी ने जब इस प्रकार तारातनय अंगद से कहा—॥ ७२ ॥

जगामाकाशमाविश्य मूर्तिमानिव हव्यवाट् ।

सोऽतिपत्य मुहूर्तेन श्रीमान रावणमन्दिरम् ॥ ७३ ॥

तब वह मूर्तिमान अग्नि की तरह (अङ्गद) आकाशमार्ग से उड़ कर चल दिआ और थोड़ी ही देर में रावण के भवन में जा पहुँचा ॥ ७३ ॥

ददर्शासीनमव्यग्रं रावणं सचिवैः सह ।

ततस्तस्याविद्रे स निपत्य हरिपुङ्गवः ॥ ७४ ॥

वहाँ अङ्गद ने देखा कि, रावण अपने मंत्रियों सहित सावधान हो बैठा है। अङ्गद उसके सिंहासन के समीप ही आकाश से उतर पड़ा ॥ ७४ ॥

दीप्ताग्निसदृशस्तस्थावङ्गदः कनकाङ्गदः ।

तद्रामवचनं सर्वमन्यूनाधिकमुत्तमम् ॥ ७५ ॥

सामात्यं श्रावयामास निवेद्यात्मानमात्मना ।

दूतोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः ॥ ७६ ॥

सोने का वाजूवंद पहिने हुए अग्नि के समान प्रभावान् अङ्गद रावण के निकट जा खड़ा हुआ और श्रीरामचन्द्र जी का हितकर सन्देशा ज्यों का त्यों रावण को तथा उसके मंत्रियों को सुना दिया। फिर अङ्गद ने अपना नाम बतला कर कहा कि, मैं अक्लिष्टकर्मा कोशलाधीश श्रीरामचन्द्र का दूत हूँ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥

वालिपुत्रोऽगदो नाम यदि ते श्रोत्रमागतः ।

आह त्वां राघवो रामः कौसल्यानन्दवर्धनः ॥ ७७ ॥

मैं बालि का पुत्र हूँ और अङ्गद मेरा नाम है। कदाचित् मेरा नाम तुम्हारे कानों तक पहुँच चुका हो। कौसल्या जी के आनन्द को बढ़ाने वाले श्रीरामचन्द्र जी ने तुमसे कहा है कि, ॥ ७७ ॥

निष्पत्य प्रतियुष्यस्व नृशंस पुरुषो भव ।

हन्तास्मि त्वां सहामात्यं सपुत्रज्ञातिबान्धवम् ॥ ७७ ॥

अरे नृशंस ! अब घर के बाहिर आकर युद्ध कर और मर्द बन जा । मैं तुम्हें मंत्रियों, पुत्रों, जाति विरादरी बालों तथा भाईबन्दों सहित मारने के लिए आया हूँ ॥ ७८ ॥

निरुद्धिग्नास्त्रयो लोका भविष्यन्ति हते त्वयि ।

देवदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम् ॥ ७९ ॥

क्योंकि तेरे मारे जाने पर तीनों लोक निर्भय हो जाँयगे । तू देवताओं, दानवों, गन्धर्वों, सर्पों और राक्षसों के ॥ ७९ ॥

शत्रुमघोद्धरिष्यामि त्वमृषीणां च कण्टकम् ।

विभीषणस्य चैश्वर्यं भविष्यति हते त्वयि ॥ ८० ॥

शत्रु और ऋषियों के कंटक रूप तुम्हको, मैं मार डालूँगा । तेरे मारे जाने पर लंका का ऐश्वर्य विभीषण को मिलेगा ॥ ८० ॥

न चेत्सत्कृत्य वैदेहीं प्रणिपत्य प्रदास्यसि ।

इत्येवं परुषं वाक्यं ब्रुवाणे हरिपुङ्गवे ॥ ८१ ॥

अमर्षवशमापन्नो निशाचरगणेश्वरः ।

ततः स रोषताम्राक्षः शशांस सचिवांस्तदा ॥ ८२ ॥

ये सब बातें तभी होंगी जब तू सम्मानपूर्वक सीता मुझे न देगा । जब अङ्गद ने इस प्रकार के कठोर वचन कहे, तब राक्षसराज अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और क्रोध से नेत्र लाल लाल कर अपने मंत्रियों से बोला ॥ ८१ ॥ ८२ ॥

गृह्यतामेप दुर्मेधा वध्यतामिति चासकृत् ।

रावणस्य वचः श्रुत्वा दीप्ताग्निसमतेजसः ॥ ८३ ॥

इस दुर्बुद्धि वानर को पकड़ कर मार डालो । दहकते हुए
अग्नि के समान तेजस्वी रावण के इस वचन को सुन ॥ ८३ ॥

जगृहस्तं ततो घोराश्वत्वारो रजनीचराः ।

ग्राहयामास तारेयः स्वयमात्मानमात्मवान् ॥ ८४ ॥

बलं दर्शयितुं वीरो यातुधानगणे तदा ।

स तान् बाहुद्वये संक्तानादाय पतगानिव ॥ ८५ ॥

चार भयकर राक्षसों ने उठ कर अङ्गद को पकड़ लिया ।
उस समय राक्षसों को अपना बल दिखलाने के लिए अङ्गद ने
उन्हें पकड़ लेने दिया । उन चार राक्षसों ने अङ्गद को पकड़ा ही
था कि, अङ्गद ने उन चारों को पत्नी की तरह अपनी दोनों
भुजाओं में लटका लिया ॥ ८४ ॥ ८५ ॥

प्रासादं शैलसङ्काशमृत्पपाताङ्गस्तदा ।

तेऽन्तरिक्षाद्विनिर्धूतास्तस्य वेगेन राक्षसाः ॥ ८६ ॥

तदनन्तर अङ्गद एक ऐसी ऊँची अटारी के ऊपर छलाँग मार
कर चढ़ गया जो पर्वतशिखर की तरह ऊँची थी । उसके छलाँग
मारने के झटके से चारों राक्षस ॥ ८६ ॥

भूमौ निपतिताः सर्वे राक्षसेन्द्रस्य पश्यतः ।

ततः प्रासादशिखरं शैलशृङ्गमिवोन्नतम् ॥ ८७ ॥

ददर्श राक्षसेन्द्रस्य वालिपुत्रः प्रतापवान् ।

तत्पफाल पदाक्रान्तं दशग्रीवस्य पश्यतः ॥ ८८ ॥

रावण की आँखों के सामने ही, भूमि पर गिर पड़े । रावण की
वह पर्वतशिखर के समान ऊँचे भवन की अटारी को प्रतापी

वालितनय अङ्गद ने देख कर, रावण की आँखों के सामने उसमें एक ऐसी लात मारी कि, वह उसी प्रकार फट गई ॥ ८७ ॥ ८८ ॥

पुरा हिमवतः शृङ्गं वज्रिणोव विदारितम् ।

भङ्क्त्वा प्रासादशिखरं नाम विश्राव्य चात्मनः ॥८९॥

जिस प्रकार प्राचीनकाल में कभी वज्र से हिमाचल का शिखर फटा था। उस राजभवन की अटारी को विध्वंस कर और लंका में सब को अपना नाम सुना ॥ ८९ ॥

विनद्य सुमहानादमुत्पपात विहायसम् ।

व्यथयन् राक्षसान् सर्वान् हर्षयश्चापि वानरान् ॥९०॥

आकाशमार्ग में पहुँच बड़ी जोर से अङ्गद ने सिंहगर्जना की जिसको सुन सारे राक्षस व्यथित हुए और वानर प्रसन्न हुए ॥९०॥

स वानराणां मध्ये तु रामपार्श्वमुपागतः ।

रावणस्तु परं चक्रे क्रोधं प्रासादधर्षणात् ॥ ९१ ॥

तदनन्तर अङ्गद वानरों के बीच बैठे हुए श्रीरामचन्द्र जी के पास पहुँच गए। उधर अङ्गद के चले आने पर राजभवन की अटारी को ध्वस्त हुआ देख, रावण अत्यन्त क्रुद्ध हुआ ॥ ९१ ॥

विनाशं चात्मनः पश्यन्निश्वासपरमोऽभवत् ।

रामस्तु बहुभिर्हृष्टैर्निनदद्भिः स्रवङ्गमैः ॥ ९२ ॥

वृतो रिपुवधाकाङ्क्षी युद्धायैवाभ्यवर्तत ।

सुपेयास्तु महावीर्यो गिरिकूटोपमो हरिः ॥ ९३ ॥

और अपने मरने का समय निकट आया हुआ देख, रावण बार बार लंबी साँसें लेने लगा। इस ओर श्रीरामचन्द्र जी अत्यन्त

प्रसन्न हुए और सिंहगर्जन करते हुए वानरों के बीच स्थित हो, शत्रु का बध करने की अभिलाषा से युद्ध करने को तैयार हुए । महापराक्रमी और पर्वताकार सुषेण नामक वानर ॥६२॥६३॥

बहुभिः संवृतस्तत्र वानरैः कामरूपिभिः ।

चतुर्द्वाराणि सर्वाणि सुग्रीववचनात्कपिः ॥ ६४ ॥

बहुत से कामरूपी वानरों को साथ ले, सुग्रीव की आज्ञा से लङ्का के समस्त चारों द्वारों को ॥ ६४ ॥

पर्यक्रामंत दुर्धर्षो नक्षत्राणीव चन्द्रमा ।

तेषामक्षौहिणिशतं समवेक्ष्य वनौकसाम् ॥ ६५ ॥

लङ्कामुपनिविष्टानां सागरं चाभिवर्तताम् ।

राक्षसा विस्मयं जग्मुस्त्रासं जग्मुस्तथा परे ॥ ६६ ॥

घेर कर दुर्धर्ष सुषेण इस प्रकार घूम रहा था, जिस तरह नक्षत्रों सहित चन्द्रमा घूमता है । समुद्र के पास ठहरी हुई और लङ्का को चारों ओर से घेरे हुए वानरों की सैकड़ों अक्षौहिणी सेनाओं को देख, कोई कोई राक्षस तो विस्मित हुए और कोई-कोई भयभीत हो गए ॥ ६६ ॥

अपरे समरोद्धर्षाद्धपमेव प्रपेदिरे ।

कृत्स्नं हि कपिभिर्व्याप्तं प्राकारपरिस्वान्तरम् ॥६७॥

इनमें से बहुत से ऐसे भी थे जो युद्ध का अवसर मिलने के कारण प्रसन्न हो रहे थे । लंका के समस्त परकोटे और खाइयों वानरों से भर गई थीं ॥ ६७ ॥

ददृशू राक्षसा दीनः प्राकारं वानरीकृतम् ।

हाहाकारं प्रकुर्वन्ति राक्षसा भयमोहिताः ॥ ६८ ॥

उस समय ऐसा-जान पड़ता था, मानों वानरों की एक दूसरे परकोटे की दीवाल खड़ी है। राक्षस दीन हो यह सब देख रहे थे और भयभीत हो हाय-हाय कह कर चिल्ला रहे थे ॥ ६५ ॥

तस्मिन्महाभीषणके प्रवृत्ते

कोलाहले राक्षसराजधान्याम् ।


प्रगृह्य रक्षांसि महायुधानि

युगान्तवाता इव संविचेरुः ॥ ६६ ॥


इति एकचत्वारिंशः सर्गः ॥

उस समय रावण की राजधानी लंका में बड़ा भारी कोलाहल हुआ। वीर राक्षस बड़े बड़े हथियारों को ले ऐसे घूमने लगे जैसे प्रलय कालीन पवन चलता है ॥ ६६ ॥

युद्धकाण्ड का एकतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ।



द्विचत्वारिंशः सर्गः



ततस्ते राक्षसास्तत्र गत्वा रावणमन्दिरम् ।

न्यवेदयन् पुरीं रुद्धां रामेण सह वानरैः ॥ १ ॥

तदनन्तर राक्षसगण रावण के भवन में जा कर कहने लगे कि, वानरों को साथ लिये हुए श्रीरामचन्द्र ने लंकापुरी को चारों ओर से घेर रक्खा है ॥ १ ॥

रुद्धां तु नगरीं श्रुत्वा जातक्रोधो निशाचरः ।

विधानं द्विगुणं कृत्वा प्रासादं सोऽध्यरोहत ॥ २ ॥

लंकानगरी को घिरा हुआ सुन, रावण बड़ा क्रुद्ध हुआ और मोर्चों पर टूनी सेना नियत कर स्वयं अटारी पर चढ़ गया ॥२॥

स ददर्शवृता लङ्कां सशैलवनकाननाम् ।

असंख्येयैहरिगणैः सर्वतो युद्धकाङ्क्षिभिः ॥ ३ ॥

वहाँ से उसने देखा कि, पर्वतों, वनों और उपवनों सहित लंका को युद्धाभिलाषी असंख्य वानरों ने घेर लिया है ॥ ३ ॥

स दृष्ट्वा वानरैः सर्वा वसुधां कवलीकृताम् ।

कथं क्षपयितव्याः स्युरति चिन्तापरोऽभवत् ॥ ४ ॥

लंका के चारों ओर की भूमि को वानरों द्वारा अधिकृत हुई देख, वह इस चिन्ता में पड़ गया कि, वह उन वानरों को क्यों कर वहाँ से हटावे ॥ ४ ॥

स चिन्तयित्वा सुचिरं धैर्यमालम्ब्य रावणः ।

राघवं हरियूथांश्च ददर्शयितलोचनः ॥ ५ ॥

बहुत देर तक सोच विचार कर और धैर्य धर कर रावण ने आँख फैला कर, देखा तो उसे श्रीरामचन्द्र और वानरों के दल ही दल देख पड़े ॥ ५ ॥

राघवः सह सैन्येन मुदितो नाम ऽपुप्लुवे ।

लङ्कां ददर्श गुप्तां वै सर्वतो राक्षसैर्वृताम् ॥ ६ ॥

श्रीरामचन्द्र जी ने लंका के परकोटे के पास जा कर देखा कि, राक्षस लोग चारों ओर से लंका की रक्षा कर रहे हैं ॥ ६ ॥

१ पुप्लुवेनाम—पूर्वस्थानात् प्राकारसन्निकृष्ट प्रदेशं प्राप्त इत्यर्थः ।

(गो०)

दृष्ट्वा दाशरथिर्लङ्कां चित्रध्वजपताकिनीम् ।

जगाम सहसा सीतां शूयमानेन चेतसा ॥ ७ ॥

दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी रंगविरंगी ध्वजा पताकाओं से शोभित लंका को देख और सीता का स्मरण खीकर, सहसा दुः हो गए ॥ ७ ॥

अत्र सा मृगशावाक्षी मत्कृते जनकात्मजा ।

पीडयते शोकसन्तप्ता कृशा स्थण्डिलशायिनी ॥ ८ ॥

वे मन ही मन कहने लगे कि, इसी लंका में वह मृगनयनी सीता, मेरे पीछे शोक से विकल हो, भूमि पर पड़ी हुई दुःख पा रही है ॥ ८ ॥

पीडयमानां स धर्मात्मा वैदेहीमनुचिन्तयन् ।

क्षिप्रमाज्ञापयामास वानरान्द्विषतां वधे ॥ ९ ॥

धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी सीता के कष्टों का स्मरण कर, दुःखी हुए और तुरन्त ही राक्षसों को मारने के लिये वानरों को आज्ञा दी ॥ ९ ॥

एवमुक्ते तु वचने रामेणाक्लिष्टकर्मणा ।

सङ्घर्षमाणाः पल्वगाः सिंहनादैरनादयन् ॥ १० ॥

अक्लिष्टकर्मा श्रीरामचन्द्र जी के मुख से शत्रुओं से लड़ने की आज्ञा निकलते ही वानरों ने क्रोध में भर ऐसा सिंहनाद किया कि, जिससे सारी लंकापुरी प्रतिध्वनित हो उठी ॥ १० ॥

शिखरैर्विकिरामैनां लङ्कां मृष्टिभिरेव वा ।

इति स्म दधिरे सर्वे मनांसि हरियूथपाः ॥ ११ ॥

१ शूयमानेन—सीतां स्मृत्वा दुःखितोभूदित्यर्थः । (गो०)

उस समय वानरयूथपतियों के मन में इतना उत्साह बढ़ा हुआ था कि, वे पर्वतशिखरों से या घुंसें मार मार कर, लंका को चूर-चूर कर डालें ॥ ११ ॥

उद्यम्य गिरिशृङ्गाणि शिखराणि महान्ति च ।

तरुंश्चोत्पाटय विवधांस्तिष्ठन्ति हरियूथपाः ॥ १२ ॥

वीर वानरयूथपति बड़े बड़े गिरिशृङ्गों और बड़ी बड़ी शिलाओं को उठा तथा विविध वृक्षों को उखाड़ कर और उनको हाथों में लिये हुए, खड़े हो गए ॥ १२ ॥

प्रेक्षतो रान्दसेन्द्रस्य तान्यनीकानि भागशः ।

राघवप्रियकामार्थं लंकामारुरुहुस्तदा ॥ १३ ॥

रावण की आँखों के सामने वानरी सेनाएँ, टोलियाँ बाँध-बाँध कर, श्रीरामचन्द्र जी की प्रसन्नता के लिए, लंका के परकोटे की दीवारों पर चढ़ गईं ॥ १३ ॥

ते ताम्रवक्त्रा हेमाभा रामथे त्यक्तजीविताः ।

लंकामेवाभ्यवर्तन्त सालतालशिलायुधाः ॥ १४ ॥

सुनहली रंग की देह वाले, लालमुँहे वानर, साखू के पेड़ और पहाड़ों को ले ले कर, लंका पर जा डटे । ये श्रीरामचन्द्र जी का काम पूरा करने के लिए अपनी जानें हथेली पर रखे हुए थे ॥ १४ ॥

ते द्रुमैः पर्वताग्रैश्च मुष्टिभिरचप्लवङ्गमाः ।

प्राकाराग्राण्यरण्यानि ममन्थुस्तोरणानि च ॥ १५ ॥

वे पेड़ों, पर्वतशिखरों और घुंसों के प्रहार से परकोटे की दीवारों, उद्यानों और बहिर्द्वारों को ध्वस्त करने लगे ॥ १५ ॥

परिखाः पूरयन्ति स्म प्रसन्नसलिलायुताः ।

पांसुभिः पर्वताग्रैश्च तृणैः काष्ठैश्च वानराः ॥ १६ ॥

उन खाइयों को, जिनमें स्वच्छ निर्मल जल भरा हुआ था, वानरों ने मिट्टी, पत्थर, घास फूस और काठकठंगर भर कर पाट दिखा ॥ १६ ॥

ततः सहस्रयूथाश्च कोटियूथाश्च वानराः ।

कोटीशतयुताश्चान्ये लङ्कामारुरुहुस्तदा ॥ १७ ॥

तदनन्तर हजार यूथों के स्वामी, करोड़ यूथों के स्वामी, सौ करोड़ यूथों के स्वामी अर्थात् यूथपतिवानर लंका के ऊपर जा चढ़े ॥ १७ ॥

काञ्चनानि प्रमृद्नन्तस्तोरणानि स्रवङ्गमाः ।

कैलासशिखराभाणि गोपुराणि प्रमथ्य च ॥ १८ ॥

वानरों ने सोने के बने तोरण द्वारों को चूर चूर कर दिखा और कैलासशिखर की तरह ऊँचे फाटकों को तोड़ फोड़ डाला ॥ १८ ॥

आप्लवन्तः प्लवन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवङ्गमाः ।

लङ्कां तामभिधावन्ति महावारणसन्निभाः ॥ १९ ॥

गजेन्द्र के समान डीलडौल वाले वानर, कूड़ कूड़ और उछल उछल कर, गर्जते हुए लंका के चारों ओर दौड़ने लगे ॥ १९ ॥

जयत्यतिवलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः ।

राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः ॥ २० ॥

और यह कहने लगे बलवान् श्रीरामचन्द्र की जय, महाबली लक्ष्मण की जय, श्रीरामचन्द्र द्वारा रक्षित महाराज सुग्रीव की जय ॥ २० ॥

इत्येवं घोषयन्तश्च गर्जन्तश्च स्रवङ्गमाः ।

अभ्यधावन्त लङ्कायाः प्राकारं कामरूपिणः ॥ २१ ॥

इस प्रकार श्रीराम, लक्ष्मण और सुग्रीव का जय जयकार करते और सिंहनाद करते हुए कामरूपी वानर, लङ्का के परकोटों पर दौड़ने लगे ॥ २१ ॥

वीरबाहुः सुबाहुश्च नलश्च वनगोचरः ।

निपीडयोपनिविष्टास्ते प्राकारं हरियूथपाः ॥ २२ ॥

वीरबाहु, सुबाहु, नल और पनस ये वानरयूथपति, लङ्का के परकोटे को तोड़ कर पुरी के भीतर घुस गए ॥ २२ ॥

एतस्मिन्नन्तरे चक्रुः शकन्धावारनिवेशनम् ।

पूर्वद्वारं तु कुमुदः कोटीभिर्दशभिर्द्वृतः ॥ २३ ॥

और इसी अवसर में वहाँ उन लोगों ने सेना के विश्राम के लिए शिविरों (छावनी) की रचना की । कुमुद लङ्का के पूर्वद्वार को, दस करोड़ ॥ २३ ॥

आवृत्य बलवांस्तस्थौ हरिभिर्जियकाशिभिः ।

साहाय्यार्थं तु तस्यैव निविष्टः प्रघसो हरिः ॥ २४ ॥

विजयाभिलाषी वानरों सहित घेरे हुए खड़ा था और कुमुद की सहायता के लिए कपि प्रघस वहाँ उपस्थित था ॥ २४ ॥

पनसश्च महाबाहुर्वानरैर्वहुर्निर्द्वृतः ।

दक्षिणं द्वारमागम्य वीरः शतवलिः कपिः ॥ २५ ॥

१ शकन्धावार-शिविरस्य । (गो०) २ निवेशन-निर्माणं । (गो०)

तथा महाबलवान् पनस भी, बहुत से वानरों को लिये हुए वहाँ मौजूद था । वीर शतवली वानर दक्षिण द्वार पर ॥ २५ ॥

आवृत्य बलवांस्तस्थौ विंशत्या कोटिभिवृतः ।

सुपेणः पश्चिमद्वारं गतस्तारापिता हरिः ॥ २६ ॥

बीस करोड़ वानरी सेना ले कर खड़ा हुआ था । पश्चिमद्वार पर तारा के पिता सुपेण ॥ २६ ॥

आवृत्य बलवांस्तस्थौ षण्टिकोटिभिरावृतः ।

उत्तरं द्वारमासाद्य रामः सौमित्रिणाः सह ॥ २७ ॥

साठ करोड़ वानरों को लिये हुए खड़ा था । उत्तरद्वार पर लक्ष्मण को अपने साथ लिये हुए श्रीरामचन्द्र जो स्वयं उपस्थित थे ॥ २७ ॥

आवृत्य बलवांस्तस्थौ सुग्रीवश्च हरीश्वरः ।

गोलाङ्गूलो महाकायो गवाक्षो भीमदर्शनः ॥ २८ ॥

उनके समीप ही कपिराज सुग्रीव भी थे । महाकाय और भयङ्कर गोलाङ्गूल गवाक्ष ॥ २८ ॥

वृतः कोट्या महावीर्यस्तस्थौ रामस्य पार्श्वतः ।

ऋक्षाणां भीमवेगानां धूम्रः शत्रुनिवर्हणः ॥ २९ ॥

एक करोड़ महाबली वानरों को साथ लिये हुए श्रीरामचन्द्र जी की बगल में खड़ा हुआ था । बड़े भयङ्कर वेगवाले रीछों के अधिपति और शत्रुहन्ता भी ॥ २९ ॥

वृतः कोट्या महावीर्यस्तस्थौ रामस्य पार्श्वतः ।

सन्नद्धस्तु महावीर्यो गदापाणिर्विभीषणः ॥ ३० ॥

वृतो यत्तैस्तु सचिवैस्तस्थौ तत्र महाबलः ।

गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः ॥ ३१ ॥

समन्तात्परिधावन्तो ररक्षुर्हरिवाहिनीम् ।

ततः क्रोपपरीतात्मा रावणो राज्ञसेश्वरः ॥ ३२ ॥

महाबली एक करोड़ रीछों को साथ लिये हुए श्रीरामचन्द्र जी की वगल में खड़ा था । कवच धारण किए और हाथ में गदा लिये हुए विभीषण अपने चारों राजस मंत्रियों से घिरे हुए थे । वीर गज, गवाक्ष, गवय, शरभ और गन्धमादन चारों ओर दौड़ दौड़ कर, वानरी सेना की देखभाल कर रहे थे । ये देख राजस-राज रावण ने क्रुद्ध हो ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

निर्याणं सर्वसैन्यानां द्रुतमाज्ञापयत्तदा ।

एतच्छ्रुत्वा ततोऽनाकर्ण्य रावणस्य मुखोद्गतम् ॥३३॥

सहसा भीमनिर्घोषमुद्घुष्टं रजनीचरैः ।

ततः प्रचोदिता भेर्यश्चन्द्रपाण्डुरपुष्कराः १ ॥ ३४ ॥

अपनी समस्त सेना को तुरन्त बाहिर निकाल उसको युद्ध करने की आज्ञा दी । रावण के मुख से युद्ध की आज्ञा सुन कर ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

हेमकोणाहता भीमा राजसानां समन्ततः ।

विनेदुश्च महाघोषाः शङ्खाः शतसहस्रशः ॥ ३५ ॥

राजसों ने सहसा बड़े जोर से गर्जना की, और नगाड़ों की चन्द्रमा के समान चमचमाते सोने की चोत्रों से वजाया तथा चारों ओर सैकड़ों हजारों शङ्खों का नाद होने लगा ॥ ३५ ॥

राक्षसानां सुघोराणां मुखमारुतपूरिताः ।

ते बभ्रुः शुभनीलांगाः सशङ्खा रजनीचराः ॥ ३६ ॥

विद्युन्मण्डलसन्नद्धाः सबलाका इवाम्बुदाः ।

निष्पतन्ति ततः सैन्या हृष्टा रावणचोदिताः ३७ ॥

समये पूर्यमाणस्य वेगा इव महोदधेः ।

ततो वानरसैन्येन मुक्तो नादः समन्ततः ॥ ३८ ॥

सोने के आभरणों से भूषित नील अङ्गवाले राक्षस मुख की फूँक से वजाते हुए शङ्खों सहित ऐसे शोभायमान जान पड़ते थे; जैसे विजली और वक्रपंक्ति युक्त मेघों की शोभा होती है। रावण की आज्ञा पाते ही योद्धा राक्षस प्रसन्न होते हुए, पूर्णमासी के समुद्र के वेग की तरह उमड़ कर, शत्रुसैन्य पर दूट पड़े। उस समय चारों ओर वानर वीर भी ऐसे गर्जे ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

मलयः परितो येन ससानुप्रस्थकन्दरः ।

शङ्खदुन्दुभिसंघुष्टः सिंहनादस्तरस्त्रिनाम् ॥ ३९ ॥

पृथ्वीं चान्तरिचं च सागरं चैव नादयन् ।

गजानां वृंहितैः सार्धं हयानां हेषितैरपि ॥ ४० ॥

कि, जिससे मलयाचल के शिखर और कन्दराएँ प्रतिध्वनित हो उठीं। शङ्खों और नगाड़ों के शब्द और वीरों का सिंहनाद, पृथिवी आकाश और सागर में भर गया। इनके साथ ही हाथियों की चिंघाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट ॥ ३९ ॥ ४० ॥

१ शुभनीलाङ्गाः—आभरणप्रभाभिः शोभमानानि नीलानि चाङ्गानि येषां ते । (गो०)

स्थानां नेमिषोपैश्च रक्षसां ऋषोदनिस्वनैः ।

एतस्मिन्नन्तरे घोरः संग्रामः समवर्तत ॥ ४१ ॥

रक्षसां वानराणां च यथा देवासुरे पुरा ।

ते गदाभिः प्रदीप्ताभिः शक्तिशूलपरश्वधैः ॥ ४२ ॥

रथों की गड़गड़ाहट, और राक्षसों के पैरों की धपधपसे बड़ा भारी शब्द हुआ । इतने ही में राक्षसों और वानरों का ऐसा बड़ा भारी युद्ध हुआ जैसा कि, पहिले जमाने में देवताओं और असुरों का हो चुका था । एक ओर राक्षस चमचमाती गदाओं, शक्तियों, शूलों और परशुओं से ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

निजघ्नुर्वानरान् घोराः कथयन्तः स्वविक्रमान् ।

वानराश्च महावीर्याः राक्षसाञ्जघ्नुराहवे ॥ ४३ ॥

वानरों पर प्रहार करते हुए अपने पराक्रम का बखान कर रहे थे । दूसरी ओर बड़े बलवान् वानर युद्धक्षेत्र में राक्षसों का संहार कर रहे थे, और ॥ ४३ ॥

जयत्यतिबलो रामः लक्ष्मणश्च महाबलः ।

राजा जयति सुग्रीव इति शब्दो महानभूत् ॥ ४४ ॥

उच्च स्वर से बलवान् श्रीरामचन्द्र की जै, महाशली लक्ष्मण जी की जै और कपिराज सुग्रीव की जै कहते हुए, वे वानर घोर शब्द कर रहे थे और ॥ ४४ ॥

राजञ्जय जयेत्युक्त्वा स्वस्वनामकथान्ततः ।

तथा वृक्षैर्महाकायाः पर्वताग्रैश्च वानराः ॥ ४५ ॥

राक्षस रावणराज की जै जैकार कर अपने अपने नाम ले कर वानरों पर प्रहार कर रहे थे । बड़े भारी भारी डीलडौल के वानर गण वृक्षों और पर्वतशिखरों से ॥ ४५ ॥

निजघ्नस्तानि रक्षांसि नखैर्दन्तैश्च वेगिताः ।

राक्षसास्त्वपरै भीमाः प्राकारस्था महीगतान् ॥४६॥

नखों और दाँतों से बड़े वेग से राक्षसों को मार रहे थे । परकोटे की दीवारों के ऊपर खड़े हुए भयङ्कर राक्षस, नीचे जमीन पर खड़े हुए ॥ ४६ ॥

शभिन्दिपालैश्च खड्गैश्च शूलैश्चैव व्यदारयन् ।

वानराश्चापि संक्रुद्धाः प्राकारस्थान् महीगताः ।

राक्षसान् पातयामासुः समाप्लुत्य प्लवंगमोः ॥४७॥

वानरों को गदाओं, तलवारों और शूलों से विदीर्ण कर रहे थे । जमीन पर खड़े हुए वानर भी अत्यन्त क्रुद्ध हो, परकोटे की दीवारों पर खड़े हुए राक्षसों के पास छलांगे मार कर पहुँच जाते और पकड़ पकड़ कर वहाँ से उनको नीचे पटक देते थे ॥ ४७ ॥

स सम्प्रहारस्तुमुलो मांसशोणितकर्दमः ।

राक्षसां वानराणां च सम्बभूवाद्भुतोपमः ॥ ४८ ॥


इति द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥

राक्षसों और वानरों का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ । इस युद्ध में माँस और रुधिर की कीच हो गई । यह युद्ध बड़ा ही अद्भुत हुआ ॥ ४८ ॥

युद्धकाण्ड का बयालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—ॐ—

त्रिचत्वारिंशः सर्गः



युद्ध्यतां तु ततस्तेषां वानराणां महात्मनाम् ।

राक्षसां संवभूवाथ बलकोपः सुदारुणः ॥ १ ॥

परस्पर युद्ध करते हुए बड़े बलवान वानरो और राक्षसों की सेनाएँ अत्यन्त क्रुद्ध हो गईं ॥ १ ॥

ते ह्यैः काञ्चनापीडैर्घ्वजैश्चाग्निशिखोपमैः ।

रथैश्चादित्यसङ्काशैः कवचैश्च मनोरमैः ॥ २ ॥

राक्षस सुवर्ण की अग्निशिखा के समान चमचमाती कलङ्गियों से भूषित घोड़ों से युक्त सूर्य की तरह दीप्तमान रथों पर सवार हो सुन्दर कवच पहिन ॥ २ ॥

निर्ययु राक्षसव्याघ्रा नादयन्तो दिशो दश ।

राक्षसा भीमकर्माणो रावणस्य जयैषिणः ॥ ३ ॥

वे भयंकर कर्मकारी राक्षसश्रेष्ठ, सिंहनाद कर, दसों दिशाओं को गुंजाते हुए, रावण की विजयकामना से युद्ध को निकले ॥ ३ ॥

वानराणामपि चमूर्वृहती जयमिच्छताम् ।

अभ्यधावत् तां सेनां राक्षसां कामरूपिणाम् ॥ ४ ॥

वानरों की महती सेना भी जो श्रीरामचन्द्र की जै चाहती थी, उन कामरूपी राक्षसों के ऊपर दूट पड़ी ॥ ४ ॥

काञ्चनापीडैः—स्वर्णमयशेरैः । (गो०)

एतस्मिन्नन्तरे तेषामन्योन्यमभिधावताम् ।

राक्षसां वानराणां च द्वन्द्वयुद्धमवर्तत ॥ ५ ॥

इतने ही में दोनों ओर से परस्पर-आक्रमण करने वाली राक्षसों और वानरों को सेनाओं में घोर द्वन्द्वयुद्ध होने लगा ॥५॥

अङ्गदेनेन्द्रजित्सार्धं वालिपुत्रेण राक्षसः ।

अयुध्यत महातेजास्त्र्यम्बकेण यथाऽन्तकः ॥ ६ ॥

वालिपुत्र अङ्गद के साथ महातेजस्वी इन्द्रजीत का युद्ध वैसा ही हुआ; जैसा कि, महादेव का युद्ध अन्तकासुर से हुआ था ॥६॥

प्रजङ्घेन च सम्पातिर्नित्यं दुर्मर्षणो रणौ ।

जम्बुमालिनमारब्धो हनुमानपि वानरः ॥ ७ ॥

समर में अति दुर्मर्ष सम्पाति वानर प्रजङ्घ राक्षस से भिड़ गया और हनुमान जम्बुमाली राक्षस से लड़ने लगे ॥ ७ ॥

सङ्गतः सुमहाक्रोधो राक्षसो रावणानुजः ।

समरे तीक्ष्णवेगेन मित्रघ्नेन विभीषणः ॥ ८ ॥

रावण के छोटे भाई विभीषण अत्यन्त कुपित हो अति तीक्ष्ण वेग से मित्रघ्न नामक राक्षस से लड़ने लगे ॥ ८ ॥

तपसेन गजः सार्धं राक्षसेन महाबलः ।

निकुम्भेन महातेजा नीलोऽपि समयुध्यत ॥ ९ ॥

महाबली गज, तपन नामक राक्षस के साथ और महातेजस्वी नील, निकुम्भ राक्षस के साथ युद्ध करने लगे ॥९॥

वानरेन्द्रस्तु सुग्रीवः प्रघसेन समागतः ।

संगतः समरे श्रीमान् धिरूपाक्षेण लक्ष्मणः ॥ १० ॥

वानरराज सुग्रीव की और प्रघसेन की मिहन्त हुई और श्रीमान् लक्ष्मण जी विरूपाक्ष से भिड़ गए ॥ १० ॥

अग्निकेतुश्च दुर्धर्षो रश्मिकेतुश्च राक्षसः ।

सुप्तधो यज्ञकोपश्च रामेण सह संगताः ॥ ११ ॥

दुर्धर्ष अग्निकेतु का रश्मिकेतु राक्षस के साथ और सुप्तध तथा यज्ञकोप नामी राक्षसों का श्रीगामचन्द्र जी के साथ युद्ध होने लगा ॥ ११ ॥

वज्रमुष्टिस्तु मैन्देन द्विविडेनाशनिप्रभः ।

राक्षसाभ्यां सुघोराभ्यां कपिमुख्यौ समागतौ ॥ १२ ॥

भयङ्कर राक्षस वज्रमुष्टि और अशनिप्रभ का यद्ध वानरश्रेष्ठ मैन्द और द्विविद् के साथ हुआ ॥ १२ ॥

वीरः प्रतप्तो घोरो राक्षसो रणदुर्धरः ।

समरे तीक्ष्णवेगेन नलेन समयुध्यत ॥ १३ ॥

रणदुर्धर वीर और भयङ्कर राक्षस प्रतप्त ने, युद्ध में तीक्ष्ण वेग वाले नल के साथ युद्ध किया ॥ १३ ॥

धर्मस्य पुत्रो बलवान् सुपेण इति विश्रुतः ।

स त्रिघुन्मालिना सार्धमयुध्यत महाकपिः ॥ १४ ॥

धर्मपुत्र बलवान महाकपि सुपेण के साथ त्रिघुन्माली का युद्ध हुआ ॥ १४ ॥

वानराश्चापरे भीमा राक्षसैरपरैः सह ।

द्वन्द्वं समीयुवहुधा युद्धाय बहुभिः सह ॥ १५ ॥

अन्य बहुत से भयङ्कर वानर अन्य बहुत से राक्षसों से
द्वन्द्वयुद्ध करने लगे ॥ १५ ॥

तत्रासीत्सुमहद्युद्धं तुमुलं रोमहर्षणम् ।

रक्षसां वानराणां च वीराणां जयमिच्छताम् ॥ १६ ॥

एक दूसरे को जीतने की^१ रच्छा रखने^२वाले वीर राक्षसों और
वानरों का यह महान् तुमुल युद्ध रोमाञ्चकारी था ॥ १६ ॥

हरिराक्षसदेहेभ्यः प्रभूताः केशशाद्वलाः ।

शरीरमङ्घाटवहाः प्रसुप्तः शोणितापगाः ॥ १७ ॥

वानरों और राक्षसों के शरीरों से रक्त की नदियाँ वह रही
थीं, जिनमें वीरों के बाल सिवार घास की तरह, और शरीर
काष्ठसमूह की तरह देख पड़ते थे ॥ १७ ॥

आजधानेन्द्रजित्क्रुद्धो वज्रशेव शतक्रतुः ।

अंगदं गदया वीरं शत्रुसैन्यविदारणम् ॥ १८ ॥

इन्द्रजीत ने अत्यन्त क्रुद्ध हो, शत्रु-सैन्य-संहारकारी वीर अङ्गद
के वैसे ही एक गदा मारी; जैसे इन्द्र दैत्य के वज्र मारते हैं ॥ १८ ॥

तस्य काञ्चनचित्रांगं रथं साश्वं ससारथिम् ।

जघान समरे श्रीमानंगदो वेगवान् कपिः ॥ १९ ॥

तदनन्तर महावेगवान् अङ्गद ने भी गदा से मेघनाद के घोड़ों
और सारथी सहित सुवर्ण-भूषित रथ को नष्ट कर डाला ॥ १९ ॥

सम्पातिस्तु त्रिभिर्वाणैः प्रजङ्घेन समाहृतः ।

निजघानाश्वकर्णेन प्रजङ्घं रणमूर्धनि ॥ २० ॥

उधर प्रजङ्घ ने सम्पाति के सत्र तीन वाण मारे, तब सम्पाति ने अश्वकर्ण वृक्ष के आघात से प्रजङ्घ को जान से मार डाला ॥२०॥

जम्बुमाली रथस्थस्तु श्रथशक्त्या महाबलः ।

बिभेद समरे क्रुद्धो हनूमन्तं स्तनान्तरे ॥ २१ ॥

रथ में बैठे हुए महाबलवान् जम्बुमाली ने क्रुद्ध हो रथ में सटा रखी रहने वाली एक शक्ति (साँग) चला हनुमान जी की छाती घायल कर दी ॥ २१ ॥

तस्य तं रथमास्थाय हनुमान् मारुतात्मजः ।

प्रममाथ तलेनाशु सह तेनैव रक्षसा ॥ २२ ॥

तब पवननन्दन हनुमान जी उसके रथ पर चढ़ गए और मारे थप्पड़ों के उसे तुरन्त जान से मार कर, उसके रथ को भी चूर चूर कर डाला ॥ २२ ॥

नदन् प्रतपनो घोरो नलं सोऽप्यन्वधावत ।

नलः प्रतपनस्याशु पातयामास चक्षुषी ॥ २३ ॥

राक्षस प्रतपन गर्जता हुआ जब नल की ओर दौड़ा; तब नल ने दौड़ा कर उसके दोनों नेत्र निकाल लिए और उसे मार कर गिरा दिया ॥ २३ ॥

भिन्नगात्रः शरैस्तीक्ष्णैः विप्रहस्तेन रक्षसा ।

प्रसन्तमिव सैन्यानि प्रघसं वानराधिपः ॥ २४ ॥

प्रघस नामक राक्षस शीघ्रतापूर्वक पैने पैने बाणों से सुग्रीव को घायल कर रहा था और वानरी सेना को निगल जाना चाहता था ॥ २४ ॥

सुग्रीवः सप्तपर्णेन निर्विभेद जघान च ।

[प्रपीड्य शरवर्षेण राक्षसं भीमदर्शनम् ॥ २५ ॥

निजघान विरूपाक्षं शरैर्गौक्रेण लक्ष्मणः ।]

अग्निकेतुश्च दुर्धर्षो रश्मिकेतुश्च राक्षसः ॥ २६ ॥

सुप्तघ्नो यज्ञकोपश्च रामं निर्विभिदुः शरैः ।

तेषां चतुर्णां रामस्तु शिरांसि निशितैः शरैः ॥ २७ ॥

ऋद्धश्चतुर्भिरिचच्छेद धोरैरग्निशिखोपमैः ।

वज्रमुष्टिस्तु मैन्देन मुष्टिना निहतो रणे ॥ २८ ॥

उसको वानरराज ने छितिउन के एक पेड़ से बड़ी तेज़ी के साथ घायल कर, जान से मार डाला । लक्ष्मण जी ने भयङ्कर राक्षस विरूपाक्ष के ऊपर बाणों की वर्षा कर, अन्त में उसके एक ऐसा बाण मारा कि, वह मर गया । दुर्धर्ष अग्निकेतु, रश्मिकेतु, सुप्तघ्न और यज्ञकोप नामक चार राक्षस, श्रीरामचन्द्र जी के बाण मार रहे थे । श्रीरामचन्द्र जी ने कुपित हो अग्निशिखा के तुल्य भयङ्कर चार पौने बाणों से इन चारों के सिर काट डाले । मैन्द ने मुँके मार मार कर वज्रमुष्टि की जान ले ली ॥२५॥२६॥२७॥२८॥

पपात सरथः साश्वः शसुराट् इव भूतले ।

[मित्रघ्नमरिदर्पघ्न आपतन्तं विभीषणः ॥२९॥

आसाद्य गदया गुर्व्या जघान रणमूर्धनि ।

भिन्नगात्रः शरैस्तीक्ष्णैः क्षिप्रहस्तेन रक्षसा ॥ ३० ॥

वज्रमुष्टि अपने रथ और घोड़ों सहित भूमि पर उसी प्रकार गिर पड़ा ; जिस प्रकार देवविमान भूमि पर गिरता है । विभीषण

ने अरिदर्पण और आक्रमणकारी फुर्तिले मित्रघ्न को, जिसने विभीषण के शरीर को पौने तीरों से छेद डाला था, अपनी भारी गदा के ब्रह्म से मार डाला ॥ २६॥ ३० ॥

निकुम्भस्तु रणे नीलं नीलाञ्जनचयप्रभम् ।]

निर्विभेद शरैस्तीक्ष्णैः करैर्मैवमिवांशुमान् ॥ ३१ ॥

युद्ध में निकुम्भ ने, काले सुरमे के ढेर की तरह शरीर वाले नील वानर को पौने पौने बाणों से ऐसा छिन्न मित्र कर डाला; जैसे सूर्य अपनी किरणों से मेघ को छिन्न मित्र कर डालते हैं ॥ ३१ ॥

पुनः शरशतेनाथ क्षिप्रहस्तो निशाचरः

विभेद समरे नीलं निकुम्भः प्रजहास च ॥ ३२ ॥

फुर्तिले राक्षस निकुम्भ ने युद्ध में नील वानर के फिर सौ बाण मारे और बाण मार कर वह खूब हँसा ॥ ३२ ॥

तस्यैव रथचक्रेण नीलो विष्णुरिवाहवे ।

शिरश्चिच्छेद समरे निकुम्भस्य च सारथेः ॥ ३३ ॥

तब तो नील ने निकुम्भ के रथ के पहिये से, निकुम्भ का तथा उसके सारथी के सिर उसी तरह काट डाला; जिस प्रकार विष्णु दैत्यों के सिर अपने सुदर्शन चक्र से काटते हैं ॥ ३३ ॥

वज्राशनिसमस्पर्शो द्विविदोऽप्यशनिस्रभम् ।

जघान गिरिशृगेण म्रिपतां सर्वरक्षसाम् ॥ ३४ ॥

वज्र के तुल्य मूँका मारने वाले द्विविद ने सब राक्षसों के सामने अशनिस्रभ राक्षस के पर्वत का शिखर मारा ॥ ३४ ॥

द्विविदं वानरेन्द्रं तु नगयोधिनमाहवे ।

शरैरशनिसङ्काशैः स विव्याधाशनिस्रभः ॥ ३५ ॥

तव समर में पेड़ों से लड़ने वाले द्विविद का अशनिप्रभ ने भी वज्रतुल्य बाणों से मारा ॥ ३५ ॥

स शरैरतिविद्वांगो द्विविधः क्रोधमूर्च्छितः ।

सालेन सरथं साश्वं निजघानाशनिप्रभम् ॥ ३६ ॥

बाणों से घायल होने पर, द्विविद ने अत्यन्त क्रुद्ध हो, एक साखू का पेड़ उखाड़ कर, घोड़ों और रथ सहित अशनिप्रभ को मार डाला ॥ ३६ ॥

नदन् प्रपतनो घोरो नलं सोऽप्यन्वधावत ।

नलः प्रतपनस्थाशु पातयामासु चक्षुषी ॥ ३७ ॥

गरजता हुआ भयङ्कर राक्षस प्रपतन ज्योंही नल के ऊपर दौड़ा; त्योंही नल ने ऋटपट उसकी आँखें निकाल लीं ॥ ३७ ॥

विद्युन्माली रथस्थस्तु शरैः काञ्चनभूषणैः ।

सुपेणं ताडयामास ननाद च मुहुर्मुहुः ॥ ३८ ॥

रथ पर सवार विद्युन्माली सुवर्णभूषित बाणों से सुपेण को मार कर, बार बार गर्ज रहा था ॥ ३८ ॥

तं रथस्थमथो दृष्ट्वा सुपेणो दानरोत्तमः ।

गिरिशृङ्गेण महता रथमाशु न्यपातयत् ॥ ३९ ॥

तव कपिश्रेष्ठ सुपेण ने उसको रथ पर सवार देख, ऋट एक चढ़ा पर्वतशिखर खींच कर उसके रथ पर मारा ॥ ३९ ॥

लाघवेन तु संयुक्तो विद्युन्माली निशाचरः ।

अपक्रम्य रथात्तूर्णं गदापाणिः क्षितौ स्थितः ॥ ४० ॥

किन्तु विद्युन्माली निशाचर बड़ी फुर्ती के साथ हाथ में गदा ले, रथ से कूद कर, जमीन पर जा खड़ा हुआ ॥ ४० ॥

ततः क्रोधसमाविष्टः सुपेणो हरिपुंगवः ।

शिलां सुमहतीं गृह्य निशाचरमभिद्रवत् ॥ ४१ ॥

वह देख कपिश्रेष्ठ सुपेण क्रुद्ध हुआ और एक बड़ी भारी शिला ले कर, विद्युन्माली की ओर झपटा ॥ ४१ ॥

तमापतन्तं गदया विद्युन्माली निशाचरः ।

वक्षस्यभिजघानाशु सुपेणं हरिसत्तमम् ॥ ४२ ॥

सुपेण को अपनी ओर आते देख, राजस विद्युन्माली ने बड़ी फुर्ती से वानरात्तम सुपेण की छाती में गदा का प्रहार किया ॥ ४२ ॥

गदाप्रहारं तं घोरमचिन्त्य प्लवगोत्तमः ।

तां शिलां पातयामास तस्योरसि महामृधे ॥ ४३ ॥

कपिश्रेष्ठ सुपेण ने उस गदा के प्रहार की कुछ भी परवाह न की और उस महती शिला को विद्युन्माली की छाती पर दे पटका ॥ ४३ ॥

शिलाप्रहाराभिहतो विद्युन्माली निशाचरः ।

निष्पिष्टहृदयो भूमौ गतासुनिपपात ह ॥ ४४ ॥

उसकी चोट से विद्युन्माली का हृदय चूर्ण हो गया और वह निर्जीव हो पृथिवी पर गिर पड़ा ॥ ४४ ॥

एवं तैर्दानरैः शूरैः शूरास्ते रजनीचराः ।

द्वन्द्वे विमृदितास्तत्र दैत्या इव दिवोकसैः ॥ ४५ ॥

इसी प्रकार शूर वानरों ने उन वीर राजसों को द्वन्द्वयुद्ध में वैसे ही हराया जैसे देवताओं ने दैत्यों को हराया था ॥ ४५ ॥

भग्नैः खड्गैर्गदाभिश्च ॐशक्तितोमरपट्टसैः ।

अपविद्धैश्च भिन्नैश्च रथैः सांग्रामिकैर्हयैः ॥ ४६ ॥

निहतैः कुञ्जरैर्मत्तैस्तथा वानरराक्षसैः ।

चक्राक्षयुगदण्डैश्च भग्नैर्धरणिशंश्रितैः ।

वभूवायोधनं घोरं गोमायुगणसंकुलम् ॥ ४७ ॥

भालों, गदाओं, शक्तियों तोमरों और तीरों से टूटे रथों और घोड़ों, मतवाले हाथियों तथा मरे हुए राक्षसों और वानरों से, टूटे रथ के पहियों, धुरियों और जुओं से रणभूमि भर गई थी अथवा जिधर देखो उधर रणभूमि में ये ही चीजें पड़ी हुईं देख पड़ती थीं । इनसे तथा शृगालों से भरी हुईं वह रणभूमि, बड़ी भयङ्कर जान पड़ती थी ॥ ४६ ॥ ४७ ॥

कवन्धानि समुत्पेतुर्दिक्षु वानररक्षसाम् ।

विमर्दे तुमुल्ले तस्मिन् देवासुररणोपमे ॥४८॥

वानरों और राक्षसों के सिरहीन घड़ अर्थात् कवन्ध; वैसे ही देख पड़ते थे जैसे कि, दैत्यों और देवताओं के भयङ्कर युद्ध में दिखलाई पड़ते थे ॥ ४८ ॥

विदार्यमाणा हरिपुंगवैस्तदा

निशाचराः शोणितदिग्धगात्राः ।

पुनः सुयुद्ध तरसा समास्थिता

दिवाकरस्यास्तमयाभिकाङ्क्षिणः ॥ ४९ ॥

इति त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥

वानरश्रेष्ठों द्वारा क्षतविन्न राक्षसों के शरीरों से रुधिर बहने लगा । तिस पर भी वे युद्ध करने को सूर्यास्त होने पर, रात की प्रतीक्षा करने लगे ॥ ४६ ॥

युद्धकाण्ड का तैंतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—❀—

चतुश्चत्वारिंशः सर्गः

—❀—

युद्धयतामेव तेषां तु तदा वानररक्षसाम् ।

रविरस्तं गतो रात्रिः प्रवृत्ता प्राणहारिणी ॥ १ ॥

वानरों और राक्षसों को इस प्रकार युद्ध करते सूरज डूब गया और राक्षसों तथा वानरों की प्राणसंहारकारिणी रात आ उपस्थित हुई ॥ १ ॥

अन्योन्यं बद्धवैराणां घोराणां जयमिच्छताम् ।

संप्रवृत्तं निशायुद्धं तदा वानररक्षसाम् ॥ २ ॥

परस्पर वैर बंधे हुए और एक दूसरे को परास्त करने की इच्छा रखने वाले भयङ्कर वानरों और राक्षसों का रात में युद्ध होने लगा ॥ २ ॥

राक्षसोऽसीती हरयो हरिश्चासीति राक्षसाः ।

अन्योन्यं समरे जघ्नस्तिस्मस्तमसि दारुणं ॥ ३ ॥

वानर कहते "तू राक्षस है" और राक्षस कहते "तू वानर है" —इस प्रकार एक दूसरे से कह कर, रात के उम घोर अंधकार में वे एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे ॥ ३ ॥

वा० रा० यु०—२७

जहि दारय चैहीति कथं विद्रवसीति च ।

एवं सुतुगुलः शब्दस्तस्मिंस्तमसि शुश्रुवे ॥ ४ ॥

‘मारो मारो’, ‘काटो काट’, ‘क्यों भागता है’ आदि बातें कहते हुए उन लोगों का बड़ा कोलाहल सुनाई पड़ता था ॥ ४ ॥

कालः काञ्चनसन्नाहास्तस्मिंस्तमसि राक्षसाः ।

संप्रादृश्यन्त शैलेन्द्रा दीप्तौषधिवना इव ॥ ५ ॥

सुवर्ण कवचधारी काले-काले रंग के राक्षस, उस अन्धकार में ऐसे जान पड़ते थे ; मानों प्रकाशमान जड़ी रूखरियों के वन से भरे हुए बड़े-बड़े पहाड़ हों ॥ ५ ॥

तस्मिंस्तमसि दुष्पारे राक्षसाः क्रोधमूर्च्छिताः ।

परिपेतुर्महावेगा भक्षयन्तः प्लवङ्गमान् ॥ ६ ॥

उस निविड़ अंधकार में राक्षस अत्यन्त क्रुद्ध हो कर, बड़े वेग से वानरों की सेना में कूद पड़े और वानरों को खाने लगे ॥६॥

ते हयान् काञ्चनापीडान् ध्वजांश्चाग्निशिखोपमान् ।

आप्लुत्य दशनैस्तीक्ष्णैर्भीमकोपा व्यदारयन् ॥ ७ ॥

सुवर्ण की कलगियों से भूपित घोड़ों से युक्त और अग्नि-शिखा के समान चमचमाती रथों की ध्वजाओं को, वानर भी छल्लाँग मार मार कर अपने पौने-पौने दाँतों से अत्यन्त क्रुद्ध हो, चोरे फाड़े डालते थे ॥ ७ ॥

वानरा बलिनो युद्धेऽक्षोभयन् राक्षसीं चमूम् ।

कुञ्जरान् कुञ्जरारोहान् पताकाध्वजिनो रथान् ॥ ८ ॥

चकर्षुश्च ददंशुश्च दशनैः क्रोधमूर्च्छिताः ।

लक्ष्मणश्चापि रामश्च शरैराशीविषोपमैः ॥ ९ ॥

समर में बलवान चानर राज्ञसी सेना को दुःख देते तथा गर्जों और महावतां तथा ध्वजात्रां से शोभित रथों का पकड़ कर खींच लेते और क्रुद्ध हो उनको दोंतों से फाड़ डालते थे । लक्ष्मण और शरामचन्द्र सर्पाकार तीरों से ॥ ८ ॥ ६ ॥

दृश्यादृश्यानि रक्षांसि प्रवराणि निजमृतुः ।

तुरङ्गखुरविध्वस्तं रथनेमिसमुत्थितम् ॥ १० ॥

उन राज्ञसों को, जो सामने थे और जो छिपे हुए थे, मार रहे थे । घोड़ों के खुरों से और रथ के पहियों से उड़ी हुई ॥१०॥

रुरोध कर्णनेत्राणि युद्धयतां धरणीरजः ।

वतमाने महाघोरे संग्रामे रोमहर्षणे ॥ ११ ॥

धून, लड़ने वालों के कानों और आँखों में भर गई । उस महाभयङ्कर रोमाञ्चकारों उपस्थित युद्ध में ॥ ११ ॥

रुघिरोदा महाघोरा नद्यस्तत्र प्रसुप्तुः ।

ततो भेरीमृदङ्गानां पणवानां च निःस्वनः ॥ १२ ॥

शङ्खवेणुस्वनोन्मिश्राः सम्भ्रूवाद्भुतोपमः ।

हतानां स्तनमानानां राक्षसानां च निःस्वनः ॥१३॥

लोहू की बड़ी भयङ्कर नदियों बहने लगीं । अब नगाड़ों, मृदंगों और ढोलों के शब्द, शङ्खों और वेणु बाजों के शब्द से मिल कर, बड़ा अद्भुत सुन पड़ता था ; घायल राक्षसों के कराहने तथा चिल्लाने का ॥ १२ ॥ १३ ॥

शस्तानां वानराणां च सम्भ्रूवातिदारुणः ।

हतैर्वानरीरैश्च शक्तिशूलपरश्वधैः ॥ १४ ॥

और प्रहार करते हुए वानरों के चीत्कार का बड़ा घोर शब्द सुन पड़ता था । मरे हुए वीर वानरों की लोथों से, शक्ति, शूल, फरसा आदि आयुधों से, ॥ १४ ॥

निहतैः पर्वताग्रैश्च राक्षसैः कामरूपिभिः ।

शस्त्रपुष्पोपहारा च तत्रासीद्युद्धमेदिनी ॥ १५ ॥

मरे हुए कामरूपी पर्वतशिखराकार राक्षसों से तथा शस्त्ररूपी फूलों से रणभूमि ढकी हुई थी ॥ १५ ॥

दुर्ज्ञेया दुर्निवेशा चा शोणितान्नावर्द्धमा ।

सा बभूव निशा घोरा हरिराक्षसहारिणी ॥ १६ ॥

रणभूमि के स्थान न तो सहज में पहिचाने जाते थे और न वहाँ पैर रखने की जगह ही थी । जिधर देखो उधर लोहू और माँस की कीचड़ ही कीचड़ देख पड़ती थी । वानरों और राक्षसों के प्राणों की लेवा वह रात, बड़ी भयङ्कर थी ॥ १६ ॥

कालरात्रीव भूतानां सर्वेषां दुरतिक्रमा ।

ततस्ते राक्षसास्तत्र तस्मिंस्तमसि दारुणे ॥ १७ ॥

और समस्त जीवों की दुस्तर कालरात्रि की तरह वह जान पड़ती थी । वहाँ पर समस्त राक्षस उस दारुण अंधकार में ॥ १७ ॥

रामभेवाभ्यवर्तन्त संसृष्टाः शरवृष्टिभिः ।

तेपामापतर्ता शब्दः क्रुद्धानामपि गर्जताम् ॥ १८ ॥

एकत्र हो श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर वाणों की वर्षा करने लगे । राक्षसों के दौड़ने तथा क्रुद्ध हो गर्जने का शब्द ॥ १८ ॥

१ उद्धर्त इव सप्तानां समुद्राणां प्रशुश्रुवे ।

तेषां रामः शरैः पद्भिः पट् जघान निशाचरान् ॥ १६ ॥

निमेपान्तरमात्रेण शितैरग्निशिखोपमैः ।

यमशत्रुश्च दुर्धर्षो महापार्श्वमहोदरौ ॥ २० ॥

वज्रदंष्ट्री महाकायस्तौ चोभौ शुकसारणौ ।

ते तु रामेण वाणौघैः सर्वे मर्मसु ताडिताः ॥ २१ ॥

वैसा ही सुन पड़ा; जैसा कि, प्रलयकाल में सातों समुद्रों का सुन पड़ता है । श्रीरामचन्द्र जी ने उन राजसों में से छः राजसों को अग्निशिखा तुल्य छः प्रदीप्त वाणों से पल भर में मार डाला । उन छः दुर्धर्ष राजसों के नाम थे, यमशत्रु, महापार्श्व, महोदर, वज्रदंष्ट्र और बड़े डीलडौल के शुक तथा सारण । इन छः के मर्मस्थल श्रीरामचन्द्र जी के वाणों से चुटीले हो गये थे ॥ १६ ॥ २० ॥ २१ ॥

युद्धादपसृतास्तत्र सावशेषायुपोऽभवन् ।

तत्र काञ्चनचिग्राङ्गैः शरैरग्निशिखोपमैः ॥ २२ ॥

मर्मस्थल घायल होने के कारण वे लड़ाई छोड़ भागे, किन्तु भाग कर भी बहुत देर तक जीते न रह सके । तदनन्तर काञ्चन-भूषित अग्निशिखा के समान प्रदीप्त वाणों से श्रीरामचन्द्र जी ने ॥ २२ ॥

दिशश्चकार विमलाः प्रदिशश्च महाबलः ।

[रामनामाङ्कितैर्वाणैर्व्याप्तं तद्रणमण्डलम्] ॥ २३ ॥

समस्त दिशाओं और विदिशाओं को साफ कर दिया । श्रीराम नामाङ्कित वाणों से वहाँ का रणक्षेत्र व्याप्त हो गया ॥ २३ ॥

१ उद्धर्त—प्रलये । (गो०)

ये त्वन्ये राक्षसा भीमा रामस्याभिमुखे स्थिताः ।

तेऽपि नष्टाः समासाद्य पतङ्गा इव पावकम् ॥ २४ ॥

और भी जो कोई वीर राक्षस उनके सामने पड़े, वे भी उसी प्रकार नष्ट हो गए, जिस प्रकार पतंगों अग्नि के सामने पड़ने पर नष्ट हो जाते हैं ॥ २४ ॥

सुवर्णपुङ्खैर्विंशिक्षैः सम्पतद्भिः सहस्रशः ।

वभूव रजनी चित्रा खद्योतैरिव शारदी ॥ २५ ॥

चारों ओर सुनहले पुंख के बाणों के चलने से वह रात ऐसी जान पड़ती थी, जैसी जुगुनुओं से शम्भु की रात मालूम पड़ती है ॥ २५ ॥

राक्षसानां च निनदैर्हरीणां चापि निःस्वनैः ।

सा वभूव निशा घोरा भूयो घोरतरा तदा ॥ २६ ॥

राक्षसों के नाद से और वानरों के गर्जन से वह भयङ्कर रात और भी अधिक भयङ्कर हो गई थी ॥ २६ ॥

तेन शब्देन महता प्रवृद्धेन समन्ततः ।

त्रिकूटः कन्दराकीर्णः प्रव्याहरदिवाचलः ॥ २७ ॥

चारों ओर उस महान् कोलाहल के होने से त्रिकूटपर्वत की कन्दराएँ ऐसी प्रतिबन्धित हुईं, मानों वे बोल रही हों ॥ २७ ॥

गोलाङ्गूला महाकायास्तमसा तुल्यवर्चसः ।

संपरिष्वज्य बाहुभ्यां भक्षयन् रजनीचरान् ॥ २८ ॥

बड़े भारी डीलडौल के तथा काले रंग के गोलाङ्गल जाति के वानर दोनों भुजाओं से राक्षसों को दबा-दबा कर, उनको खा रहे थे ॥ २८ ॥

अङ्गदस्तु रणे शत्रुं निहन्तुं समुपस्थितः ।

राधणिं निजधानाशु सारथिं च हयानपि ॥ २६ ॥

उधर अङ्गद युद्धक्षेत्र में अपने शत्रुओं को मार रहे थे । उन्होंने मेघनाद पर वार करते हुए उसके रथ के सारथि और घोड़ों को बड़ी फुर्ती से मार डाला ॥ २६ ॥

वर्तमाने तदा घोरं संग्रामे भृशदारुणे ।

इन्द्रजित् तंरथं त्यक्त्वा हताश्वो हतसारथिः ॥३०॥

अङ्गदेन महाकायस्तत्रैवान्तरधीयत ।

तत्कर्म वालिपुत्रस्य सर्वे देवा महर्षिभिः ॥ ३१ ॥

तुष्टुवुः पूजनार्हस्य तौ चौभौ रामलक्ष्मणौ ।

प्रभावं सर्वभूतानि विदुरिन्द्रजितो युधि ॥ ३२ ॥

तब उस अति दारुण एवं भयंकर युद्ध में अङ्गद द्वारा अपने सारथि और घोड़ों के मारे जाने पर, इन्द्रजीत रथ को त्यागकर वहीं अन्तर्धान हो गया । प्रशसनीय वालितनय अङ्गद की इम वीरता को देख, समस्त देवता ऋषिगण तथा दोनों राजकुमार श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण भी संतुष्ट हुए । क्योंकि युद्ध में इन्द्रजीत कैसा बलवान था—यह बात सब लोग जानते थे ॥३०॥३१॥३२॥

अदृश्यः सर्वभूतानां योऽभवद्युधि दुर्जयः ।

तेन ते तं महात्मानं तुष्टा दृष्ट्वा प्रधर्षितम् ॥ ३३ ॥

इन्द्रजीत प्राणिमात्र से युद्ध में दुर्जेय था । उसको महार्थर्ववान् अङ्गद द्वारा पराजित देख, सब बड़े संतुष्ट हुए ॥ ३३ ॥

ततः प्रहृष्टाः कपयः ससुग्रीवविभीषणः ।

साधुसाध्विति नेदुश्च दृष्ट्वा शत्रुं प्रधर्षितम् ॥ ३४ ॥

तदनन्तर शत्रु को पराजित देख, सब वानरों ने और सुग्रीव सहित विभीषण ने प्रसन्न हो, अङ्गद की “वाह वाह” कह कर, षड़ाई की ॥ ३४ ॥

इन्द्रजित्तु तदा तेन निर्जितो भीमकर्मणा ।

संयुगे वालिपुत्रेण क्रोधं चक्रे सुदारुणम् ॥ ३५ ॥

उस युद्धमें भीमकर्मा वालितनय अङ्गद द्वारा पराजित होने से इन्द्रजीत अत्यन्त क्रुद्ध हुआ ॥ ३५ ॥

एतस्मिन्नन्तरे रामो वानरान् वाक्यमब्रवीत् ।

सर्वे भवन्तस्तिष्ठन्तु कपिराजेन सङ्गताः ॥ ३६ ॥

इसी बीच में श्रीरामचन्द्र जी ने वानरों को यह आज्ञा दी कि, आप सब लोग सुग्रीव के पास ठहरे रहें ॥ ३६ ॥

स ब्रह्मणा दत्तवरस्त्रैलोक्यं वाधते भृशम् ।

भवतामर्थसिद्ध्यर्थं कालेन स समागतः ॥ ३७ ॥

अद्यैव क्षमितव्यं मे भवन्तो विगतज्वराः ।

सोऽन्तर्धानगतः पापो रावणी रणकर्कशः ॥ ३८ ॥

(और वानरों से कहा ब्रह्मा जी के वरदान से बलवान हो, तीनों लोकों को बहुत सताता है । आपका काम बनाने का अब ठीक समय आ गया है । आप लोग उसे मेरे लिए छोड़ कर निश्चित हो जाय । (इतने में) रणकर्कश और पापी रावणपुत्र मेघनाद अंतर्धान हो गया ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

अदृश्यो निशितान् वाणान् मुमोचाशनिवर्चसः ।

स रामं लक्ष्मणं चैव वीरैर्नागमयैः शरैः ॥ ३६ ॥

• • और छिपे छिपे वज्र के समान चमचमाते पंने वाण छोड़ने लगा । भयङ्कर सर्पमय वाणों से श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण ॥३६॥

विभेद समरे क्रुद्धः सर्वगात्रेषु राक्षसः ।

मायया संवृतस्तत्र मोहयन् राघवौ युधि ॥ ४० ॥

के समस्त शरीर को, क्रुद्ध-हो, युद्ध में, उस राक्षस ने क्षतविक्षत कर डाला । उस समय वह माया द्वारा बलवान हो, युद्ध में श्रीरामचन्द्र जी को मोहित करता हुआ ॥ ४० ॥

अदृश्यः सर्वभूतानां कूटयोधी निशाचरः ।

वधन्ध शरवन्धेन आतरो रामलक्ष्मणौ ॥ ४१ ॥

उस कपटयोद्धा इन्द्रजीत ने सब की आंख बचा, वाणों के वधनों से दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण को बांध लिया ॥४१॥

तौ तेन पुरुषव्याघ्रौ क्रुद्धेनाशीविषैः शरैः ।

सहसा निहतौ वीरौ तदा प्रैक्षन्त वानराः ॥ ४२ ॥

उस समय दोनों वीर भाई विषधर सप तुल्य वाणों से सध वानरों के देखते देखते सहसा बंध गए ॥ ४२ ॥

प्रकाशरूपस्तु यदा न शक्तः

तौ वाधितुं राक्षसराजपुत्रः ।

मादः प्रयोक्तुं समुपाजगाम

वधन्ध तौ राजसुतौ छुदुरात्मा ॥४३॥

इति चतुश्चत्वारिंशः सर्गः ॥

जब रावणपुत्र मेघनाद प्रत्यक्ष हो कर, श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण को न बाँध सका, तब उस दुरात्मा ने उन दोनों राजकुमारों को (माया का प्रयोग कर अर्थात्) कपट चाल से बाँधा ॥ ४३ ॥

युद्धकाण्ड का चवालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—*—

पञ्चचत्वारिंशः सर्गः

—*—

स तस्य गतिमन्विच्छन् राजपुत्रः प्रतापवान् ।

दिदेशातिवल्लो रामो दश वानरयूथपान् ॥ १ ॥

प्रतापी एवं अतिवल्लवान् राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी ने मेघनाद को ढूँढ़ने के लिए दस वानरयूथपतियों को आज्ञा दी ॥ १ ॥

द्वौ सुपेणस्य दायादौः नीलं च ल्लवगर्षभम् ।

अङ्गदं वालिपुत्रं च शरभं च तरस्विनम् ॥ २ ॥

विनतं जाम्बवन्तं च सानुप्रस्थं महाबलम् ।

ऋषभं चर्षभस्कन्धमादिदेश परन्तपः ॥ ३ ॥

उन दस वानरयूथपतियों में दोनों सुपेण के पुत्र थे, कपिश्रेष्ठ नील, वालिपुत्र अङ्गद, वलवान् शरभ, विनत, जाम्बवान् महाबली सानुप्रस्थ, ऋषभ और ऋषभस्कन्ध थे । इनको परन्तप श्रीरामचन्द्र जी ने आज्ञा दी ॥ २ ॥ ३ ॥

१ दायादौ—पुत्रौ । (गो०)

ते सम्प्रहृष्टा हरयो भीमानुद्यम्य पादपान् ।

आकाशं विविशुः सर्वे मार्गमाणा दिशो दश ॥४॥

ये सब के सब प्रसन्न हो बड़े बड़े भयङ्कर आकार वाले वृत्तों को हाथों में ले, आकाशमण्डल में पहुँचे और चारों ओर घूम फिर कर, इन्द्रजीत को ढूँढ़ा ॥ ४ ॥

तेषां वेगवतां वेगमिषुभिर्वेगवत्तरैः ।

अस्त्रवित्परमास्त्रैस्तु वारयामास रावणिः ॥ ५ ॥

तं भीमवेगा हरयो नाराचैः क्षतविग्रहाः ।

अन्धकारे न ददृशुर्मघैः सूर्यमिवावृतम् ॥ ६ ॥

अस्त्रविद्यावेत्ता. रावणपुत्र मेघनाद ने इन वेगवान् वानरों के वेग को परमास्त्रों से रोका । वे भयङ्कर वेगवाले वानर वाणों की चोट खा कर, क्षतविक्षत हो गये और अन्धकार में मेघनाद को वैसे ही न देख सके, जैसे मेघों से आच्छादित सूर्य को कोई नहीं देख सकता ॥ ५ ॥ ६ ॥

रामलक्ष्मणयोरेवं सर्वदेहभिदः शरान् ।

भृशमावेशयामास रावणिः समितिञ्जयः ॥ ७ ॥

समरविजयी मेघनाद ने शरीर को भेदन करने वाले वाणों से छेद छेद कर, श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण के शरीरों को चलनी कर डाला ॥ ७ ॥

१निरन्तरशरीरौ तौ आतरौ रामलक्ष्मणौ ।

क्रुद्धेनेन्द्रजिता वीरौ पन्नगैः शरतां गतः ॥ ८ ॥

१ निरन्तरशरीरौ उपरिभागेऽन्तररहितदेहौ कृतौ (१०)

क्रुद्ध हो वीर इन्द्रजीत ने दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण के शरीरों में इतने बाण मारे कि, शरीर में तिल रखने को भी जगह न रह गई । उसके वे बाण नाग हो जाते थे ॥ ८ ॥

तयोः क्षतजमार्गैश्च सुस्राव रुधिरं बहु ।

तावुभौ च प्रकाशते पुष्पिताविव किंशुकौ ॥ ९ ॥

दोनों वीर भाइयों के शरीरों के घावों से बहुत सा खून बह रहा था और वे दोनों फूले हुए टेसू के पेड़ की तरह देख पड़ते थे ॥ ९ ॥

ततः पर्यन्तरक्ताक्षो भिन्नाञ्जनचयोपमः ।

रावणिभ्रातरौ वाक्यमन्तर्धानगतोऽब्रवीत् ॥ १० ॥

लाल लाल नेत्र किए अजन के पहाड़ की तरह काला मेघ-नाद, छिपे छिपे ही दोनों भाइयों से बोला ॥ १० ॥

युद्धचमानमनालक्ष्यं शक्रोऽपि त्रिदशेश्वरः ।

द्रष्टुमासादितुं वाऽपि न शक्तः किं पुनर्युवाम् ॥ ११ ॥

अलक्षित युद्ध करते हुए मुझको जब देवराज इन्द्र ही नहीं देख सके और न मुझे मार ही सके, तब तुम दोनों की क्या गिनती है ॥ ११ ॥

प्रावृताविषुजालेन राधवौ कङ्कपत्रिणा

एष रोषपरीतात्मा नयामि यमसादनम् ॥ १२ ॥

बाणजाल में फँसे हुए तुम दोनों रघुनन्दनों को मैं क्रुद्ध हो, इन कङ्कपत्रयुक्त बाणों से अभी (मार डाल कर) यमपुरी भेजे देता हूँ ॥ १२ ॥

एवमुक्त्वा तु धर्मज्ञौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ।

निर्विभेद शितैर्वाणैः प्रजहर्ष ननाद च ॥ १३ ॥

इस प्रकार कह, वह दोनों धर्मज्ञ भाई श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण को पैने, पैने बाणों से चतविचत कर और अत्यन्त प्रसन्न हो नाद करने लगा ॥ १३ ॥

मिनाञ्जनचयश्यामो विस्फार्य विपुलं वनुः ।

भूयो भूयः शरान् घोरान् विससर्ज महामृधे ॥ १४ ॥

काजल के समान काला मेघनाद अपने विशाल धनुष को टंकारता हुआ, उम महारणमें बार बार भयङ्कर बाणों को छोड़ने लगा ॥ १४ ॥

ततो मर्मसु मर्मज्ञो मज्जयन्निशिताञ्शरान् ।

रामलक्ष्मणयोर्वीरो ननाद च मुहुर्मुहुः ॥ १५ ॥

मर्मस्थलों को जानने वाला मेघनाद, श्रीरामचन्द्र जी और लक्ष्मण जी के सब सुकृमार अंगों में पैने पैने बाण नार कर बारबार गर्जने लगा ॥ १५ ॥

वद्वौ तु शरवन्धेन तावुभौ रणमूर्धनि ।

निमेषान्तरमात्रेण न शेकतुरुदीक्षितुम् ॥ १६ ॥

इस लड़ाई में बाणजाल में बँधे हुए, वे दोनों एक पल के लिए भी मेघनाद को न देख सके ॥ १६ ॥

ततो विभिन्नसर्वाङ्गौ शशल्याचितावुभौ ।

ध्वजाविव महेन्द्रस्य रज्जुमुक्तौ प्रकम्पितौ ॥ १७ ॥

तब सर्वाङ्ग छिन्नभिन्न, बाणजाल में बँधे हुए दोनों भाई, रस्सी से रहित अर्थात् खुली हुई इन्द्र की ध्वजा की तरह काँपने लगे ॥ १७ ॥

तौ संप्रचलितौ घोरौ मर्मभेदेन कशितौ ।

निपेततुर्महेष्वाप्तौ जगत्यां जगतीपती ॥ १८ ॥

मर्मस्थलों के विध जाने से व्याकुल महाधनुर्धारी जगत्पति श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण पृथिवी पर गिर पड़े ॥ १८ ॥

तौ वीरशयने वीरौ शयानौ रुधिरोक्षितौ ।

शरवेष्टितसर्वाङ्गात्रातौ परमपीडितौ ॥ १९ ॥

उनके शरीर रुधिर से तर बतर थे । वे दोनों वीरोक्षित शय्या पर पड़े हुए थे । सारे शरीर में वाण गड़े हुए थे । अतः वे परम पीड़ित और विकल हो रहे थे ॥ १९ ॥

न ह्यविद्धं तयोगात्रि वभूवाङ्गुलमन्तरम् ।

नानिर्भिन्नं न चास्तब्धमाकराग्रादजिह्वगैः ॥ २० ॥

उन दोनों के शरीरों में एक अंगुल भी ऐसी जगह नहीं, जहाँ वाण न गड़े हों । हाथों की अंगुलियों तक में वाण बिधे हुए थे ॥ २० ॥

तौ तु क्रूरेण निहतौ रक्षसा कामरूपिणा ।

असृक् सुस्रुवतुस्तीव्रं जलं प्रस्रवणाविव ॥ २१ ॥

क्रूर स्वेच्छाचारी मेघनाद ने उन दोनों को ऐसा मारा कि, दोनों भाइयों के अगों से, भरने से जल भरने की तरह, रुधिर भर रहा था ॥ २१ ॥

पपात प्रथमं रामो विद्धो मर्मसु मार्गणैः ।

क्रोधादिन्द्रजिता येन पुरा शक्रो विनिर्जितः ॥ २२ ॥

जिस मेघनाद ने पूर्वकाल में इन्द्र को जीता था; उसके क्रोध में भर चलाए हुए वाणों से मर्मविद्ध हो, श्रीरामचन्द्र जी पहिले भूमि पर गिर पड़े ॥ २२ ॥

लक्ष्मणपुङ्खैः प्रसन्नाग्रैरधोऽतिभिराशुगैः ।

नाराचैरर्धनाराचैर्भल्लैरञ्जलिकैरपि ॥ २३ ॥

त्रिव्याध वत्सदन्तैश्च सिंहदंष्ट्रैः क्षुरैस्तथा ।

स वीरशयने शिशये विज्यमादाय कार्मुकम् ॥ २४ ॥

सुवर्ण पुंख वाले, पैनी नोंक के, ऊपर से नीचे की ओर बड़ी तेजी से आने वाले, सीधे नोंको के, झुकी हुई नोंको वाले, भाले जैसे, अङ्गुलि के आकार की नोंको वाले, बछड़े के दाँत जैसी नोंक वाले, सिंह की ढाढ़ों जैसी नोंक वाले और छुरा जैसी नोंक वाले वाणों से क्षतविक्षत हो, श्रीरामचंद्र जी अपना प्रत्यञ्चारहित धनुष पटक, वीरशय्या पर सो गए ॥ २३ ॥ २४ ॥

भिन्नगुष्टिपरीणाहं त्रिणतं रत्नभूषितम् ।

बाणपातान्तरे रामं पतितं पुरुषर्षभम् ॥ २५ ॥

तीन स्थानों से झुके हुए और रत्नभूषित धनुष की मुठिया उनके हाथ से छूट गई । तदनन्तर पुरुषश्रेष्ठ श्रीरामचंद्र को बाण-शय्या पर पड़ा हुआ ॥ २५ ॥

स तत्र लक्ष्मणो दृष्ट्वा निराशो जीवितेऽभवत् ।

रामं कमलपत्राक्षं शरबन्धपरिक्षतम् ॥ २६ ॥

शुशोच आतरं दृष्ट्वा पतितं धरणीतले ।

हरयश्चापि तं दृष्ट्वा सन्तापं परमं गताः ॥ २७ ॥

देख, लक्ष्मण जी उनके जीवन से निराश हो गए । कमलनेत्र, शरबंधन में फँसे और घायल भाई श्रीरामचन्द्र को जमीन पर गिरा हुआ देख, लक्ष्मण जी शोकान्वित हो गए । वानर भो श्रीरामचन्द्र जी को यह दशा देख परम संतप्त हुए ॥२६॥२७॥

बद्धौ तु वीरौ पतितौ शयानौ

तौ वानराः सम्परिवार्य तस्थुः ।


समागता वायुसुतप्रमुख्या

विषादमार्ताः परमं च जग्मुः ॥२८॥


इति पञ्चचत्वारिंशः सर्गः ॥

दोनों वीर भाइयों को जमीन पर पड़ा हुआ देख, वानर लोग उन दोनों को घेर कर बैठ गए । फिर वायुपुत्र हनुमानादि प्रमुख वीर वानर, उन दोनों के समीप जा परम विपादित हुए ॥२८॥

युद्धकाण्ड का पैंतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ।



षट्चत्वारिंशः सर्गः



ततो ऽद्यां पृथिवीं चैव वीक्षमाणा वनौकसः ।

ददृशुः सन्ततौ वाणौर्भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ १ ॥

दोनों भाई श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण को वाणों से व्याप्त देख, वानर जमीन आसमान ताकने लगे ॥ १ ॥

वृष्ट्वेवोपरते देवे कृतकर्मणि राक्षसे ।

आजगामाथ तं देशं ससुग्रीवो विभीषणः ॥ २ ॥

जैसे इन्द्र वर्षा कर चुकते हैं, वैसे ही जब इन्द्रजीत वाणों की वर्षा कर चुका, तब वहाँ सुग्रीव सहित विभीषण पहुँचे ॥२॥

नीलद्विविदमैन्दारच सुपेणकुमुदाङ्गदाः ।

तूर्णं हनुमता सार्धमन्वशोचन्त राघवौ ॥ ३ ॥

नील, द्विविद, मैन्द, सुपेण, कुमुद और अङ्गद; हनुमान से साथ मिल कर, दोनों भाइयों के विषय में शोकान्वित हुए ॥३॥

अचेष्टौ मन्दनिश्वाशौ शोणितौघपरिस्रुतौ ।

शरजालाचित्रौ स्तब्धौ शयानौ शरतल्पयोः ॥ ४ ॥

दोनों भाई निश्चेष्ट, मन्द-श्वास-युक्त, रुधिर से तराबोर, बाणों से विधे, शरशय्या पर सो रहे थे ॥ ४ ॥

निःश्वसन्तौ यथा सर्पौ निश्चेष्टौ मन्दविक्रमौ ।

रुधिरस्रावदिग्धाङ्गौ तापनीयाविव ध्वजौ ॥ ५ ॥

और सर्प की तरह साँस ले रहे थे, उनके शरीर चेष्टाहीन हो रहे थे, उनका पराक्रम मन्द पड़ गया था । उनके शरीर लोहू में सने हुए थे । वे दोनों सुवर्ण की दो ध्वजाओं की तरह भूमि पर पड़े हुए थे ॥ ५ ॥

तौ वीरशयने वीरौ शयानौ मन्दचेष्टितौ ।

यूथपैस्तैः परिवृता वाष्पव्याकुललोचनैः ॥ ६ ॥

वे दोनों वीर शय्या पर लेटे हुए, मन्द-चेष्टा-युक्त हो रहे थे । उन दोनों को वानरयूथपति घेरे हुए थे । उनके नेत्रों से आँसुओं का धारें बह रही थीं ॥ ६ ॥

राघवौ पतितौ दृष्ट्वा शरजालसमावृतौ ।

बभ्रुवुर्यथिता सर्वे वानराः सविभीषणाः ॥ ७ ॥

श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण को शरजाल में फँसा हुआ देख, विभीषण सहित समस्त वानर व्यथित हुए ॥ ७ ॥

अन्तरिक्षं निरीक्षन्तो दिशः सर्वाश्च वानराः ।

न चैनं मायया च्छन्नं ददृशू रावणिं रणे ॥ ८ ॥

आकाश तथा समस्त दिशाओं की ओर देखते हुए भी, उन वानरों को माया के बल से छिपा हुआ मेघनाद युद्धक्षेत्र में कहीं भी न देख पड़ा ॥ ८ ॥

तं तु मायाप्रतिच्छन्नं माययैव विभीषणः ।

वीक्षमाणो ददर्शाथि भ्रातुः पुत्रमवस्थितम् ॥ ९ ॥

किन्तु माया के बल से छिपे हुए अपने भतीजे को, माया के बल से देखते हुए विभीषण ने देखा कि, वह (पास ही) खड़ा है ॥ ९ ॥

तमप्रतिमकर्माणमप्रतिद्वन्द्वमाहवे ।

ददर्शान्तर्हितं वीरं वरदानाद्विभीषणः ॥ १० ॥

तेजसा यशसा चैव विक्रमेण च संयुतम् ।

इन्द्रजित्त्वात्मनः कर्म तौ शयानौ समीक्ष्य च ॥ ११ ॥

और जाना कि, युद्ध में इसके समान योद्धा दूसरा नहीं है । विभीषण ने देखा कि, वरदान के प्रभाव से छिपा हुआ मेघनाद तेज, यश और विक्रम से युक्त है । इन्द्रजीत अपनी करतूल से उन दोनों को पड़ा हुआ देख ॥ १० ॥ ११ ॥

उवाच परमप्रीतो हर्षयन् सर्वनैर्ऋतान् ।

दूषणस्य च हन्तागौ खरस्य च महाबलौ ॥ १२ ॥

स्वयं परमप्रसन्न हो और अन्य राजसों की हर्षित करता हुआ उनसे कहने लगा—देखो, खरदूषण के मारने वाले, दोनों महाबलौ ॥ १२ ॥

सादितौ मामकैर्वाणैर्भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ।

नेमौ मोक्षयितुं शक्यादेतस्मादिषुबन्धनात् ॥ १३ ॥

सर्वैरपि समागम्य सर्पिसङ्घैः सुरासुरैः ।

यत्कृते चिन्तयानस्य शोकार्तस्य पितुर्मम ॥ १४ ॥

ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण मेरे वाणों, सुरों, मारे गए । भले ही समस्त देवता ऋषि और दैत्य मिल कर आवें, परन्तु इनको अब कोई भी इस वाणबन्धन से छुड़ा नहीं सकता । जिनके लिए मोक्ष विचार करते करते और शोक से विकल मेरे पिता ॥ १३ ॥ १४॥

अस्पृष्टा शयनं गात्रैस्त्रियामा याति शर्वरी ।

कृतस्नेयं यत्कृते लङ्का नदी वर्षास्त्रिवाकुला ॥ १५ ॥

चार पहर रात खाट पर लेटे बिना ही बिता देते थे और जिसके कारण यह सारी की सारी लङ्का वर्षाकालीन नदी की तरह विकल ही रही थी ॥ १५ ॥

सौज्यं मूलहरोऽनर्थः सर्वेषां निहतो मया ।

रामस्य लक्ष्मणस्यापि सर्वेषां च वनौकसाम् ॥ १६ ॥

विक्रमा निष्फलाः सर्वे यथा शरदि तोयदाः ।

एवमुक्त्वा तु तान् सर्वान् राक्षसान् परिपार्श्वतः ॥ १७ ॥

और जो हमारी सब का जड़ नाश करने वाला और अनर्थकारी था; उस रात को मैंने आज मार डाला । देवों, अथ गम, लक्ष्मण और सब बन्धुओं का मगहन प क्रम बंद ही व्यर्थ हो गया है, जैसे शरदकालीन मेघ दा । अपने समीप खड़े हुए सब राक्षसों से यह कह कर ॥ १६ ॥ १७ ॥

यूथपानपि तान्सर्वास्ताडयामास रावणिः ।

नीलं नवभिराहत्य मैन्दं च द्विविदं तथा ॥ १८ ॥

मेघनाद ने समस्त वानरयूथपतियों को भी बाणों से घायल किया । नील के नौ और मैन्द तथा द्विविद के ॥ १८ ॥

त्रिभिस्त्रिभिरमित्रघ्नस्तताप प्रवरेषुभिः ।

जान्म्वन्तं महेष्वासो विद्ध्वा वाणेन वक्षसि ॥ १९ ॥

तीन तीन बड़े पैंने पैंने वाण शत्रुओं के नाश करने वाले मेघनाद ने मारे । बड़ा धनुष लिये हुए मेघनाद ने जान्म्वान की छाती में एक वाण मारा ॥ १९ ॥

हनूमतो वेगवतो विससर्ज शरान्दश ।

गवाक्षं शरभं चैव द्वावप्यमिततेजसौ ॥ २० ॥

द्वाभ्यां द्वाभ्यां महावेगो विव्याध युधि रवणिः ।

गोलाङ्गूलेश्वरं चैव वालिपुत्रमथाङ्गद ॥ ११ ॥

विव्याध बहुभिर्वाणैस्त्वरमाणोऽथं रावणिः ।

तान् वानरवरान् भित्त्वा शरैरग्निशिखोपमैः ॥ २२ ॥

फिर वेगवान हनुमान जी के दस वाण मार, अमित तेजस्वी गवाक्ष और शरभ के महावेगवान मेघनाद ने दो दो वाण मारे गोलाङ्गूलों के अध्यक्ष अर्थात् गवाक्ष तथा वालिपुत्र अङ्गद के उस फुल्ले मेघनाद ने बहुत से वाण मारे । उन वारनश्रेष्ठों को अग्नि शिखा सदृश दमकते हुए वाणों से घायल कर ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥

ननाद वल्वास्तत्र महासत्त्वः स रावणिः ।

तानर्दयित्वा वणौघैस्त्रासयित्वा च वानरान् ॥ २३ ॥

वह महावली मेघनाद वडी जोर से गर्जा । वानरों को
वाणों से घायल कर और उनको डराता हुआ ॥ २३ ॥

प्रजहास महाबाहुर्वचनं चेदमब्रवीत् ।

शरबन्धेन धोरैण मया बद्धौ चमूमुखे ॥ २४ ॥

सहितौ भ्रातरावेतौ निशामयत राक्षसाः ।

एवमुक्तास्तु ते सर्वे राक्षसाः कूटयोधिनः ॥ २५ ॥

महावली इन्द्रजीत, अट्टहास कर यह बोला—हे राक्षसो ! देखो
मैंने युद्ध मे वाणबन्धन से इन दोनों भाइयों सहित वानरी सेना
को बाँध लिया है । उसके यह वचन सुन, कपटायुद्ध करने वाले
वे समस्त राक्षस, ॥ २४ ॥ २५ ॥

परं विस्मयमाजग्मुः कर्मणा तेन हर्षिताः ।

विनेदुश्च महानादान् सर्वतो जलदोषमाः ॥ २६ ॥

परम विस्मित हुए और उसकी उस वीरता से हर्षित हुए ।
वे वादलों की तरह बड़े जोर से गर्जने लगे ॥ २६ ॥

हतो राम इति ज्ञात्वा रावणिं समपूजयन् ।

निष्पन्दौ तु तदा दृष्ट्वा तावुभौ रामलक्ष्मणौ ॥२७॥

वसुधायां निरुच्छ्वासौ हतावित्यन्वमन्यत ।

हर्षेण तु समाविष्ट इन्द्रजित्समित्तिज्जयः ॥ २८ ॥

“ श्रीरामचन्द्र मारे गये ” यह निश्चय कर, वे मेघनाद की
प्रशंसा करने लगे । दोनों भाइयों की साँस चलती न देख और
उनको निश्चेष्ट पृथिवी पर पड़ा देख, लोगों ने दोनों को मरा

हुआ मान लिआ । शत्रुविजयी इन्द्रजीत इससे स्वयं प्रसन्न होता हुआ ॥ २७ ॥ २८ ॥

प्रविवेश पुरीं लङ्कां हर्षयन् सर्वराक्षसान् ।
 रामलक्ष्मणयोर्दृष्ट्वा शरीरे सायकैश्चित्ते ॥ २६
 सर्वाणि चाङ्गोपाङ्गानि सुग्रीवं भयमाविशत् ।
 तमुवाच परित्रस्तं कनरेद्रं विभीषणः ॥ ३० ॥
 सत्राण्यदानं दीनं शोकव्याकुललोचनम् ।

अलं त्रासेन सुग्रीव राण्यवेगो निगृह्यताम् ॥ ३१ ॥

तथा समस्त राक्षसों को हर्षित करता हुआ, लङ्का में गया । इधर श्रीरामचन्द्र जी एवं लक्ष्मण के समस्त अङ्गों और प्रत्यङ्गों को वाणों से विद्ध देख, सुग्रीव बहुत डरे । सुग्रीव को त्रस्त तथा शोक से विकल हो, दीन भाव से राते देख, विभीषण ने उनसे कहा— हे सुग्रीव ! इस समय डरने से काम न चलेगा । अतः आँसुओं के वेग को रोकें अर्थान् अब रोना बन्द करो ॥ २६ ॥ ३० ॥ ३१ ॥

एवं प्रायाणि युद्धानि विजयो नास्ति नैष्ठिकः ।

सशेषभाग्यताऽस्माकं यदि वीर भविष्यति ॥ ३२ ॥

क्योंकि इस प्रकार के युद्ध में विजय किसी एक ही के लिए नियत नहीं है । हे वीर ! यदि हम लोगों का कुछ भी सौभाग्य शेष होगा ॥ ३२ ॥

मोहमेतौ प्रहास्येते महात्मानौ महाबलौ ।

पर्यवस्थापयात्मानमनाथं मां च वानर ॥ ३३ ॥

तो ये दोनों महाबलवान् महात्मा मूर्च्छा त्याग कर उठ बैठेंगे ।
हे वानर ! अतः हे वानरराज ! तुम स्वयं धीरज धारण करो
और मुझ अनाथ को धीरज बँधाओ ॥ ३३ ॥

सत्यधर्माभिरक्तानां नास्ति ऽमृत्युकृतं भयम् ।

एवमुक्त्वा ततस्तस्य जलक्लिन्नेन पाणिना ॥ ३४ ॥

सुग्रीवस्य शुभे नेत्रे प्रममार्ज विभीषणः ।

ततः सलिलमादाय विद्यया परिजप्य च ॥ ३५ ॥

सुग्रीवनेत्रे धर्मात्मा स ममार्ज विभीषणः ।

प्रमृज्य वदनं तस्य कपिराजस्य धीमतः ॥ ३६ ॥

अत्रवीत्कालसम्प्राप्तमसम्भ्रममिदं वचः ।

न कालः कपिराजेन्द्र वैक्लव्यमनुवर्तितुम् ॥ ३७ ॥

अतिस्नेहोऽप्यकालेऽस्मिन् मरणायोपकल्पते ।

तस्माद्दुत्सृज्य वैक्लव्यं सर्वकार्यविनाशनम् ॥ ३८ ॥

क्योंकि सत्यधर्म में स्थित जनों को अपमृत्यु का भय नहीं
होता । यह कह कर धर्मात्मा विभीषण ने अपने हाथ में जल ले
कर अमङ्गल की निवृत्ति और श्रान्ति दूर करने के लिए, मंत्रों से
उसे अभिमंत्रित कर, उससे सुग्रीव की आँखें धोई । बुद्धिमान्
वानरराज के नेत्र जल से पोंछ कर, विभीषण व्याकुलता निवारक,
समयानुसार वचन बोले । हे वानरराज ! यह समय कायरता
दिखलाने का नहीं है । इस समय अति प्रेम भी घातक है । अतः
तुम सब कार्यों को नष्ट करने वाली कायरता को त्याग दो ॥ ३४ ॥
॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

हितं रामपुरोगाणां सैन्यानामनुचिन्त्यताम् ।

अथवा रक्ष्यतां रामो यावत्संज्ञाविपर्ययः ॥ ३६ ॥

श्रीरामचन्द्र प्रभृति सैनिकों के हित की चिन्ता करो । अथवा जब तक ये सचेत नहीं होते, तब तक इन्हींकी रक्षा करो ॥ ३६ ॥

लब्धसंज्ञौ हि काकुत्स्थौ भयं नो व्यपनेष्यतः ।

नैतत्किञ्चन रामस्य न च रामो मुमूर्षति ॥ ४० ॥

जब ये सचेत हो जाँयगे, तब ये ही हम लोगों को निर्भय कर देंगे । श्रीरामचन्द्र के लिए ये शरवन्धन कुछ भी नहीं है और न वे मरे ही हैं ॥ ४० ॥

न ह्येनं हास्यते लक्ष्मीदुर्लभा या गतायुषाम् ।

तस्मादाश्वासयात्मानं ब्रह्मं चाश्वासय स्वकम् ॥ ४१ ॥

क्योंकि गतायु लोगों के लिए जो मुख की कान्ति दुर्लभ है, वह इनके मुखमण्डल पर अब भी विराजमान है । अतः तुम स्वयं धीरज धारण करो और अपने सैनिकों को धीरज बँधाओ ॥४१॥

यावत्कार्याणि सर्वाणि पुनः संस्थापयाम्यहम् ।

एते हि फुल्लनयानास्त्रासादागतसाध्वसाः ॥४२॥

जब तक मैं अन्य सब बातों की फिर से सुव्यवस्था करूँ; तब तक तुम सब सैनिकों को धीरज बँधा शान्त करो । वानरों की आँखें प्रसन्न देख पड़ती हैं । केवल डर से त्रस्त हो, ॥ ४२ ॥

कर्णे कर्णे प्रकथिता हरयो हरिसत्तम ।

मां तु दृष्ट्वा प्रधावन्तमनीकं सम्प्रहर्षितुम् ४३ ॥

१ रामपुरोगाणां—रामप्रभृतीनां । (गो०) २ प्रकथिताः—पलायनार्थं प्रवृत्तकथा । (गो०)

हे कपिप्रवर ! ये लोग आपस में कानाफूसी कर भागने की सलाह कर रहे हैं । जब मैं सेना के बीच हर्षित हो इधर उधर दौड़गा और ये लोग मुझे देखेंगे ॥ ४३ ॥

त्यजन्तु हरयस्त्रासं भुक्तपूर्वामिव स्रजम् ।

समाश्वास्य तु सुग्रीवं राज्ञसेन्द्रो विभीषणः ४४ ॥

तब ये वानर उस प्रकार भय को त्याग देंगे, जिस प्रकार कुन्हलाई हुई पुष्पमाला त्याग दी जाती है । राज्ञसेन्द्र विभीषण इस प्रकार वानरराज सुग्रीव को समझा ॥ ४४ ॥

विद्रुतं वानरानीकं तत्समाश्वासयत्पुनः ।

इन्द्रजित्मु महामायः सर्वसैन्यसमावृतः ॥ ४५ ॥

भागती हुई या भागने के लिए उद्यत वानरी सेना को समझाने लगे । उधर बड़ा मायावी इन्द्रजीत, अपनी समस्त राज्ञसी सेना को साथ ले ॥ ४५ ॥

विवेश नगरीं लंकां पितरं चाभ्युयागमत् ।

तत्र रात्रणमासीनमभिवाद्य कृताञ्जलिः ॥ ४६ ॥

लङ्का में जा, अपने पिता के पास पहुँचा । वहाँ सिंहासन पर बिराजमान रावण को प्रणाम कर, मेघनाद ने हाथ जोड़ कर ॥ ४६ ॥

आचक्षे प्रियं पित्रे निहतां रामलक्ष्मणौ ।

उत्पपात ततो हृष्टः पुत्रं च परिपस्वजे ॥ ४७ ॥

पिता को रामलक्ष्मण के मारे जाने का प्रियसंवाद सुनाया इस प्रियसंवाद को सुन कर, रात्रण उद्वल पड़ा और उसने हर्षित हो, पुत्र को अपनी छाती से लगा लिया ॥ ४७ ॥

रावणो रक्षसां मध्ये श्रुत्वा शत्रू निपातितौ ।

उपाघ्राय स मूर्ख्येनं पप्रच्छ प्रीतमानरः ॥ ४८ ॥

राक्षसों के बीच में बैठे हुए रावण ने अपने शत्रुओं के मारे जाने का समाचार सुन, इन्द्रजीत का माथा सूंघा और प्रसन्न हो उससे सब वृत्तान्त पूछा ॥ ४८ ॥

पृच्छते च यथावृत्तं पित्रे सर्वं न्यवेदयत् ।

यथा तौ शरबन्धेन निश्चेष्टौ निष्प्रभौ कृतौ ॥ ४९ ॥

पिता के पूछने पर उसने उनसे वह समस्त वृत्तान्त कहा जिस प्रकार उसने श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण को शरबन्धन में बाँध कर, निश्चेष्ट और निष्प्रभ कर दिया था ॥ ४९ ॥

स हर्षवेगानुगतान्तरात्मा

श्रुत्वा वचस्तस्य महारथस्य ।

जहौ ज्वर दाशरथेः समुत्थितं

प्रहृष्य वाचाऽभितनन्द पुत्रम् ॥ ५० ॥

इति पट्वत्वारिंशः सर्गः ॥

महारथी मेघनाद के वचन सुन, रावण अत्यन्त हर्षित हुआ और श्रीरामचन्द्र के भय से उसके मन में जो सन्ताप उत्पन्न हो गया था, वह दूर हो गया । वह प्रसन्न हो पुत्र की बड़ाई करने लगा ॥ ५० ॥

युद्धकाण्ड का छियालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

सप्तचत्वारिंशः सर्गः

—❀—

प्रतिप्रविष्टे लङ्कां तु कृतार्थे रात्रणत्मजे ।

राघवं परिवार्यार्ता ररक्षुर्वानरर्षभाः ॥ १ ॥

जत्र विजयी हो मेघनाद लङ्का में चला गया; तब प्रधान वानर श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण को घेर कर उनकी रक्षा करने लगे ॥ १ ॥

हनुमानङ्गदो नीलः सुपेणः कुमुदो नलः ।

गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः ॥ २ ॥

उनमें हनुमान, अङ्गद, नील, सुपेण, कुमुद, नल, गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गन्धमादन ॥ २ ॥

जाम्बवानृपभः स्कन्धो रम्भः शतवलिः पृथुः ।

व्यूढानीकाश्च यत्ताश्च द्रुमानादाय सर्वतः ॥ ३ ॥

वीक्षमाणा दिशः सर्वास्तिर्यग्ूर्ध्वं च वानराः ।

तृणेष्वपि च चेष्टसु राक्षसा इति मेनिरे ॥ ४ ॥

जाम्बवान, स्कन्ध, रम्भ, शतवलि, पृथु, ये सब अपनी अपनी सेनाओं के व्यूह बना कर हाथों में बड़े बड़े पेटों को ले कर, ऊपर नीचे और चारों दिशाओं की ओर देखते हुए खड़े हो गये । उस समय उनकी ऐसी दृशा हो रही थी कि, यदि वे तिनकाभी हिलता देखते, तो वे वहाँ राक्षस का होना निश्चित कर लेते थे ॥ ३ ॥ ४ ॥

रावणश्चापि संहृष्टो विसृज्येन्द्रजितं सुतम् ।

आजुहाव ततः सीतारक्षिणी राक्षसीस्तदा ॥ ५ ॥

रावण ने प्रसन्न हो अपने पुत्र इन्द्रजीत को विदा किया और सीता जी की रक्षा करने वाली राक्षसियों को अपने पास बुलवाया ॥ ५ ॥

राक्षस्यस्त्रिजिता चैव शासनात्समुपस्थिताः ।

ता उवाच ततो हृष्टि राक्षसी राक्षसाधिपः ॥ ६ ॥

उसकी आज्ञा पाते ही त्रिजटा सहित सब राक्षसी उसके समीप आईं । तब राक्षसराज अत्यन्त हर्षित हो, उन राक्षसियों से कहने लगा ॥ ६ ॥

हताविन्द्रजिताऽऽख्यात वैदेह्या रामलक्ष्मणौ ।

पुष्पकं च समारोप्य दर्शयध्वं हतौ रणे ॥ ७ ॥

तुम जा कर सीता से कहो कि, इन्द्रजीत ने श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण को मार डाला । फिर उसको पुष्पकविमान में बिठा कर समरभूमि में उन दोनों मरे हुए को दिखलाओ ॥ ७ ॥

यदाश्रयादवष्टब्धा नेयं मामुपतिष्ठति ।

सोऽस्या भर्ता सह आत्रा निरस्तो रणमूर्धनि ॥ ७ ॥

जिसके बल के गर्व से गर्वित हो वह मुझको कुछ नहीं समझती थी, वही उसका पति अपने भाई सहित युद्ध में मारा गया ॥ ७ ॥

निर्विशङ्का निरुद्विग्ना निरपेक्षा च मैथिली ।

मामुपस्थास्यते सीता सर्वाभरणभूषिता ॥ ६ ॥

अब कुछ भी सोच विचार न कर और शोक त्याग कर तथा श्रीरामचन्द्र के मिलने की आशा छोड़ कर और सब आभूषणों से भूषित हो कर जानकी मेरे पास चली आवेगी ॥ ६ ॥

अथ कालवशं प्राप्तं रणे रामं सलक्ष्मणम् ।

अवेक्ष्य विनिवृत्ताशा नान्यां गतिमपश्यती ॥ १० ॥

अब वह दोनों को मरा हुआ देख कर, निराश हो जायगी और अपनी रक्षा का अन्य उपाय न देख, ॥ १० ॥

निरपेक्षा विशालाक्षी मामुपस्थास्यते स्वयम् ।

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रावणस्य दुरात्मनः ॥ ११ ॥

और निरपेक्षा हो वह विशालनयनी स्वयं मेरे पास चली आवेगी । दुष्ट रावण के इन वचनों को सुन, ॥ ११ ॥

राक्षस्यस्तास्तथेत्युक्त्वा जग्मुर्वे यत्र पुष्पकम् ।

ततः पुष्पकमादायराक्षस्यो रावणाज्ञया ॥ १२ ॥

और "बहुत अच्छा" कह, वे राक्षसियाँ वहाँ गईं, जहाँ पुष्पक विमान रखा था । वे राक्षसियाँ रावण की आज्ञा से उस पुष्पक विमान को ले ॥ १२ ॥

अशोकवनिकास्थां तां मैथिलीं समुपानयन् ।

तामादाय तु राक्षस्यो भर्तृशोकपराजिताम् ॥ १३ ॥

और अशोकवाटिका में बैठी हुई जानकी जी के पास पहुँची । राक्षसियों ने पति के शोक से दुर्बल ॥ १३ ॥

सीतामारोपयामासुर्विमानं पुष्पकं तदा ।

ततः पुष्पकमारोप्य सीतां त्रिजटया सह ॥ १४ ॥

सीता को ले कर पुष्पकविमान पर नवार कराया । तदनन्तर त्रिजटा सहित सीता को पुष्पकविमान में बैठा ॥ १४ ॥

जग्मुर्दर्शयितुं तस्यै राक्षस्यो रामलक्ष्मणौ ।-

रावणोकारयत्लङ्कां पताकाध्वजमालिनीम् ॥ १५ ॥

वे राक्षसी श्रीराम लक्ष्मण को दिश्वाने के लिए उसे (सीताको) ले गई । उधर रावण ने पताकाओं और ध्वजाओं से लङ्का को सजवा दिया ॥ १५ ॥

प्राघोषयत् हृष्टश्च लङ्कायां राक्षसेश्वरः ।

स्रग्धरो लक्ष्मणश्चैव हताविन्द्रजिता, रणे ॥ १६ ॥

और सारे नगर में उस राक्षसराज ने प्रपन्न हो यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि, समर में इन्द्रजीत ने श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण को मार डाला ॥ १६ ॥

विमानेनापि सीता तु गत्वा त्रिजटया सह ।

ददर्श वानराणां तु सर्व सैन्यं निपातितम् ॥ १७ ॥

उधर त्रिजटा सहित पुष्पकविमान में बैठी हुई सीता ने रणक्षेत्र में जा कर देखा कि, (प्रायः) समस्त अथवा बहुत सी वानरी सेना मरी हुई पड़ी है ॥ १७ ॥

प्रहृष्टमनसश्चापि ददर्श पिशिताशनान् ।

वानरांश्चापि दुःखार्तानिरामलक्ष्मणपार्श्वतः ॥ १८ ॥

सीता ने मोंसभन्नी राक्षसों को अत्यन्त हर्षित देखा और (कुछ) दुग्धी वानरों को, श्रीरामचन्द्र के अगल बगल खड़े हुए देखा ॥ १८ ॥

ततः सीता ददर्शोभौ शयानौ शरतल्पयोः

लक्ष्मणं चापि रामं च विसंज्ञौ शरपीडितौ ॥ १९ ॥

तदनन्तर सीता ने दोनों राजकुमारों को शरशय्या पर सोते हुए देखा । श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण वारणों की व्यथा से व्यथित और मूर्छित पड़े थे ॥ १९ ॥

विध्वस्तकवचौ वीरौ, विप्रविद्धशरासनौ ।

सायकैच्छिन्नसर्वाङ्गौ शरस्तम्बमयौ क्षितौ ॥ २० ॥

उन दोनों वीरों के कवच टूट गए थे तथा उनके धनुष अलग पड़े हुए थे। शरीरों के समस्त अङ्गप्रत्यङ्ग बाणों से विद्धथे। वे ऐसे जान पड़ते थे, मानों बाणों के खम्भे पृथिवी पर पड़े हों ॥ २० ॥

तौ दृष्ट्वा भ्रातरौ तत्र वीरौ सा पुरुषर्षभौ ।

शयानौ पुण्डरीकाक्षौ कुमाराविव पावकी ॥ २१ ॥

पुरुषश्रेष्ठ, शूरवीर, कमलनयन दोनों भाइयों को सीता जी ने वहाँ अग्नि के पुत्रों की तरह सोते हुए पाया ॥२१ ॥

शरत्पगताँ वीरौ तथा भूतौ नरर्षभौ ।

दुःखार्ता सुभृशं सीता सुचिरं विललाप ह ॥ २२ ॥

ऐसे वीर दोनों भाइयों को बाणशय्या पर शयन करते देख, अत्यन्त दुःखी हो, सीता अति कठुणापूर्वक विलाप करने लगी ॥ २२ ॥

भर्तारमनवद्याङ्गी लक्ष्मणं चासितेक्षणा ।

प्रेक्ष्य पँसुपु वेष्टन्तौ रुरोद जनकात्मजा ॥ २३ ॥

अपने भर्ता और लक्ष्मण को धूल में तोटते देख, सर्वाङ्ग-सुन्दरी और काले नेत्रों वाली नीता रोने लगी ॥ २३ ॥

सा बाष्पशोकाभिहता समीच्य

तौ भ्रातरौ देवसमप्रभावौ ।

वितर्कयन्ती निधनं तयोः स।

दुःखान्विता वाक्यमिदं जगाद ॥ २४ ॥

इति सप्तचत्वारिंशः सर्गः

देवताओं के समान प्रभाव वाले उन दोनों भाइयों को इस दशा में देख, सीता मारे शोक के रोने लगी और उनके मरने के विषय में तर्क वितर्क करती हुई, तथा दुःखी हो यह बोली ॥२४॥ युद्धकाण्ड का सैंतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—❀—

अष्टचत्वारिंशः सर्गः

—❀—

भर्तारं निहतं दृष्ट्वा लक्ष्मणं च महाबलम् ।

विललाप भृशं सीता करुणं शोककशिता ॥ १ ॥

अपने पति श्रीरामचन्द्र और महाबली लक्ष्मण को युद्ध में मरा हुआ देख, शोक से विकल सीता, करुणस्वर से बहुत विलाप करने लगी ॥ १ ॥

ऊर्जुर्लक्ष्मणिनो ये मां पुत्रिण्यविधवेति च ।

तेऽद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनोऽनृतवादिनः ॥ २ ॥

जो साखमुद्रिक-शाख ज्ञाता मुझे पुत्रवती होने तथा सदा सौभाग्यवती बनी रहने की भविष्यद्वाणी कहते थे, वे सब सामुद्रिकशाख-वेत्ता आज श्री रामचन्द्र जी के मारे जाने से मिथ्यावादी ठहरे अथवा उनकी भविष्यद्वाणी मिथ्या सिद्ध हुई है ॥ २ ॥

यज्वनो महिषीं ये मामृचुः पत्नीं च सत्रिणः ।

तेऽद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनोऽनृतवादिनः ॥ ३ ॥

जिन सामुद्रिक शास्त्रवेत्ताओं ने मुझे बहुकाल व्यापी अश्व-
मेधादि यज्ञ करने वाले की पत्नी होने की बात बतलाई थी, वे
सब आज युद्ध में श्रीरामचन्द्र के मारे जाने से भूटे हो गए ॥३॥

ऊचुः संश्रवणे ये मां द्विजाः कर्तान्तिकाः शुभाम् ।

तेऽद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनोऽनृतवादिनः ॥ ४ ॥

जिन भविष्यद्वक्ताओं ने मेरे सम्मुख मुझे शुभलक्षणों
वाली सधवा बतलाया था, वे सब आज श्रीरामचन्द्र जी के मारे
जाने से भूटे पड़ गए ॥ ४ ॥

वीरपार्थिवपत्नी त्वं ये धन्येति च मां विदुः ।

तेऽद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनोऽनृतवादिनः ॥ ५ ॥

जिन्होंने मुझको वीर राजाओं की रानियों की पूज्या
(अर्थात् चक्रवर्ती की पत्नी) और सौभाग्यवती बतलाया था,
वे सब भविष्यद्वक्ता आज श्रीरामचन्द्र जी के मारे जाने से भूटे
पड़ गए ॥ ५ ॥

इमानि खलु पद्मानि पादयोयैः किल स्त्रियः ।

आधिराज्येऽभिपिच्यन्ते नरेन्द्रैः पतिभिः सह ॥ ६ ॥

जिन शुभचिह्नों के होने से कुलवती स्त्रियाँ अपने नरेन्द्र-
पतियों के साथ राजसिंहासन पर अभिषिक्त होती हैं ; वे कमल
के चिन्ह मेरे चरणों में होते हुए भी, आज मैं उस चिन्ह के फल
से वञ्चित हो गई ॥ ६ ॥

वैभवं यान्ति यैर्नायै लक्षणैर्भाग्यदुर्लभाः ।

नात्मनस्तानि पश्यामि पश्यन्ती हतलक्षणा ॥ ७ ॥

जिन बुरे लक्षणों के होने से स्त्रियाँ विधवा हो, भाग्यहीन हो जाती हैं, उन लक्षणों में से कोई भी लक्षण मुझे अपने में नहीं देख पड़ता, तो भी मैं इस समय अपने को हवभाग्य पाती हूँ ॥ ७ ॥

सत्यनामानि पद्मानि स्त्रीणामुक्तानि लक्षणैः ।

तान्यद्य निहते रामे वितथानि भवन्ति मे ॥ ८ ॥

पण्डित लोग, जिन कमल आदि चिह्नों को, स्त्रियों के अङ्गों में होने से अमोघ फल देने वाले बतलाते हैं ; उन सब चिह्नों का फल मेरे लिए भूठा हुआ जाता है ॥ ८ ॥

केशाः सूक्ष्माः समा नीला भ्रुवौ चासङ्गते मम ।

वृते चारोमशे जङ्घे दन्ताश्चाविरला मम ॥ ९ ॥

देखो मेरे बाल महीन, बराबर और नीले हैं मेरी भौहें मिली हुई नहीं—अलग अलग हैं, मेरी जाँघें गोल और रोमरहित हैं, दाँत अलग अलग है ॥ ९ ॥

शङ्खे नेत्रे करौ पादौ गुल्फावरू च मे चितौ ।

अनुवृत्तानखाः स्निग्धाः समाश्चाङ्गुलयो मम ॥ १० ॥

मेरे दोनों नेत्रों के कोये शङ्खाकार हैं, मेरे हाथ पैर, घुटने, ऊरु सुडौल हैं। नख गोल और चिकने हैं और उगलियाँ बराबर हैं ॥ १० ॥

स्तनौ चाविरलौ पीनौ ममेमौ मग्नचूचुकौ ।

मग्ना चोत्सङ्गिनी नाभिः पार्श्वोरस्काश्चमेचिताः ॥ ११ ॥

मेरी छानियाँ एक दूसरे से मिली हुई और मोटी हैं। उनके अग्रभाग उभड़े हुए नहीं बल्कि गहरे हैं। मेरी नाभि गहरी है तथा कोख और छाती उभड़ी हुई हैं ॥ ११ ॥

मम वर्णो मणिनिभो मृदून्यङ्गरुहाणि च ।

प्रतिष्ठितां द्वादशभिर्मामूचुः शुभलक्षणाम् ॥ १२ ॥

मेरे शरीर का रंग मणि की तरह चमकीला है, मेरे रोंगटें कोमल हैं, दसों उङ्गलियों सहित दोनों पैरों के तलवे भूमि पर ठीक ठीक पड़ते हैं। इन सब चिह्नों से मुझको सब शुभ लक्षण-युक्त बतलाते हैं ॥ १२ ॥

समग्रयनमच्छिद्रं पाणिपादं च वर्णवत् ? ।

मन्दस्मितेत्येव च मां कन्यालक्षणिनोऽविदुः ॥ १३ ॥

मेरी सब अंगुलियों के पोरुओं पर जों के चिह्न हैं, इन चिह्नों की रेखाएँ खण्डित नहीं हैं। हाथ पैर की अंगुलियाँ घनी हैं, हाथ और पैर के तलवों का गुलाबी रंग है। शारीरिक लक्षण पहचानने वाले पण्डितों ने बतलाया था कि, यह कन्या मधुरहासिनी है ॥ १३ ॥

आधिराज्येऽभिषेको मे ब्राह्मणैः पतिना सह ।

कृतान्तकुशलैरुक्तं तत्सर्वं वितथीकृतम् ॥ १४ ॥

मुझे देख ज्योतिषियों ने कहा था कि, पति के साथ इसका राज्याभिषेक होगा, किंतु उनका यह कथन अब मिथ्या हो गया ॥ १४ ॥

शोधयित्वा जनस्थानं प्रवृत्तिमृपलभ्य च ।

तीर्त्वा सागरमक्षोभ्यं आतरौ गोष्पदेः हतौ ॥ १५ ॥

देखो ये दोनों भाई जनस्थान में मुझे ढूँढ़कर और हनुमान से मेरा वृत्तान्त जान कर तथा अक्षोभ्य सागर को पार कर, यहाँ

१ वर्णवत्—अरुणवर्ण । (गो०) २ गोष्पदे—इन्द्र वनमायामात्र इति भावः । (गो०) ऋषाठान्तरे—“ द्विजाः । ”

तक आ गए थे ; किन्तु। गाय के लुर के समान गढ़े भर जल में डूब गए अर्थात् इन्द्रजीत की तुच्छ माया से, दोनों मारे गए ॥१५॥

ननु वारुण।माग्नेयमैन्द्रं वायव्यमेव च ।

अस्त्रं ब्रह्मशिरश्चैव राघवौ प्रत्यपद्यताम् ॥ १६ ॥

ये दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण वारुण, आग्नेय, वायव्य और ब्रह्मशिरस आदि अस्त्रों का चलाना जानने वाले थे ॥१६॥

अदृश्यमानेन रणे मायया।वासवोपमौ ।

मम नाथावनाथाया निहतौ रामलक्ष्मणौ ॥ १७ ॥

किन्तु हा ! माया से लुक छिप कर मारने वाले इन्द्रजीत ने मुझ अनाथिनी के इन्द्र के सनान श्रीराम और लक्ष्मण दोनों रक्षकों को मार डाला ॥ १७ ॥

न हि दृष्टिपथं प्राप्य राघवस्य रणे रिपुः ।

जीवनप्रति निवर्तते यद्यपि स्यान्मनोजवः ॥ १८ ॥

जब कोई वैरी श्रीरामचन्द्र के सामने आ जाय ; तब फिर वह जीता जागता नहीं जा सकता । भले ही वह मन के समान वेगवान् क्यों न हों ॥ १८ ॥

न कालस्यातिभारोऽस्ति कृतान्तश्च सुदुर्जयः ।

यत्र रामः सह आत्रा शेते युधि निपातितः ॥ १९ ॥

हाय ! काल के लिए न तो कोई बड़ा भारी वीर है और न कोई बाल को जीत ही सकता है । तभी, तो भाई सहित श्रीरामचन्द्र समरभूमि में मरे हुए पड़े हैं ॥ १९ ॥

न शोचामि तथा रामं लक्ष्मणं च महाबलम् ।

नात्मानं जननीं वापि यथा श्वश्रू तपस्विनीम् ॥ २० ॥

मुझे उतनी चिन्ता और उतना दुःख न तो महावल्गवान् श्रीरामचन्द्र तथा लक्ष्मण का है, न अपना और न अपनी माना का है, जितनी चिन्ता और जितना दुःख मुझे अपनी उस वापुरी सास का है ; ॥ २० ॥

साऽनुचिन्तयते नित्य समाप्तव्रतमागतम् ।

कदा द्रश्यामि सीतां च लक्ष्मणं च सगधवम् ॥ २१ ॥

जो नित्य यही सोचती हुई बैठी होगी कि, श्रीराम, लक्ष्मण और सीता वनवास की अवधि समाप्त कर, कम लौट कर आवेंगी और कब मैं उनको देखूँगी ॥ २१ ॥

परिदेवयमानां तां राक्षसी त्रिजटावतीत् ।

मा विपादं कृथा देवि भर्ताऽयं तव जीवति ॥ २२ ॥

इस प्रकार विलाप करती हुई सीता जी से त्रिजटा बोली— तुम दुःखी मत हो । ये तुम्हारे पति मरे नहीं, जीवित हैं ॥ २२ ॥

कारणानि च वक्ष्यामि महान्ति स्रष्टशानि च ।

यथेमां जीवतो देवि भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ २३ ॥

हे देवि ! मैं तुमसे अपने कथन के समर्थन में स्पष्ट और पहिले के अनुभूत जैसे कारण कहती हूँ, जिनसे तुमको निश्चय हो जायगा कि, ये दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण जीवित हैं ॥२३॥

न हि कोपपरीतानि हर्षपर्युत्सुकानि च ।

भवन्ति युधि योधानां मुखानि निहते पतौ ॥ २४ ॥

हे वैदेही ! जब सेना का मालिक मर जाता है, तब उस सेना के योद्धाओं के मुखमण्डल पर न तो क्रोध ही कलकता है और न वे हर्ष से उत्कण्ठित ही देख पड़ते हैं ॥ २४ ॥

इदं विमानं वैदेहि पुष्पकं नाम नामतः ।

दिव्यं त्वां धारयेन्नैवं यद्येतौ गतजीवितौ ॥ २५ ॥

हे वैदेही ! यदि ये दोनों भाई मर गए होते, तो यह पुष्पक नामक दिव्य विमान, जिसमें तुम बैठी हो, कभी तुमको बैठाकर न उड़ता । (क्योंकि ये विधवाओं को अपने ऊपर नहीं चढ़ाता) ॥ २५ ॥

हतवीरप्रधाना हि हतोत्साहा निरुद्यमा ।

सेना भ्रमति संख्येषु हतकर्णैव नौर्जले ॥ २६ ॥

सेना के मालिक के मारे जाने पर सैनिकों का उत्साह जाता रहता है। वे कभी काम नहीं कर सकते, बल्कि वे मल्लाह रहित जल में पड़ी नाव की तरह डगमगाने लगते हैं ॥ २६ ॥

इयं पुनरसंभ्रान्ता निरुद्विग्नाऽऽतपस्विनी ।

सेना रक्षति काकुत्स्थौ मया प्रीत्या निवेदितौ ॥ २७ ॥

हे तपस्विनी ! देखो, यह चानरी सेना उद्वेग रहित और सावधान हो, अपने दोनों मालिकों की रखवाली कर रही है। इसीसे मैंने तुमसे प्रीतिपूर्वक यह कहा कि, ये दोनों जीवित हैं ॥ २७ ॥

सा त्वं भव सुविस्रब्धा अनुमोनैः सुखादयैः ।

अहतौ पश्य काकुत्स्थौ स्नेहादेतद्ब्रगीमि ते ॥ २८ ॥

अतः तुम इन सुखसूचक विहों के द्वारा इन दोनों के जीवित होने का विश्वास करो। मैं स्नेहवश तुमसे यह कह रही हूँ ॥ २८ ॥

अनृतं नोक्तपूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन ।

चारित्रसुखशीलत्वात्प्रविष्टासि मनो मम ॥ २९ ॥

हे सीते ! मैंने न कभी तुमसे झूठ कहा और न कहूँगी ।
क्योंकि तुमने अपने शुभाचरणों के प्रभाव से मेरे मन में अपने
लिए स्थान बना लिया है ॥ २६ ॥

नेमौ शक्यौ रणे जेतुं सेन्द्रैरपि सुरासुरैः ।

तादृशं दर्शनं दृष्ट्वा मया चावेदितं तव ॥ ३० ॥

इन दोनों को युद्ध में इन्द्रादि देवता तथा असुर भी नहीं
हरा सकते । मैंने भली भाँति सोच विचार तथा इनको देख
कर, तुमसे ऐसा कहा है ॥ ३० ॥

इदं च सुमहच्चिह्नं शनैः पश्यस्व मैथिलि ।

निःसंज्ञावप्युभावेतौ नैव लक्ष्मीर्विद्युज्यते ॥ ३१ ॥

हे सीते ! सावधानतापूर्वक ज़रा इस चमत्कार को तो देखा
यद्यपि ये दोनों वाणों की चोट से मूछित हो पड़े हुए हैं, तथापि
इनके मुखमण्डल की कान्ति ज्यों की त्यों बनी हुई है ॥ ३१ ॥

प्रायेण गतसञ्चानां पुरुपाणां गतायुषाम् ।

दृश्यमानेषु वक्त्रेषु परं भवति वैकृतम् ॥ ३२ ॥

बहुधा शक्तिरहित अथवा प्राणरहित और गतायु पुरुषों के
मुखमण्डल पर मुर्दनी सी छा जाया करनी है ॥ ३२ ॥

त्यज शोकं च मोहं च दुःखं च जनकात्मजे ।

रामलक्ष्मणयोरर्थे नाद्य शक्यमजीवितुम् ॥ ३३ ॥

हे जनकनन्दिनी ! तुम शोक को, इस अपनी उल्टी समझ
को, और मनोव्यथा को त्याग दो । क्योंकि ये दोनों वीर श्रीराम
और लक्ष्मण जीवित हैं, ये मर नहीं सकते ॥ ३३ ॥

१ शनैः—सावधानेन । (गो०)

श्रुत्वा तु वचनं तस्याः सीता सुरसुतोपमा ।
कृताञ्जलिरुवाचेदमेव मस्तिवति मैथिली ॥ ३४ ॥

देवक्या के समान सीता त्रिजटा की इन बातों को सुन,
हाथजोड़ कर बोली ; हे त्रिजटे ! तुम्हारा वचन सत्य हो ॥ ३४ ॥

विमानं पुष्पकं तत्तु सन्निवर्त्य मनोजवम् ।
दीना त्रिजटया सीता लङ्काभेव प्रवेशिता ॥ ३५ ॥

तदनन्तर त्रिजटा मन के समान तेज चलने वाले पुष्पक
विमानको लौटा कर, दुखियारी सीता को लङ्का में ले गई ॥ ३५ ॥

तत्त्रिजटया सार्धं पुष्पकादवरुह्य सा ।
अशोकवनिकामेव राक्षसीभिः प्रवेशिता ॥ ३६ ॥

त्रिजटा के साथ विमान से उतर सीता राक्षसियों सहित
अशोकवाटिका में आई ॥ ३६ ॥


प्रविश्य सीता बहुवृक्षपण्डां
तां राक्षसेन्द्रस्य विहारभूमिम् ।
सम्प्रेक्ष्य सञ्चिन्त्य च राजपुत्रौ
परं विषादं समुपाजगाम ॥ ३७ ॥

इति अष्टचत्वारिंशः सर्गः

सीता ने नाना वृक्षों से युक्त राक्षसराज की उस विहार-
स्थली में आ प्रवेश किया और श्रीरामचन्द्र एव लक्ष्मण का
चिन्तन कर वह बहुत दुःखी हुई ॥ ३७ ॥

युद्धकाण्ड का अड़तालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

एकोनञ्चाशः सर्गः



घोरेण शरवन्धेन वद्धौ दशरथात्मजौ ।

निःश्वसन्तौ यथा नागौ शयानौ रुधिरोक्षितौ ॥ १ ॥

घोर वाणवन्धन में बँधे हुए और सर्प की तरह फुफ्फुकारते हुए, दोनों दशरथकुमार रुधिर से तरबनर पड़े हुए थे ॥ १ ॥

सर्वे ते वानरश्रेष्ठाः ससुग्रीवा महाधलाः ।

परिवार्य महात्मानौ तस्थुः शोकपरिप्लुताः ॥ २ ॥

महावली सुग्रीव प्रमुख समस्त वानरश्रेष्ठ उन दोनों वीरों को चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा कर रहे थे और शोक में डूबे हुए थे ॥ २ ॥

एतस्मिन्नन्तरे रामः प्रत्यध्वयत वीर्यवान् ।

स्थिरत्वात्सत्त्वयोगाच्च शरैः सन्दानितोऽपि सन् ॥ ३ ॥

इतने में वीर्यवान् तथा पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी नागपाश से जकड़े हुए होने पर भी, सचेत हुए । मानों सो कर जागे हों ॥ ३ ॥

ततो दृष्ट्वा सरुधिरं विषण्णां गाढमपिंतम् ।

आतरं दीनवदनं पर्यदेवयदातुरः ॥ ४ ॥

(और उठते ही) रुधिर से तर, दीनवदन और अति विषण्ण भाई लक्ष्मण को देख, वे आतुर हो, रोने लगे ॥ ४ ॥

किन्तु मे सीतया कार्यं किं कार्यं जीवितेन वा ।

शयानं योऽद्य पश्यामि आतरं युधि निर्जितम् ॥ ५ ॥

जब मैं अपने भाई को युद्ध में पराजित हो अचेत पड़ा देख रहा हूँ, तब मैं सीता को ले कर ही और स्वयं जीवित रह कर ही क्या करूँगा ॥ ५ ॥

शक्या सीतासमा नारी मर्त्यलोके विचिन्वता ।

न लक्ष्मणसमो भ्राता सचिवः साम्परायिकः ॥ ६ ॥

इस संसार में खोजने पर सीता के समान स्त्री भले ही मिल जाय, किन्तु लक्ष्मण के समान भाई, सहायक और चतुर योद्धा नहीं मिल सकता ॥ ६ ॥

परित्यक्त्याम्यहं ॐ प्राणान्वानराणां तु पश्यताम् ।

यदि पञ्चत्वमापन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः ॥ ७ ॥

यदि कहीं सुमित्रानन्दन मर गए, तो मैं इन वानरों के सामने ही अपनी जान दे दूँगा ॥ ७ ॥

किन्तु वक्ष्यामि कौसल्यां मातरं किन्तु कैकयीम् ।

कथमभ्वां सुमित्रां च पुत्रदर्शनलालसाम् ॥ ८ ॥

क्योंकि अयोध्या में जाकर पुत्रदर्शनाभिलाषिणी माता सुमित्रा से और अपनी माता कौसल्या तथा कैकेयी से मैं क्या कहूँगा ॥ ८ ॥

विवत्सां वेपमानां च क्रोशन्तीं कुररीमिव ।

कथमाश्वासयिष्यामि यदि यास्यामि तं विना ॥ ९ ॥

यदि मैं लक्ष्मणरहित अयोध्या जाऊँ, तो विना बछड़े की गौ की तरह काँपती और कुररी की तरह विलाप करती हुई सुमित्रा माता को मैं क्या कह कर धीरज बँधाऊँगा ॥ ९ ॥

१ साम्परायिकः—युद्धे साधुः । (गो०) * पाठान्तरे—“प्राणं ।”

कथं वक्ष्यामि शत्रुघ्नं भरतं च यशस्विनम् ।

मया सह व्रतं यातो विना तेन गतः पुनः ॥ १० ॥

लक्ष्मण को साथ ले मैं वन में आया और उनके बिना अब अयोध्या में जा कर, मैं यशस्वी भरत और शत्रुघ्न से क्या कहूँगा ॥ १० ॥

उपालम्भं न शक्यामि सोढुं वत सुमित्रया ।

इहैव देहं त्यक्ष्यामि न हि जीवितुमुत्सहे ॥ ११ ॥

माता सुमित्रा का उलाहना मुझसे सह्य न होगा । अतएव यहीं पर शरीर त्यागना ठीक है—मैं अब जीवित नहीं रहना चाहता ॥ ११ ॥

धिङ् मां दुष्कृतकर्माणमनार्यं यत्कृते ह्यसौ ।

लक्ष्मणः पतितः शेते शरतल्पे गतासुवत् ॥ १२ ॥

मुझ पापी अनार्य को धिक्कार है, जिसके लिए लक्ष्मण, मृतक समान शरशय्या पर पड़े सो रहे हैं ॥ १२ ॥

त्वं नित्यं स त्रिपण्यं मामाश्रासयसि लक्ष्मण ।

गतासुर्नाद्य शक्नोषि मामर्तमभिभापितुम् ॥ १३ ॥

हे लक्ष्मण ! जब मैं घबड़ाता था, तब तुम मुझे धीरेज बँधाते थे । पर अब जब मैं अत्यन्त दुःखी हो रहा हूँ, तब तुम निर्जीव के समान होने के कारण मुझसे बातचीत नहीं कर सकते ॥ १३ ॥

येनाद्य निहता युद्धे राक्षसा विनिपातिताः ।

तस्यामेव क्षिप्तौ वीरः स शेते निहतः परैः ॥ १४ ॥

हे वीर ! तुमने जिस संग्रामभूमि पर बहुत से राक्षस मार कर सुला दिए थे, उसी भूमि पर तुम शत्रुद्वारा बाणों से घायल हो स्वयं पड़े सो रहे हो ॥ १४ ॥

शयानः शरतल्पेऽस्मिन्स्वशोणितपरिप्लुतः ।

शरजालैश्चितो भाति भास्करोऽस्तमिव व्रजन् ॥ १५ ॥

इस बाणशय्या पर पड़े हुए और अपने रक्त से तर तुम्हारे शरीर में बाण ही बाण देख पड़ते हैं । इस समय तुम अस्ताचल-गामी सूर्य की तरह जान पड़ते हो ॥ १५ ॥

वाणामिहतमर्मत्वान्न शक्नोत्यभिभाषितुम् ।

रुजा चाब्रुवतोऽप्यस्य दृष्टिरागेण सूच्यते ॥ १६ ॥

तुम्हारे मर्मस्थल बाणों से विधे हुए हैं, इसीसे तुम बोल नहीं सकते ; पर तुम्हारे नेत्रों की लालिमा देखने से जान पड़ता है कि, तुम अत्यन्त पीड़ित हो रहे हो ॥ १६ ॥

यथैव मां वनं यान्तमनुयातो महाद्युतिः ।

अहमप्यनुयास्यामि तथैवैनं यमक्षयम् ॥ १७ ॥

हे महाद्युति ! जिस प्रकार वन में आने के समय तुम मेरे पीछे पीछे आये थे ; उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे यमालय को चलूँगा ॥ १७ ॥

इष्टवन्धुजनो नित्यं मां च नित्यमनुव्रतः ।

इमामद्य गतोऽवस्थां ममानार्यस्य दुर्नयैः ॥ १८ ॥

यद्यपि इनको सभी भाइयों से प्रेम है; तथापि यह सदा मेरे ही साथ रहते थे । सो मुझ दुष्ट की दुर्नीति के कारण ही आज यह इस दशा को प्राप्त हुए हैं ॥ १८ ॥

सुरुष्टेनापि वीरेण लक्ष्मणेन न संस्मरे ।

परुषं विप्रियं वाऽपि श्रावितं न कदाचन ॥ १९ ॥

मुझे स्मरण नहीं आता कि, शूरवीर लक्ष्मण ने क्रुद्ध होने पर भी कभी मुझसे कठोर या अप्रिय वचन कहे हों ॥ १९ ॥

विससर्जैकवेगेन पञ्चवाणाशतानि यः ।

इष्वत्त्रैष्वधिकस्तस्मात्कार्तवीर्याच्च लक्ष्मणः ॥ २० ॥

ये लक्ष्मण पाँच-पाँच-सौ वाण एक वार छोड़ते थे; अतः वाण चलाए की विद्या में ये कार्तवीर्यार्जुन से भी बढ़ कर निपुण थे ॥ २० ॥

अस्त्रैस्त्राणि यो हन्याच्छक्रस्यापि महात्मनः ।

सोऽयमुर्व्यां हतः शेते महार्हशयनोचितः ॥ २१ ॥

इन्द्र के चलाए अस्त्रों को अपने अस्त्रों से नष्ट करने की विज्ञान महावली में शक्ति थी और जो बड़ी बढ़िया सेजों पर सोने योग्य थे, सो आज भूमि पर मरे हुए पड़े हैं ॥ २१ ॥

तच्च मिथ्या प्रलप्तं मां प्रधच्यति न संशयः ।

यन्मया न कृतो राजा राक्षसानां विभीषणः ॥ २२ ॥

देखो राक्षसों का राज्य मैंने विभीषण को देने के लिए कहा था किन्तु मैं उसे दे नहीं पाया ॥ सो यह मिथ्या भाषण ही मुझे निस्सन्देह भस्म कर डालेगा ॥ २२ ॥

अस्मिन्मुहूर्ते सुग्रीव प्रतियातुमितोऽर्हसि ।

मत्वा हीनं मया राजन् रावणोऽभिद्रवेद्वली ॥ २३ ॥

हे सुग्रीव ! अब तुम यहाँ से इसी समय क्विप्पिन्या को लौट जाओ । क्योंकि मैं अब बलहीन हो गया हूँ । अतएव रावण तुमको असहाय पा कर, तुम्हारा तिरस्कार करेगा ॥ २३ ॥

अङ्गदं तु पुरस्कृत्य ससैन्यः ससुहृज्जनः ।

सागरं तर सुग्रीव नीलेन च नलेन च ॥ २४ ॥

अब तुम अङ्गद को आगे कर, नल और नील सहित सारी सेना को साथ ले समुद्र के पार चले जाओ ॥ २४ ॥

कृतं हनुमता कार्यं यदन्यैर्दुष्करं रणे ।

ऋचराजेन तुष्यामि गोलाङ्गूलाधिपेन च ॥ २५ ॥

हनुमान ने युद्ध में जैसी वहादुरी दिखाई है, वह दूसरों के लिए दुष्कर है। मैं जाम्बवान् और ऋषभ, के कार्यों से भी सन्तुष्ट हूँ ॥ २५ ॥

अङ्गदेन कृतं कर्म मैन्देन द्विविदेन च ।

युद्धं केसरिणा संख्ये घोरं सम्पातिना कृतम् ॥ २६ ॥

अङ्गद, मैन्द, द्विविद, केसरी तथा सम्पाति ने भी युद्ध में वड़ी वहादुरी दिखलाई है ॥ २६ ॥

गवयेन गवाक्षेण शरभेण गजेन च ।

अन्यैश्च हरिभिर्युद्धं मदर्थं त्यक्तजीवितैः ॥ २७ ॥

गवय, गवाक्ष, शरभ गज तथा अन्य वानरों ने भी अपनी अपनी जानों को हथेली पर रख, मेरे लिए युद्ध में बड़े बड़े वहादुरी के कार्य किए हैं ॥ २७ ॥

न चातिक्रमितुं शक्यं दैवं सुग्रीव मानुषैः ।

यत्तु शक्यं वयस्येन सुहृदा च परन्तप ॥ २८ ॥

हे सुग्रीव! मनुष्य में यह शक्ति नहीं कि, वह भाग्य की रेख पर मेख मार दे। तो भी मित्र को मित्र के लिए और सुहृद को सुहृद के लिए जो करना चाहिए ॥ २८ ॥

कृतं सुग्रीव तत्सर्वं भवता धर्मभीरुणा ।

मित्रकार्यं कृतमिदं भवद्भिर्वानरर्षभाः ॥ २६ ॥

हे कपिश्रेष्ठ सुग्रीव ! अधर्म से डरने वाले अपने सब मित्रोचित कार्य मेरे लिए किया ॥ २६ ॥

अनुज्ञाता मया सर्वे यथेष्टं गन्तुमर्हथ ।

शुश्रुवुस्तस्य ते सर्वे वानराः परिदेवनम् ॥ ३० ॥

वर्तयाञ्चक्रुरश्रूणि नेत्रैः कृप्योतरेक्षणाः ।

ततः सर्वाण्यनीकानि स्थापयित्वा विभीषणः ॥ ३१ ॥

अब मैं सब को बिदा करता हूँ, अब जिनकी जहाँ जाने की इच्छा हो चला जाय । श्रीरामचन्द्र जी का इस प्रकार विलाप सुन वानर रो पड़े । उनके नेत्र रोते रोते लाल हो गए । इतने में विभीषण सब सेना को यथास्थान स्थापित कर ॥ ३० ॥ ३१ ॥

आजगाम गदापाणिस्त्वरितो यत्र राघवः ।

तं दृष्ट्वा त्वरितं यान्तं नीलाञ्जनचयोपमम् ।

वानरा दुद्रुवुः सर्वे मन्यमानास्तु रावणिम् ॥ ३२ ॥

इति एकोनपञ्चाशः सर्गः ॥

और हाथ में गदा लिये हुए श्रीरामचन्द्र जी के पास आ पहुँचे । काजल की तरह काले रंग के विभीषण को त्वरापूर्वक आते देख और उनको मेघनाद समझ सब वानर भागने लगे ॥ ३२ ॥

युद्धकाण्ड का उनचासवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—:★:—

१ कृप्योतरेक्षणाः—रक्तक्षणा इत्यर्थः । (गो०)

पञ्चाशः सर्गः

---❀---

अथोवाच महातेजा हरिराजो महाबलः ।

किमियं व्यथिता सेना मूढवातेव नौर्जले ॥ १ ॥

महातेजस्वी एवं महाबली कपिराज सुग्रीव जी बोले कि, यह सेना क्यों उसी तरह डूँवाडोल हो रही है, जैसे प्रचण्ड पवन के लगने से जल में नाव डगमगाने लगती है ॥ १ ॥

सुग्रीवस्य वचः श्रुत्वा वालिपुत्रोऽङ्गदोऽब्रवीत् ।

न त्वं पश्यसि रामं च लक्ष्मण च महाबलम् ॥ २ ॥

शरजालाचितौ वीरावुभौ दशरथात्मजौ ।

शरतल्पे महात्मानौ शयानौ रुधिरोक्षितौ ॥ ३ ॥

सुग्रीव के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वालिपुत्र अङ्गद ने कहा क्या आप नहीं देखते कि, ये दोनों बलवान दशरथनन्दन वीर श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण वाणों से विधे हुए और लोह में सने शरशय्या पर पड़े हुए हैं ॥ २ ॥ ३ ॥

अथाब्रवीद्वानरेन्द्रः सुग्रीवः पुत्रमङ्गदम् ।

नानिमित्तमिदं मन्ये भवितव्यं भयेन तु ॥ ४ ॥

इस पर वानरराज सुग्रीव ने अपने पुत्र अङ्गद से कहा—इनके भयभीत होने का केवल यही एक कारण नहीं है, किन्तु मेरी समझ में कुछ और भी है ॥ ४ ॥

विपण्णवदना ह्येते त्यक्तप्रहरणा दिशः ।

प्रपलायन्ति हरयस्त्रासादुत्फुल्ललोचनाः ॥ ५ ॥

देखो, इन वानरों के चेहरों पर उदासी छाई हुई है, ये वृक्ष और शिला रूपी अपने आयुधों को पटक पटक कर भाग रहे हैं। डर के मारे इनके नेत्र चञ्चल हो रहे हैं ॥ ५ ॥

अन्योन्यस्य न लज्जन्ते न निरीक्षन्ति पृष्ठतः ।

विप्रकर्षन्ति चान्योन्यं पतितं लङ्घयन्ति च ॥ ६ ॥

भागते समय न तो एक दूसरे से लजाते हैं और न मुड़ कर पीछे की ओर ही देखते हैं। ये एक दूसरे को घसीटते हुए भाग रहे हैं और जो बीच में गिर पड़ता है, उसकी कुछ भी परवाह न कर उसे लाँघ कर भागते चले जाते हैं ॥ ६ ॥

एतस्मिन्नन्तरे वीरो गदापाणिर्विभीषणः ।

सुग्रीवं वर्धयामास राघवं च ॥ जयाशिषा ॥ ७ ॥

इतने में हाथ में गदा लिए हुए वीरवर विभीषण आ पहुँचे। उन्होंने सुग्रीव और श्रीरामचन्द्र को “जय हो” “जय हो” कह कर, आशीर्वाद दिया ॥ ७ ॥

विभीषणं तं सुग्रीवो दृष्ट्वा वानरभीषणम् ।

ऋक्षराजं समीपस्थं जाम्बवन्तमुवाच ह ॥ ८ ॥

वानरों के भय का कारण विभीषण को जान, सुग्रीव ने बैठे हुए रीछों के राजा जाम्बवान से कहा ॥ ८ ॥

* पाठान्तरे—“निरेक्षत ।”

वा० रा० यु०—३०

विभीषणोऽयं सम्प्राप्तो यं दृष्ट्वा वानरर्षभाः ।

विद्रवन्ति परित्रस्ता रावणात्मजशङ्कया ॥ ९ ॥

देखो, यह सुग्रीव आए हैं, जिनको समस्त वानरश्रेष्ठ, मेघनाद समझ और भयभीत हो भाग रहे हैं ॥ ९ ॥

शीघ्रमेतान् सुसन्त्रस्तान् बहुधा विप्रधावितान् ।

पर्यवस्थापयारुयाहि विभीषणमुपस्थितम् ॥ १० ॥

सो तुम शीघ्र जाओ और उन त्रस्त और भागते वानरों को यह समझा कर कि, यह मेघनाद नहीं है, विभीषण है, रोको ॥ १० ॥

सुग्रीवेशैवमुक्तस्तु जाम्बवानृक्षपार्थिवः ।

वानरान् सान्त्वयामास सन्निरुध्य प्रधावतः ॥११॥

जब सुग्रीव ने यह कहा, तब रीछों के राजा जाम्बवान ने वानरों को समझा कर, उन भागते हुए वानरों को, भागने से रोका ॥११॥

ते निवृत्ताः पुनः सर्वे वानरास्त्यक्तसम्भ्रमाः ।

ऋक्षराजवचः श्रुत्वा तं च दृष्ट्वा विभीषणम् ॥ १२ ॥

जाम्बवान की बातें सुन और विभीषण को देख, समस्त वानरों का भ्रम दूर हो गया और वे लौट आए ॥ १२ ॥

विभीषणस्तु रामस्य दृष्ट्वा गात्रं शरैश्चितम् ।

लक्ष्मणस्य च धर्मात्मा बभूव व्यथितेन्द्रियः ॥१३॥

श्रीरामचन्द्र जी और लक्ष्मण जी के शरीरों को बाणों से विधा हुआ देख, धर्मात्मा विभीषण बहुत विकल हुए ॥ १३ ॥

जलविलन्नेन हस्तेन तयोर्नेत्रे प्रमृज्य च ।

शोकसम्पीडितमना रुरोद विललाप च ॥ १४ ॥

हाथ में जल ले उन दोनों वीर राजकुमारों की आँखें धोकर, विभीषण शोकाकुल हो रोने लगे और विलाप करने लगे ॥१४॥

इमौ तौ सत्त्वसम्पन्नौ विक्रान्तौ प्रियसंयुगौ ।

इमामवस्थां गमितौ राक्षसैः कूटयोधिभिः ॥ १५ ॥

वे विलाप कर कहने लगे—देखो, इन बलवान, पराक्रमी और युद्धप्रिय दोनों भाइयों की, कपटयुद्ध करने वाले राक्षसों ने यह क्या गति बना डाली है ? ॥ १५ ॥

आतुः पुत्रेण मे तेन दुष्पुत्रेण दुरात्मना ।

राक्षस्या जिह्वया युद्धया वञ्चितावृजुविक्रमौ ॥ १६ ॥

मेरे भाई के दुष्ट कुपुत्र ने, राक्षसी कपटयुद्ध से, इन सीधे-सीधे पराक्रमी लोगों को धोखा दिया है ॥ १६ ॥

शरैरिमावलं विद्वौ रुधिरेण समुचितौ ।

वसुधायामिनौ सुप्तौ दृश्येते १ शल्यकाविव ॥ १७ ॥

देखो, ये दोनों भाई बाणों से विधे और लोहू में भीने हुए, दो सेही जानवरों की तरह दिखलाई पड़ रहे हैं ॥ १७ ॥

ययोर्वीर्यमुपाश्रित्य प्रतिष्ठा काङ्क्षिता मया ।

तावुभौ देहनाशाय प्रसुप्तौ पुरुपर्षभौ ॥ १८ ॥

हाँ ! जिनके बलवृत्ते पर मैंने अपनी मानप्रतिष्ठा प्राप्त करने की आशा की थी, वे दोनों पुरुपर्षेष्ट अपने शरीर का नाश करने के लिए पृथ्वी पर पड़े सो रहे हैं ॥ १८ ॥

जीवन्नद्य विपन्नोऽस्मि नष्टराज्यमनोरथः ।

प्राप्तप्रतिज्ञश्च रिपुः सकामो रावणः कृतः ॥ १६ ॥

आज मैं जीता हुआ मर गया । मन में राज्य प्राप्त करने की जो आशा लगी हुई थी, वह भी नष्ट हो गई । अब तो वैरी रावण ही की प्रतिज्ञा पूरी हुई और उसका मनोरथ ही सफल हुआ ॥ १६ ॥

एवं विलपमानं तं परिष्वज्य विभीषणम् ।

सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नो हरिराजोऽब्रवीदिदम् ॥ २० ॥

इस प्रकार विलाप करते हुए विभीषण को गले लगा, बलवान् सुग्रीव ने यह कहा ॥ २० ॥

राज्यं प्राप्स्यसि धर्मज्ञ लङ्कायां नात्र संशयः ।

रावणः सह पुत्रेण सकामं नेह लप्स्यते ॥ २१ ॥

हे धर्मज्ञ ! तुमको लंका का राज्य निश्चय ही मिलेगा और रावण तथा उसके पुत्र इन्द्रजीत का मनोरथ कभी पूरा न होगा ॥ २१ ॥

न रुजा पीडितावेतावुभौ राघवलक्ष्मणौ ।

त्यक्त्वा मोहं वधिष्येते सगणं रावणं रणे ॥ २२ ॥

श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण इन दोनों को यह चोट विशेष हानिकारक न होगी । दोनों मूर्छा से जाग कर, सपरिवार रावण को मारेंगे ॥ २२ ॥

तमेनं सान्त्वयित्वा तु समाश्वास्य च राक्षसम् ।

सुपेणं श्वशुरं पार्श्वे सुग्रीवस्तमुवाच ह ॥ २३ ॥

कपिराज सुग्रीव इस प्रकार विभीषण को समझा, पास खड़े हुए अपने ससुर सुपेण नामक वानर से बोले—॥ २३ ॥

सह शूरैर्हृगिणैर्लब्धसंज्ञावरिन्दमौ ।

गच्छ त्वं आतरौ गृह्य किष्किन्धां रामलक्ष्मणौ ॥२४॥

जब ये दोनों भाई अर्थात् श्रीराम और लक्ष्मण मचेत होजाँय-
तब तुम शूर वानरों सहित इनको अपने साथ ले, किष्किन्धा
को चले जाओ ॥ २४ ॥

अहं तु रावणं हत्वा सपुत्रं सहवान्धवम् ।

मैथिलीमानयिष्यामि शक्रो नष्टामिव त्रियम् ॥२५॥

रहा मैं, सो मैं तो पुत्रों तथा भाई बंधों सहित रावण को मार
कर, सीता को उसी प्रकार छुड़ा कर और ले कर आऊँगा, जिस
प्रकार इन्द्र नष्ट हुई राजलक्ष्मी को लाए थे ॥ २५ ॥

श्रुत्वैतद्वानरेन्द्रस्य सुपेणो वाक्यमत्रवीत् ।

दैवासुरं महद्युद्धमनुभूतं १ सुदारुणम् ॥ २६ ॥

कपिराज सुग्रीव के इन वचनों को सुन, सुपेण, बोले-देवताओं
और असुरों का जो बड़ा घोर संग्राम हुआ था, उसका मुक्तकी
हाल मालूम है ॥ २६ ॥

तदा स्म दानवा देवाञ्छरसंस्पर्शकोविदाः ।

निजघ्नः शस्त्रविदुपश्लादयन्तो मुहुर्मुहुः ॥ २७ ॥

उस युद्ध में भी बाण चलाने की विद्या में निपुण दैत्यगण
छिपे छिपे, इसी तरह शस्त्रविद्या में कुशल देवताओं को बार बार
बाणों से तोप देते थे ॥ २७ ॥

तानातान्निष्टसंज्ञांश्च परासूँश्च बृहस्पतिः ।

विद्याभिर्मन्त्रयुक्ताभिरोपधीभिरिचकित्सति ॥ २८ ॥

१ अनुभूतं—मया ज्ञातं । (गो०)

जब देवता पीड़ित, मूर्च्छित और प्राणहीन हो जाते, तब बृहस्पति जी मंत्रों के प्रयोग से तथा औषधियों के उपचार से उनको पुनः जीवित कर देते थे ॥ २८ ॥

तान्यौषधान्यानयितुं क्षीरोदं यान्तु सागरम् ।

जवेन वानराः शीघ्रं सम्पातिपनसादयः ॥ २९ ॥

उन जड़ी बूटियों के लाने के लिये सम्पाति, पनस आदि वानर शीघ्र ही क्षीरसमुद्र के तट पर जाँय ॥ २९ ॥

हरयस्तु विजानन्ति पार्वतीस्ता महौषधीः ।

सञ्जीवकरणीं दिव्यां विशल्यां देवनिर्मिताम् ॥ ३० ॥

क्योंकि ये वानर उस पर्वतस्थित उन दोनों रूखरियों को भली भाँति जानते हैं । उनमें से एक तो दिव्य *सञ्जीवनी है और दूसरी देवताओं की बनाई हुई विशल्या है ॥ ३० ॥

चन्द्रश्च नाम द्रोणश्च क्षीरोदे सागरोत्तमे ।

अमृतं यत्र मथितं तत्र ते परमौषधी ॥ ३१ ॥

जहाँ श्रेष्ठ क्षीरसागर मथा गया था, वहाँ चन्द्र और द्रोण नाम के दो पर्वत हैं । उन्हीं पर बड़े काम की ये दोनों बूटियाँ मिलती हैं ॥ ३१ ॥

ते तत्र निहिते देवैः पर्वते परमौषधी ।

अयं वायुसुतौ राजन् हनुमांस्तत्र गच्छतु ॥ ३२ ॥

ये दोनों बूटियाँ उन्हीं दोनों पर्वतों में देवताओं द्वारा छिपाई गई है । हे राजन् ! उनको लाने के लिए हनुमान वहाँ जाँय ॥ ३२ ॥

* सञ्जीवनी से मृतप्राय रोगी जीवित होते हैं और विशल्या के प्रयोग से घाव की पीड़ा दूर होती है और घाव भी पुर जाता है ।

एतस्मिन्नन्तरे वायुर्मेघांश्चापि सविद्युतः ।

पर्यस्यन् सागरे तोयं कम्पयन्निव मेदिनीम् ॥ ३३ ॥

इसी बीच मैं प्रचण्ड पवन चलने लगा, बादलों में विजली कड़कने लगी, समुद्र का जल हिलोरने लगा और ज़मान काँपने लगी ॥ ३३ ॥

महता पक्ष्वातेन सर्वद्वीपमहाद्रुमाः

निपेतुर्भग्नविटपाः समृता लवणाम्भसि ॥ ३४ ॥

बड़े बड़े पंखों के हिलने से उत्पन्न वायु से सब टापुत्रों के बड़े बड़े पेड़, पत्तों और शाखाओं से रहित हो उखड़ उखड़ कर समुद्र में जा गिरे ॥ ३४ ॥

अभवन्पन्नगास्त्रस्ता श्मोगिनस्तत्रवासिनः ।

शीघ्रं सर्वाणि रथादांसि जग्मुश्च लवणार्णवम् ॥ ३५ ॥

लङ्काद्वीप में रहने वाले समस्त बड़े बड़े सर्प और जलजन्तु मारे डर के शीघ्रतापूर्वक खारी समुद्र के जल में जा छिपे ॥ ३५ ॥

ततो मुहूर्तदिगरुडं वैनतेय महाबलम् ।

वानरा ददृशुः सर्वे ज्वलन्तमिव पावकम् ॥ ३६ ॥

इस उत्पात के एक मुहूर्त बाद जलते हुए अग्नि के समान प्रदीप्त विनतातनय गरुड़ को वानरों ने वहाँ देखा ॥ ३६ ॥

तमागतमभिप्रेक्ष्य नागास्ते विप्रदुद्रुवुः ।

यैस्तौ सत्पुरुषौ वद्वौ शरभूतैर्महाबलां ॥ ३७ ॥

गरुड़ जी को आते देख, वे साँप भागे जिन्होंने बाण रूप से उन दोनों महाबली सत्पुरुषों को बाँध रक्खा था ॥ ३७ ॥

ततः सुपर्णः काङ्कुत्स्थौ दृष्ट्वा प्रत्यभिनन्दितः ।

विममर्शं च पाणिभ्यां मुखे चन्द्रसमप्रभे ॥ ३८ ॥

तदनन्तर गरुड़ जी ने उन दोनों राजकुमारों को देख और उनका अभिनन्दन कर, उनके अंगों को अपने हाथ से स्पर्श कर दोनों के चन्द्रतुल्य मुखों को सुहराया ॥ ३८ ॥

वैनतेयेन संस्पृष्टास्तयोः संरुरुहुर्ब्रणाः ।

सुवर्णे च तनू स्निग्धे तयोराशु बभूवतुः ॥ ३९ ॥

गरुड़ जी के छूने ही दोनों के घाव भर गए । उन दोनों वीरों के शरीर पहिले के समान सुन्दर रंग वाले और चिकने हो गए ॥ ३९ ॥

तेजो वीर्यं बलं चौज उत्साहश्च महागुणः ।

प्रदर्शनं च बुद्धिश्च स्मृतिश्च द्विगुण तयोः ॥ ४० ॥

उन दोनों का तेज, पराक्रम, बल, कान्ति, उत्साह, सूक्ष्मार्थ परिज्ञान, विवेक, स्मृतिशक्ति आदि गरुड़ जी के करस्पर्श से पूर्व की अपेक्षा अब दुगुने अर्थात् बहुत अधिक हो गए ॥ ४० ॥

तावुत्थाप्य महाशीर्यौ गरुड़ो वासवोपमौ ।

उभौ तौ सस्वजे हृष्टौ रामश्चैनमुवाच ह ॥ ४१ ॥

इन्द्र के समान महाबलवान दोनों भाइयों को उठा कर और परम प्रसन्न हो कर, गरुड़ जी ने अपने गले लगाया । तब श्रीराम चन्द्र जी ने उनसे कहा ॥ ४१ ॥

भवत्प्रसादाद्व्यसनं रावणिप्रभवं महत् ।

आवामिह व्यतिक्रान्तौ पूर्ववद्वलिनीं कृतौ ॥ ४२ ॥

आपके अनग्रह से हम इन्द्रजीत की उत्पन्न की हुई घोर विपत्ति से छूट गये और आपके किए प्रयत्न मे हमारे शरीरों में पहिले जैसा बल पराक्रम आ गया है ॥ ४२ ॥

यथा तातं दशरथं यथाऽजं च पितामहम् ।

तथा भवन्तमासाद्य हृदयं मे प्रसीदति ॥ ४३ ॥

इस समय आपको देख मुझे वैसी ही प्रसन्नता हो रही है, जैसी कि, पितामह महाराज अज और पिता महाराज दशरथ के मिलने से प्राप्त होती ॥ ४३ ॥

को भवान् रूपसम्पन्नो दिव्यस्रगनुलेपनः ।

वसानो विरजे वस्त्रे दिव्याभरणभूषितः ॥ ४४ ॥

आप रूपवान हैं, दिव्य-पुष्प माला पहिने हुए तथा सुगन्धित चन्दनादि लगाये हुए हैं । आप निर्मल वस्त्र धारण किए हुए हैं और अच्छे अच्छे आभूषणों से भूषित हैं । यह तो बतलाएँ, आप हैं कौन ? ॥ ४४ ॥

तामुवाच महातेजा वैनतेयो महाबलः ।

पतत्रिराजः प्रीतात्मा हर्षपर्याकुलेक्षणः ॥ ४५ ॥

इस पर महातेजस्वी और महा बलवान विनतानन्दन पति-राज गरुड़ जी आनन्द से प्रफुल्लनयन हो प्रसन्नतापूर्वक बोले ॥ ४५ ॥

अहं सखा ते काकुत्स्थ प्रियः प्राणो वहिश्चरः ।

गरुत्मानिह सम्प्राप्तो युवाम्यां साक्षकारणात् ॥ ४६ ॥

हे काकुत्स्थ ! मैं वाहिर घूमने वाला, तुम्हारा प्राणों के समान प्यारा मित्र हूँ । मेरा नाम गरुड़ है और मैं आपकी सहायता करने को यहाँ आया हूँ ॥ ४६ ॥

असुरा वा सहावीर्या दानवा वा महाबलाः ।

सुराश्चापि सगन्धर्वाः पुरस्कृत्य शतक्रतुम् ॥ ४७ ॥

नेमं मोक्षयितुं शक्ताः शरवन्धं सुदारुणम् ।

मायावलादिन्द्रजिता निर्मितं क्रूरकर्मणा ॥ ४८ ॥

बड़े बड़े पराक्रमी असुर अथवा महाबली इन्द्र को आगे कर, गन्धर्वों सहित देवता भी यदि चाहते कि, तुमको इस अत्यन्त कठिन बाणबंधन से छुड़ा ले, तो वे भी नहीं छुड़ा सकते थे । क्योंकि क्रूरकर्मा इन्द्रजीत ने ये बन्धन माया के बल से बनाए हैं ॥ ४८ ॥ ४८ ॥

एते नागाः काद्रवेयास्तीक्ष्णदंष्ट्रा विषोल्बणाः ।

रक्षोमायाप्रभावेन शरा भत्वा त्वदाश्रिताः ॥ ४९ ॥

हे रघुनन्दन ! ये नाग कद्रू के पुत्र हैं, इनके बड़े पैने दाँत हैं और ये बड़े ही विषैले हैं । परन्तु मेघनाद की माया के प्रभाव से ये सर्प, बाण रूप हो कर, आपको आ आकर काटते थे ॥ ४९ ॥

सभाग्यश्चासि धर्मज्ञ राम सत्यपराक्रम ।

लक्ष्मणेन सह आत्रा समरे रिपुवातिना ॥ ५० ॥

हे सत्यपराक्रम धर्मज्ञ राम ! तुम समर में शत्रुओं को मारने वाले अपने भाई लक्ष्मण सहित, बड़े भाग्यवान हो ॥ ५० ॥

इमं श्रुत्वा तु वृत्तान्तं त्वरमाणोऽहमागतः ।

सहसा युवयोः स्नेहात्सखित्वमनुपालयन् ॥ ५१ ॥

मैं इस वृत्तान्त को सुनते ही, तुम दोनों के प्रति स्नेह होने के कारण मित्रवर्ष का पालन करने को, दौड़ा हुआ, वहाँ आया हूँ। (अर्थात् तुम दोनों इस लिए भाग्यवान् हो जो मुझे तुम्हारी इस विपत्ति की सूचना शीघ्र मिल गई) ॥ ५१ ॥

मोक्षितौ च महाघोरादस्मात्सायकबन्धनात् ।

अप्रमादश्च कर्तव्यो युवाम्यां नित्यमेव हि ॥ ५२ ॥

इस महादारुण बाणबन्धन से मैंने तुमको मुक्त कर दिया, अब तुम लोगों को प्रमाद छोड़ कर, बड़ी सावधानी से युद्ध सम्बन्धी कार्य सदा करने चाहिए ॥ ५२ ॥

प्रकृत्या राज्ञसाः सर्वे संग्रामे कृटयोधिनः ।

शूराणां युद्धभावानां भवतामार्जवं बलम् ॥ ५३ ॥

क्योंकि राजस लोग स्वभाव ही से संग्राम करने में बड़े धोखेवाज् होते हैं और शूरवीर होने के कारण लोग युद्धभाव ही को श्रेष्ठतल समझते हैं ॥ ५३ ॥

तन्न विश्वसितव्यं वो राजसानां रणजिरे ।

एतेनैवोपमानेन नित्यं जिह्वा हि राजसाः ॥ ५४ ॥

अतः युद्ध में इन दुष्ट राजसों का आप विश्वास न करें और राजसों के कपटयुद्ध करने के विषय में, आप नेवनाद ही का उदाहरण ले लें ॥ ५४ ॥

एवमुक्त्वा ततो रामं सुपर्णः सुमहाबलः ।

परिष्वज्य सुहृत्स्निग्धमाप्रष्टुमुपचक्रमे ॥ ५५ ॥

महाबली गरुड़ जी, इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी से कह और उनसे बड़ी प्रीति के साथ मिल भेंट कर, मधुर वाणी से बोले ॥ ५५ ॥

सखे राघव धर्मज्ञ रिपूणामपि वत्सल ।

अभ्यनुज्ञातुमिच्छामि गमिष्यामि यथागतम् ॥ ५६ ॥

हे धर्मज्ञ मित्र राघव ! आप तो शत्रु पर भी दया दिखलाने वाले हैं । अब यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जहाँ से आया हूँ, वहाँ लौट कर चला जाऊँ ? ॥ ५६ ॥

न च कौतूहलं कार्यं सखित्वं प्रति राघव !

कृतकर्मा रणे वीर सखित्वमनुवेत्स्यसि ॥ ५७ ॥

हे राघव ! इस मैत्री के बारे में तुम कुछ भी विस्मय न करो । हे वीर ! जब तुम इस युद्ध से निश्चिन्त हो चुकोगे, तब तुमको इस मैत्री का ठीक ठीक वृत्तान्त मालूम हो जायगा ॥५७॥

बालवृद्धावशेषां तु लङ्कां कृत्वा शरोर्मिभिः ।

रावणं च रिपुं हत्वा सीतां समुपलप्स्यसे ॥ ५८ ॥

तुम अपने बाणों की लहरों से इस लङ्का को ऐसा कर दोगे कि, बूढ़े और बालकों को छोड़ और कोई न रह जायगा और तुम अपने वैरी रावण को मार कर सीता को भी पावोगे ॥५८॥

इत्येवमुक्त्वा वचनं सुपर्णः शीघ्रविक्रमः ।

रामं च विरुजं कृत्वा मध्ये तेषां वनौकसाम् ॥ ५९ ॥

यह कह कर और श्रीरामचन्द्र जी को आरोग्य कर बड़े फुर्तीले गरुड़ जी ने वानरों के बीच बैठे हुए ॥ ५९ ॥

प्रदक्षिणं ततः कृत्वा परिष्वज्य च वीर्यवान् ।

जगामाकाशमाविश्य सुपर्णः पवनो यथा ॥ ६० ॥

उन महाबली श्रीरामचन्द्र जी को गले लगाया और उनकी परिक्रमा की। तदनन्तर गरुड़ जी आकाशमार्ग से उसी प्रकार तेजी से चले गए; जिस प्रकार पवन चलता है ॥ ६० ॥

❀विरुजौ राघवौ दृष्ट्वा ततो वानरयूथपाः ।

सिंहनादांस्तदा नेदुर्लाङ्गलान्दुष्टुवुस्तदा ॥ ६१ ॥

श्रीरामचन्द्र जी को नीरोग देख, वानरयूथपति पूँछें फटकार फटकार कर, सिंहनाद करने लगे ॥ ६१ ॥

ततो भेरीः समाजघ्नुमृ दङ्गांश्चाप्यनादयन् ।

दध्मुः शङ्खान् सप्रहृष्टाः द्ध्वेलन्त्यापि यथापुरम् ॥ ६२ ॥

उन लोगों ने भेरी मृदङ्ग बजाए तथा अत्यन्त हर्षित हो शङ्खध्वनि की तथा पहिले की तरह सिंहनाद किया ॥ ६२ ॥

आस्फोटथास्फोटथ विक्रान्ता वानरा नगयोधिनः ।

द्रुमानुत्पाटथ विविधांस्तस्थुः शतसहस्रशः ॥ ६३ ॥

वृक्षों से लड़ने वाले मृदङ्गों हजारों वीर वानर, चञ्चल कूद मचाते, वृक्षों को उखाड़ और हाथों में ले, राक्षसों से लड़ने के लिए खड़े हो गए । ६३ ॥

विसृजन्तो महानादांन्त्रासयन्तो निशाचरान् ।

लङ्काद्वागण्युपाजग्मुर्येदुक्रामाः प्लवङ्गमाः ॥ ६४ ॥

वे वानर बड़े जोर से गरजते और राक्षसों को भयभीन करते हुए, लड़ने के लिए लङ्का के द्वारों पर जा डटे ॥ ६४ ॥

❀ पाठान्तरे—“नचलौ ।”

ततस्तु भीमस्तुमुलो निनादो

वभूव शाखामृगयूथपानाम् ।

क्षये निदावस्य यथा घनानां

नादः सुभीमो नदतां निशीथे ॥ ६५ ॥

इति पञ्चाशः सर्गः ॥

ग्रीष्म के अन्त में अर्थात् वर्षा के आरम्भ में, जिस प्रकार वादलों की गर्जना हुआ करती है; उसी प्रकार आधीरात को वानरों की सेना के गर्जने का अत्यन्त भयङ्कर शब्द हुआ ॥६५॥

युद्धकाण्ड का पचासवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

एकपञ्चाशः सर्गः

—:०:—

तेषां सुतुमुलं शब्दं वानराणां तरस्विनाम् ।

नर्दतां राक्षसैः सार्धं तदा शुश्राव रावणः ॥ १ ॥

महापराक्रमी उन गर्जते हुए वानरों का तुमुल शब्द, राक्षसों सहित रावण ने सुना ॥ १ ॥

स्निग्धगम्भीरनिर्घोषं श्रुत्वास निनदं भृशम् ।

सचिवानां ततस्तेषां मध्ये वचनमब्रवीत् ॥ २ ॥

उस स्पष्ट और गम्भीर ध्वनि को वारंवार सुन, मंत्रियों के बीच बैठा हुआ रावण कहने लगा ॥ २ ॥

यथाऽसौ सम्प्रहृष्टानां वानराणां समुत्थितः ।

वहूनां सुमहानादो मेघानामिव गर्जताम् ॥ ३ ॥

यह तो बादलों की गर्जन की तरह बहुत से वानरों का हर्ष-नाद सा सुन पड़ता है । ३ ॥

व्यक्तं सुमहती प्रीतिरेतेषां नात्र संशयः ।

तथा हि विपुलैर्नदिरञ्जुश्रुमे वरुणालयः ॥ ४ ॥

इसमें अब कुछ भी सन्देह नहीं कि, वहाँ कोई बड़ी भारी खुशी की बात हुई है । क्योंकि इनके गर्जन से समुद्र लुब्ध हो चठा है ॥ ४ ॥

तौ तु वद्वौ शरैस्तीक्ष्णैर्भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ।

अयं च सुमहान्नादः शङ्कां जनयतीव मे ॥ ५ ॥

वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण तो पँने तीरों के वंवन से जकड़ दिये गए थे । सो अब इस महानाद को सुन, मेरे मन में शंका उत्पन्न हो गई है ॥ ५ ॥

एतत्तु वचनं चोक्त्वा मन्त्रिणो राक्षसेश्वरः ।

उवाच नैर्ऋतांस्तत्र समीपपरिवर्तिनः ॥ ६ ॥

राक्षसेश्वर रावण मंत्रियों से इस प्रकार कह, पास बैठे हुए राक्षसों से बोला ॥ ६ ॥

ज्ञायतां तूर्णमेतेषां सर्वेषां वनचारिणाम् ।

शोककाले समुत्पन्ने हर्षकारणमुत्थितम् ॥ ७ ॥

तुम लोग जाओ और तुरन्त पता लगाओ कि, ऐसे शोक के समय में वानरों के इस प्रकार प्रसन्न होने का कारण क्या है ॥ ७ ॥

तथोक्तास्तेन सम्भ्रान्ताः प्राकारमधिरुह्य ते ।

ददृशुः पालितां सेनां सुग्रीवेण महात्मना ॥ ८ ॥

इस प्रकार रावण की आज्ञा पा वे घबड़ाये हुए राक्षस परकोटे की दीवाल पर चढ़ गए । वहाँ से उन्होंने सुग्रीव रक्षित वानरी सेना को देखा ॥ ८ ॥

तौ च मुक्तौ सुघोरेण शरवन्धेन राघवौ ।

समुत्थितौ महावेगौ विपेदुः प्रेक्ष्य राक्षसाः ॥ ९ ॥

और (देखा कि) वे महावेगवान दोनों रघुनन्दन उस अत्यन्त दारुण शरवन्धन से मुक्त हो कर उठ बैठे हैं । यह देख वे राक्षस दुःखी हुए ॥ ९ ॥

सन्त्रस्तहृदयाः सर्वे प्राकारोदवरुह्य ते ।

विषण्णवदना घोरा राक्षसेन्द्रमुपस्थिताः ॥ १० ॥

और भयभीत हो परकोटे की दीवाल से नीचे उतर आए और अत्यन्त उदास हो रावण के पास गए ॥ १० ॥

तदप्रियं दीनमुखा रावणस्य निशाचराः ।

कृत्स्नं निवेदयामासुर्यथावद्राक्यकोविदाः ॥ ११ ॥

उन वाक्यकोविद निशाचरों ने उदास हो कर, रावण को वहाँ का समस्त अप्रिय संवाद यथावत् सुनाया ॥ ११ ॥

यौ ताविन्द्रजिता युद्धे आतरौ रामलक्ष्मणौ ।

निवद्धौ शरवन्धेन निष्प्रकम्पभुजौ कृतौ ॥ १२ ॥

उन्होंने कहा—महाराज ! जिन दोनों भाइयों को मेघनाद ने वाणवन्धन से ऐसा जकड़ दिआ था कि, वे दोनों अपनी भुजाओं को हिला डुला भी नहीं सकते थे ॥ १२ ॥

विमुक्तौ शरवन्धेन तौ दृश्येते रणाजिरे ।

पाशानिव गजौ छिन्वा गजेन्द्रसमविक्रमां ॥ १३ ॥

वे गजेन्द्र-सम-विक्रमी दोनों भाई समरभूमि में इस मनय शरवंधन से ऐसे मुक्त देख पड़ते हैं, जैसे जालबन्धन को काटे हुए हाथी ॥ १३ ॥

तच्छ्रुत्वा वचनं तेषां राजसेन्द्रो महाबलः ।

चिन्ताशोकसमाक्रान्तो विपणवदनोऽत्रवीत् ॥ १४ ॥

महाबली राजसराज उनके ये वचन सुन, अत्यन्त चिन्तित हो शोकान्वित हो गया और उसका चेहरा फोका पड़ गया । वह कहने लगा ॥ १४ ॥

घोरैर्दत्तवरैर्वद्धौ शरैराशीविषोपमैः ।

अमोघैः सूर्यसङ्काशैः प्रमध्येन्द्रजिता युधि ॥ १५ ॥

देखो, मेघनाद ने जिन बाणों से बलपूर्वक युद्ध में उन दोनों को बांधा था, वे बाण विषधर सपों की तरह भयङ्कर थे, बरदान से उसे वे प्राप्त हुए थे । वे बाण कभी निष्फल जाने वाले न थे और सूर्य की तरह चमचमाते थे ॥ १५ ॥

तदस्त्रवन्धमासाद्य यदि मुक्तौ रिपू मम ।

संशयस्थमिदं सर्वमनुपश्याम्यहं बलम् ॥ १६ ॥

यदि मेरे वे दोनों शत्रु उन शरवन्धनों में बंध कर भी मुक्त हो गए, तो मुझे अब अपनी समस्त राजसी सेना के जीवित रहने में सन्देह है ॥ १६ ॥

निष्फलाः खलु संवृत्ताः शराः पावकतेजसः ।

आदत्तं यैस्तु सग्रामे रिपूणां मम जावितम् ॥ १७ ॥

बा० रा० यु०—३१

वड़े अचम्भे की बात है कि, जिन सब अर्खों ने रणक्षेत्र में वारम्बार शत्रुओं का संहार किया था, आज वे ही अग्नि के समान तेजस्वी अस्त्र मेरे दुर्भाग्य से निष्फल हो गए और उन वाणों ने शत्रु को जीवन दान दे दिया ॥ १७ ॥

एवमुक्त्वा तु संक्रुद्धो निःश्वसन्नुरगो यथा ।

अत्रवीद्रक्षसां मध्ये धूम्राक्षं नाम राक्षसम् ॥ १८ ॥

यह कहता हुआ रावण बहुत क्रुद्ध हुआ और साँप की तरह फुँसकारने लगा । फिर वह राक्षसों के बीच बैठा हुआ धूम्राक्ष नामक राक्षस से बोला ॥ १८ ॥

बलेन महता युक्तो रक्षसां भीमविक्रम ।

त्वं वधायामिनिर्याहि रामस्य सह वानरैः ॥ १९ ॥

तुम भयङ्कर पराक्रमी राक्षसों की बड़ी सेना लेकर समस्त वानरों सहित राम को मार डालने के लिए शीघ्र जाओ ॥ १९ ॥

एवमुक्तस्तु धूम्राक्षो राक्षसेन्द्रेण धीमता ।

कृत्वा प्रणामं संहृष्टो निर्जगाम नृपालयात् ॥ २० ॥

जब बुद्धिमान रावण ने धूम्राक्ष से इस प्रकार कहा, तब वह राक्षसराज को प्रणाम कर, प्रसन्न होता हुआ राजभवन से निकला ॥ २० ॥

अभिनिक्रम्य तद्द्वारं बलाध्यक्षमुवाच ह ।

न्वश्यस्व बलं तूर्णं किं चिरेण युयुत्सतः ॥ २१ ॥

राजभवन के द्वार पर आ उसने सेनापति से कहा बहुत जल्द सेना तैयार करो, क्योंकि लड़ने वाले के लिए विलंब करने से लाभ ही क्या ॥ २१ ॥

धूम्राक्षवचनं श्रुत्वा बलाढ्यनी बलानुगः ।

बलमुद्योजयामास रावणस्याज्ञया द्रुतम् ॥ २२ ॥

धूम्राक्ष के बचन सुन और रावण से आज्ञा ले, सेनापति ने तुरन्त सेना सजा दी ॥ २२ ॥

ते श्वद्वघण्टा बलिनी वीररूपा निशाचराः ।

विगर्जमानाः संहृष्टा धूम्राक्षं पर्यवाग्यन् ॥ २३ ॥

अपनी शूरवीरता प्रदर्शित करने को कमर में घंटा बाँधे हुए अयङ्कर रूप वाले राजस घोड़ा, अत्यन्त गर्जते हुए और प्रसन्न होते हुए धूम्राक्ष को घेर कर आ खड़े हुए ॥ २३ ॥

विविधायुधहस्ताश्च शूलमुद्गरपाणयः ।

गदाभिः पट्टिशैर्दण्डैरायसैर्मुसलैर्भृशम् ॥ २४ ॥

परिवैभिन्दिपालैश्च भन्तैः प्रासैः परश्वःधै ।

निर्यय राक्षसा दिग्भ्यो नर्दन्तो जलदा यथा ॥ २५ ॥

उनके हाथों में विविध प्रकार के शूल, मुद्गर, गदा, पट्ट, डंडे, तलवारें, मूसल, परिघ, भिन्दिपाल (गदा विशेष), भाले, फरसे और कुल्हाड़ियाँ थीं। वे लोग वादलों की तरह चारों ओर से गर्जते हुए वहाँ से चले ॥ २४ ॥ २५ ॥

रथैः क्वचिनस्त्वन्ये ध्वजैश्च समलंकृतैः ।

सुवर्णजालविहितैः खरैश्च विविवाननैः ॥ २६ ॥

बहुत से राक्षस कवच पहिने हुए थे और रथों पर नवार थे। रथों के ऊपर ध्वजाएँ फहरा रही थीं। सोने के जाल (ज़र-

दोजी के काम की पर्दा-उधार) उन रथों पर पड़े हुए थे और उन रथों में विविध मुखाकृति के खच्चर जुते हुए थे ॥ २६ ॥

हयैः परमर्शाग्रैश्च गजेन्द्रैश्च मदोत्कटैः ।

निर्ययु राक्षसव्याघ्रा व्याघ्रा इव दुरासदाः ॥ २७ ॥

बहुत से राक्षस सिपाही बहुत तेज चलने वाले घोड़ों पर सवार थे और बहुत से मत्तवाले हाथियों पर चढ़े हुए थे। वे राक्षसव्याघ्र दुर्घर्ष व्याघ्र की तरह चले ॥ २७ ॥

वृकसिंहमुखैर्युक्तं खरैः कनकभृषणैः ।

आरुरोह रथं दिव्यं धूम्राक्षः खरनिःस्वनः ॥ २८ ॥

भेड़िये और सिंह के मुख की आकृति के खच्चरों से जुते हुए सुवर्णभूषित दिव्य रथ में बैठा, गधे की तरह रेंकता हुआ धूम्राक्ष वहाँ से चला ॥ २८ ॥

स निर्यातो महावीर्यो धूम्राक्षो राक्षसैर्वृतः ।

ग्रहसन्पश्चिमद्वारं हनुमान्यत्र यूथपः ॥ २९ ॥

महावली धूम्राक्ष, राक्षसों से घिरा हुआ और अट्टहास करता हुआ, लङ्का के पश्चिमद्वार से वहाँ जा निकला, जहाँ वानरी सेना का परिचालन हनुमान जी कर रहे थे ॥ २९ ॥

रथप्रवरमास्थाय खरयुक्तं खरस्वनम् ।

प्रयान्तं तु महावीरं राक्षसं भीमविक्रमम् ॥ ३० ॥

खच्चर जुते हुए उत्कृष्ट रथ में बैठे और गधे की तरह रेंकते हुए महाभयङ्कर रूप वाले और महापराक्रमी राक्षस धूम्राक्ष को, शूद्रयात्रा करते हुए, ॥ ३० ॥

अन्तरिक्षगता घोराः शकुनाः प्रत्यवारयन् ।

रथशीर्षे महान्भीमो गृध्रश्च निपपात ह ॥ ३१ ॥

आकाश में होते हुए बड़े बड़े बुरे शकुनों ने रोका । यथा—
उसके रथ के ऊपर एक बड़ा भारी गिद्ध गिरा ॥ ३१ ॥

ध्वजाग्रे ग्रथिताश्चैव निपेतुः २कुणपाशनाः ।

रुधिरार्द्रो महाञ्ज्वेतः कवन्धः पतितो भुवि ॥ ३२ ॥

विस्वरं चोत्सृजन्नादं धूम्राक्षस्य समीपतः ।

ववर्ष रुधिरं देवः सञ्चचाल च मेदिनी ॥ ३३ ॥

मुर्दे खाने वाले गीधों की टोली इस राक्षस के रथ की ध्वजा के ऊपर गिरती थी । फिर सफेद रंग का, रक्त से तर, अमङ्गल शब्द करता हुआ एक कवन्ध, धूम्राक्ष के पास भूमि पर घड़ाम से गिरा । वादलों ने खून की वर्षा की; ज़मीन काँपने लगी ॥३२॥३३॥

प्रतिलोमं वयौ वायुनिर्घातसमनिःस्वनः ।

तिमिरौघावृतास्तत्र दिशश्च न चकाशिरे ॥ ३४ ॥

स तूपातांस्तदा दृष्ट्वा राक्षसानां भयावहान् ।

प्रादुर्भूतान् सुघोरांश्च धूम्राक्षो व्यथितोऽभवत् ।

मुमुहू राक्षसाः सर्वे धूम्राक्षस्य पुरःसराः ॥ ३५ ॥

विजली गिरने के समान शब्द करती हुई हवा सामने से चलने लगी । चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा गया । दिशाएँ प्रकाश-शून्य हो गईं । राक्षसों के लिए भयोत्पादक इन महाभयङ्कर

चत्पातों को होते हुए देख, धूम्राक्ष बहुत व्यथित हुआ और उसके आगे चलने वाले राक्षस घबड़ा गए ॥ ३४ ॥ ३५ ॥

ततः सुभीमो बहुभिर्निशाचरै-

वृत्तोऽभिनिष्क्रम्य रणोत्सुको बली ।

ददर्श तां राघववाहुपालितां

महौघकल्पां बहुवानरीं चमूम् ॥ ३६ ॥

इति एकपञ्चाशः सर्गः ॥

रणोत्सुक एवं महाबलवान धूम्राक्ष, वड़े वड़े भयङ्कर राक्षसों से घिरा हुआ, लङ्कापुरी के बाहिर गया और वहाँ उसने श्रीरामचन्द्र जी के भुजबल से रक्षित, सागर के समान बड़ी भारीवानरी सेना देखी ॥ ३६ ॥

युद्धकाण्ड का इक्यावनवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—:✽:—

द्विपञ्चाशः सर्गः

—*—

धूम्राक्षं प्रेक्ष्य निर्यान्तं राक्षसं भीमविक्रमम् ।

विनेदुर्वानराः सर्वे प्रहृष्टा युद्धकाक्षिणः ॥ १ ॥

भीम पराक्रमी धूम्राक्ष को आते देख, युद्धाभिलाषी सब वानर अत्यन्त प्रसन्न हुए और नाद करने लगे ॥ १ ॥

तेषां सुतुमुलं युद्धं सञ्जज्ञे हरिरक्षसाम् ।

अन्योन्यं पादपैर्वोरं निघ्नतां शूलमुद्गरैः ॥ २ ॥

वानरों और राक्षसों का घोर युद्ध हुआ । वानर वृक्षों से और राक्षस शूल मुद्गरों से एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे ॥२॥

घोरैश्च परिवैश्चित्रैस्त्रिशूलैश्चापि संहतैः ।

राक्षसैर्वानरा घोरैर्विनिकृताः समन्ततः ॥ ३ ॥

बड़े बड़े त्रिशूलों और परिधों से एक साथ प्रहार कर, भयङ्कर राक्षसों ने (रणभूमि में) चारों ओर वानरों को मार कर डाल दिया ॥ ३ ॥

वानरै राक्षसाश्चापि द्रुमैर्भूमौ समीकृताः ।

राक्षसाश्चापि संक्रुद्धा वानरान्निशितैः शरैः ॥ ४ ॥

विन्यधुर्घोरसङ्काशैः कङ्कपत्रैरजिह्वगैः ।

ते गदाभिश्च भीमाभिः पट्टिशैः कूटमुद्गरैः ॥ ५ ॥

घोरैश्च परिवैश्चित्रैस्त्रिशूलैश्चापि क्षुसंश्रितैः ।

विदार्यमाणा रक्षोभैर्वानरास्ते महाबलाः ॥ ६ ॥

वानरों ने राक्षसों को पेड़ों से मार मार कर जमीन में सुला दिया । तब राक्षसों ने भी क्रुद्ध हो वानरों को घोर कालान्ध्रितुल्य कंकपत्र लगे हुए और सीधे जाने वाले, पैने बाणों से वेध डाला । भयङ्कर गदाओं, शूल, पटों, कौंटेदार मुगदरों, भयङ्कर परिधों, रंग विरंगों त्रिशूलों से राक्षसों द्वारा विदारित होना वे महाबली वानर ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥

अमपाञ्जनितोद्धर्षाश्चक्रुः कर्मण्यभीतवत् ।

शरनिर्मिन्नगात्रास्ते शूलनिर्मिन्नदेहिनः ॥ ७ ॥

१ समीकृताः—पातिताः । (गो०) क्ष पाठन्तरे—“संश्रितैः ।”

न सह सके और निर्भय तथा प्रसन्न हो लड़ने लगे । जब उनके शरीर विध गए और त्रिशूलों से विदीर्ण हो गए ॥ ७ ॥

जगृहुस्ते द्रुमांस्तत्र शिलांश्च हरियूथपाः ।

ते भीमवेगा हरयो नर्दमानास्ततस्ततः ॥ ८ ॥

तब सब वानरयूथपतियों ने वृक्ष और शिलाएँ हाथों में ले लीं । फिर वे भयङ्कर वेग वाले वानर चारों ओर गर्जते हुए ॥८॥

समन्थू राक्षसान् भीमान्नामानि च वभापिरे ।

तद्भ्रूवान्द्रु त घोरं युद्धं वानररक्षसाम् ॥ ९ ॥

शिलाभिर्वि विधाभिश्च बहुभिश्चैव पादपैः ।

राक्षसा मथिताः केचिद्धानरैर्जितकाशिभिः १ ॥ १० ॥

तथा अपने नाम कह कहकर राक्षस वीरों को मथने लगे । यह वानर और राक्षसों का युद्ध विविध शिलाओं और बहुत से वृक्षों से भयङ्कर और अद्भुत हुआ । किसी किसी वानर ने दम साधकर अथवा निर्भय हो राक्षसों का भली भाँति संहार किया ॥९॥१०॥

ववमू रुधिरं केचिन्मुखै रुधिरभोजनाः ।

पार्श्वेषु दारिताः केचित्केचिद्राशीकृता द्रुमैः ॥ ११ ॥

अनेक रुधिरभोजी राक्षस रुधिर उगलने लगे । किसी किसी की पसलियाँ टूट गई तथा कोई कोई वृक्षों की मार से ढेर हो गए ॥ ११ ॥

शिलाभिश्चूर्णिताः केचित्केचिद्दन्तैर्विदारिताः ।

ध्वजैर्विमथितैर्भग्नैः खरैश्च विनिपातितैः ॥ १२ ॥

किसी किसी राक्षस को शिलाओं के प्रहार से चूर कर दिखा और किसी किसी को दाँता से चीथ डाला । किसी किसी के रथ की ध्वजा तोड़ फोड़ कर नष्ट कर डाली और किसी किसी के रथ में जुते हुए खच्चर मार कर ज़मीन पर डाल दिएः॥ १२ ॥

ॐ रथैर्विध्वंसिताः केचिद्व्यथिता रजनीचराः ।

गजेन्द्रैः पर्वताकारैः पर्वताग्रैर्वनौकसाम् ॥ १३ ॥

मथितैर्वाजिभिः क्रीणं सारोहैर्वसुधातलम् ।

वानरैर्भीमविक्रान्तैगप्लुत्योप्लुत्य वेगितैः ॥ १४ ॥

राक्षसाः काजैस्तीक्ष्णैर्मुखेषु विनिकर्तिताः ।

विवर्णवदना भूयो विप्रक्रीर्णशिरोरुहाः ॥ १५ ॥

कोई कोई राक्षस रथों से कुचले जाकर व्यथित हुए । पर्वत-शिखर के समान वानरों की फैंकी हुई शिलाओं के प्रहार से मरे हुए पर्वताकार हाथियों तथा सवारों सहित मरे हुए घोड़ों से रणभूमि पूर्ण हो गई थी । भयङ्कर विक्रमशाली वेगवान वानरों ने बारंबार उल्लसकूद कर अपने नखां से राक्षसों के मुख नोच डाले थे । सिरों के बाल नुच जाने से राक्षसों के मुख भद्ररंग हो गए थे ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥

मूढाः शोणितगन्धेन निपेतुधरणीतले ।

अन्ये परमसंक्रुद्धा राक्षसा भीमनिःस्वनाः ॥ १६ ॥

रुधिरगन्ध से मूर्छित हो राक्षसगण भूमि पर गिर पड़े । अन्य भयङ्कर गर्जन करने वाले राक्षस अत्यन्त क्रुपित हुए ॥ १६ ॥

ॐ पठान्तरे—रथैर्विध्वंसितैश्चापि पतितै राजनीचरैः ।'

तलैरेवाभिधावन्ति वज्रस्पर्शसमैर्हरीन्

वानरैरापतन्तस्ते वेगिता वेगवत्तरैः ॥ १७ ॥

और वज्र के समान थप्पड़ तान वानरों की ओर दौड़े। किन्तु वेगवान वानर, उन आते हुए राक्षसों को बड़ी फुर्ती से ॥ १७ ॥

मुष्टिभिश्चरणैर्दन्तैः पादपैश्चावपोथिताः ।

वानरैर्हन्यमानास्ते राक्षसा त्रिप्रदुद्रुवुः ॥ १८ ॥

घूँसों, लातों, दाँतों और वृक्षों से मार गिराते थे। वानरों की मार से वे राक्षस युद्धभूमि छोड़ कर भाग खड़े हुए ॥ १८ ॥

सैन्यं तु त्रिद्रुतं दृष्ट्वा धूम्राक्षो राक्षसर्षभः ।

क्रोधेन कदनं चर्क्रे वानराणां युयुत्सताम् ॥ १९ ॥

राक्षसश्रेष्ठ धूम्राक्ष ने अपनी सेना को तितिर वितिर होते देख, युद्ध करते हुए उन वानरों का नाश करना आरम्भ किया ॥ १९ ॥

प्रासैः प्रमथिताः केचिद्वानराः शोणितस्रवाः ।

मुद्गरैराहताः केचित्पतिता धरणीतले ॥ २० ॥

उसने किसी किसी के परिघ मारा, जिससे उनके शरीरों से रक्त बहने लगा। अनेक वानर मुद्गरों की मार से पृथिवी पर गिर पड़े ॥ २० ॥

पारिवैर्मथिताः केचिद्धिन्दिपालैर्विदारिताः ।

पट्टिशैराहताः केचिद्धिह्वलन्तो गतासवः ॥ २१ ॥

धूम्राक्ष ने किसी को परिघ से मारा, किसी को गदा विशेष से विदीर्ण कर डाला। बहुत से वानर तो पट्टिशों की मार से घबड़ा कर पृथिवी पर गिर कर मर गये ॥ २१ ॥

केचिद्विनिहताः शूलै रधिरार्द्रा वनौकसः ।

केचिद्विद्राविता नष्टाः संक्रुद्धै राक्षसैर्युधि ॥ २२ ॥

कितने ही वानर त्रिशूलों के लगने से रक्त से तर बतर हो गए । क्रुद्ध राक्षसों द्वारा खदेड़े जा कर अनेक वानर युद्ध में मारे गये ॥ २२ ॥

विभिन्नहृदयाः केचिदेकपार्श्वेन दारिताः ।

विदारितास्त्रिशूलैश्च केचिदान्त्रैर्विनिःसृताः ॥ २३ ॥

अनेक वानरों के कन्नेजे चीर डाले गए, किसी किसी की एक कोख ही चीर डाली गई । किसी किसी वानर की, त्रिशूल लगने से आँतें निकल पड़ीं ॥ २३ ॥

तत्सुभीमं महायुद्धं हरिराक्षससङ्कलम् ।

प्रवभौ शब्दबहुलं शिलापादपसङ्कलम् ॥ २४ ॥

वानरों और राक्षसों का बड़ा भयङ्कर युद्ध हुआ । उस समय युद्धभूमि लड़ते हुए राक्षसों और वानरों के तर्जन गर्जन से तथा शिलाओं और वृक्षों से भर गई ॥ २४ ॥

धनुर्ज्यातन्त्रिमधुरंहि क्वातालसमन्वितम् ।

मन्दस्तनितसङ्गीतं युद्धगान्धर्वमावभौ ॥ २५ ॥

उस समय इस युद्ध ने सङ्गीत का रूप धारण किया था । धनुष के रोदे तो मानों मधुर वीणा थे, वीरों के गिरने के समय की हिचकियाँ मानों ताल के समान थीं । अशक्तों का धीरे से बोलना, मानों मन्द मधुर गायन था ॥ २५ ॥

धूम्राक्षस्तु धनुष्पाण्वानरान् रणमूर्धनि ।

हसन् नविद्रावयामास दिशस्तु शरवृष्टिभिः ॥२६॥

इस प्रकार राक्षस धूम्राक्ष ने संग्रामभूमि में धनुष धारण कर सब दिशाओं को बाण की वृष्टि से ढक दिया और हँसते हँसते सब वानरों को मार भगाया ॥ २६ ॥

धूम्राक्षेणादितं सैन्यं व्यथितं वीक्ष्य मारुतिः ।

अभ्यवर्तत संक्रुद्धः प्रगृह्य त्रिपुलां शिलाम् ॥ २७ ॥

धूम्राक्ष द्वारा वानरी सेना को नष्ट और पीड़ित होते देख, हनुमान जी अत्यन्त कुपित हुए । उन्होंने एक बड़ी भारी शिला उठा ली और उसे ले वे आगे बढ़े ॥ २७ ॥

क्रोधाद्द्विगुणताम्राक्षः पितृतुल्यपराक्रमः ।

शिलां तां पातयामास धूम्राक्षस्य रथं प्रति ॥ २८ ॥

अपने पिता पवन के समान पराक्रमी हनुमान जी ने, क्रोध से अपनी आँखें दुगुनी लाल कर, वह शिला धूम्राक्ष के रथ के ऊपर फेंकी ॥ २८ ॥

आपतन्तीं शिलां दृष्ट्वा गदामुद्यम्य सम्भ्रमात् ।

स्थादाप्लुत्य वेगेन वसुधायां व्यतिष्ठत ॥ २९ ॥

उस शिला को अपने रथ की ओर आते देख, धूम्राक्ष घबड़ाया और हाथ में गदा ले, वह रथ से तुरन्त पृथ्वी पर कूद पड़ा ॥ २९ ॥

सा प्रमथ्य रथं तस्य निपपात शिला भुवि ।

सचक्रकूवरं साश्वं सध्वजं सशरासनम् ॥ ३० ॥

वह शिला उस रथ को नष्ट कर जमीन पर जा गिरी । पहिये, घुरी, घाड़े, ध्वजा और धनुष सहित ॥ ३० ॥

स भङ्क्त्वा तु रथं तस्य हनुमान् मारुतात्मजः ।

रत्नसां कदनं चक्रे सस्कन्धविटपैर्द्रुमैः ॥ ३१ ॥

धूम्राक्ष के रथ को नष्ट कर, पवननन्दन हनुमान जी ने ढालियों सहित बड़े बड़े वृक्षों से राक्षसों का नाश करना आरम्भ किया ॥ ३१ ॥

विभिन्नशिरसो भूत्वा राक्षसाः शोणितोक्षिताः ।

द्रुमैः प्रव्यथिताश्चान्ये निपेतुर्धरणी तले ॥ ३२ ॥

वृक्षों के प्रहार से राक्षसों के सिर फटने लगे। खून से तर बतर हो वृक्षों की मार से राक्षस मर मर कर ज़मीन पर गिरने लगे ॥ ३२ ॥

विद्राव्य राक्षसं सैन्यं हनुमान् मारुतात्मजः ।

गिरेः शिखरमादाय धूम्राक्षमभिदुद्रुवे ॥ ३३ ॥

पवननन्दन हनुमान जी इस प्रकार राक्षसों सेना को तितर बितर कर, एक पर्वतशिखर उखाड़ धूम्राक्ष की ओर दौड़े ॥ ३३ ॥

तमापतन्तं धूम्राक्षो गदामुद्यम्य वीर्यवान् ।

विनर्दमानः सहसा हनुमन्तमभिद्रवत् ॥ ३४ ॥

हनुमान जी को शिला लिए अपनी ओर आते देख, वीर्यवान् धूम्राक्ष भी सहसा हाथ में गदा ले गर्जता हुआ हनुमान जी की ओर ऋपटा ॥ ३४ ॥

ततः क्रुद्धस्तु वेगेन गदां तां बहुकण्टकाम् ।

पातयामास धूम्राक्षो मस्तके तु हनुमतः ॥ ३५ ॥

धूम्राक्ष ने क्रोध में भर बड़े जोर से बहुत से काँटों से युक्त एक गदा हनुमान जी के सिर में ताक कर मारी ॥ ३५ ॥

ताडितः स तथा तत्र गदया भीमरूपया ।

स कपिर्मरुतबलस्तं प्रहारमचिन्तयन् ॥ ३६ ॥

उस भयङ्कर गदा के लगने पर पवन के समान बलवान हनु-
मान जी ने उस गदा के प्रहार की कुछ भी परवाह न की ॥३६॥

धूम्राक्षस्य शिरोमध्ये गिरिशृङ्गमपातयत् ।

स विह्वलितसर्वाङ्गो गिरिशृङ्गेण ताडितः ॥ ३७ ॥

और धूम्राक्ष के सिर पर वह पर्वतशिखर पटक दिया ।
उस पर्वतशिखर के लगने से धूम्राक्ष के समस्त अङ्ग बेकाम हो
गए और वह टूटे फूटे एक पर्वत की तरह अचानक ज़मीन पर
गिर पड़ा ॥ ३७ ॥

पपात सहसा भूमौ विकीर्ण इव पर्वतः ।

धूम्राक्षं निहतं दृष्ट्वा हतशेषा निशाचराः ।

त्रस्ताः प्रविशिशुर्लङ्कां बध्यमानाः प्लवङ्गमैः ॥ ३८ ॥

धूम्राक्ष को मरा हुआ देख, मरने से बचे हुए राक्षस, वानरों
की सार से डर कर लङ्का में भाग गए ॥ ३८ ॥

स तु पवनसुतो निहत्य शत्रुं

क्षतजवहाः सरितश्च सन्निकीर्णं ।

रिपुवधजनितश्रमो महात्मा

मुदमगमत्कपिभिश्च पूज्यमानः ॥ ३९ ॥

इति द्विपञ्चाशः सर्गः ॥

महात्मा पवननन्दन हनुमान जी इस प्रकार शत्रुओं को
मार और रणभूमि में खून की नदी बहा, शत्रु-संहार-जनित
श्रम से थके हुए होने पर भी, वानरों से सम्मानित हो, अत्यन्त
प्रसन्न हुए ॥ ३९ ॥

युद्धकाण्ड का बावनवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

त्रिपञ्चाशः सर्गः

—०—

धूम्राक्षं निहतं श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः ।

क्रोधेन महताऽऽविष्टो निःश्वसन्नुरगो यथा ॥ १ ॥

राक्षसेश्वर रावण धूम्राक्ष के मारे जाने का संवाद सुन, बहुत क्रुद्ध हुआ और मारे क्रोध के साँप की तरह फुंसका रने लगा ॥१॥

दीर्घमुष्णं विनिःश्वस्य क्रोधेन कलुषीकृतः ।

अव्रवीद्राक्षस शूरं वज्रदंष्ट्रं महाबलम् ॥ २ ॥

वह क्रोध से अधीर हो और गर्म गर्म साँस ले, महाबली एवं वज्रदंष्ट्र राक्षस से बोला ॥ २ ॥

गच्छ त्वं वीर निर्याहि राक्षसैः परिवारितः ।

जहि दाशरथिं रामं सुग्रीवं वानरैः सह ॥ ३ ॥

हे वीर ! तुम अपने साथ राक्षसों की सेना ले कर जाओ और दशरथचन्दन राम की तथा वानरी सेना सहित सुग्रीव का नाश कर आओ ॥ ३ ॥

तथेत्युक्त्वा द्रुततरं मायावी राक्षसेश्वरः ।

निर्जगाम बलैः सार्धं बहुभिः परिवारितः ॥ ४ ॥

राक्षसेश्वर की यह आज्ञा पा, यह मायावी सेनापति बहुत सी राक्षसी सेना साथ ले, युद्ध करने के लिए निकला ॥ ४ ॥

नागैरश्वैः खरैरुष्ट्रैः संयुक्तः सुसमाहितः ।

पंताकाध्वजचित्रैश्च रथैश्च समलंकृतः ॥ ५ ॥

उसके साथ हाथी, घोड़े, खच्चर और ऊँट तथा ध्वजा पताकाओं से सजे हुए रथ थे ॥ ५ ॥

ततो विचित्रक्रेपूरमुकुटैश्च विभूषितः ।

तनुत्राणि च संरुध्य सधनुर्निर्ययौ द्रुतम् ॥ ६ ॥

बढ़िया बाजू बाँधे और सिर पर मुकुट धारण किए तथा कवच पहिन तथा हाथ में धनुष ले वज्रदंष्ट्र शीघ्रतापूर्वक बाहिर निकला ॥ ६ ॥

पताकालंकृतं दीप्तं तप्तकाञ्चनभूषणम् ।

रथ प्रदक्षिणं कृत्वा समारोहञ्चमूपतिः ॥ ७ ॥

पताकाओं से अलङ्कृत, चमचमाते तथा सुवर्णभूषित रथ की प्रदक्षिणा कर, सेनापति वज्रदंष्ट्र उस पर सवार हुआ ॥७॥

यष्टिभिस्तोमरैश्चत्रैः शूलैश्च मुसलैरपि ।

भिन्दिपालैश्च पाशैश्च शक्तिभिः पट्टिशैरपि ॥ ८ ॥

खड्गैश्चक्रैर्गदाभिश्च निशितैश्च परश्वधैः ।

पदातयश्च निर्यान्ति विविधाः शस्त्रपाणयः ॥ ९ ॥

ढंडे, रंगबिरंगे तोमर, शूल, मूसल, गदाविशेष, पाश, पट्ट, खड्ग, चक्र, गदा और तेज परसे आदि विविध आयुधों को हाथों में लिये हुए पैदल सैनिक निकले ॥ ८ ॥ ९ ॥

विचित्रवाससः सर्वे दीप्ता राक्षसपुङ्गवाः ।

गजा मदोत्कटाः शूराश्चलन्त इव पर्वताः ॥ १० ॥

वे सब राक्षसश्रेष्ठ सैनिक रंगबिरंगी पोशाकें पहिने हुए थे और (उन बहुमूल्य पोशाकों से) प्रदीप्त हो (दमक) रहे थे । मत्त और

युद्धविद्या में शिक्षित हाथी ऐसे जान पड़ते थे, मानों चलते फरते पहाड़ हों ॥ १० ॥

ते युद्धकुशलै रूढास्तोमराङ्कशपाणिभिः ।

अन्ये लक्षणसयुक्ताः शूरा रूढा महाबलाः ॥ ११ ॥

वे सब युद्ध में निपुण थे और उनके ऊपर भाले और अङ्कश हाथों में लिये हुए सैनिक सवार थे । इनके अतिरिक्त और भी महाबली वीर राक्षस घोड़ों पर सवार थे ॥ ११ ॥

तद्राक्षसबलं घोरं विप्रस्थितमशोभत ।

प्रावृट्काले यथा मेघा नर्दमाना सविद्युतः ॥ १२ ॥

वर्षाऋतु में विजली की कड़कड़ाहट के साथ गरजते हुए बादलों की जैसा शाभा हातो है, उसी प्रकार युद्ध करने के लिए जाती हुई राक्षसी सेना शोभायमान हो रही थी ॥ १२ ॥

निःसृता दक्षिणद्वारादङ्गदो यत्र यूथपः ।

तेषां निष्क्रममाणानामशुभं समजायत ॥ १३ ॥

यह सेना लङ्का के दक्षिणी फाटक से निकली, जहाँ पर बानरयूथ-पति अङ्गद थे । जिस समय यह राक्षसी सेना युद्ध करने के लिए निकली, उस समय बड़े बड़े असगुन हुए ॥ १३ ॥

आकाशाद्विघनात्तीव्रा उल्काश्चाभ्यपतंस्तदा ।

वमन्त्यः पावकज्वालाः शिवा घोरं वशाशिरे ॥ १४ ॥

बिना मेघ के ही आकाश से तीव्र विजली और उल्काएँ गिरने लगीं । गीदड़ियाँ अपने मुखों से अग्नि की लपटें निकालती हुईं, भयङ्कर चीत्कार करने लगीं ॥ १४ ॥

१ लक्षणसयुक्ता अन्येऽश्वश्च शूराब्दा निर्याताः । (रा०)

वा० रा० यु०—३२

व्याहरन्ति मृगा घोरा रक्षसां निधनं तदा ।

समापतन्तो योधास्तु प्रास्खलन् भयमोहिताः ॥ १५ ॥

उस समय जानवर ऐसी बोलियाँ बोल रहे थे, जिससे मालूम पड़ता था कि, मानों वे राक्षसों के नाश की सूचना दे रहे थे । अतः भय से मोहित हो, राक्षसवीर फिसल फिसल पड़ते थे ॥ १५ ॥

एतानौत्पातिकान् दृष्ट्वा वज्रदंष्ट्रो महाबलः ।

धैर्यमालम्ब्य तेजस्वी निर्जगाम रणोत्सुकः ॥ १६ ॥

किन्तु रणोत्सुक, महाबली एवं तेजस्वी वज्रदंष्ट्र, इन उत्पातों को देख कर भी, धैर्य धारण कर चला ही जाता था ॥ १६ ॥

तांस्तु निष्क्रमतो दृष्ट्वा वानरा जितकाशिनः ।

प्रणोदुः सुमहानादान् पूरयंश्च दिशो दश ॥ १७ ॥

उस ओर विजयी वानर उन राक्षसों को लड्डा के बाहिर निकलते देख, इनती जोर से गर्जे कि, उनके गर्जने के शब्द से दसों दिशाएँ प्रतिध्वनित होने लगीं ॥ १७ ॥

ततः प्रवृत्तं तुमुलं हरीणां राक्षसैः सह ।

घोरार्णा भीमरूपाणामन्योन्यवधकांक्षिणाम् ॥ १८ ॥

तदनन्तर एक दूसरे को मार डालने के आकांक्षी, भयङ्कर एवं बलवान वानरों और राक्षसों की घमासान लड़ाई हुई ॥ १८ ॥

निष्पतन्तो महोत्साहा भिन्नदेहशिरोधराः ।

रुभिरोक्षितसर्वाङ्गा न्यपतञ्जगतीतले ॥ १९ ॥

(देखते ही देखते) अति उत्साह पूर्वक लड़ने वाले राक्षस योद्धाओं के रक्त में सने घड़, ज़मीन पर पड़े हुए दिखलाई पड़ने लगे ॥ १९ ॥

केचिदन्योन्यमासाद्य शूराः परिघपाणयः ।

चिच्चिपुर्विविधं शस्त्रं समरेष्वनिवर्तिनः ॥ २० ॥

लड़ाई के मैदान में शत्रु को कभी पीठ न दिखलाने वाले वीर राक्षस, हाथ में परिघ लिये हुए, वानरों के ऊपर विविध प्रकार के शस्त्र चला रहे थे ॥ २० ॥

द्रुमाणां च शिलानां च शस्त्राणां चापि निःस्वनः ।

श्रूयते सुमहांस्तत्र घोरो हृदयभेदनः ॥ २१ ॥

इस युद्ध में पेड़ों पत्थरों और शस्त्रों के प्रहारों का ऐसा भयानक शब्द हो रहा था, जिससे सुनने से हृदय दहला जाता था ॥ २१ ॥

रथनेमिस्वनस्तत्र धनुषश्चापि निःस्वनः ।

शङ्खभेरीमृदङ्गानां बभूव तुमुलः स्वनः ॥ २२ ॥

रथों के पहियों की घरराहट का, धनुष की टंकार का और शङ्ख भेरी तथा मृदङ्गों के बजने का वड़ा भारी शब्द हो रहा था ॥ २२ ॥

केचिदस्त्राणि संसृज्य बाहुयुद्धमकुर्वत ।

तलैश्च चरणैश्चापि मुष्टिभिश्च द्रुमैरपि ॥ २३ ॥

अनेक राक्षस तो हथियारों को फेंक, वानरों से मल्लयुद्ध कर रहे थे । कितने ही थप्पड़ों, लातों, घुँसों और पेड़ों से लड़ रहे थे ॥ २३ ॥

जान्दुभिश्च हताः केचिद्धिन्नदेहाश्च राक्षसाः ।

शिलाभिश्चूर्णिताः केचिद्वानरैर्युद्धदुर्मदैः ॥ २४ ॥

युद्धदुर्मद वानरों ने अनेक राक्षसों को घुटनों की मार से चूर चूर कर डाला और कितने ही वानरों के फेंके हुए पत्थरों की मार से पिसे गए ॥ २४ ॥

वज्रदंष्ट्रो भृशं वाणै रणे वित्रासयन् हरीन् ।

चचार लोकसंहारे पाशहस्त इवान्तकः ॥ २५ ॥

अपनी सेना की यह दुर्दशा देख, वज्रदंष्ट्र ने युद्ध में बहुत से वाण चला, वानरों को त्रस्त कर डाला और वह वानरों का सहार करने के लिए पाशधारी यम की तरह रणभूमि में घूमने लगा ॥ २५ ॥

बलवन्तोऽस्त्रविदुषो नानाप्रहरणा रणे ।

जम्नुर्वानरसैन्यानि राक्षसाः क्रोधमूर्च्छिताः ॥ २६ ॥

अन्य बलवान राक्षस भी अत्यन्त क्रुद्ध हो, युद्ध करने के समय शस्त्रों का प्रयोग कर, वानरी सेना का नाश कर रहे थे ॥ २६ ॥

निम्नतो राक्षसान् दृष्ट्वा सर्वान् वालिसुतो रणे ।

क्रोधेन द्विगुणाविष्टः संवर्तक इवानलः ॥ २७ ॥

वानरों को नष्ट करते हुए राक्षसों को देख, अङ्गद दूने क्रुद्ध हुए, उनका क्रोध प्रलयकालीन अग्नि की तरह धेधक उठा ॥ २७ ॥

तान् राक्षसगणान् सर्वान् वृक्षमुद्यम्य वीर्यवान् ।

अङ्गदः क्रोधताम्राक्षः सिंहः क्षुद्रमृगानिव ॥ २८ ॥

मारे क्रोध के अङ्गद के नेत्र लाल हो गए । तब वीर्यवान अङ्गद एक वृक्ष उखाड़ उससे राक्षसों को वैसे ही मारने लगे, जैसे सिंह क्षुद्र मृगों को मारता है ॥ २८ ॥

चकार कदनं घोरं शक्रतुल्यपराक्रमः ।

अङ्गदाभिहतास्तत्र राक्षसा भीमविक्रमाः ॥ २६ ॥

विभिन्नशिरसः पेतुर्विकृता इव पादपाः

रथैरश्वैर्ध्वजैश्चित्रैः शरीरैर्हरिरक्षसाम् ॥ ३० ॥

रुधिरेण च संछन्ना भूमिर्भयकगी तदा ।

हारकेयूरवस्त्रैश्च शस्त्रैश्च समलंकृता ।

भूमिर्भाति रणे तत्र शारदीव यथा निशा ॥ ३१ ॥

इन्द्र समान पराक्रमी अङ्गद ने बहुत से राक्षसों को मार डाला । अङ्गद द्वारा मारे गए उन भयङ्कर पराक्रमी राक्षसों के सिर फूट गए और वे कटे हुए वृक्ष की तरह भूमि पर गिर गए । रथों घोड़ों रंगविरगी ध्वजाओं, मरे हुए राक्षसों और वानरों की लोथों तथा रुधिर से रणभूमि ढक गई और बड़ी भयङ्कर जान पड़ने लगी । हार, विजायठ, वस्त्र और आयुधों से अलङ्कृत रणभूमि ऐसी शोभायमान हुई, जैसी शरदऋतु की रात ॥ २६ ॥ ३० ॥ ३१ ॥

अङ्गदस्य च वेगेन तद्राक्षसवलं महत् ।

प्राकम्पत तदा तत्र पवनेनाम्बुदो यथा ॥ ३२ ॥

इति त्रिपञ्चाशः सर्गः

जिस प्रकार पवन के वेग से मेघों की घटाएँ तितर बितर हो जाती हैं, उसी प्रकार अङ्गद की मार से, वह राक्षसों को मइती सेना तितर बितर हो गई ॥ ३२ ॥

युद्धकाण्ड का तिरपनवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—ॐ—

* पाठान्तरे—“छत्रैश्च ।”

चतुःपञ्चाशः सर्गः



बलस्य च निघातेन अङ्गदस्य जयेन च ।

राक्षसः क्रोधमाविष्टो वज्रदंष्ट्रो महाबलः ॥ १ ॥

राक्षसी सैन्य का मारा जाना और अङ्गद की जीत को देख
महाबली राक्षस वज्रदंष्ट्र कुपित हुआ ॥ १ ॥

स विस्फार्य धनुर्वोरं शक्राशनिसमस्त्रनम् ।

वानराणामनीकानि प्राकिरच्छरवृष्टिभिः ॥ २ ॥

उसने अपने इन्द्र के वज्र के समान भयङ्कर धनुष को टंकोरा
और बाणों की वृष्टि से वानरी सेना को छितरा दिया ॥ २ ॥

राक्षसाश्चापि मुख्यास्ते रथेषु समवस्थिताः ।

नानाप्रहरणाः शूराः प्रायुध्यन्त तदा रणे ॥ ३ ॥

यह देख रथों पर सवार तथा विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र
धारण किए हुए अन्य मुख्य मुख्य राक्षस वीर भी युद्ध करने
लगे ॥ ३ ॥

वानराणां तु शूरा ये सर्वे ते प्लवगर्षभाः ।

आयुध्यन्त शिलाहस्ताः समवेताः समन्ततः ॥ ४ ॥

वानरों में जो वीर थे, वे सब भी एकत्र हो हाथों में शिला
उठा चारों ओर से उन पर दूट पड़े ॥ ४ ॥

तत्रायुधसहस्राणि तस्मिन्नायोधने भृशम् ।

राक्षसः कपिमुख्येषु पातयांश्चक्रिरे तदा ॥ ५ ॥

इस महायुद्ध में राक्षसों ने हजारों हथियार चला, वानर सेनापतियों पर आक्रमण किया ॥ ५ ॥

वानराश्चापि रक्षसु गिरीन् वृक्षान् महाशिलाः ।

प्रवीराः पातयामासुर्मत्तवारणसन्निभाः ॥ ६ ॥

उधर मस्त गजेन्द्र के समान विशाल वपुधारी बड़े शूरवीर वानरों ने भी, पहाड़ों, वृक्षों और शिलाओं से राक्षसों पर आक्रमण किया ॥ ६ ॥

शूराणां युध्यमानानां समरेष्वनिवर्तिनाम् ।

तद्राक्षसगणानां च सुयुद्धं समवर्तत ॥ ७ ॥

युद्ध से मुख न मोड़ने वाले और समराभिलाषी वीर वानरों और वीर राक्षसों में बड़ी घमासान लड़ाई हुई ॥ ७ ॥

प्रभिन्नशिरसः केचिद्धिन्नैः पादैश्च बाहुभिः ।

शस्त्रैरर्पितदेहास्तु रुधिरेण समुक्षिताः ॥ ८ ॥

इस युद्ध में किसी का सिर फटा था, किसी के पैर कटे थे और किसी की भुजाएँ कटी थीं। किसी का सारा शरीर शस्त्र से टुकड़े टुकड़े हो जाने के कारण खून से तरबतर भूमि पर पड़ा था ॥८॥

हरयो राक्षसाश्चैव शेरते गां समाश्रिताः ।

कङ्कगृध्र? बलैराद्या गोमायुगणसङ्कलाः ॥ ९ ॥

इस प्रकार क्षतविक्षत बहुत से राक्षस और वानर, युद्धभूमि में मरे हुए पड़े थे। उनकी लोथों पर कङ्क, गीघ, श्येन और शृगाल लिपटे हुए थे ॥ ९ ॥

कवन्धानि समुत्पेतुर्भीरूणां भीषणानि वै ।

भुजपाणिशिरशिखन्नाशिखन्नकायाश्च भूतले ॥ १० ॥

वानरा राक्षसाश्चापि निपेतुस्तत्र वै रणे ।

ततो वानरसैन्येन हन्यमान निशाचरम् ॥ ११ ॥

कायरों को डराते हुए योद्धाओं के सिररहित धड़, उठ खड़े होते थे ॥ उस रणभूमि में अनेक वानर और राक्षस भूमि पर गिरे पड़े देख पड़ने थे । इनमें से किसी की बाँहें, किसी के हाथ, किसी का सिर और किसी के शरीर के अन्य अवयव कट गए थे । राक्षसों को मारती हुई वानरी सेना ने ॥ १० ॥ ११ ॥

प्राभज्यत? वलं सर्वं वज्रदंष्ट्रस्य पश्यतः ।

राक्षसान्भयवित्रस्तान्हन्यमानान्स्त्वङ्गमैः ॥ १२ ॥

वज्रदंष्ट्र के सामने ही समस्त राक्षसी सेना को भग्न (तित्तिर वित्तिर) कर डाला । भयभीत राक्षसों को वानरों द्वारा मारे जाते हुए ॥ १२ ॥

दृष्ट्वा स रोषताम्राक्षो वज्रदंष्ट्रः प्रतापवान् ।

प्रविवेश धनुष्पाणिस्त्रासयन् हृदिवाहिनीम् ॥ १३ ॥

देख, प्रतापी वज्रदंष्ट्र के नेत्र मारे क्रोध के लाल हो गए । वह हाथ में धनुष ले वानरी सेना में घुस पड़ा और उसने वानरों को त्रस्त कर डाला ॥ १३ ॥

शरैर्विदारयामास कङ्कपत्रैरजिह्वगैः ।

विभेद वानरांस्तत्र सप्ताष्टौ नव पञ्च च ॥ १४ ॥

विन्वाथ परमक्रुद्धो वज्रदंष्ट्रः प्रतापवान् ।

त्रस्ताः सर्वे हरिगणाः शरैः संकृतदेहिनः ॥ १५ ॥

वह सीधे कङ्कपत्र युक्त बाणों से वानरों के शरीरों को विदीर्ण करने लगा । वह प्रतापी वज्रदंष्ट्र, अत्यन्त क्रुद्ध हो, इस तरह बाण छोड़ता था कि, एक वार में एक ही बाण से कभी पाँच, कभी सात और कभी नौ तक वानर विध जाते थे । बाणों से शरीरों के विधने पर समस्त वानर भयभीत हो गए ॥ १४ ॥ १५ ॥

अङ्गदं सम्प्रधायन्ति प्रजापतिमिव प्रजाः ।

ततो हरिगणान् भग्नान् दृष्ट्वा वालिसुतस्तदा ॥ १६ ॥

क्रोधेन वज्रदंष्ट्रं तमुदीचन्तमुदैक्षत ।

वज्रदंष्ट्रोऽङ्गदश्चोभौ सङ्गतौ हरिगणसौ ॥ १७ ॥

और वे अङ्गद के पास वैसे ही दौड़ कर गए ; जैसे सताई हुई प्रजा, प्रजापति (ब्रह्मा) के पास जाती है । तब वालितनय अङ्गद ने वानरों को छिन्न भिन्न होते देख, अपनी ओर-घूरते हुए वज्रदंष्ट्र को क्रोध में भर कर देखा । फिर अङ्गद और वज्रदंष्ट्र दोनों ही आस में भिड़ गए ॥ १६ ॥ १७ ॥

चेरतुः परमक्रुद्धौ हरिमत्तगजाविव ।

ततः शरसहस्रं ण वालिपुत्रं महाबलः ॥ १८ ॥

जवान मर्मदेशेषु शरैरग्निशिखोपमैः ।

रुधिरोक्षितसर्वाङ्गो वालिमुनुर्महाबलः ॥ १९ ॥

वे दोनों परमक्रुद्ध हो सिंह और मतवाले गज की तरह युद्ध-क्षेत्र में पँतरे बदलते हुए घूमने लगे । इतने में महाबली वज्र-

दंष्ट्र ने अग्निशिखा के समान एक सहस्रवाण अङ्गद के मर्म-स्थलों में मारे। इनकी चोट से महाबली अङ्गद का सारा शरीर रक्त से तर बतर हो गया ॥ १८ ॥ १९ ॥

चिक्षेप वज्रदंष्ट्राय वृत्तां भीमपराक्रमः ।

दृष्ट्वा पतन्तं तं वृत्तामसम्भ्रान्तश्च राक्षसः ॥ २० ॥

तब भीम पराक्रमी अङ्गद ने एक पेड़ उखाड़ कर वज्रदंष्ट्र के ऊपर फेंका। उस वृत्त को अपने ऊपर आते देख, वज्रदंष्ट्र जरा भी न घबड़ाया और उसने ॥ २० ॥

चिच्छेद बहुधा सोऽपि निकृत्तः पतितो भुवि ।

तं दृष्ट्वा वज्रदंष्ट्रस्य विक्रमं प्लवगर्षभः ॥ २१ ॥

बाणों से उसके भी अनेक टुकड़े कर डाले। वह वृत्त टुकड़े टुकड़े होकर भूमि पर गिर पड़ा। अङ्गद ने वज्रदंष्ट्र का यह विक्रम देख, ॥ २१ ॥

प्रगृह्य विपुलं शैलं चिक्षेप च ननाद च ।

समापतन्तं त दृष्ट्वा रथादाप्लुत्य वीर्यवान् ॥ २२ ॥

एक बड़ी भारी शिला उठा कर उसके ऊपर फेंकी और वे बड़े जोर से गर्जे। उस शिला को आते देख, बहादुर वज्रदंष्ट्र रथ से क्रूद पड़ा ॥ २२ ॥

गदापाणिरसम्भ्रान्तः पृथिव्यां समतिष्ठत ।

अङ्गदेन +शिलाक्षिप्त्वा गत्वा तु रणमूर्धनि ॥ २३ ॥

और हाथ में गदा ले बड़ी सावधानी से भूमि पर जा खड़ा हुआ। अङ्गद की फेंकी हुई शिला ने रण भूमि में जा ॥ २३ ॥

स चक्रकूवरं साश्वं प्रममाथ रथं तदा ।

ततोऽन्यं गिरिमाक्षिप्य त्रिपुलं द्रुमभृषितम् ॥ २४॥

पहिए जुए और घोड़ों सहित रथ को चूर चूर कर डाला । तदनन्तर अङ्गद ने एक दूसरी बड़ी शिला मय वृक्षों के ख्वाड़ी और वज्रदंष्ट्र को लक्ष्य कर फेंकी ॥ २४ ॥

वज्रदंष्ट्रस्य शिरसि पातयामास सोऽङ्गदः ।

अभवच्छोणितोद्गारी वज्रदंष्ट्रः स मूर्च्छितः ॥२५॥

(अङ्गद की फेंकी हुई वह शिला जा कर) वज्रदंष्ट्र के सिर पर गिरी । उसके गिरते ही रक्त की वमन कर, वज्रदंष्ट्र मूर्च्छित हो गया ॥ २५ ॥

मुहूर्तमभवन्मूढो गदामालिङ्ग्य निःश्वसन् ।

स लब्धसंज्ञो गदया बालिपुत्रमवस्थितम् ॥ २६ ॥

वह एक मुहूर्त तक मूर्च्छित रह, अपनी गदा को छाती से चिपटाए हुए लंबी लंबी साँसे लेता रहा । जब वह सचेत हुआ और अङ्गद को अपने सामने खड़ा देखा, तब गदा से ॥ २६ ॥

जघान परमक्रुद्धो वचोदेशे निशाचरः ।

गदां त्यक्त्वा ततस्तत्र मुष्टियुद्धमवर्तत ॥ २७ ॥

उसने अत्यन्त क्रुद्ध हो अङ्गद की छाती में प्रहार किया । फिर गदा को पटक, वह अङ्गद के साथ मूँकों से लड़ने लगा ॥२७॥

अन्योन्यं जघ्नतुस्तत्र तावुभौ हरिराक्षसौ ।

रुधिरोद्गारिणौ तौ तु प्रहारैर्जनितश्रमा ॥ २८ ॥

दोनों वानर और राक्षस एक दूसरे को मारते हुए, खून की बमल करने लगे और एक दूसरे पर प्रहार करते करते थक गए ॥ २८ ॥

वमूवतुः सुत्रिक्रान्तावङ्गारकवुधाविव ।

ततः परमतेजस्वी अङ्गदः कपिकुञ्जरः ॥ २९ ॥

उस समय वे दोनों महापराक्रमी वीर, मङ्गल और बुध की तरह जान पड़ते थे । तदनन्तर परमतेजस्वी कपिकुञ्जर अङ्गद ॥ २९ ॥

उत्पाटय वृक्षं स्थितवान् बहुपुष्पफलान्वितम् ॥

जग्राह श्चार्पभं चर्म खड्गं च विपुलं शुभम् ॥ ३० ॥

फूलों और पुष्पों से लदे हुए वृक्ष को उखाड़ और उसे हाथ में ले खड़े हो गए । वह देख वज्रदंष्ट्र ने भालू के चर्म की बनी ढाल ली और एक लंबी तथा पैनी तलवार ॥ ३० ॥

किङ्किणीजालसंछन्नं चर्मणा च परिष्कृतम् ।

विचित्राश्चेरतुर्मार्गान्नुषितौ कपिराक्षसौ ॥ ३१ ॥

भ्यान से खींच ली । इस तलवार की मूँठ में बहुत सी भुन-भुनियाँ लगी हुई थीं । अङ्गद और वज्रदंष्ट्र क्रुद्ध हो विचित्र ढंग से पैतरे बदलते हुए एक दूसरे के ऊपर चोट करने का अवसर ढूँढने लगे ॥ ३१ ॥

जघ्नतुश्च तदाऽन्योन्यं निर्दयं जयकाञ्छिणौ ॥

त्रयैः सास्रैरशोभेतां पुष्पिताविव किंशुकौ ॥ ३२ ॥

१ आर्पभं चर्म—ऋषभ चर्म पिनद्धं फलकं । (गो०) २ चर्मणा—खड्गकोशेन । (गो०) * पाठान्तरे—“फलैश्चितम् ।”

वे दोनों जय की अभिलाषा से दया छोड़, एक दूसरे पर वार करने लगे। चोट के कारण उन दोनों के शरीरों में घाव हो गए थे, जिनसे रक्त बह रहा था। उस समय वे दोनों फूले हुए टेसू के पेड़ की तरह देख पड़ते थे ॥ ३२ ॥

युध्यमानौ परिश्रान्तौ जानुभ्यामवनीं गतौ ।

निमेषान्तरमात्रेण अङ्गदः कपिकुञ्जरः ॥ ३३ ॥

उदतिष्ठत दीप्ताक्षो दण्डाहत इवोरगः ।

निर्मलेन सुधातेन खड्गेनास्य१ महच्छिरः ॥ ३४ ॥

जघान वज्रदंष्ट्रस्य वालिसूनुर्महाबलः ।

रुधिरोक्षितगात्रस्य वभूव पतितं द्विधा ॥ ३५ ॥

लड़ते लड़ते वे दोनों थक कर घुटने टेक कर, भूमि पर बैठ गए। पल भर में कपिश्रेष्ठ अङ्गद लाठी से कुचले हुए सर्प की तरह लाल लाल नेत्र कर, उठ खड़े हुए। फिर वज्रदंष्ट्र की पैंनी और चमचमाती हुई तलवार से, वालितनय अङ्गद ने वज्रदंष्ट्र का बड़ा भारी सिर घड़ से काट डाला। लोहू-खुदान हो, वज्रदंष्ट्र की देह दो टूक हो, भूमि पर गिर पड़ी ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥

स रोषपरिवृत्ताच्चं शुभं खड्गहतं शिरः ।

वज्रदंष्ट्रं हतं दृष्ट्वा राक्षसा मयमोहिताः ॥ ३६ ॥

उसके दोनों नेत्र उलट गए और पैंनी तलवार से कटा हुआ उसका सिर गिर पड़ा वज्रदंष्ट्र को मरा हुआ देख कर, उसके साथ के राक्षस सैनिक बहुत डर गए ॥ ३६ ॥

१ अस्य वज्रदंष्ट्रस्य । (गो०)

त्रस्ताः प्रत्यपतँल्लङ्कां वध्यमानाः स्रवङ्गमैः ।

विषण्णवदना दीना हिया किञ्चिद्वाङ्मुखाः ॥ ३७ ॥

और वानरों की मार खाते हुए लङ्का में भाग गए । उस समय
स्रव केवल उदास ही नहीं थे, किन्तु लज्जा के मारे अपने
सिर नीचे किए हुए थे ॥ ३७ ॥

निहत्य तं वज्रधरप्रभावः

स वालिसूनुः कपिसैन्यमध्ये ।

जगाम हर्षं श्महितो महाबलः

सहस्रनेत्रस्त्रिदशैरिवावृतः ॥ ३८ ॥

इति चतुःपञ्चाशः सर्गः ॥

इन्द्र के समान प्रभाव वाले महाबली वालितनय अङ्गद,
वज्रदंष्ट्र को मार कर और वानरों के बीच सराहे जा कर, उसी
प्रकार प्रसन्न हुए; जिस प्रकार देवताओं से घिरे हुए इन्द्र प्रसन्न
होते हैं ॥ ३८ ॥

युद्धकाण्ड का चौवनवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—*—

पञ्चपञ्चाशः सर्गः

—*—

वज्रदंष्ट्रं हतं श्रुत्वा वालिपुत्रेण रावणः ।

बलाध्यक्षमुवाचेदं कृताञ्जलिमवस्थितम् ॥ १ ॥

अङ्गद के हाथ से वज्रदंष्ट्र का मारा जाना सुन, हाथ जोड़े खड़े हुए सेनाध्यक्ष से रावण ने कहा ॥ १ ॥

शीघ्रं निर्यान्तु दुर्धर्पा राक्षसा भीमविक्रमाः ।

अकम्पनं पुरस्कृत्य सर्वशस्त्रात्त्रकोविदम् ॥ २ ॥

भीम पराक्रमी दुर्धर्ष राक्षस, तुरन्त सर्वशस्त्रज्ञ चलाने में प्रवीण अकम्पन को आगे कर, लड़ने को बाहिर निकले ॥ २ ॥

एष शास्ता च गोप्ता च नेता च युधि सम्मतः १ ।

भूतिकामश्च मे नित्यं नित्यं च समरप्रियः ॥ ३ ॥

क्योंकि अकम्पन शत्रुसैन्य को मारने वाला, अपनी सेना को बचाने वाला और प्रसिद्ध योद्धा सेनापति है । यह मेरा सदा हितकारी बन्धु है और युद्धकार्य में इसकी बड़ी रुचि है ॥ ३ ॥

एष जेष्यति काकुत्स्थौ सुग्रीवं च महाबलम् ।

वानरांश्चापरान् वीरान् हनिष्यति परन्तपः ॥ ४ ॥

यह, महाबलवान् सुग्रीव सहितश्रीराम और लक्ष्मण को युद्ध में पराजित करेगा और यही शत्रुहन्ता अन्य भयङ्कर वानरों को भी मार डालेगा ॥ ४ ॥

परिगृह्य स तामाज्ञां रावणस्य महाबलः ।

बलं सन्त्वरयामास तदा लघुपराक्रमः ॥ ५ ॥

रावण की आज्ञा पा कर महाबली और पराक्रम दिखलाने में फुर्तीले सेनाध्यक्ष ने सेना को तुरन्त तैयार होने की आज्ञा दी ॥ ५ ॥

ज्ञतो नानाप्रहरणा भीमाक्षा भीमदर्शनाः ।

निष्पेतु रक्षासां मुख्या बलाध्यक्षप्रचोदिताः ॥ ६ ॥

सेनाध्यक्ष की आज्ञा पाते ही, भयङ्कर नेत्रों वाले और भयङ्कर सूरत शकल के मुख्य मुख्य राक्षस विविध प्रकार के शस्त्र लेकर निकले ॥ ६ ॥

रथमास्थाय विपुलं तप्तकाञ्चनकुण्डलः ।

मेघाभो मेघवर्णाश्च मेघस्वनमहास्वनः ॥ ७ ॥

राक्षसैः संघृतो भीमस्तदा निर्यात्यकम्पनः ।

न हि कथयितुं शक्यः सुरैरपि महामृधे ॥ ८ ॥

मेघ के समान बड़े डीलडौल का और मेघ ही की तरह काले रंग का तथा मेघ ही की तरह गर्जने वाला और कानों में सोने के कुण्डल पहिने हुए अकम्पन, एक बड़े रथ में बैठ तथा भयङ्कर राक्षसों को साथ ले, बाहिर निकला । बड़े बड़े युद्धों में देवता भी इसको युद्ध में नहीं डिगा सके थे ॥ ७ ॥ ८ ॥

अकम्पनस्ततस्तेषामादित्य इव तेजसा ।

तस्य निर्धावमानस्य संरब्धस्य युयुत्सया ॥ ९ ॥

इसीसे इसका अकम्पन नाम पड़ा था । यह तेजस्वी अकम्पन अपनी सेना के बीच सूर्य की तरह चमचमा रहा था । युद्ध करने की इच्छा से क्रुद्ध हो, दौड़ते हुए अकम्पन के ॥ ९ ॥

अकस्माद्नैन्यमागच्छद्भयानां रथवाहिनाम् ।

व्यस्फुरन्नयनं चास्य सव्यं युद्धाभिर्नान्दनः ॥ १० ॥

रथ में जुते घोड़े अकस्मात् उदास हो गए । युद्ध का सदा अभिनन्दन करने वाले अकम्पन का वीर्य नेत्र फड़कने लगा ॥ १० ॥

विवर्णो मुखवर्णश्च गद्गदश्चाभवत्स्वनः ।

अभवत्सुदिने चापि १दुर्दिनं रूक्षमारुतम् ॥ ११ ॥

उसका चेहरा फीका पड़ गया और कण्ठम्बर घरघराने लगा सुदिन होने पर भी उसके लिये वह दुर्दिन हो गया अर्थात् सूर्य वादल में छिप गये और रूखी हवा चलने लगी ॥ ११ ॥

ऊचुः खगः मृगाः सर्वे द्राचः क्रूरा भयावहाः ।

स सिंहोपचितस्कन्धः शार्दूलसमविक्रमः ॥ १२ ॥

समस्त पशुपक्षी क्रूर और भयावनी बोलियाँ चोलने लगे । सिंह समान ऊँचे कन्धो वाला और शार्दूल के समान विक्रमी अकम्पन, ॥ १२ ॥

तानुत्पातानचिन्त्यैव निर्जगाम रणाजिरम् ।

तदा निर्गच्छतस्तस्य रक्षसः सह राक्षसैः ॥ १३ ॥

इन उन्मत्तों की कुछ भी परवाह न कर, संग्रामभूमि में गया । सेना सहित उसके जाते ही ॥ १३ ॥

बभूव सुमहान्नादः चोभयन्निव सागरम् ।

तेन शब्देन वित्रस्ता वानराणां महाचमूः ॥ १४ ॥

बड़ा भारी शब्द हुआ, जिसने मानों समुद्र को भी दलबला दिया । उस शब्द से वह वानरों की बड़ी सेना भी डर गई ॥ १४ ॥

द्रमशैलप्रहरणा योद्धुं समवतिष्ठत ।

तेषां युद्धं महारौद्रं सजज्ञे हरिरक्षसाम् ॥ १५ ॥

१ दुर्दिनं—मेघच्छन्नदिनं । (गो०)

वा० रा० यु०—३३

लड़ने के लिए पेड़ों और शिलाओं को लिए हुए खड़े वानरों
और राक्षसों में महाभयङ्कर युद्ध हुआ ॥ १५ ॥

रामरावणयोरर्थे समभित्यक्तजीविनाम् ।

सर्वे ह्यतिवलाः शूराः सर्वे पर्वतसन्निभाः ॥ १६ ॥

ये वानर और राक्षस यथाक्रम श्रीरामचन्द्र और रावण के
लिए अपनी अपनी जाने हथेली पर रखे हुए थे । ये सब ही बड़े
बली और बहादुर थे और सब के शरीर पर्वतों की तरह विशाल
थे ॥ १६ ॥

हरयो राक्षसाश्चैव परस्परजिघांसवः ।

तेषां विनर्दतां शब्दः संयुगोऽतितरस्विनाम् ॥ १७ ॥

वानर और राक्षस एक दूसरे की जान लाने को तुले हुए थे ।
इस युद्ध में अति वेग वाले योद्धाओं के गर्जने का शब्द ॥ १७ ॥

शुश्रुवे सुमहान् क्रोधादन्योन्यमभिगर्जताम् ।

रजक्षारुणवर्णाभिं सुभीममभवद्भृशम् ॥ १८ ॥

उद्भूतं हरिरत्तोभिः संरुोध दिशो दश ।

अन्योन्यं रजसा तेन कौशेयोद्धूतपाण्डुना ॥ १९ ॥

सवृतानि च भूतानि ददृशुर्न रणाजिरे ।

न ध्वजा न पताका वा ऋवर्म वा तुरगोऽपि वा ॥२०॥

आयुध स्यन्दनं वाऽपि ददृशे तेन रेणना ।

शब्दश्च सुमहांस्तेषां नर्दतामभिधावताम् ॥ २१ ॥

सुनाई पड़ने लगा । उभय दलों के क्रुद्ध हो गर्जन तर्जन का चढ़ा भयानक शब्द हुआ । राक्षसों और वानरों की सेनाओं के सञ्चार से बहुत सी लाल रंग की बड़ी भयङ्कर धून उड़ी, जो दसों दिशाओं में छा गई । क्या ध्वजा, क्या पताका, क्या कवच, क्या घोड़ा, क्या आयुध, क्या रथ—कोई भी वस्तु उस धूल के कारण नहीं देख पड़ती थी । तब हाँ, वानरों और राक्षसों के गर्जने और दौड़ने का बड़ा भारी कोलाहल ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥

श्रूयते तुमुले युद्धे न रूपाणि चक्राशिरे ।

हरीनेव सुसंक्रुद्धा हरयो जम्बुराहवे ॥ २२ ॥

उस तुमुल युद्ध में अवश्य सुनाई पड़ता था, किन्तु उनका रूप नहीं देख पड़ता था । उस भयङ्कर अन्कार में अत्यन्त क्रुद्ध हो वानरों के साथ वानर ही युद्ध करते हुए एक दूसरे को मार रहे थे ॥ २२ ॥

राक्षसाश्चापि रक्षांसि निजघ्नस्तिमिरे तदा ।

परांश्चैव विनिघ्नन्तः स्वान्श्च वानरराक्षसाः ॥ २३ ॥

इसी प्रकार उस अन्धकार में राक्षस भी राक्षसों को मार रहे थे । अर्थात् उस अन्धकार में अपने पराए को पहिचान नहीं हो सकती थी । वानर और राक्षस, दोनों अपने अपने शत्रुओं के साथ ही साथ अपने पक्ष वालों को भी मार रहे थे ॥ २३ ॥

रुधिरार्द्रां तदा चक्रुर्महीं पङ्कानुलेपनाम् ।

ततस्तु रुधिरौघेण सिक्तं व्यपगत रजः ॥ २४ ॥

यह युद्ध ऐसा भयङ्कर हुआ कि, युद्धभूमि में रक्त की कीच हो गई । रुधिर की धार बहने से वहाँ की धूल दब गई ॥ २४ ॥

शरीरशवसङ्कीर्णा वभूव च वसुन्धरा ।

द्रुमशक्तिशिलाप्रासैर्गदापरिघतोमरैः ॥२५॥

रणभूमि लोथों से ढक गई ।, पेड़ों, शक्तियों, शिलाओं, प्रासों, गदाओं, परिघों और द्रुमों से ॥ २५ ॥

हरयो राक्षसाश्चैव जघनुरन्योन्यमोजसा ।

बाहुभिः परिघाकारैर्युध्यन्तः पर्वतोपमाः ॥२६॥

वानर और राक्षस एक दूसरे पर बलपूर्वक प्रहार कर रहे थे । परिघाकार भुजाओं से युद्ध करते हुए पर्वत के समान ॥ २६ ॥

हरयो भीमकर्माणो राक्षसाञ्जघ्नुराहवे ।

राक्षसास्त्वपि संक्रुद्धाः प्रासतोमरपाणयः ॥ २७ ॥

कपीन्निजघ्निरे तत्र शस्त्रैः परमदारुणैः ।

अकम्पनः सुसंक्रुद्धो राक्षसानां चमूपतिः ॥२८॥

इधर से तो भयङ्कर कर्मचारी वानर राक्षसों को मार रहे थे और उधर से राक्षस भी क्रुद्ध हो, हाथ में प्रास और तोमर आदि अत्यन्त दारुण शस्त्र ले, उनसे वानरों को मार रहे थे । साथ ही राक्षसी सेना का सेनापति अकम्पन अत्यन्त क्रुद्ध हो, ॥२७॥२८॥

संहर्षयति तान् सर्वान् राक्षसान् भीमविक्रमान् ।

हरयस्त्वपि रक्षांसि महाद्रुममहाशमभिः ॥ २९ ॥

उन भीम विक्रमी समस्त राक्षसों को उत्साहित कर रहा था । वानर भी बड़े बड़े पेड़ों और बड़ी बड़ी शिलाओं से राक्षसों का ॥ २९ ॥

विदारयन्त्यभिक्रम्य? शस्त्राण्यच्छिद्य २ वीर्यतः ।

एतिस्मिन्नन्तरे वीरा हरयः कुमुदो नलः ॥३०॥

मैन्दश्च द्विविदः क्रुद्धाश्चक्रुर्वेगमनुत्तमम् ।

ते तु वृधैर्महावेगा राक्षसानां चमूमुखे ॥ ३१ ॥

कदनं सुमहच्चक्रुर्लीलया ४ हरियूथपाः ।

ममन्थू राक्षसान् सर्वे वानरा गणशो भृशम् ॥ ३२ ॥

इति पञ्चपञ्चाशः सर्गः ॥

उनसे उनके शस्त्रों को बलपूर्वक छीन छान कर, सामना करते थे । इतने में वीर वानर कुमुद, नल, मैन्द और द्विविद क्रुद्ध हो कर बड़े वेग से लड़ने लगे । युद्ध में वे बड़े वेगवान वानरयूथपति बड़े बड़े पेड़ों से अनायास बड़े बड़े राक्षसों को मार कर गिराने लगे । इन वानरों ने वन्त से राक्षसों को मथ डाला ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

युद्धकाण्ड का पचपनवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—❀—

षट्पञ्चाशः सर्गः

—❀—

तद्दृष्ट्वा सुमहत्कर्म कृतं वानरसत्तमैः ।

कोधमाहारयामास युधि तीव्रमकम्पनः ॥ १ ॥

समर में वानरश्रेष्ठों की बहादुरी देख, अकम्पन बहूत क्रुद्ध हुआ ॥ १ ॥

१ अभिक्रम्य—अभिमुखीभूय । (गो०) २ आच्छिद्य—अरहस्य । (गो०)

३ चमूमुखे—रणामध्ये । (गो०) । ४ लीलया—अनायासेन । (गो०)

क्रोधमूर्च्छितरूपस्तु धन्वन् परमकार्मुकम् ।

दृष्ट्वा तु कर्म शत्रूणां सारथिं वाक्यमब्रवम् ॥ २ ॥

उसने क्रुद्ध हो अपने धनुष का रोदा टंकोरा और शत्रुओं की वीरता देख, वह अपने सारथी से कहने लगा ॥ २ ॥

तत्रैव तावच्चरितं रथं प्रापय सारथे ।

यत्रैते वहवो घ्नन्ति सुबहून् राक्षसान् रणे ॥ ३ ॥

हे सारथे ! तुम तुरन्त मेरा रथ उस जगह पहुँचा दो, जहाँ पर युद्ध में बहुत से वानर बहुत से राक्षसों को मार रहे हैं ॥३॥

एतेऽत्र बलवन्तो हि भीमकायाश्च वानराः ।

द्रुमशैलप्रहरणास्तिष्ठन्ति ऽप्रमुखे मम ॥ ४ ॥

जो विपुल-शरीर-धारी वानर वृद्धों और शिलाओं को लिये हुए, समर की अभिलाषा से मेरे सामने खड़े हैं, बड़े बलवान हैं ॥ ४ ॥

एतान्निहन्तुमिच्छामि समरश्लार्घनो ह्ययम् ।

एतैः प्रमथितं सर्वं दृश्यते राक्षसं बलम् ॥ ५ ॥

अतः समर में बढ़ाई चाहने वाला, मैं इन बलवान वानरों को मारना चाहता हूँ। क्योंकि इन्हीं लोगों द्वारा समस्त राक्षसी सेना का नाश होता हुआ देख पड़ता है ॥ ५ ॥

ततः प्रजवनाश्वेन रथेन रथिनांवरः ।

हरीनभ्यहनत्क्रोधाच्छरजालैरकम्पनः ॥ ६ ॥

रथियों (वीरों) में श्रेष्ठ अकम्पन, अत्यन्त तेज चलने वाले घोड़ों के रथ में बैठा हुआ और क्रोध में भर, बहुत से बाण छोड़ता हुआ, वानरों को मारने लगा ॥ ६ ॥

न स्थातुं वानराः शोकुः किं पुनर्योद्धुमाहवे ।
अकम्पनशरैर्भग्नाः सर्व एव विदुद्रुवुः ॥ ७

अकम्पन ने उस समय ऐसी मारकाट मचाई कि, उसके बाण की मार से सब वानर भाग खड़े हुए, उससे युद्ध करना तो एक ओर रहा, उसके सामने भी कोई न खड़ा रह सका ॥ ७ ॥

तान् मृत्युवशमापन्नानकम्पनवशं गतान् ।
समीक्ष्य हनुमान्जातीनुपतस्थे महाबलः ॥ ८ ॥

परन्तु महाबली हनुमान जी अपनी जाति वाले (वानरों) को अकम्पन के बाणों से विवश और मृत्यु के मुख में जाते देख, अकम्पन का सामना करने को आगे बढ़े ॥ ८ ॥

तं महाप्लवगं दृष्ट्वा सर्वे प्लवगयूथपाः ।
समेत्य समरे वीराः संहृष्टाः पर्यवारयन् ॥ ९ ॥

कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को अकम्पन का सामना करने को आगे बढ़ते देख, अन्य वानरश्रेष्ठ फिर जुड़बट्टर कर एकत्र हो गए और प्रसन्न हो हनुमान जी की सहायता के लिए उनके साथ हो लिए ॥ ९ ॥

अवस्थितं हनूमन्तं दृष्ट्वा हरियूथपाः ।
वभूवूर्वलन्तो हि वल्वन्तं समाश्रिताः ॥ १० ॥

बलवान हनुमान जी को अकम्पन का सामना करने को खड़ा होते और और उनका सहारा पा, उन भागे हुए वानर यूथपतियों का उत्साह बढ़ा ॥ १० ॥

अकम्पनस्तु शैलाभं हनूमन्तमवस्थितम् ।

महेन्द्र इव धाराभिः शररभिर्ववर्ष ह ॥ ११ ॥

अपने सामने पर्वत की तरह अटल अचल हनुमान जी को खड़ा देख, अकम्पन ने उन पर उसी प्रकार बाणवृष्टि की; जिस प्रकार इन्द्र जल की वृष्टि करते हैं ॥ ११ ॥

अचिन्तयित्वा बाणौघान्शरीरे पतितान्शितान् ।

अकम्पनवधार्थाय मनो दध्रे महाबलः ॥ १२ ॥

अपने शरीर में पैसे पैसे असंख्य बाणों के लगने की ओर कुछ भी ध्यान न दे, महाबली हनुमान जी ने अकम्पन के मारने का उपाय सोचा ॥ १२ ॥

स प्रहस्य महातेजा हनूमान् मारुतात्मजः ।

अभिदुद्राव तद्रक्षः कम्पयन्निव मेदनीम् ॥ १३ ॥

वे महातेजस्वी पवननन्दन हनुमान जी पृथ्वी को कंपाते और अट्टहास करते हुए, अकम्पन पर झपटे ॥ १३ ॥

तस्याभिनर्दमानस्य दीप्यमानस्य तेजसा ।

वभूव रूपं दुर्धर्षं दीप्तस्येव विभावसोः ॥ १४ ॥

उस समय सिहनाद करते हुए और तेज से दीप्यमान पवननन्दन ऐसे जान पड़े, मानों दहकती हुई आग हो । उस समय उनका रूप दुर्धर्ष हो गया ॥ १४ ॥

आत्मानमप्रहरणं ज्ञात्वा क्रोधसमन्वितः ।

शैलमुत्पाटयामास वेगेन हृग्निपृङ्गवः ॥ १५ ॥

अपने पास कोई आयुध न जान; ऋषिश्रेष्ठ हनुमान जी ने क्रोध में भर, बड़े वेग से एक पर्वत उखाड़ लिया ॥ १५ ॥

तं गृहीत्वा महाशैलं पाणिनैकेन मारुतिः ।

स विनद्य महानादं भ्रामयामास वीर्यवान् ॥१६ ॥

बलवान पवननन्दन ने उस पर्वत को एक हाथ में उठा लिया और उसे घुमाते हुए वे वड़ी जोर से गरजे ॥ १६ ॥

ततस्तमभिदुद्राव राक्षसेन्द्रमकम्पनम् ।

पुग हि नमुचि संख्ये वज्रं शेव पुरन्दरः ॥१७॥

उस पर्वत को लिये हुए हनुमान जी उस राक्षसश्रेष्ठ अकम्पन की ओर वैसे ही दौड़े, जैसे पहिले किसी समय इन्द्र वज्र लिये हुए नमुचि की ओर दौड़े थे ॥ १७ ॥

अकम्पनस्तु तद्दृष्ट्वा गिरिशृङ्गं समुद्यतम् ।

दूरादेव महाबाणैरर्धचन्द्रैर्व्यदारयत् ॥१८॥

हनुमान जी को हाथ में पर्वत लिए मारने को तैयार देख, अकम्पन ने दूर ही से अर्धचन्द्राकार बड़े बड़े बाण मार कर, पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर डाले ॥ १८ ॥

तत्पर्वताग्रमाकाले रक्षोबाणविदारितम् ।

विशीर्णं पतितं दृष्ट्वा हनुमान् क्रोधमूर्च्छितः ॥१९॥

आकाश ही में (अर्थात् मारने के लिये हाथ में ऊपर किए हुए) उस पर्वतशृङ्ग को अकम्पन के बाणों से चूर चूर हो कर नीचे गिरते देख, हनुमान जी अत्यन्त क्रुद्ध हुए ॥ १९ ॥

सोऽश्वकर्णं समासाद्य रोपदर्पान्वितो हरिः ।

तूर्णमुत्पाटयामास महागिरिमिवोच्छ्रितम् ॥२०॥

रोष में भरे हुए हनुमान जी ने अश्वकर्ण (एक प्रकार का शालवृक्ष) वृक्ष के समीप जा, तुरन्त उसे उखाड़ लिया । वह अश्वकर्ण वृक्ष एक बड़े पहाड़ की तरह लंबा था ॥ २० ॥

तं गृहीत्वा महास्कन्धं सोऽश्वकर्णं महाद्युतिः ।

प्रहस्य परया प्रीत्या भ्रामयामास संयुगे ॥२१॥

महाद्युतिमान हनुमान जी ने युद्धक्षेत्र में उस मोटे तने के अश्वकर्ण को ले कर, परम प्रसन्न हो और अट्टहास करते हुए, उसे घुमाया ॥ २१ ॥

प्रधावन्नुरुवेगेन प्रभञ्जंस्तरसा द्रुमान् ।

हनुमान् परमक्रुद्धश्चरणैर्दारयन्नितिम् ॥२२॥

क्रोध और दर्प में भर हनुमान जी ऐसे जोर से दौड़े कि, उनकी जाँघों की रगड़ से, कितने ही पेड़ टूट टूट कर गिर पड़े और उनके पैरों की धमक से पृथिवी नीचे को घसने लगी ॥२२॥

गजांश्च सगजारोहान् सरथान् रथिनस्तथा ।

जघान हनुमान् धीमान् राक्षसाश्च पदातिगान् ॥२३॥

बुद्धिमान् हनुमान जी ने उस वृक्ष से कितने ही महावर्तों सहित हाथियों को, रथियों सहित रथों को तथा अनेक पैदल राक्षस सिपाहियों को नष्ट कर डाला ॥ २३ ॥

तमन्तकमिव क्रुद्धं समरे प्राणहारिणम् ।

हनुमन्तमभिप्रेक्ष्य राक्षसा विप्रदुद्रुवुः ॥२४॥

काल की तरह क्रुद्ध और युद्ध में प्राणनाश करने वाले हनुमान जी को देख, राक्षस योद्धा युद्ध छोड़ भाग खड़े हुए ॥ २४ ॥

तमापतन्तं संक्रुद्धं राक्षसानां भयावहम् ।

ददर्शाकम्पनो वीरश्चुक्रोध च ननाद च ॥ २५ ॥

राक्षस सेनापति वीर अकम्पन, राक्षसों को भय उपजाने वाले हनुमान जी को अत्यन्त क्रुद्ध हो आक्रमण करते देख, अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और गर्जा ॥ २५ ॥

स चतुर्दशभिर्नागैः शितैर्देहविदारणैः ।

निर्विभेदं हनूमन्तं महावीर्यमकम्पनः ॥ २६ ॥

उस महाबली अकम्पन ने पैंने और शरीर को विदीर्ण करने वाले १४ वाण हनुमान जी के मार कर, उनको घायल कर दिया ॥ २६ ॥

स तदा प्रतिविद्धस्तु बह्वीभिः शरवृष्टिभिः ।

हनुमान् दृष्टो वीरः प्ररुढ इव सानुमान् ॥ २७ ॥

बहुत से बाणों की वृष्टि से घायल होने पर, वीर हनुमान जी वृक्षों से युक्त एक गिरशृङ्ग की तरह देख पड़ते थे ॥ २७ ॥

विरराज महाकायो महावीर्यो महामनाः ।

पुष्पिताशोकसङ्काशो विधूम इव पावकः ॥ २८ ॥

महाकाय, महाबलवान् और महामना हनुमान जी उस समय वैसे शोभायमान हो रहे थे, जैसे फूला हुआ अशोक का वृक्ष बिना धुएँ की (घघक्ती हुई) आग ॥ २८ ॥

ततोऽन्यं वृक्षमुत्पाद्य कृत्वा वेगमनुत्तमम् ।

शिरस्यभिजघानाशु राक्षसेन्द्रमकम्पनम् ॥ २६ ॥

अब हनुमान जी ने एक दूसरा पेड़ उखाड़ लिया और बड़े जोर से तुरन्त राक्षसश्रेष्ठ अकम्पन के सिर पर दे मारा ॥२६ ॥

स वृक्षेण हतस्तेन सक्रोधेन महात्मना ।

राक्षसो वानरन्द्रेण पपात च ममार च ॥ ३० ॥

क्रोध से पूर्ण, महाबली एवं वानरश्रेष्ठ हनुमान जी द्वारा वृक्ष के प्रहार से घायल हो, वह राक्षस उसी क्षण पृथ्वी पर गिर कर मर गया ॥ ३० ॥

तं दृष्ट्वा निहतं भूमौ राक्षसेन्द्रमकम्पनम् ।

व्यथिता राक्षसाः सर्वे क्षितिकम्प इव द्रुमाः ॥ ३१ ॥

राक्षसश्रेष्ठ अकम्पन को ज़मीन पर मरा हुआ पड़ा देख, उसकी सेना के अन्य राक्षस योद्धा वैसे ही व्यथित हो थर्रां उठे, जैसे भूकम्प होने पर वृक्ष थर्रां उठते हैं ॥ ३१ ॥

त्यक्तप्रहरणाः सर्वे राक्षसास्ते पराजिताः ।

लङ्कामभिययुस्त्रस्ता वानरैस्तैरभिद्रुताः ॥ ३२ ॥

उन पराजित राक्षसों ने अपने अपने हथियार पटक दिये और वानरों द्वारा खदेड़े जा कर, वे भयभीत हो लङ्का की ओर भाग गए ॥ ३२ ॥

ते मुक्तकेशाः सम्भ्रान्ता भग्नमानाः पराजिताः ।

स्रवच्छूमजलैरङ्गैः श्वसन्तो विप्रदुद्रुवुः ॥ ३३ ॥

इस प्रकार भागते समय उन राक्षसों की बड़ी दुर्गति हो रही थी। उनके सिर के बाल बिखर गए थे। उस समय घबड़ाए हुए

होने के कारण और हार जाने के कारण उनका मान भङ्ग हो चुका था। उनके शरीरों से पसीना टपक रहा था और वे हाँफते हुए भागे जा रहे थे ॥ ३३ ॥

अन्योन्यं प्रममन्थुस्ते त्रिनिशुर्नगरं भयान् ।

पृष्ठतस्ते हनुमन्तं प्रेक्षमाणा मुहुर्मुहुः ॥३४॥

वे मारे डर के आपस में एक दूसरे से लटपटाते किसी तरह लड्डा में पहुँचे। किन्तु भागते समय भी वे बार बार फिर फिर कर अपने पीछे हनुमान जी को देखते जाते थे ॥ ३४ ॥

तेषु लङ्कां प्रविष्टेषु राक्षसेषु महाबलाः ।

समेत्य हरयः सर्वे हनुमन्तमपूजयन् ॥३५॥

उन महाबली राक्षसों के भाग कर लड्डा में घुस जाने पर, सब वानरों ने एकत्र हो (अर्थात् एक स्वर से) हनुमान जी की प्रशंसा की ॥ ३५ ॥

सोऽपि प्रहृष्टस्तान् सर्वान् हरीन् प्रत्यभ्यपूजयत् १ ।

हनुमान् सत्त्वसम्पन्नो यथार्हमनुकूलतः ॥३६॥

बलवान् हनुमान जी ने भी परम प्रसन्न हो, उन सब वानरों से कहा कि, आप ही लोगों की सहायता से मैंने यह विजय पाया है। फिर उन्होंने वानरों को गले लगा और उनके साथ यथा योग्य बातचीत कर उनको उत्साहित किया। ३६॥

[टिप्पणी—यहाँ पर आदिकवि ने, एक विजयी वीर द्वारा, अपनी विजयिनी सेना के योद्धाओं के प्रति, विजय के पीछे, विजयी सेनापति के कर्त्तव्य का पालन करवाया है।]

१ प्रत्यभ्यपूजयत्—भवत्साहाय्येनेव मया जितमित्येवमिति भावः । (गो०)

हनुमन्तरे—“सुखमूढः” ।

विनेदुश्च यथाप्राणं हरयो जितकाशिनः ।

चकर्षुश्च पुनस्तत्र सप्राणानपि राक्षसान् ॥३७॥

अब विजयी वानर बड़े जोर से गर्जे और अधमरे राक्षसों को भी घसीटने लगे ॥ ३७ ॥

स वीरशोभामभजन् महाकर्षिः

समेत्य रक्षांसि तिहृत्य मारुतिः ।

महासुरं भीमममित्रनाशनं

यथैव विष्णुर्वलिनं चमूमुखे ॥३८॥

जिस प्रकार भगवान् विष्णु, महाभयङ्कर एवं शत्रुहन्ता (मधु कैटभादि) बड़े बड़े असुरों को मार कर, शोभायमान हुए थे, उसी प्रकार पवननन्दन हनुमान जो राक्षसों को मार वीरोचित शोभा से शोभायमान हुए ॥ ३८ ॥

अपूजयन् देवगणास्तदा कपिं

स्वयं च रामोऽतिबलश्च लक्ष्मणः ।

तथैव सुग्रीवमुखाः प्लवङ्गमा

विभीषणश्चैव महाबलस्तथा ॥३९॥

इति षट्पञ्चाशः सर्गः ॥

तदनन्तर देवताओं ने, स्वयं अति बलवान् श्रीरामचन्द्र जी और लक्ष्मण जी ने तथा सुग्रीवादि प्रमुख वानरों ने और महा बलवान् विभीषण ने हनुमान जी की प्रशंसा की ॥ ३९ ॥

युद्धकाण्ड का छपनवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

सप्तपञ्चाशः सर्गः

—❀—

अकम्पनवधं श्रुत्वा क्रुद्धो वै राजसेश्वरः ।

किञ्चिद्दीनमुखश्चापि सचिर्वास्तानुदैचतः ॥ १ ॥

अकम्पन के मारे जाने का संवाद सुन, राजसराज रावण क्रुद्ध हुआ और उदास हो, अपने मंत्रियों की ओर निहारने लगा ॥१॥

स तु ध्यात्वा मुहूर्तं तु मन्त्रिभिः संविचार्य च ।

ततस्तु रावणः १पूर्वदिवसे राजसाधिपः ॥ २ ॥

उसने थाड़ा देर तक कुछ सोचा और तदनन्तर मंत्रियों से परामर्श किया ॥ फिर राजसराज रावण दोपहर के होने के पूर्व ही ॥२॥

पुरीं परिययौ लङ्कां सर्वान् गुल्मानवेक्षितुम् ।

तां राजसगणैर्गुप्तां गुल्मैर्वहुभिरावृताम् ॥ ३ ॥

ददर्श नगरौ लङ्कां पताकाध्वजमालिनीम् ।

रुद्धां तु नगरो दृष्ट्वा रावणो राजसेश्वरः ॥ ४ ॥

उस पुरी को मोर्चेबंदा देखने को लङ्कापुरी में चारों ओर घूसा । राजसों से रक्षित, अनेक मोर्चेबंदियों से युक्त तथा ध्वजा-पताकाओं एवं मालाओं से सुसज्जित लङ्कापुरी को तथा वानरों द्वारा ढाले हुए पुरी के घेरों को देख, राजसराज रावण ने, ॥३॥४॥

❀उवाचात्महितं काले प्रदृष्टं युद्धकाविदम् ।

पुरस्योपनिविष्टस्य सहसा पीडितस्य च ॥ ५ ॥

१ पूर्वदिवसे—दिवसस्य पूर्वभागे । (गो०) *पाठान्तरे—'उवाचामरंतः'

नान्यं यद्वात्प्रपश्यामि मोक्षं युद्धविशारद ।

अहं दा कुम्भकर्णो वा त्वं वा सेनापतिर्मम ॥ ६ ॥

और विपत्तिकाल में अपने हितैषी एवं युद्धविशारद प्रहस्त से कहा—हे युद्धविशारद ! शत्रु की सेना लङ्कापुरी को चारों ओर से घेर कर पुरवासियों को जिस प्रकार तंग कर रही है, उससे तो युद्ध करने के सिवाय, इन लोगों से छुटकारा पाने का, अन्य कोई उपाय मुझे नहीं देख पड़ता ; किन्तु स्वयं मैं, अथवा कुम्भकर्ण अथवा मेरे सेनापति तुम ॥ ५ ॥६॥

इन्द्रजिह्वा निकुम्भो वा बहेयुर्भारमीदृशम् ।

स त्वं बलमतः शाघ्रमादाय परिगृह्य१ च ॥ ७ ॥

विजयायाभिनिर्याहि यत्र सर्वे वनौकसः ।

निर्याणादेव ते नूनं २ चपला हरिवाहिना । ८ ॥

अथवा इन्द्रजीत, अथवा निकुम्भ—ये ही इस भार को उठा सकते हैं । अतएव तुम सेना को साथ लेकर तथा रथ में सवार हो कर, विजयप्राप्ति के लिए वहाँ शीघ्र जाओ, जहाँ वे सब वानर ठहरे हुए हैं । तुम्हारे जाते ही वानरा सेना घबड़ा जायगी ॥७॥८॥

नर्दतां राक्षसेन्द्राणां श्रुत्वा नादं द्रविष्यति ।

चपला ह्यविनीताश्च चलचित्ताश्च वानराः ॥ ९ ॥

राक्षसश्रेष्ठों का गर्जन सुन वानर इधर उधर भाग जाँयगे । क्योंकि वानर चपल, अशिक्षित और चञ्चलचित्त होते हैं ॥९॥

१ परिगृह्य—रथमास्थितः त्वं । (श्लो०) २ चपला—धैर्यरहिता । (गो०)

न सहिष्यन्ति ते नादं सिंहनादमिव द्विषाः ।

विद्रुते च बले तस्मिन् रामः सौमित्रिणा सह ॥ १० ॥

वे तुम्हारा गर्जन तर्जन वैस ही न सह सकेंगे, जैसे हाथी सिंह का गर्जन नहां सह सकता । जब वानरी सेना भाग जायगी, तब लक्ष्मण सहित राम ॥ १० ॥

१अवशस्ते निरालम्बः प्रहस्त वशमेष्यति ।

२आपत्संशयिता ३श्रेयो न तु निःसंशयीकृता ॥११॥

प्रभुत्वरहित और निरालंब हो, तुम्हारे अधीन हो जाँयगे । हे प्रहस्त ! इस समय सन्देह तो हार ही में है, हमारे विजय में तो ज़रा भी संशय नहीं है । अथवा हे प्रहस्त ! इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि, कौन मारा जायगा; किन्तु हम लोगों की जीत निस्संशय है ॥ ११ ॥

प्रतिलांमानुलोमं वा यद्वा नो मन्यसे हितम् ।

रावणेनैवमुक्तस्तु प्रहस्तो वाहिनीपतिः ॥ १२ ॥

ऐसी दशा में मेरे इस कयन के प्रतिकूल या अनूकूल, जिसमें मेरा हित तुम समझो, वही करो । जब रावण ने इस प्रकार कहा तब सेनापति प्रहस्त ॥ १२ ॥

राक्षसेन्द्रमुवाचेदमसुरेन्द्रमिवोशनाः ।

राजन् मन्त्रितपूर्वं नः कुशलैः सह मन्त्रिभिः ॥ १३ ॥

रावण से वैसे ही बोला, जैसे दैत्यराज से शुक्राचार्य बोलते हैं । हे राजन् ! हम लोगों ने कुशल मंत्रियों के साथ इस सन्धन्ध में परामर्श किआ था ॥ १३ ॥

१ आवशः—प्रभुत्वरहितः । (गो०) २ आपत्—नृद्यु पर दुःख हुआ ।

(रा०) ३ श्रेयो—विजयस्तु । (रा०)

वा० रा० यु०—३४

विवादश्चापि नो वृत्तः समवेद्य परस्परम् ।

प्रदानेन तु सीतायाः श्रेयो व्यवसितं मया ॥ १४ ॥

परन्तु उस समय आपस में विवाद उठ खड़ा हुआ और सब की एक सम्मति न हो पाई। (किन्तु) मैंने आपको सीता के दे डालने का परामर्श दिया था और इसी में भलाई समझी थी ॥१४॥

अप्रदाने पुनर्युद्धं दृष्टमेतत्तथैव नः ।

सोऽहं शदानैश्च रमानैश्च सततं पूजितस्त्वया ३ ॥ १५ ॥

उस समय मैंने यह भी कह दिया था कि, यदि सीता न दी गई, तो युद्ध करना ही पड़ेगा। सो वही युद्ध करने का समय प्राप्त हुआ है। हे राजसराज ! समय समय पर भूषणादि प्रदान कर तथा मुझसे प्रिय भाषण (मेरा जीवन तुम्हारे ही अधीन है आदि बातें कह) कर, तुमने सदा मुझे सम्मानित किया अथवा मेरा उत्कर्ष बढ़ाया है ॥ १५ ॥

सान्त्वैश्च विविधैः काले किं न कुर्यां प्रियं तव ।

न हि मे जीवितं रक्ष्यं पुत्रदारधनानि वा ॥ १६ ॥

और विविध प्रकार से समझा बुझा कर धैर्य बँधाया है। अतः इस विपत्तिकाल में, मैं तुम्हारे हित साधन का काम क्यों न करूँगा ? अब मुझे न तो अपने प्राणों की रक्षा की चिन्ता है और न पुत्र स्त्री तथा धनधान्य की कुछ ममता ही है ॥ १६ ॥

त्वं पश्य मा जुहूषन्तं त्वदर्थं जीवितं युधि ।

एवमुक्त्वा तु भर्तारं रावणं वाहिनीपतिः ॥ १७ ॥

उवाचेदं बलाध्यक्षान् प्रहस्तः पुरतः स्थितान् ।

समानयत मे शीघ्रं राक्षसानां महद्वलम् ॥ १८ ॥

१ दानैः—भूषणादिप्रदानैः । (गो०) २ मानैः—त्वदधीनं जीवितमित्यादि प्रियभाषणैः । (गो०) ३ पूजितः—उत्कर्षमापादितः । (गो०)

तुम देखो कि, मैं किस प्रकार तुम्हारे लिए इस युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देता हूँ । इस प्रकार अपने स्वामी रावण से कह कर, सेनापति प्रहस्त ने सामने खड़े हुए सेनाध्यक्षों से कहा । मेरी राक्षसों की महती सेना सजा कर तुरन्त ले आओ ॥ १७ ॥ १८ ॥

मद्वाणाशनिवेगेन हतानां च रणाजिरे ।

अथ तृप्यन्तु मांसादाः पक्षिणः काननौकसाम् ॥ १९ ॥

आज इस युद्धभूमि में मेरे बाणों की मार से मरे हुए जानवरों के माँस से माँसभक्षी पक्षी तृप्त हाने ॥ १९ ॥

इत्युक्तास्ते प्रहस्तेन बलाध्यक्षाः कृतस्वराः ।

बलमुद्योजयामासुस्तस्मिन् राक्षसमन्दिरे ॥ २० ॥

इस प्रकार जब प्रहस्त ने कहा, तब वे सेनाध्यक्ष शीघ्रतापूर्वक प्रहस्त के घर ही पर सेना एकत्र करने लगे ॥ २० ॥

सा बभूव मुहूर्तेन तिग्मनानाविधायुधैः ।

लङ्का राक्षसवीरैस्तैर्गजैरिव समाकुला ॥ २१ ॥

थोड़ी देर में विविध प्रकार के आयुधधारी भयङ्कर वीर राक्षसों से, गजों की तरह लङ्कापुरी भर गई ॥ २१ ॥

हुताशनं तर्पयतां ब्राह्मणांश्च नमस्यताम् ।

आज्यगन्धप्रतिब्रहः सुरभिर्मरुतो वर्षा ॥ २२ ॥

मङ्गलकामना के लिए अनेक राक्षस हवन करने लगे । यदुर्तो ने ब्राह्मणों की वन्दना की । होम किए हुए घों की सुगन्धि मिलने के कारण सुगन्धित हवा चलने लगी ॥ २२ ॥

[टिप्पणी—“ब्राह्मणांश्च नमस्यताम्” को देख, कहना पड़ेगा कि लङ्का में केवल राक्षसों ही को आनादी न थी । वल्कि वहाँ ब्राह्मण भी बसते थे ।]

स्रजश्च विविधाकारा जगृहुस्त्वभिमन्त्रिताः ।

संग्रामसज्जाः संहृष्टा भारयन् राक्षसास्तदा ॥ २३ ॥

युद्ध में जाने के लिए उद्यत अनेक राक्षस, मंत्र से अभिमन्त्रित विविध प्रकार के फूलों की मालाएँ ले और उनको धारण कर बड़े प्रसन्न हुए ॥ २३ ॥

सधनुष्काः क्वचिनो वेगादाप्लुत्य राक्षसाः ।

श्रावणं प्रेक्ष्य राजानं प्रहस्तं पर्यवारयन् ॥ २४ ॥

धनुष लिये और कवच पहिने हुए राक्षसों ने सवारियों से नीचे उतर अपने राजा रावण को प्रणाम किया और प्रहस्त के पास जा और उसे घेर कर वे खड़े हो गए ॥ २४ ॥

अथामन्त्र्य च राजानं भेरीमाहत्य भैरवाम् ।

आरुरोह रथं दिव्यं प्रहस्तः सज्जकल्पितम् ॥ २५ ॥

फिर अति घोर भेरी बजवा और रावण से आज्ञा ले, प्रहस्त सजे हुए एक दिव्य रथ पर चढ़ा ॥ २५ ॥

हयैर्महाजवैरुक्तं सम्यक्सूतसुसंयतम् ।

महाजलदनिर्घोषं साक्षाच्चन्द्रार्कभास्वरम् ॥ २६ ॥

उस रथ में बड़े शीघ्रगामी घोड़े जुते हुए थे और बड़ा चतुर रथवान उनको हाँकता था । जब वह रथ चलता था, तब बादलों की गड़गड़ाहट जैसा शब्द होता था । वह चन्द्र सूर्य की तरह प्रकाशमान था ॥ २६ ॥

उरगध्वजदुर्धर्षं सुवरूथं स्ववस्करम् ।

सुवर्णजालसंयुक्तं प्रहसन्तमिव श्रिया ॥ २७ ॥

१ रावणंप्रेक्ष्य—स्वामितया प्रधानंरावणं अभिवन्द्येत्यर्थः । (गो०)

उसके ऊपर सर्पाकार ध्वजा फहरा रही थी, उसके ऊपर के कलस सुन्दर थे । वह सुवर्ण से भूषिताया अथवा उसमें सोने की जाली लगी हुई थी । वह अपने को देख अपनी सुन्दरता की शोभा से मारों आप हाँस रहा था ॥ २७ ॥

ततस्तं रथमास्थाय रात्रणार्पितशासनः ।

लङ्काया निर्ययौ तूर्णं बलेन महताऽऽवृतः ॥ २८ ॥

ऐसे दिव्य रथ पर सवार हो और रात्रण का आज्ञा ले प्रहस्त बढ़ी भारी राक्षसी सेना सहित तुरन्त लङ्का से निकला ॥ २८ ॥

ततो दुन्दुभिनिर्घोषः पर्जन्यनिनदोपमः ।

वादित्राणां च निनदः पूग्दन्निव्र ञ्जिमेदिनीम् ॥ २९ ॥

उस समय मेघगर्जन की तरह नगाड़े बजे और अन्य वाजों के बजने से सब पृथिवी भर गई ॥ २९ ॥

शुश्रुवे शङ्खशब्दश्च प्रयाते वाहिनीपतौ ।

निनदन्तः स्वरान् घोरान् राक्षसा जग्मुःप्रतः ॥ ३० ॥

जिस समय प्रहस्त चला, उस समय शङ्ख की ध्वनि सुन पड़ी । उसके आगे आगे गर्जते हुए राक्षस चले ॥ ३० ॥

भीमरूपा महाकायाः प्रहस्तस्य पुरःसराः ।

नरान्तकः कुम्भहनुर्महानादः समुन्नतः ॥ ३१ ॥

भयङ्कर रूपधारी बड़े बड़े डीलढील के राक्षस प्रहस्त के आगे आगे चलते थे । नरान्तक, कुम्भहनु, महानाद, समुन्नत ॥ ३१ ॥

* पाठान्तरे—“ठागरन् ।”

प्रहस्तसचिवा ह्ये ते निर्ययुः परिधाय तम् ।

व्यूढेनैव सुधोरेण पूर्वद्वारात्स निर्ययौ ३२ ॥

ये प्रहस्त के सचिव थे और ये सब उसको चारों ओर से घेर कर जा रहे थे । घोर व्यूह की रचना कर, प्रहस्त लङ्का के पूर्वद्वार से बाहिर निकला ॥ ३२ ॥

गजयथूनिकाशेन बलेन महता वृतः ।

सागरप्रतिमौधेन वृतस्तेन बलेन सः ॥ ३३ ॥

उस समय उसके साथ हाथियों के झुंड की तरह एक बड़ी भारी सेना थी । वह सागर की तरह अपार सेना से घिरा हुआ जा रहा था ॥ ३३ ॥

प्रहस्तो निर्ययौ तूर्णं कालान्तकयमोपमः ।

तस्य निर्याणघोषेण राक्षसानां च नर्दताम् ॥ ३४ ॥

कालान्तक यम की तरह प्रहस्त बड़ी शीघ्रता से लङ्का के बाहिर निकला । उस समय उसके रथ के चलने की गड़गड़ाहट से तथा राक्षसों के गर्जने से ॥ ३४ ॥

लङ्कायां सर्वभूतानि विनेदुर्विकृतैः स्वरैः ।

व्यभ्रमांकाशमाविश्य मांसशोणितभोजनाः ॥ ३५ ॥

समस्त लङ्कावासी जीव विकट स्वर से चिल्लाने लगे । मेघशून्य आकाश में चढ़ते हुए रुधिर और मांसभोजी ॥ ३५ ॥

मण्डलान्यपसव्यानि खमाश्चक्रु रथं प्रति ।

दमन्तयः पावद्ववालाः शिवा घोरा ववाशिरे ॥ ३६ ॥

पक्षी रथ की बाँई ओर चक्कर काटने लगे । गीदड़ियाँ
मुखों से आग की लपटें निकाल, चिल्लाने लगीं ॥ ३६ ॥

अन्तरिक्षात्पपातोल्का वायुश्च परुषो ववौ ।

अन्योन्यमभिसंरुवा ग्रहाश्च न चकाशिरे ॥ ३७ ॥

आकाश से उल्कापात होने लगा—रूखी हवा भी चलने
लगी । क्रुद्ध हो आपस में ग्रहों का युद्ध होने लगा । अतः
समस्त ग्रह प्रभाहीन हो गए ॥ ३७ ॥

भेषाश्च खरनिर्घोषा रथस्योपरि रक्षसः ।

ववृषू रुधिरं चास्य सिपिचुश्च पुरःसरान् ॥३८॥

मेघ कठोर शब्द कर, ग्रहस्त के रथ के ऊपर रुधिर की वर्षा
कर, रथ के आगे चलने वालों को रुधिर से तर करने लगे ॥३८॥

केतुमूर्धनि गृध्रोऽस्य निलीनो दक्षिणामुखः ।

तदन्नुभयतः पार्श्वं समग्रामहरत्प्रभाम् ॥३९॥

ग्रहस्त की सेना के।मंडे के ऊपर दक्षिण को मुँह कर गीघ
आ बैठा और अपने दोनों पखों को चोंच से खुजलाने लगा ।
उसने ग्रहस्त की सारी शोभा हर ली ॥ ३९ ॥

सारथेर्वहुशश्चास्य स्रंसंग्राममभिवर्तिनः ।

प्रतोदो न्यपतद्भस्तात्सूतस्य ह्यसादिनः ॥ ४० ॥

रणभूमि में अनेक बार गए हुए, अनेक युद्धों में सम्मिलित
हो चुकने वाले, सूतकुल में उत्तम रथ हाँकनेवाले रथवान के
हाथ से चाबुक गिर पड़ा ॥ ४० ॥

१ प्रतोदः—तोत्रन्यपतत् । (शि०) स्रपाठान्तरे—'संग्राममवगाहत्ः ।'

निर्याणश्रीश्च यास्यासीद्भास्वरा ष्वसुदुर्लभा ।

स ननाश मुहूर्तेन समे च स्खलिता हयाः ॥४१॥

युद्धयात्रा करते समय प्रकाशमान और अष्टवसुओं के लिए भी दुर्लभ जो श्री प्रहस्त की थी, वह थोड़ी ही दूर में नष्ट हो गई और समतल भूमि में दौड़ते हुए घोड़े गिर पड़े ॥ ४१ ॥

प्रहस्तं त्वभिनिर्यान्तं प्रख्यातव्रजपौरुषम् ।

युधि नानाप्रहरणा कपिसेनाऽभ्यवर्तत ॥४२॥

प्रसिद्ध बल पौरुष वाले प्रहस्त को निकलते देख, रणभूमि में वानरगण वृक्ष शिला आदि विविध प्रकार के आयुध ले, उससे लड़ने को तैयार हो गए ॥ ४२ ॥

अथ घोषः सुतुमुलो हरीणां समजायत ।

वृक्षानारुजतां चैव गुर्वीरागृह्णतां शिलाः ॥ ४३ ॥

कपि सेना में बड़ा भारी हल्ला मचा । वे बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ने और बड़ी भारी भारी शिलाओं को तोड़ने लगे ॥४३॥

नदतां राक्षसानां च वानराणां च गर्जताम् ।

उभे प्रमुदिते सैन्ये रक्षोगणवनौकसाम् ॥ ४४ ॥

एक ओर राक्षस नाद कर रहे थे दूसरी ओर वानर गर्ज रहे थे । राक्षसी और वानरी दोनों सेनाओं में हर्ष छाया हुआ था ॥४४॥

वेगितानां समर्थानामन्योन्यवधकांक्षिणाम् ।

परस्परं चाह्वयतां निनादः श्रूयते महान् ॥ ४५ ॥

१ वसुदुर्लभा-अष्टवसुदुर्लभा । (गो०) २ आरुजतां-उन्मूलयतां । (गो०)

ये बलवान् राक्षस और वेगवान् वानर दोनों ही एक दूसरे का नाश करने के लिए फुर्तीले और युद्ध करने में समर्थ तथा एक दूसरे का नाश करने की अभिलाषा रखने वाले योद्धा युद्ध करने के लिए एक दूसरे को ललकार रहे थे । अतः बड़ा भारी होहल्ला सुन पड़ता था ॥ ४५ ॥

ततः प्रहस्तः कपिराजवाहिनीम्
अभिप्रतत्ये विजयाय दुर्मतिः ।

विवृद्धवेगां च विवेश तां चमूं
यथा मुमूर्षुः शलभो विभावसुम् ॥ ४६ ॥

इति सप्तपञ्चाशः सर्गः ॥

तदनन्तर राक्षसों की सेना का सेनापति खोटी बुद्धि वाला प्रहस्त, युद्ध में विजय प्राप्त करने की इच्छा से, अत्यन्त वेग से वानरों की सेना पर जैसे ही झपटा, जैसे अपने प्राण रक्षाने के लिए पतंग दहकते हुए अग्नि पर झपटता है ॥ ४६ ॥

युद्धकाण्ड का सत्तावनवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—०—

अष्टपञ्चाशः सर्गः

—❀—

ततः प्रहस्तं निर्यान्तं दृष्ट्वा भीमपराक्रमम् ।

उवाच सस्मितं रामो विभीषणमरिन्दमः ॥ १ ॥

भीम पराक्रमी प्रहस्त को लड़का से बाहिर निकलते देख, शत्रु-हन्ता श्रीरामचन्द्र जी ने मुग्धक्या कर विभीषण से कहा ॥ १ ॥

क एष सुमहाकायो बलेन महता वृतः ।

ॐ आचक्ष मे महाबाहो वीर्यवन्तं निशाचरम् ॥ २ ॥

हे महाबाहो ! मुझे बतलाओ यह वीर्यवान और बड़े डील-डौल वाला कौन निशाचर है, जिसके साथ बड़ी विशाल सेना है ॥२॥

राघवस्य वचः श्रुत्वा प्रत्युवाच विभीषणः ।

एष सेनापतिस्तस्य प्रहस्तो नाम राक्षसः ॥ ३ ॥

श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन उत्तर में विभीषण ने कहा— यह रावण का सेनापति है । इस राक्षस का नाम प्रहस्त है ॥३॥

लङ्कायां राक्षसेन्द्रस्य त्रिभागबलसंवृतः ।

वीर्यवानस्त्रविच्छूरः प्रख्यातश्च पराक्रमे ॥ ४ ॥

लङ्का में रावण के अधीन जितनी सेना है, उसमें से एक तिहाई सेना इसके अधीन है । यह अर्खों का चलाना जानता है और एक प्रसिद्ध पराक्रमी है ॥ ४ ॥

ततः प्रहस्तं निर्यान्तं भीमं भीमपराक्रमम् ।

गर्जन्तं सुमहाकायं राक्षसैरभिसंवृतम् ॥ ५ ॥

भीम पराक्रमी और विशालकाय प्रहस्त, राक्षसी सेना के साथ गर्जता हुआ लङ्का के बाहिर आया ॥ ५ ॥

ददर्श महती सेना वानराणां वलीयसाम् ।

अतिसञ्जातरोपाणां प्रहस्तमभिगर्जताम् ॥ ६ ॥

उसने वानरों की बड़ी बलवान सेना को देखा, जो उसे (प्रहस्त को) देख अत्यन्त कुपित हो गर्ज रही थी ॥ ६ ॥

* एक संस्करण में इसके पूर्व यह और है—“आगच्छति महावेगः किंरूपबलपौरुषः ।”

खड्गशक्त्यृष्टिवाणाश्च शूलानि मुसलानि च ।

गदाश्च परिधाः प्रासा विविधाश्च परश्वधाः ॥ ७ ॥

धनूंषि च विचित्राणि राक्षसानां जयैषिणाम् ।

प्रगृहीतान्यशोभन्त वानरानभिधावताम् ॥ ८ ॥

जीतने की इच्छा किए हुए राक्षस, तलवार, शक्ति, ढडे, बाण शून, मूसल, गदा, बेंडा (या मुग्द्र) प्रास तथा विविध प्रकार के परश्वध तथा विचित्र धनुषों को हाथ में लेकर, वानरों पर आक्रमण करते थे और उनके अस्त्रशस्त्र शोभायमान होते थे ॥ ७ ॥ ८ ॥

जगृहुः पादपांश्चापि पुष्पितान् वानरर्षभाः ।

शिलाश्च विपुला दीर्घा योद्धुकामाः प्लवङ्गमाः ॥९॥

दूसरी ओर वानरश्रेष्ठों ने भी पुष्पित पेड़ और बड़ी लंबी चौड़ी शिलाएँ, राक्षसों से लड़ने के लिए हाथों में ले ली थीं ॥ ९ ॥

तेषामन्योन्यमासाद्य संग्रामः सुमहानभूत् ।

बहूनामश्मवृष्टिं च शरवृष्टिं च वर्षताम् ॥ १० ॥

परस्पर दोनों सेनाएँ जब भिड़ गईं ; तब बड़ा विकट युद्ध हुआ । दोनों ही ओर के योद्धा, एक दूसरे के ऊपर शिलाआ और बाणों की वर्षा करने लगे ॥ १० ॥

बहवो राक्षसा युद्धे बहून् वानरयूथपान् ।

वानरा राक्षसांश्चापि निजध्नुर्बहवो बहून् ॥ ११ ॥

इस लड़ाई में बहुत से राक्षसों ने बहुत से वानर यूथपतियों को और बहुत से वानरों ने बहुत से राक्षसों को मार डाला ॥ ११ ॥

शूलैः प्रमथिताः केचित्केचिच्च परमायुधैः १ ।

परिघैराहताः केचित्केचिच्छिन्नाः परश्वधैः ॥ १२ ॥

कोई कोई वानर शूलों से, कोई कोई चक्रों से, कोई कोई परिघे से मारे गए और कोई कोई फरसां से काट डाल गए ॥ १२ ॥

निरुच्छ्वासाः कृताः केचित्पतिता धरणीतले ।

विभिन्नहृदयाः केचिदिषु सन्धानसन्दिताः । १३ ॥

कोई कोई तो वेदम हो भूमि पर गिर पड़े, किसी का कलेजा चीर डाला गया, किसी के शरीर बाणां से बिंध गए ॥ १३ ॥

केचिद्द्विधा कृताः खङ्गैः स्फुरन्तः पतिता भुवि ।

वानरा राक्षसैः शूलैः पार्श्वतश्च विदारिताः ॥ १४ ॥

कोई कोई तलवार से दो टुकड़े किए जाकर जमीन पर पड़े छटपटा रहे थे । वीर राक्षसों ने वानरां की कोखें शूलों से फाड़ डालीं ॥ १४ ॥

वानरैश्चापि संक्रुद्धैः राक्षसौघाः समन्ततः ।

पादपैर्गिरिशृङ्गैश्च सम्पिष्टा वसुधातले ॥ १५ ॥

वानरों ने भी क्रुद्ध हो चारों ओर रणभूमि में पेड़ों और शिलान्नों के प्रहार से राक्षसों के दल चूर्ण कर, पृथिवी पर गिरा दिए ॥ १५ ॥

वज्रस्पर्शतलैर्हस्तैर्मुष्टिभिश्च हता भृशम् ।

वेद्युः शोणितमास्येभ्यो विशीर्णदशनेक्षणाः ॥ १६ ॥

वानरों के वज्र समान थप्पड़ों और भुँकों की मार से मारे जाकर, राक्षस मुँह से खून गिराने लगे । बहुत से राक्षसों के दाँतों

को वानरों ने तोड़ डाला, बहुत से राक्षसों की आँखें निकाल लीं ॥ १६ ॥

आर्तस्वनं च. स्वनतां सिंहनादं च नर्दताम् ।

बभूव तुमुलः शब्दो हरीणां रक्षसां युधि ॥ १७ ॥

उस समय वानरों और राक्षसों की लड़ाई में घायलों के आर्त-नाद का और वीरों के सिंहनाद का बड़ा भारी शब्द हुआ ॥१७॥

वानरा रक्षसाः क्रुद्धा वीरमार्गमनुव्रताः ।

विवृत्तनयनाः क्रूराश्चक्रुः कर्माण्यभीतवत् ॥ १८ ॥

क्रोध में भर अपना युद्ध कौशल दिखजाते हुए वानर और राक्षस, नेत्र टेढ़े कर कर और निडर हो, बड़ी निष्ठुरता से युद्ध कर रहे थे ॥ १८ ॥

नरान्तकः कुम्भहनुर्महानादः समुन्नतः ।

एते प्रहस्तसचिवाः सर्वे जघ्नुर्वनौकसः ॥ १९ ॥

प्रहस्त के ये सब दीवान नरान्तक, कुम्भहनु, महानाद और समुन्नत वानरों को मार रहे थे ॥ १९ ॥

तेषामापततां शीघ्रं निम्नतां चापि वानरान् ।

द्विविदो गिरिशृङ्गेण जघानैकं नरान्तकम् ॥ २० ॥

वे चारों खदेड़ खदेड़ कर वानरों को मार रहे थे कि, द्विविद ने पर्वत के एक शिखर से नरान्तक को मार डाला ॥ २० ॥

दुर्मुखः पुनरुत्पाद्य कपिः स विपुलद्रुमम् ।

राक्षसं क्षिप्रहस्तस्तु समुन्नतमपोधयत् ॥ २१ ॥

१ वीरमार्ग—युद्धकौशल । (गो०) * पाठान्तरे—“पुनरुत्पाद्य ।”

कपिश्रेष्ठ दुर्मुख ने एक विशाल वृक्ष उखाड़ कर फुर्ती के साथ लड़ते लड़ते समुन्नत को पीस डाला ॥ २१ ॥

जाम्बवांस्तु सुसंकुद्रः प्रगृह्य महतीं शिलाम् ।
पातयामास तेजस्वी महानादस्य वक्षसि ॥ २२ ॥

तेजस्वी जाम्बवान् ने क्रोध में भर एक बड़ी भारी शिला उठा कर महानाद की छाती में दे मारी ॥ २२ ॥

अथ कुम्भहनुस्तत्र तारेणासाद्य वीर्यवान् ।
वृक्षेणाभिहतो मूर्ध्नि प्राणान् सन्त्याजयद्रणे ॥ २३ ॥

कपिवर वीर्यवान् तार ने एक बड़े पेड़ के प्रहार से कुम्भहनु के सिर को चकनाचूर कर दिया । इस प्रहार से कुम्भहनु ने भी युद्ध करते हुए प्राण त्याग दिए ॥ २३ ॥

अमृष्यमाणस्तत्कर्म प्रहस्तो रथमास्थितः ।
चकार कदनं घोरं धनुष्पाणिर्वनौकसाम् ॥ २४ ॥

वानरों द्वारा इस प्रकार राक्षसों का संहार प्रहस्त को असह्य हुआ । वह रथ में बैठा हुआ और धनुष बाण ले वानरों का नाश करने लगा ॥ २४ ॥

आवर्त इव सञ्जज्ञे उभयोः सेनयोस्तदा ।
क्षुभितस्याप्रमेयस्य सागरस्येव निःस्वनः ॥ २५ ॥

उस समय दोनों ओर की सेना वेग से जल के भँवर की तरह चक्कर खाने लगी और खलबलाते हुए अपार समुद्र की तरह सेनाओं में शब्द होने लगा ॥ २५ ॥

महताहि शरौघेण प्रहस्तो युद्धकोविदः ।

अर्दयामास संक्रुद्धो वानरान् परमाहवे ॥ २६ ॥

युद्धविशारद प्रहस्त क्रुद्ध हो, बड़े बड़े बाणों को वृष्टि कर वानरों को मार रहा था ॥ २६ ॥

वानराणां शरीरैश्च राक्षसानां च मेदिनी ।

बभूव निचिता घोरा पतितैरिव पर्वतैः ॥ २७ ॥

उस समय मरे हुए वानरों और राक्षसों की लोथों से पटी हुई रणभूमि, ऐसी जान पड़ती थी; मानों पर्वतों से मरी हुई पृथिवी हो ॥ २७ ॥

सा महीरुधिरौघेण प्रच्छन्ना सम्प्रकाशते ।

संच्छन्ना भाववे मासि पलाशैरिव पुष्पितैः ॥ २८ ॥

युद्धक्षेत्र की वह रक्त-रञ्जित-भूमि ऐसी शोभा दे रही थी, जैसी वसन्तऋतु में टेसुओं के फूलों से ढकी हुई मूनि शोभाच-मान हुआ करती है ॥ २८ ॥

हतवीरौघवर्षां तु भग्नायुधमहाद्रुमाम् ।

शोणितौघमहातोयां यमसागरगामिनीम् ॥ २९ ॥

उस रणरूपी नदी में वीरों की लोथें तो नदी के उभय तट थे, टूटे हुए शस्त्र बड़े बड़े वृक्ष थे, उसमें रुधिर ही जल था । ऐसी वह नदी यमरूपी महासागर में जाकर गिरती थी ॥ २९ ॥

यकृत्प्लीहमहापङ्कां त्रिनिकीर्णान्त्रिशैवलाम् ।

मिन्नकायशिरोमीनामङ्गावयवशाद्वलाम् ॥ ३० ॥

इस नदी में यकृत (दहिनी कोख का माँस) और प्लीहा (पिलही—बाईं कोख का माँस) रूपी क्रीचड़ था, इधर उधर विखरी हुई आँतें रूपी इसमें खिवार (जल में उत्पन्न होने वाली घास विशेष) थी। कटे हुए शरीर और सिर रूपी उसमें मछलियाँ थीं। कटे हुए हाथ पैर कान नाक आदि शरीर के अवयव रूपी घास फूस, उस नदी में उतरा रह् थे ॥ ३० ॥

गृध्रहंसगणाकीर्णा कङ्कसारससेविताम् ।

मेदःफेनसमाकीर्णामार्तस्तनितनिःस्वनाम् ॥ ३१ ॥

उस नदी के तट पर गीध, हंस, कक, सारस बैठे हुए थे। वीरों का चर्वीरूपी फेन नदी में उतरा रहा था। घायल वीरों का आर्तस्वर मानों उस नदी के जल का कलकल शब्द था ॥ ३१ ॥

तां कापुरुषदुस्तारां युद्धभूमिमयीं नदीम् ।

नदीमिव धनापाये हससारससेविताम् ॥ ३२ ॥

वह युद्धभूमिमयी नदी, कायरों के लिए दुस्तर थी। जैसे शरद्वृत्तु में नदियाँ हंस, सारस आदि जलतटवासी पक्षियों से सेवित होती हैं ॥ ३२ ॥

राक्षसाः कपिमुख्याश्च तेरुस्तां दुस्तारां नदीम् ।

यथा पद्मरजोध्वस्तां नलिनीं गजयूथपाः ॥ ३३ ॥

और कमलपराग से वर्णान्तर को प्राप्त नदी को पार कर गजेन्द्र, जैसे लाल रंग के हो जाते हैं, वैसे ही इस दुस्तर रणरूपी नदी को पार कर, वानरश्रेष्ठों और वीर राक्षसों के शरीर लाल रंग के हो गए ॥ (गो०) ॥ ३३ ॥

ततः सृजन्तं वाणौघान् प्रहस्तं स्यन्दने स्थितम् ।

ददर्श तरसा नीलो विनिघ्नन्तं पञ्चङ्गमान् ॥ ३४ ॥

प्रहस्त को रथ पर सवार हो बड़े वेग से बाणों की वर्षा द्वारा वानरों का संहार करते हुए वानरसेनापति नील ने देखा ॥३४॥

उद्धृत इव वायुः खे महदभ्रवलं वलात् ।

समीच्याभिद्रुतं युद्धे प्रहस्तो वाहिनीपतिः ॥ ३५ ॥

और पवन के वेग से आकाश में उड़ते हुए बड़े बड़े बादलों के समान सेनापति प्रहस्त ने अपनी सेना को युद्ध से भागते देखा ॥ ३५ ॥

रथेनादित्यवर्णेन नीलमेवाभिद्रुवे ।

स धनुर्धन्विनां श्रेष्ठो विकृप्य परमाहवे ॥ ३६ ॥

नीलाय व्यसृजद्वाणान् प्रहस्तो वाहिनीपतिः ।

ते प्राप्य विशिखा नीलं विनिर्भिद्य समाहिताः ॥३७॥

सूर्य सम प्रकाशित रथ को बढ़वा, प्रहस्त, नील के सामने गया। फिर धनुर्धारियों में श्रेष्ठ सेनापति प्रहस्त ने अपने बड़े धनुष को खँच कर नील के ऊपर बाण छोड़े। वे बाण नील के शरीर को वेध कर, ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

महीं जग्मुर्महावेगा रूपिता इव पन्नगाः ।

नीलः शरैरभिहतो निशितैर्ज्वलनोपमैः ॥३८॥

स तं परमदुर्धर्पमापतन्तं महाकपिः ।

प्रहस्तं ताडयामास वृक्षमुत्पाटय वीर्यवान् ॥३९॥

बड़े वेग से वैसे ही ज़मीन में घुस गए; जैसे क्रुद्ध सर्प की फुर्ती से अपने बिल में घुस जाता है। अग्नि के समान चमचमाते पौने बाणों से घायल हो कर भी बलवान नील ने, उस परम दुर्धर्प प्रहस्त को अपने ऊपर आक्रमण करते देख, एक पेड़ उखाड़ कर उसके मारा ॥ ३८ ॥ ३९ ॥

स तेनाभिहतः क्रुद्धो नदन् राक्षसपुङ्गवः ।

ववर्ष शश्वर्षाणि स्रवङ्गानां चमूपतौ ॥ ४० ॥

उस वृक्ष के लगने पर क्रुद्ध हो गर्जते हुए राक्षसश्रेष्ठ प्रहस्त ने वानरों के सेनापति नील के ऊपर बाणों की वर्षा की ॥४०॥

तस्य बाणगणान् घोरान् रक्षस्तस्य महाबलः ।

अपारयन् वारयितुं प्रत्यगृह्णान्निमीलितः ॥ ४१ ॥

उस महाबली प्रहस्त के भयङ्कर बाणों को रोकने में असमर्थ हो नील ने नेत्र बन्द कर उन्हें वैसे ही सहन किया ॥ ४१ ॥

यथैव गोवृषो वर्षं शारदं शीघ्रमागतम् ।

एवमेव प्रहस्तस्य शरवर्षं दुरासदम् ॥ ४२ ॥

निमीलिताक्षः सहसा नीलः सेहे सुदारुणम् ।

रोषितः शरवर्षेण सालेन सहता महान् ॥ ४३ ॥

जैसे शरदऋतु की शीघ्र होने वाली वर्षा को वृषभ सहन कर लेता है । इस प्रकार प्रहस्त की दुस्सह और सुदारुण बाण-वृष्टि को नील ने नेत्र बन्द कर सहन कर लिया । फिर उस शरवृष्टि से अत्यन्त क्रुद्ध हो और साल का एक बड़ा पेड़ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

प्रजघान ह्ययान् नीलः प्रहस्तस्य मनोजवान् ।

ततः स चापमुद्गृह्य प्रहस्तस्य महाबलः ॥४४॥

उखाड़, नील ने उससे प्रहस्त के रथ के, मन के समान शीघ्र-गामी घोड़ों को मार डाला । तदनन्तर प्रहस्त के हाथ से उसका धनुष छीन कर महाबली ॥ ४४ ॥

वमञ्ज तरसा नीलो ननाद च पुनः पुनः ।

विधनुस्तु कृतस्तेन प्रहस्तो वाहिनीपतिः ॥४५॥

नील ने बलपूर्वक तोड़ डाला और फिर बार बार वह गर्जा ।
घनुष रहित किए जाने पर सेनापति प्रहस्त, ॥ ४५ ॥

प्रगृह्य मुसलं घोरं स्यन्दनादवपुप्लुवे ।

तावुभौ वाहिनीमुख्यौ जातवैरी तरस्विनी ॥४६॥

एक मूसल ले रथ के नीचे कूद पड़ा । अन्त में दोनों बलवान
सेनापति एक दूसरे के महाशत्रु हो गए ॥ ४६ ॥

स्थितौ क्षतजदिग्धाङ्गौ ऽप्रभिन्नाविव कुञ्जरौ ।

उल्लिखन्तौ सुतीक्ष्णाभिर्दंष्ट्राभित्तिरेतरम् ॥४७॥

मतवाले हाथियों के समान लड़ते लड़ते, वे दोनों लोहलुहान
हो गए । दोनों ही एक दूसरे को अपने पंने पंने दाँतों से चोंच
रहे थे ॥ ४७ ॥

सिंहशार्दूलसदृशौ सिंहशार्दूलचेष्टितौ ।

विक्रान्तविजयौ वीरौ समरेष्वनिवर्तिनौ ॥४८॥

वे दोनों पराक्रम में सिंह और शार्दूल के समान थे और
सिंह और शार्दूल ही की तरह लड़ भी रहे थे । वे दोनों परा-
क्रमी, तथा विजयी वीर थे और युद्ध में कभी पीठ फेरने वाले
न थे ॥ ४८ ॥

काङ्क्षमाणौ यशः प्राप्तुं वृत्रवासवयोः समौ ।

आजघान तदा नीलं ललाटे मुसलेन सः ॥ ४९ ॥

१ प्रभिन्नी—मत्तौ (गो०)

प्रहस्तः परमायत्तस्तस्य सुस्त्राव शोणितम् ।

ततः शोणितदिग्धाङ्गः प्रगृह्य सुमहातरुम् ॥५०॥

वे दोनों ही वीर वृत्रासुर और इन्द्र की तरह लड़ते हुए यशप्रार्थी थे। अर्थात् बड़ाई अथवा नामवरी चाहते थे। लड़ते लड़ते प्रहस्त ने नील के ललाट में बड़े जोर से मूसल मारा, जिससे उसके सिर से रुधिर की धार बहने लगी। तब रुधिर से तरबतरं नील ने एक बड़ा भारी पेड़ उखाड़ ॥ ४६ ॥ ५० ॥

प्रहस्तस्योरसि क्रुद्धो विससर्ज महाकपिः ।

तमचिन्त्यप्रहारं स प्रगृह्य मूसलं महत् ॥५१॥

और बड़े क्रोध के साथ उसे प्रहस्त की छाती में मारा। किन्तु प्रहस्त ने उस वृक्ष के प्रहार को कुछ भी न समझा। बड़ा भारी मूसल ले ॥ ५१ ॥

अभिदुद्राव वलिनं वलान्नीलं सवङ्गमम् ।

तमुग्रवेगं संरन्धमापतन्तं महाकपिः ॥५२॥

वह बड़े जोर से बलवान नील के ऊपर कपटा। कपिश्रेष्ठ महा वेगवान नील ने उस उग्र वेगवान् राक्षस को क्रोध में भर अपनी ओर आते देख, ॥ ५२ ॥

ततः सम्प्रेक्ष्य जग्राह महावेगो महाशिलाम् ।

तस्य युद्धाभिकामस्य मृथे मूसलयोधिनः ॥५३॥

एक बड़ी शिला उठा ली और उस युद्धाभिलाषी और मूसल से लड़ने वाले प्रहस्त के सिर पर तुरन्त पटक दी ॥ ५३ ॥

प्रहस्तस्य शिलां नीलो मृर्घ्निं तूर्णमपातयत् ।

सा तेन कपिमुख्येन विमुक्ता महती शिला ॥५४॥

विभेद बहुधा घोरा प्रहस्तस्य शिरस्तदा ।

स, गतासुर्गतश्रीको गतसत्त्वो गतेन्द्रियः ॥५५॥

कपिश्रेष्ठ नील की फेंकी हुई उस शिला के प्रहार से प्रहस्त का सिर चक्रनाचूर हो गया अथवा शिला लगने से प्रहस्त के सिर के बहुत से टुकड़े हो गए । नील की फेंकी हुई उस शिला के प्रहार से प्रहस्तानिर्जीव, कान्तिहीन, बलहीन और निश्चेष्ट हो कर ॥ ५४ ॥ ५५ ॥

पपात सहसा भूमौ छिन्नमूल इव द्रुमः ।

प्रभिन्नशिरसस्तस्य बहु सुस्त्राव शोणितम् ॥५६॥

वैसे ही सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा; जैसे कटा हुआ पेड़ गिर पड़ता है । प्रहस्त के कटे हुए सिर से बहुत सा रक्त बहा ॥५६॥

शरीरादपि सुस्त्राव गिरैः प्रस्रवणं यथा ।

हते प्रहस्ते नीलेन तदकर्म्यं महद्वलम् ॥५७॥

सिर ही से नहीं बल्कि उसके सारे शरीर से वैसे ही रक्त ऋरा जैसे पहाड़ से जल ऋरता है । नील द्वारा प्रहस्त के मारे जाने पर प्रहस्त की कभी विचलित न होने वाली महती सेना के ॥ ५७ ॥

रक्षसामप्रहृष्टानां लंकाभिजगाम ह ।

न शेकुः समरे स्थातुं निहते वाहिनीपती ॥५८॥

राक्षस लोग उदास हो लङ्कापुरी में चले गए । क्योंकि अपने सेनापति के मारे जाने पर वे युद्ध में वैसे ही न टिक सके ॥५८॥

सेतुबन्धं समासाद्य विकीर्णं सलिलं यथा ।

हते तस्मिंश्चमूमुख्ये राक्षसास्ते निरुद्यमाः ॥५६॥

जैसे बाँध टूट जाने पर पानी नहीं टिक सकता । प्रहस्त के मारे जाने पर वे समस्त राक्षस निरुद्यम हो ॥ ५६ ॥

रक्षःपतिगृहं गत्वा ध्यानमूकत्वमास्थिताः ।

प्राप्ताः शोकार्णवं तीव्रं निःसंज्ञा इव तेऽभवन् ॥६०॥

राक्षसराज रावण के भवन में गए और चुपचाप ध्यान लगाये हुए खड़े हो गए । वे राक्षस तीव्रशोकरूपी समुद्र में निमग्न हो, अचेत से हो रहे थे ॥ ६० ॥

ततस्तु नीलो विजयी महाबलः

प्रशस्यमानः स्वकृतेन कर्मणा ।

समेत्य रामेण सलक्ष्मणेन च


प्रहृष्टरूपस्तु बभूव यूथपः ॥६१॥

इति अष्टपञ्चाशः सर्गः ॥

महाबली वानरयूथपति नील विजयी हो, श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण के पास गए और अपनी बहादुरी के लिए उनसे अपनी प्रशंसा सुन, वे अत्यन्त हर्षित हुए ॥ ६१ ॥

युद्धकाण्ड का अष्टावनवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

एकोनषष्टितमः सर्गः



तस्मिन्हते राक्षससैन्यपाले

प्लवङ्गमानामृषभेण युद्धे ।

भीमायुधं सागरतुल्यवेगं

त्रिदुद्रुवे राक्षसराजसैन्यम् ॥ १ ॥

जब नील ने सेनापति प्रहस्त को मार डाला, तब भयङ्कर
आयुध धारण किए राक्षसराज रावण की सेना, समुद्र के वेग
की तरह, जोर से भाग खड़ी हुई ॥ १३॥

गत्वाथ रक्षोधिपतेः शशांसुः

सेनापतिं पावकपुत्रुशस्तम् ।

तच्चापि तेषां वचनं निशम्य

रक्षोधिपः क्रोधवश जगाम ॥ २ ॥

और राक्षसपति के पास जा कर अग्निनन्दन नील द्वारा
प्रहस्त का मारा जाना निवेदन किया । उन लोगों के वचन सुन,
रावण भी अत्यन्त क्रुद्ध हुआ ॥ २ ॥

संख्ये प्रहस्तं निहतं निशम्य

शोकादितः क्रोधपरीतचेताः ।

उवाच तन्नैर्ऋतयोधृख्या-

निन्द्रो यथा चामरयोधमुख्यान् ॥ ३ ॥

युद्ध में प्रहस्त का मारा जाना सुन, शोकाकुल और क्रुद्ध हो रावण, अन्य सेनापतियों से वैसे ही बोला, जैसे इन्द्र अपने मुख्य मुख्य योद्धा देवताओं से बोलते हैं ॥ ३ ॥

नावज्ञा रिपवे कार्या यैरिन्द्रवलसूदनः ।

सूदितः सैन्यपालो मे सानुयात्रः सकुञ्जरः ॥ ४ ॥

हे राक्षसो ! जिन शत्रुओं ने, इन्द्र का मान भङ्ग करने वाले सेनापति प्रहस्त को, उसके अनुयायी योद्धाओं तथा हाथियों सहित मार डाला, उन शत्रुओं को तुच्छ न समझना चाहिए ॥ ४ ॥

सोऽहं रिपुविनाशाय विजयायाविचारयन् ।

स्त्रयमेव गभिष्यामि रणशीर्षं । तदद्भुतम् १ ॥ ५ ॥

अब मैं स्वयं उस अद्भुत रणक्षेत्र में उन शत्रुओं को मारने तथा विजय प्राप्त करने के लिए जाऊँगा ॥ ५ ॥

अद्य तद्वानरानीकं रामं च सह लक्ष्मणम् ।

निर्दहिष्यामि वाणौघैर्वनं दीप्तै र्वाग्निभिः ॥ ६ ॥

[अद्य सन्तर्पयिष्यामि पृथिवीं कपिशोणितैः ।

रामं च लक्ष्मणं चैव प्रेषयिष्ये यमक्षयम् ॥]

आज मैं उस वानरी सेना को तथा लक्ष्मण सहित श्रीराम को अपने वाणों से उसी प्रकार दग्ध कर दूँगा; जैसे दहकती हुई आग वन को भस्म कर देती है। आज मैं वानरों के रक्त से मेदिनी की प्यास बुझा दूँगा और राम लक्ष्मण को यमालय भेज दूँगा ॥ ६ ॥

स एवमुक्त्वा ज्वलनप्रकाशं

रथं तुरङ्गोत्तमराजयुक्तम् ।

१ अद्भुतं—दुर्बलैः प्रवलविनाशनादाश्चर्यम् । (गो०)

प्रकाशमानं वपुषा? ज्वलन्तं

समारुरोहामरराजशत्रुः ॥ ७ ॥

अलङ्कारों की जगमगाहट से चमचमाता तथा स्वरूपतः दीप्तमान इन्द्र का शत्रु, रावण, उत्तम घोड़ों से युक्त तथा अग्नि के समान चमचमाते रथ पर सवार हुआ ॥ ७ ॥

स शङ्खभेरीपणवप्रणादै-

रास्फोटितद्वेलितसिंहनादैः ।

शुण्यैः स्तवैश्चाप्यभिपूज्यमान-

स्तदा ययौ राक्षसराजमुख्यः ॥ ८ ॥

उस समय तुरही, शङ्ख और ढोल बजने लगे । वीरों ने ताल ठोंके और अपनी बड़ाई कर उन्होंने सिंहनाद किया । सुन्दर स्तुतियों द्वारा प्रशंसित हो, रावण ने युद्धयात्रा की ॥ ८ ॥

स शैलजीमूतनिकाशरूपै-

मांसादनैः पावकदीप्तनेत्रैः ।

वभौ वृतो राक्षसराजमुख्यो

भृतैर्वृतो रुद्र इवामरेशः ॥ ९ ॥

पहाड़ों की तरह तथा बादल की तरह बड़े ढीलडौल के, अग्नि की तरह चमकते नेत्रों वाले, तथा मांसमन्दी राक्षसों के साथ रावण; उसी प्रकार शोभायमान हुआ, जिस प्रकार महादेव जी, भूतों के बीच शोभित होते हैं ॥ ९ ॥

१ प्रकाशमानं—अलङ्कारैर्मांसमानं । (गो०) २ वपुषा ज्वलन्तं—स्वरूपत एव प्रकाशमानं । (गो०) ३ शुण्यैः—चारुभिः । (गो०)
* पाठान्तरे—“ इवासुरेशः । ”

ततो नगर्याः सहसा ॐमहौजसा

निष्क्रम्य तद्वानरसैन्यमुग्रम् ।

महार्णवाभ्रस्तनितं ददर्श

समुद्यतं पादपशैलहस्तम् ॥ १० ॥

तदनन्तर उस महातेजस्वी रावण ने सेना सहित लङ्कापुरी के बाहिर जा, महासागर एवं महामेघ के समान गर्जते हुए तथा युद्ध करने को हाथों में शिलाएँ तथा पेड़ लिये हुए उग्ररूप वाले वानरों की सेना को देखा ॥ १० ॥

तद्राक्षसानीकमतिप्रचण्डम्

चालोक्य रामो भुजगेन्द्रबाहुः १ ।

विभीषणं शस्त्रभृतां वरिष्ठ-

मुवाच सेनानुगतः पृथुश्रीः ॥ ११ ॥

राक्षसों की उस प्रचण्ड सेना को देख, युद्ध के लिए उत्सुक हो बाहुयुगल पसारे हुए तथा विजयश्री से कान्तिमान तथा अपने स्वामी की रक्षा के लिए चारों ओर स्थित वानरी सेना से धिरे हुए, श्रीरामचन्द्र जी ने वीरभटों के तारतम्य अर्थात् बलावल को जानने वाले विभीषण से कहा ॥ ११ ॥

नानापताकाध्वजछत्रजुष्टं

प्रासासिशूलायुधशस्त्रजुष्टम् ।

१ भुजगेन्द्रबाहुः—युद्धौत्सुक्येन प्रवर्धमानबाहुः । (गो०) २ शस्त्रभृतानां वरिष्ठं वीरभटतारतम्यज्ञमिति भावः । (रा०) ३ सेनानुगतः—स्त्रामिसंरक्षाय सर्वतः समवेतसेनापरिवृतः । (गो०) ॐ पाठान्तरे—“महौजाः ।”

सैन्यं गजेन्द्रोपमनागजुष्टं

कस्येदमक्षोभ्यमभीरुजुष्टम् ॥१२॥

नाना प्रकार की ध्वजाओं तथा छत्र से युक्त; प्रास, शूल, घनुषादि आयुधों को धारण किए हुए, निडर और अचल राक्षसों से युक्त एवं ऐरावत हाथी के समान हाथियों से सेवित यह सेना किसकी है ॥ १२ ॥

ततस्तु रामस्य निशम्य वाक्यं

विभीषणः शक्रसमानवीर्यः ।

शशंभु रामस्य बलप्रवेकं

महात्मनां राक्षसपृङ्गवानाम् ॥१३॥

श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन, इन्द्र के समान पराक्रमी विभीषण उन महाधैर्यवान राक्षसश्रेष्ठों की सैन्यप्रवर का परिचय देते हुए कहने लगे ॥ १३ ॥

योऽसौ गजस्कन्धगतो महात्मा

नवोदिताकौपमताम्रवक्त्रः ।

प्रकम्पयन्नागशिरोऽभ्युपैति

ह्यकम्पनं त्वेनमवेहि राजन् ॥१४॥

हे राजन्! जो धैर्यवान् और प्रातःकालीन सूर्य की तरह लाल मुख वाला वीर हाथी के ऊपर बैठा हुआ हाथी का सिर कम्पाता चला आता है, वह (दूसरा) अकम्पन है ॥ १४ ॥

योऽसौ रथस्थो मृगराजकेतुः

धुन्वन् धनुः शक्रधनुःप्रकाशम् ।

करीव भात्युग्रविवृत्तदंष्ट्रः

स इन्द्रजिन्नाम वरप्रधानः ॥१५॥

जो सिंह की ध्वजा से युक्त रथ पर चढ़, इन्द्र के धनुष के समान अपने धनुष को बार बार टङ्कोरता हुआ, बड़े बड़े दाँत निकाले हुए हाथी की तरह शोभित चला आता है; यह वरदान प्राप्त किये हुए राक्षसश्रेष्ठ इन्द्रजीत है ॥ १५ ॥

यश्चैष विन्ध्यास्तमहेन्द्रकल्पो

धन्वी रथस्थोऽतिरथोऽतिवीरः१ ।

विस्फारयश्चापमतुल्यमानं

नाम्नातिकायोऽतिविवृद्धकायः ॥१६॥

जो विन्ध्याचल, अस्ताचल और महेन्द्राचल के समान ऊँचा तेजस्वी और अचल धनुष बाण लिये, हजार घोड़ों से युक्त रथ में सवार, बड़ा शूरवीर, बड़े भारी धनुष को टङ्कोरता हुआ चला आता है; यह बड़े भारी शरीर वाला अतिकाय नाम का राक्षस है ॥ १६ ॥

योऽसौ नवाकौदितताम्रचक्षुः

आरुह्य घण्टानिनदप्रणादम् ।

गजं खरं गर्जति वै महात्मा

महोदरो नाम स एष वीरः ॥१७॥

यह जो प्रातःकालीन सूर्य के समान लाल लाल नेत्र वाला, घंटा बजाते हुए हाथी पर सवार हो, बड़ा कठोर शब्द करता हुआ चला आता है, यह महाधैर्यवान् महोदर नामक वीर है ॥ १७ ॥

थोऽसौ हयं क्राञ्चनचित्रभाण्डम्

आरुह्य सन्ध्याभ्रगिरिप्रकाशम् ।

प्रासं समुद्यम्य मरीचिनद्धं

पिशाच एयोऽशनितुल्यवेगः ॥१८॥

जो त्रिविध प्रकार के सुवर्ण भूषणों से भूषित, सन्ध्या-
कालीन मेघ अथवा पर्वत के समान ऊँचे घोड़े पर सवार हो,
किरणों की मालरदार प्रास उठाए चञ्चा आता है, इस वज्र के
समान वेगवान वीर का नाम पिशाच है ॥ १८ ॥

यश्चैष शूलं निशितं प्रगृह्य

विद्युत्प्रभं किङ्करवज्रवेगम् ।

वृषेन्द्रमास्थाय गिरिप्रकाशम्

आयाति योऽसौ त्रिशिरा यशस्वी ॥ १९ ॥

जो हाथ में, वज्र से भी अधिक वेगवान और बिजली को
तरह चमचमाता पैना त्रिशूल लिये हुए, पहाड़ के समान ऊँचे
वृषभश्रेष्ठ पर चढ़ा हुआ आ रहा है, यह यशस्वी त्रिशिरा है ॥१९॥

असौ च जीमूतनिकाशरूपः

कुम्भः पृथुव्यूढसुजातवक्षाः ।

समाहितः पन्नगराजकेतुः

वित्फारयन् भाति धनुर्विधुन्वन् ॥२०॥

यह जो मेघ के समान रूपवाला है, जिसकी छार्ती भौंसल,
विशाल और सुन्दर है, तथा जो सावधान होकर नागराज की
ध्वजा फहराता हुआ, तथा धनुष को टङ्कोरता हुआ चला आता
है, कुम्भ है ॥ २० ॥

यश्चैष जाम्बूनदवज्जुष्टं

दीप्तं १सधूमं परिघं प्रगृह्य ।

आयाति रक्षोवलकेतुभूत-

स्त्वसौ निकुम्भोऽद्भुतघोरकर्मा ॥२१॥

यह जो सुवर्ण का बना और हीरा जटित सधूमअग्नि की तरह प्रदीप्त परिघ (लोहे का मुन्दर) लिये हुआ है, राक्षसी सेना का पताका रूप अर्थात् राक्षसी सेना में प्रधान बना हुआ चला आता है, यह अद्भुत रणकर्म करने वाला निकुम्भ है ॥ २१ ॥

यश्चैष चापासिशरौघजुष्टं

पताकिनं पावकदीप्तरूपम् ।

रथं समास्थाय विभात्युदग्रो

नरान्तकोऽसौ नगशृङ्गयोधी ॥२२॥

जो धनुष, तलवार, बाणों के समूह से युक्त, पताका सहित, अग्नि की तरह, चमचमाते रथ पर चढ़ा हुआ, बहुत लंबा दिखलाई पड़ता है, यह नरान्तक है । जब इसे अपने साथ कोई युद्ध करने योग्य नहीं मिलता; तब यह अपनी भुजाओं की खुजली मिटाने को पहाड़ों के शिखरों से लड़ा करता है ॥ २२ ॥

यश्चैष नानाविधघोररूपैः

व्याघ्रोष्ठनागेन्द्रमृगाश्वचक्रैः ।

भूतैर्वृतो भाति विवृतत्तनेत्रैः

सोऽसौ सुराणामपि दर्पहन्ता ॥२३॥

१ सधूमं—सधूममिवस्थितं । (गो०)

यह जो व्याघ्र, ऊँट, हाथी, मृग, घोड़ा आदि विविध प्रकार के भयङ्कर मुखाकृति वाले तथा घूर्णित नेत्रों वाले भूतों को साथ लिये हुए बैठा है तथा जो देवताओं के भी दर्प को दलन करने वाला है, ॥ २३ ॥

यत्रैतदिन्द्रप्रतिमं विभाति

छत्रं सितं सूक्ष्मशलाकमग्र्यम् ।

अत्रप रक्षोधिपतिर्महात्मा

भूतैर्वृत्तो रुद्र इवावभाति ॥२४॥

जिसके ऊपर इन्द्र की तरह सफेद तथा पतली कमानियों का छाता तना हुआ है, वहां राक्षसराज रावण है और वह भूतों से घिरे हुए महादेव जी की तरह शोभित हो रहा है ॥ २४ ॥

असौ किरीटी चलकुण्डलास्यो

नगेन्द्रविन्ध्योपमभीमकायः ।

महेन्द्रवैवस्वतदर्पहन्ता

रक्षोधिपः सूर्य इवावभाति ॥ २५ ॥

जो मुकुट धारण किए हुए है तथा जिसका मुखमण्डल मलमलाते हुए कुण्डलों से अलङ्कृत है, जिसका शरीर हिमालय अथवा विन्ध्याचल की तरह भयङ्कर है और जो इन्द्र तथा यम के अभिमान को भी चूर चूर करने वाला है और जो सूर्य की तरह प्रदीप्त जान पड़ता है; वही राक्षसों का राजा अर्थात् रावण है ॥ २५ ॥

प्रत्युवाच ततो रामो विभीषणमग्निन्दमम् ।

अहो दीप्तोऽ महातेजाः रावणो राक्षसेश्वरः ॥ २६ ॥

१ दीप्तः—कान्तिमान् । (गो०) २ महातेजाः—महाप्रतापः । (गो०)

यह सुन श्रीरामचन्द्र जी ने शत्रुहन्ता विभीषण से कहा, वाह ! सचमुच राक्षसराज रावण, बड़ा कान्तिमान और बड़ा प्रतापी है ॥ २६ ॥

आदित्य इव दुष्प्रेक्षो रश्मिभिर्भाति रावणः ।

* न व्यक्तं लक्ष्मणे ह्यस्य रूपं तेजः समावृतम् ॥ २७ ॥
किरणों से चमकने वाले सूर्य की तरह इसको और कोई नहीं ताक सकता । मारे तेज के रावण का रूप भी स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ता ॥ २७ ॥

देवदानववीराणां वपुर्नैवंविधं भवेत् ।

यादृशं राक्षसेन्द्रस्य वपुरेतत्प्रकाशते ॥ २८ ॥

राक्षसराज रावण का जैसा रूप दिखलाई पड़ रहा है, वैसा रूप तो किसी भी शूरवीर देवता अथवा दानव का नहीं है ॥ २८ ॥

सर्वे पर्वतसङ्काशाः सर्वे पर्वतयोधिनः ।

सर्वे दीप्तायुधधरा योधाश्चास्य महौजसः ॥ २९ ॥

इस महाबली के साथ जो योद्धा हैं, वे भी तो सब के सब पर्वत के समान विशाल शरीरधारी पर्वतों से लड़ने वाले तथा चमचमाते आयुध लिये हुए हैं ॥ २९ ॥

भाति राक्षसराजोऽसौ प्रदीप्तैर्भीमविक्रमैः ।

भूतैः परिवृतस्तीक्ष्णैर्देहवद्भिरिवान्तकः ॥ ३० ॥

इस योद्धाओं के बीच राक्षसराज रावण, वैसे ही शोभित हो रहा है; जैसे उग्र एवं प्रशस्त शरीर वाले तथा भूतों से घिरे हुए साक्षात् यमराज ॥ ३० ॥

दिष्ट्याऽयमद्य पापात्मा मम दृष्टिपथं गतः ।

अद्य क्रोधं विमोक्षयामि सीताहरणसम्भवम् ॥ ३१ ॥

मेरे सौभाग्य से यह दुष्टात्मा आज मेरे सामने आ गया है ।
आज मैं सीताहरण का क्रोध इस पर निकालूँगा ॥ ३१ ॥

एवमुक्त्वा ततो रामो धनुरादाय वीर्यवान् ।

लक्ष्मणानुचरस्तस्थौ समुद्र त्त्य शरोत्तमम् ॥ ३२ ॥

यह कह वीर्यवान् श्रीरामचन्द्र जी धनुष ले और अन्ध्रा
बाण निकाल तथा लक्ष्मण को पीछे कर खड़े हो गए ॥ ३२ ॥

ततः स रक्षोधिपतिर्महात्मा

रक्षांसि तान्याह महाबलानि ।

द्वारेषु चर्यागृहगोपुरेषु

मुनिवृतास्तिष्ठत निर्विशङ्काः ॥ ३३ ॥

तदनन्तर महाधैर्यवान् राक्षस ने अपने बड़े बलवान् राजस
को आज्ञा दी कि, तुम लोग रनवास के फाटकों पर, राजमार्ग
पर, विशाल भवनों के द्वारों पर, तथा लद्दा के बाहिरी फाटकों
पर जाकर चैन से निडर हो खड़े हो जाओ ॥ ३३ ॥

इहागतं मां सहितं भवद्भिः

वनौकसश्छिद्रमिदं विदित्वा ।

शून्यां पुरीं दुष्प्रसहां प्रमथ्य

प्रधर्षयेयुः सहसा समेताः ॥ ३४ ॥

नहीं तो यदि कहीं इन चञ्चल दानरों को हम लोगों की यह
कमजोरी मालूम हो गई कि, आप सब लोग मेरे साथ रणभूमि

में चले आए हैं और लङ्कापुरी सूनी पड़ी है, तो ये दुष्प्रवेश्य पुरी में घुस पुरी को ध्वस्त कर डालेंगे ॥ ३४ ॥

विसर्जयित्वा सहितांस्ततस्तान्

गतेषु रक्षःसु यथानियोगम् ।

व्यदारयद्वानरसागरौघं

महाभूषः पूणमिवार्णवौघम् ॥ ३५ ॥

इस प्रकार समझा कर; जब उसने राक्षसों को बिदा कर दिया, तब वह स्वयं वानरों के सागररूपी जल को वैसे ही खलबलाने लगा; जैसे कोई बड़ा भारी मत्स्य महासागर के जल में खलबली पैदा कर देता है ॥ ३५ ॥

तमापतन्तं सहसा समीक्ष्य

दीप्तेषुचापं युधि राक्षसेन्द्रम् ।

महत्समुत्पाटय महीधराग्रं

दुद्राव रक्षोधिपतिं हरीशः ॥ ३६ ॥

रावण को वानरी सेना पर आक्रमण कर, आग के समान तीक्ष्ण बाणों को चलाते देख, कपिराज सुग्रीव पर्वत के एक भारी शिखर को ले उसकी ओर ऋपटे ॥ ३६ ॥

तच्छैलशृङ्गं बहुवृक्षसानुं

प्रगृह्य चिक्षेप निशाचराय ।

तमापतन्तं सहसा समीक्ष्य

विभेद वाणैस्तपनीयपुङ्खैः ॥ ३७ ॥

जब अनेक वृक्षों और शृङ्गों से युक्त उस पर्वतशिखर को सुग्रीव ने रावण के ऊपर फेंका, तब सहसा उसको अपने ऊपर गिरते देख, रावण ने अपने सुवर्ण की फोंक वाले बाणों से चूर चूर कर डाला ॥ ३७ ॥

तस्मिन् प्रवृद्धोत्तमसानुवृक्षे
शृङ्गैर्विकीर्णैः पतिते पृथिव्याम् ।
महाहिकल्पं शरमन्तकाभं
समाददे राजसलोकनाथः ॥ ३८ ॥

जब वह बड़े बड़े वृक्षों और शृङ्गों से युक्त बड़ा भागी पर्वत-शिखर टुक टुक हो कर ज़मीन पर गिर पड़ा; तब राजसराज रावण ने साँप के आकार का, काल के समान एक बाण अपने घनुष पर रखा ॥ ३८ ॥

स तं गृहीत्वाऽनिलतुल्यवेगं
सविस्फुलिङ्गज्वलनप्रकाशम् ।
बाणं महेन्द्राशनितुल्यवेगं
चिक्षेप सुग्रीववधाय रुष्टः ॥ ३९ ॥

रावण ने पवन के तथा इन्द्र के वज्र के समान वेग वाले और चिनगारियाँ निकलते हुए अग्नि की तरह चमचमाते उस बाण को ले और क्रोध कर, सुग्रीव के ऊपर उसका वध करने के लिए छोड़ा ॥ ३९ ॥

स सायको रावणवाहुमुक्तः
शक्राशनिप्रख्यवपुः शिताग्रः ।

सुग्रीवमासाद्य विभेद वेगात्

१गुहेरिता क्रौञ्चमिवोग्रशक्तिः ॥ ४० ॥

रावण के हाथ से छूटे हुए पौने बाण ने इन्द्र के वज्र की तरह दृढ़ सुग्रीव के शरीर को बड़े जोर से वैसे ही वेधा; जैसे स्कन्द ने अपनी शक्ति से क्रौंच पर्वत को वेधा था ॥ ४० ॥

स सायकार्तो विपरीतचेताः

कूजन् पृथिव्यां निपपात वीरः ।

तं प्रेक्ष्य भूमौ पतितं विसंज्ञं

नेदुः प्रहृष्टा युधि यातुधानाः ॥ ४१ ॥

उस बाण के आघात से कपिराज सुग्रीव विकल हो आर्तनाद करते हुए धड़ाम से धरती पर गिर पड़े । उनको धरती पर मूर्छित पड़ा देख, परमप्रसन्न हो राक्षसों की सेना ने गर्जना की ॥ ४१ ॥

ततो गवाक्षो गवयः सुदंष्ट्र-

स्तथर्षभो ज्योतिमुखो *नलश्च ।

शैलान् समुद्यम्य विबृद्धकायाः

प्रदुद्रुवुस्तं प्रति राक्षसेन्द्रम् ॥ ४२ ॥

तब बड़े बड़े शरीर वाले गवाक्ष, गवय, सुदंष्ट्र, ऋभष, ज्योति-मुख, नल, बड़ी बड़ी शिलाएँ ले रावण के ऊपर दौड़े ॥ ४२ ॥

तेषां प्रहारान् स चकार भोगान्

रक्षोधिपो वाणगणैः शिताग्रैः ।

१ गुहः—स्कन्दः । (गो) * पाठान्तरे—नभश्च ।”

तान् वानरेन्द्रानपि वाणजालैः

विभेदं जाम्बूनदचित्रपुङ्खैः ॥ ४३ ॥

किन्तु राज्ञस्य राजा रावण ने उन समस्त फेंकी हुई शिलाओं को पैसे वाणों से टुकड़े टुकड़े कर व्यर्थ कर डाला । तदनन्तर उन वानरों को भी उसने सुवर्ण के पुंखों वाले वाणों से वेध डाला ॥ ४३ ॥

ते वानरेन्द्रास्त्रिदशारिवास्यैः

भिन्ना निपेतुर्भुवि भीमकायाः ।

ततस्तु तद्वानरसैन्यमुग्रं

प्रच्छादयामास स वाणजालैः ॥ ४४ ॥

वे भीमकाय प्रसिद्ध वानर रावण के मारे हुए वाणों से घायल हो धरती पर गिर पड़े । तदनन्तर रावण ने वाणसमूह से समस्त वानरी सेना को ढक दिखा । ४४ ॥

ते वध्यमानाः पतिताः प्रवीरा

नानद्यमाना भयशल्यविद्धाः ।

शाखामृगा रावणसायकार्ता

जग्मुः शरण्यं शरणं स्म रामम् ॥ ४५ ॥

रावण के वाणों की चोट से घायल हो बहुत से प्रसिद्ध वीर वानर धरती पर लोट गए । बहुत से रावण के भय तथा वाणों की चोट के कारण दुःख भरे स्वर से चिल्लाने लगे । रावण के वाणों की चोट से सताए हुए बहुत से वानर शरणागतवत्सल श्रीरामचन्द्र जी के शरण में गए ॥ ४५ ॥

ततो ऽमहात्मा स धनुर्धनुष्मा-

नादाय रामः सहसा जगाम ।

तं लक्ष्मणः प्राञ्जलिरभ्युपेत्य

उवाच वाक्यं परमार्थयुक्तम् ॥ ४६ ॥

तब शरण आए हुए की राक्षा करने वाले, प्रशस्त धनुषधारी अर्थात् धनुष से युद्ध करने में समर्थ, श्रीरामचन्द्र जी धनुष उठा नुरन्त चल दिए । उस समय हाथ जोड़ कर लक्ष्मण जी ने परमार्थ युक्त अर्थात् परम प्रयोजनीय ये वचन कहे ॥ ४६ ॥

काममार्यः सुपर्याप्तो वधायास्य दुरात्मनः ।

विधमिष्याम्यहं नीचमनुजानीहि मां प्रभो ॥ ४७ ॥

हे आर्य ! यद्यपि आप इस पराई स्त्री को हरने वाले पापी को मारने में सर्वदा समर्थ हैं, तथापि हे प्रभो ! इस नीच को तो मैं ही मारूँगा । अतः मुझे ही आज्ञा दीजिए ॥ ४७ ॥

तमव्रवीत् महातेजा रामः सत्यपराक्रमः ।

गच्छ यत्नपरश्चापि भव लक्ष्मण संयुगे ॥ ४८ ॥

लक्ष्मण जी के ये वचन सुन, सत्यपराक्रमी, महातेजस्वी, श्रीरामचन्द्र जी ने कहा कि, हे लक्ष्मण ! जाओ; किन्तु युद्ध में सावधानी से काम करना ॥ ४८ ॥

रावणो हि महावीर्यो रणेऽद्भुतपराक्रमः ।

त्रैलोक्येनापि संक्रुद्धो दुष्प्रसह्यो न संशयः ॥ ४९ ॥

क्योंकि, रावण महाबलवान है और युद्ध में अद्भुत पराक्रम प्रदर्शित करनेवाला है। यदि यह क्रुद्ध हो जाय, तो समस्त तीनों लोक वासी भी इसके पराक्रम को नहीं सन्हाल सकते। यह निस्सन्देह बात है ॥ ४६ ॥

तस्य चिद्द्राणि मार्गस्व स्वचिद्द्राणि च लक्ष्य ।

चक्षुषा धनुषा यत्नाद्रक्षात्मानं समाहितः ॥ ५० ॥

अपने ऊपर उसका वार वचा कर, उसके ऊपर वार करने की ताक में रहना। साथ ही सावधान रह कर धनुष द्वारा यत्नपूर्वक अपनी रक्षा करते रहना ॥ ५० ॥

राघवस्य वचः श्रुत्वा परिष्वज्यामिपूज्य, च ।

अभिवाद्य ततो रामं ययौ सौमित्रिराहवम् ॥ ५१ ॥

श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन और उनके गले लग, एवं उनकी प्रदक्षिणा कर तथा उनको प्रणाम कर, लक्ष्मण जी प्रस्थानित हुए ॥ ५१ ॥

स रावणं वारणहस्तबाहुः

ददर्श दीप्तोद्यतभीमचापम् ।

प्रच्छादयन्तं शरवृष्टिजालै-

स्तान् वानरान् भिन्नविकीर्णदेहान् ॥ ५२ ॥

रणभूमि में जो लक्ष्मण जी ने देखा कि, रावण की भुजाएँ हाथी की सूँड़ की तरह उतार चढ़ाव की हैं। वह चमचमाते भयङ्कर धनुष को हाथ में लिये घायल वानरों के ऊपर बाणों की वर्षा कर उनको तोपे दे रहा है ॥ ५२ ॥

१ अभिपूज्य—प्रदक्षिणीकृत्येत्यर्थः । (गो०)

तमालोक्य महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः ।

निवार्य शरजालानि प्रदुद्राव स रावणम् ॥ ५३ ॥

महातेजस्वी पवननन्दन हनुमान जी उस रावण को देख, तथा उसके चलाए हुए बाणों को हटा, उसके ऊपर दूट पड़े ॥ ५३ ॥

रथं तस्य समासाद्य भुजमुद्यम्य दक्षिणम् ।

त्रासयन् रावणं धीमान् हनुमान् वाक्यमब्रवीत् ॥ ५४ ॥

बुद्धिमान हनुमान जी, रावण के रथ पर चढ़ गए और दाहिना हाथ उठा उसको धमकाते हुए यह वचन बोले ॥ ५४ ॥

देवदानवगन्धर्वैर्यक्षैश्च सह राक्षसैः ।

अवध्यत्वं त्वया प्राप्तं वानरेभ्यस्तु ते भयम् ॥ ५५ ॥

यद्यपि तू देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष और राक्षसों के हाथ से न मारे जाने का वर प्राप्त कर चुका है, तथापि वानरों से तो तुझे अपने मारे जाने का भय बना ही हुआ है ॥ ५५ ॥

एष मे दक्षिणो बाहुः पञ्चशाखः समुद्यतः ।

विधमिष्यति ते देहाद्भ्रूतात्मानं चिरोषितम् ॥ ५६ ॥

देख, पाँच अँगुलियों वाला यह मेरा दाहिना हाथ उठा हुआ है। यह तेरे शरीर में बहुत दिनों से रहने वाले प्राण को बाहिर निकाल देगा ॥ ५६ ॥

श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं रावणो भीमविक्रमः ।

संरक्तनयनः क्रोधादिदं वचनमब्रवीत् ॥ ५७ ॥

भयङ्कर पराक्रमी रावण हनुमान जी के इन वचनों को सुन, मारे क्रोध के लाल लाल नेत्र कर उनसे बोला ॥ ५७ ॥

द्विप्रं प्रहर निःशङ्कं स्थिरां कीर्तिमवाप्नुहि ।

ततस्त्वां ज्ञातविक्रान्तं नाशयिष्यामि वानर ॥ ५८ ॥

हे वानर ! निःशङ्क हो तू मुझ पर वार कर; जिससे चिरस्थायिनी कीर्ति तुझे प्राप्त हो । पीछे से मैं भी तेरा पराक्रम जान, कर तुझे मार डालूँगा ॥ ५८ ॥

रावणस्य वचः श्रुत्वा वायुसूनुर्वचोऽब्रवीत् ।

प्रहृतं हि मया पूर्वमक्षं स्मर सुतं तव ॥ ५९ ॥

रावण के ये वचन सुन, पवननन्दन हनुमान जी ने कहा— मेरा पराक्रम जानने के लिए अपने पुत्र अक्षकुमार के मेरे हाथ से मारे जाने का स्मरण कर ले ॥ ५९ ॥

एवमुक्तो महातेजा रावणो राक्षसेश्वरः ।

आजघानानिलसुतं तलेनोरसि वीर्यवान् ॥ ६० ॥

यह कठोर वचन सुन, महातेजस्वी राक्षसराज रावण ने पवननन्दन हनुमान जी की छाती में एक चपेटा मारा ॥ ६० ॥

स तलाभिहतस्तेन चचाल च मुहुर्मुहुः ।

स्थित्वा मुहूर्तं तेजस्वी स्थैर्यं कृत्वा महामतिः ॥ ६१ ॥

उस तलप्रहार से हनुमान जी वार वार चक्कर खाने लगे । थोड़ी देर बाद तेजस्वी एवं महाबुद्धिमान् हनुमान जी ने सावधान हो कर ॥ ६१ ॥

आजघानामिसंक्रुद्धस्तलेनैवामरद्विपम् ।

ततस्तलेनाभिहतो वानरेण महात्मना ॥ ६२ ॥

उस देवताओं के शत्रु रावण के अत्यन्त कुपित हो एक थप्पड़ जमाया । धैर्यवान् हनुमान जी के थप्पड़ के आघात से ॥ ६२॥

दशग्रीवः समाधूतो यथा भूमिचलेऽचलः ॥

संग्रामे तं तथा दृष्ट्वा रावणं तलताडितम् ॥६३॥

रावण उसी प्रकार चलायमान हो गया, जिस प्रकार पृथिवी के कंपायमान होने पर पहाड़ चलायमान हो जाते हैं । युद्ध में रावण को थप्पड़ से पिटा हुआ देख, ॥ ६३ ॥

ऋषयो वानराः सिद्धा नेदुर्देवाः सहासुरैः ।

अथाश्वास्य महातेजा रावणो वाक्यमब्रवीत् ॥ ६४ ॥

ऋषि, वानर, सिद्ध, देवता, दानव सभी हर्षनाद करने लगे थोड़ी देर बाद सावधान हो महातेजस्वी रावण कहने लगा ॥६४॥

साधु वानर वीर्येण श्लाघनीयोऽसि मे रिपुः ।

रावणेनैवमुक्तस्तु मारुतिर्वाक्यमब्रवीत् ॥ ६५ ॥

हे वानर ! वाह तू मेरा शत्रु होने पर भी, तेरा बलवीर्य प्रशंसनीय है । रावण के इस प्रकार कहने पर, पवननन्दन हनुमान जी बोले ॥ ६५ ॥

धिगस्तु मम वीर्येण यस्त्वं जीवसि रावण ।

सकृत्तु प्रहरेदानीं दुर्वुद्धे किं विकत्थसे ॥ ६६ ॥

अरे रावण ! धिक्कार है मेरे बलवीर्य को, जो तू मेरा थप्पड़ खा कर भी अभी जीवित है । अरे प्रहार के तारतम्य को न जानने वाले दुर्वुद्धे ! तू क्यों वृथा बड़ाई करता है ? अब एक बार फिर तू मेरे ऊपर चोट कर ॥ ६६ ॥

ततस्त्वां मामिका मुष्टिर्नयिष्यति यमक्षयम् ।

ततो मारुतवाक्येन क्रोधस्तस्य तदाऽऽज्वलत् ॥ ६७ ॥

तदनन्तर मेरा यह मूँ का तुम्हे यमराज के पास पहुँचावेगा हनुमान जी के इन जले कटे वचनों को सुन रावण का क्रोध बढ़का ॥ ६७ ॥

संरक्तनयनो यत्नात् मुष्टिमुद्यम्य दक्षिणम् ।

पातयामास वेगेन वानरोरसि वीर्यवान् ॥ ६८ ॥

उस बलवान ने लाल लाल नेत्र कर दहिने हाथ का धूँसा बड़े जोर से हनुमान जी की छाती में मारा ॥ ६८ ॥

हनुमान् वक्षसि व्यूढे? सञ्चचाल पुनः पुनः ।

रविह्वलं तु तदा दृष्ट्वा हनुमन्तं महाबलम् ॥ ६९ ॥

हनुमान जी की विशाल छाती में धूँसे की चोट लगने से वे बार बार हिलने लगे । तब महाबली हनुमान को मूर्च्छित देख ॥ ६९ ॥

रथेनातिरथः शीघ्रं नीलं प्रति समभ्यगात् ।

राक्षसानामधिपतिर्दशग्रीवः प्रतापवान् ॥ ७० ॥

अतिरथ रावण अपना रथ नील के पास ले गया । राक्षसों के अधिपति प्रतापी दशग्रीव रावण ने ॥ ७० ॥

पन्नगप्रतिमैर्भीमैः परमर्मातिभेदिभिः ।

शरैरादीपयामास३ नीलं हरिचमूपतिम् ॥ ७१ ॥

१ व्यूढे—विशाले । (गो०) २ विह्वलं—मूर्च्छितं । (गो०) ३ शरादीपयामास—आसमन्त्राज्ज्वालयाम स । (गो०)

नागों की तरह भयङ्कर और शत्रु के मर्म को वेधने वाले
बाणों से कपिसेनापति नील के समस्त शरीर को दाग डाला
अर्थात् घायल कर दिआ ॥ ७१ ॥

स शरौघसमायस्तो नीलः कपिचमूपतिः ।

शरेणैकेन शैलाग्रं रक्षोधिपतयेऽसृजत् ॥ ७२ ॥

बहुत से बाण लगने पर भी सेनापति नील ने एक हाथ से
एक पर्वतशृङ्ग रावण के ऊपर फेंका ॥ ७२ ॥

हनुमानपि तेजस्वी समाश्रस्तो महामनाः ।

विप्रेक्षमाणो युद्धेऽसुः सरोषमिदमब्रवीत् ॥ ७३ ॥

नीलेन सह संयुक्तं रावणं राक्षसेश्वरम् ।

अन्येन युध्यमानस्य न युक्तमभिधावनम् ॥ ७४ ॥

इतने में उधर महामना हनुमान जी भी सावधान हो गए और
युद्ध करने की इच्छा से रावण को खोजने लगे। जब उन्होंने देखा
कि, राक्षसराज रावण नील के साथ लड़ रहा है, तब क्रुद्ध हो उससे
वे बोले। हे रावण! तू दूसरे के साथ युद्ध कर रहा है, अतः इस
समय तेरे ऊपर आक्रमण करना मुझे उचित नहीं ॥ ७३ ॥ ७४ ॥

रावणोऽपि महातेजास्तच्छृङ्गं सप्तभिः शरैः ।

आजघान सुतीक्ष्णाग्रैस्तद्विकीर्णं पपात ह ॥ ७५ ॥

महातेजस्वी रावण ने भी नील के फेंके पर्वतशृङ्ग को, सात
पैने बाण मार कर, टुकड़े टुकड़े कर दिआ और वह पर्वतशृङ्ग
चूर चूर हो पृथिवी पर गिर पड़ा ॥ ७५ ॥

तद्विकीर्णं गिरेः शृङ्गं दृष्ट्वा हरिचमूपतिः ।

कालाग्निरिव जज्वाल क्रोधेन परवीरहा ॥ ७६ ॥

उस पर्वतशृङ्ग को चूर हुआ देख, शत्रुहन्ता सेनापति नील क्रोध के मारे कालाग्नि की तरह प्रज्वलित हो उठे ॥ ७६ ॥

सोऽश्वकर्षान् धवान् सालांश्चूतांश्चापि सुपुष्पितान् ।
अन्यांश्च विविधान् वृक्षान्नीलश्चिक्षेप संयुगे ॥ ७७ ॥

नील ने फूलों से लदे अश्वकर्ण, ढाक, साल, आम तथा अन्य विविध प्रकार के वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर, रावण के ऊपर फेंका ॥ ७७ ॥

स तान् वृक्षान् समासाद्य प्रतिचिच्छेद रावणः ।
अभ्यवर्षत्सुधोरेण शरवर्षेण पावकिम् ॥ ७८ ॥

रावण ने नील के फेंके उन समस्त वृक्षों को बाणों से काट कर जमीन पर डाल दिया और नील के ऊपर बड़े बड़े भयङ्कर बाणों की वर्षा की ॥ ७८ ॥

अभिवृष्टः शरौघेण मेघेनेव महाचलः ।

ह्रस्वं कृत्वा तदा रूपं ध्वजाग्रं निपपात ह ॥ ७९ ॥

पहाड़ पर जिस प्रकार मेघवृष्टि होती है, उसी प्रकार नील पर बाणों की वर्षा होने पर, नील अपना छोटा रूप बना, रावण के रथ की ध्वजा पर कूद पड़े ॥ ७९ ॥

पावकात्मजमालोक्य ध्वजाग्रं समुपस्थितम् ।

जज्वाल रावणः क्रोधात्ततो नीलो ननाद च ॥ ८० ॥

नील को ध्वजा के ऊपर बैठा हुआ देख, जब रावण क्रोध से जलने लगा, तब नील ने घोर सिंहनाद किया ॥ ८० ॥

ध्वजाग्रे धनुषश्चाग्रे किरीटाग्रे च तं हरिम् ।

लक्ष्मणोऽथ हनूमाश्च दृष्ट्वा रामश्च विस्मिताः ॥ ८१ ॥

कभी रावण की ध्वजा के ऊपर, कभी उसके धनुष के ऊपर और कभी उसके मुकुट के ऊपर नील को कूदते देख, श्रीराम-चन्द्र, लक्ष्मण तथा हनुमान को बड़ा आश्चर्य हुआ ॥ ८१ ॥

“रावणोऽपि महातेजाः कपिलाधवविस्मितः ।

अस्त्रमाहारयामास दीप्तमाग्नेयमद्भुतम् ॥ ८२ ॥

महातेजस्वी रावण भी नील की इस फुर्ती को देख, विस्मित हुआ और उसने नील को मारने के लिए एक चमचमाते अद्भुत बाण को अग्नि के मंत्र से अभिमंत्रित कर, नील के ऊपर छोड़ा ॥ ८२ ॥

ततस्ते चुक्रुशुर्हृष्टा लब्धलक्षाः१ प्लवङ्गमाः ।

नीललाधवसम्भ्रान्तं दृष्ट्वा रावणमाहवे ॥ ८३ ॥

दूसरी ओर वानरगण, नील और रावण के युद्ध में, नील की फुर्ती से रावण को विकल देख और इसे एक आनन्दप्रद कौतुक जान, परम हर्षित हो गर्ज रहे थे ॥ ८३ ॥

वानराणां च नादेन संरब्धो रावणस्तदा ।

सम्भ्रमाविष्टहृदयो न किञ्चित्प्रत्यपद्यत ॥ ८४ ॥

वानरों का हर्षनाद सुन रावण खिसिया गया, पर वह उस समय ऐसा घबड़ाया हुआ था कि, उससे कुछ भी करते धरते न बन पड़ा ॥ ८४ ॥

१ लब्धलक्षाः—लब्धहर्षविषयाः । (गो०)

आग्नेयेनाथ संयुक्तं गृहीत्वा रावणः शरम् ।

ध्वजशीर्षस्थितं नीलमुदैक्षत निशाचरः ॥ ८५ ॥

हाथ में अग्नि के मंत्र से अभिमंत्रित बाण ले और ध्वजा के ऊपर बैठे हुए नील की ओर रावण ने देखा ॥ ८५ ॥

ततोऽब्रवीत् महातेजा रावणो राक्षसेश्वरः ।

कपे लाववयुक्तोऽसि ?मायया परयाऽनया ॥ ८६ ॥

तदनन्तर महातेजस्वी राक्षसराज रावण ने नील से कहा—
अरे वानर ! तू धोखा देने में बड़ा फुर्तीला है ॥ ८६ ॥

जीवितं खलु रक्षस्व यदि शक्तोऽसि वानर ।

तानि तान्यात्मरूपाणि सृजसि त्वमनेकशः ॥ ८७ ॥

किन्तु हे वानर ! यदि तुझमें शक्ति है तो अब अपने प्राण बचा । यद्यपि तू अपने अनेक रूप बना लेता है ॥ ८७ ॥

तथापि त्वां मया छिमुक्तः सायकोऽस्त्रप्रयोजितः ।

जीवितं परिरक्षन्तं जीविताद्भ्रंशयिष्यति ॥ ८८ ॥

तथापि मेरा चलाया हुआ यह अभिमंत्रित बाण, लाख बचाव करने पर भी, तुझे नष्ट कर ही डालेगा ॥ ८८ ॥

एवमुक्त्वा महाबाहु रावणो राक्षसेश्वरः ।

सन्धाय बाणमत्त्रेण चमूपतिमताडयत् ॥ ८९ ॥

महाबाहु राक्षसराज रावण ने यह कह कर मंत्र से अभिमंत्रित कर वह बाण सेनापति नील के ऊपर छोड़ा ॥ ८९ ॥

१ मायया—वञ्चनया । (रा०) * पाठान्तरे—“युक्तः ।”

सांस्त्रयुक्तेन वाणेन नीलो वक्षसि ताडितः ।

निर्दह्यमानः सहसा निपपात महीतले ॥ ६० ॥

वह अभिमंत्रित वाण नील की छाती में लगा । उस अस्त्र के मारे नील का सारा शरीर जल उठा और वे सहसा नीचे धरती पर गिर पड़े ॥ ६० ॥

पितृमाहात्म्यसंयोगादात्मनश्चापि तेजसा ।

जानुभ्यामपतद्भूमौ न च प्राणैर्व्ययुज्यत ॥ ६१ ॥

नील एक तो अग्नि के पुत्र ही थे, दूसरे स्वयं भी बड़े तेजस्वी थे, अतः घुटने के बल जमीन पर गिर कर भी वे निर्जीव नहीं हुए ॥ ६१ ॥

विसंज्ञं वानरं दृष्ट्वा दशग्रीवो रणोत्सुकः ।

रथेनाम्बुदनादेन सौमित्रिमभिदुद्रवे ॥ ६२ ॥

रावण ने नील को मूर्च्छित देख, युद्ध की कामना से, मेघ की तरह गड़गड़ाते हुए रथ को हँकवा, लक्ष्मण पर आक्रमण किया ॥ ६२ ॥

आसाद्य रणमध्ये तु वारयित्वा स्थितो ज्वलन् ।

धनुर्विस्फारयामास कम्पयन्निव मेदिनीम् ॥ ६३ ॥

रणक्षेत्र में पहुँच अपने तेज से प्रदीप्त रावण, वानरों को हटा और अपने धनुष को टङ्कोर पृथिवी को कम्पायमान सा करने लगा ॥ ६३ ॥

तमाह सौमित्रिरदीनसत्त्वो

विस्फारयन्तं धनुरप्रमेयम् ।

अभ्येहि मामेव निशाचरेन्द्र

न वानरांस्त्वं प्रतियोद्धुमर्हः ॥ ६४ ॥

तव प्रबल प्रतापी लक्ष्मण रावण को अपना विशाल धनुष टङ्कोरते देख, उससे बोले—हे राक्षसेन्द्र ! मेरे पास आओ और मुझसे लड़ो, क्योंकि तुम उन वानरों से लड़ने योग्य नहीं हो॥६४॥

स तस्य वाक्यं प्रतिपूर्णघोषं

ज्याशब्दमुग्रं च निशम्य राजा ।

आसाद्य सौमित्रिमत्रस्थितं तं

कोपान्वितो वाक्यमुवाच रक्षः ॥ ६५ ॥

रावण, लक्ष्मण का वचन और घोषपरिपूर्ण उनकी प्रत्यञ्चा का शब्द सुन, समीप खड़े हुए लक्ष्मण जी से रोषयुक्त वचन बोला— ॥ ६५ ॥

दिष्ट्यासि मे राघव दृष्टिमागं

प्राप्तोऽन्तगामी विपरीतबुद्धिः ।

अस्मिन् क्षणे यास्यसि मृत्युदेशं

संसाद्यमानो मम बाणजालैः ॥ ६६ ॥

हे लक्ष्मण ! मरने के समय विपरीत बुद्धि हो जाने के कारण ही तुम सौभाग्यवश मेरे सामने आए हो । अब तुम इसी क्षण मेरे बाणों की चोट से यमपुर सिधारोगे ॥ ६६ ॥

तमाह सौमित्रिरविस्मयानो

गर्जन्तमुद्भृत्तशिताग्रदंष्ट्रम् ।

राजन्न गर्जन्ति महाप्रभावा

विकथसे पापकर्ता वरिष्ठ ॥ ६७ ॥

रावण के इन वचनों को सुन और उनकी वृणवत् भी परवाह न कर, लक्ष्मण जी बोले, हे रावण ! तू पापियों का

वा० रा० यु०—३७

अगुआ है इसीसे तू अपने बड़े बड़े उजले दाँत वाहर निकाल अपना वखान कर रहा है। किन्तु जो वास्तव में प्रतापी लोग होते हैं, वे इस प्रकार गर्जते नहीं ॥ ६७ ॥

जानामि वीर्यं तव राक्षसेन्द्र
बलं प्रतापं च पराक्रमं च ।

अवस्थितोऽहं शरचापपाणिः
आगच्छ किं मोघविकत्थनेन ॥ ६८ ॥

हे राक्षसेन्द्र ! मैं तेरे वीर्य, बल प्रताप और पराक्रम को जानता हूँ। मैं तो धनुष बाण लिये तेरे पास ही तो खड़ा हूँ। आ और मुझसे लड़। व्यर्थ की बक बक करने से लाभ ही क्या है ॥ ६५ ॥

स एवमुक्तः कुपितः ससर्ज
रक्षोऽधिपः सप्त शरान् सुपुङ्गवान् ।

ताँल्लक्ष्मणः काञ्चनचित्रपुङ्खैः
चिच्छेद वाणैर्निशिताग्रधारैः ॥ ६६ ॥

लक्ष्मण की इस फटकार को सुन राक्षसराज रावण ने सात सुन्दर पुङ्ख लगे बाण छोड़े। उन सातों बाणों को लक्ष्मण जी ने सुवर्णभूषित फौक लगे हुए और अत्यन्त पैनी धार वाले बाणों से काट डाला ॥ ६६ ॥

तान् प्रेक्षमाणः सहसा निकृत्तान्
निकृत्तभोगानिव पन्नगेन्द्रान् ।
लङ्केश्वरः क्रोधवशं जगाम
ससर्ज चान्यान्निशितान्पृषत्कान् ॥ १०० ॥

लंकेश्वर रावण ने, अपने बाणों को शरीर कटे सर्पों की तरह सहसा टुकड़े टुकड़े हुए देख, अत्यन्त क्रुद्ध हो, लक्ष्मण जी पर अन्य पैंने वाण छोड़े ॥ १०० ॥

स वाणवर्षं तु वर्षं तीव्रं

रामानुजः कार्मुकसम्प्रयुक्तम् ।

क्षुरार्धचन्द्रोत्तमकर्णिभल्लैः

शरांश्च चिच्छेद न क्षुभे च ॥ १०१ ॥

परन्तु श्री लक्ष्मण जी ने उन पैंने बाणों की वर्षा से विचलित न हो, अपने धनुष पर रख रावण के ऊपर बाणों की वर्षा की और छुरे, अर्द्धचन्द्र, कर्णि और भाले के आकार के बाणों से रावण के छोड़े समस्त बाणों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर डाले ॥ १०१ ॥

स वाणजालान्यथ तानि तानि

मोघानि पश्यंस्त्रिंशारिराजः ।

विसिष्मिये लक्ष्मणलाघवेन

पुनश्च वाणान्निशितान् मुमोच ॥ १०२ ॥

इन्द्रशत्रु राजा रावण अपने अमोघ बाणों को व्यर्थ जाते देख तथा लक्ष्मण जी की फुर्ती देख, बड़ा चकित हुआ और उसने फिर पैंने पैंने वाण ॥ १०२ ॥

स लक्ष्मणश्चाशु शरान्शिताग्रान्

महेन्द्रवज्राशनितुल्यवेगान् ।

सन्धाय चापे ज्वलनप्रकाशान्

ससर्ज रक्षोधिपतेर्वधाय ॥ १०३ ॥

तव लक्ष्मण जी ने भी धनुष को चढ़ा इन्द्र के वज्र के समान
वेगवान् और अग्नि के समान चमचमाते बाण रावण का वध
करने के लिए छोड़े ॥ १०३ ॥

स तान् प्रचिच्छेद हि राक्षसेन्द्रः

छित्त्वा च तांल्लक्ष्मणमाजघान ।

शरेण कालाग्निसमप्रभेण

स्वयंभुदत्तेन ललाटदेशे ॥ १०४ ॥

किन्तु राक्षसराज रावण ने उन समस्त बाणों को काट कर
ब्रह्मप्रदत्त एवं प्रलयाग्नि तुल्य प्रचण्ड बाण लक्ष्मण जी के माथे
में मारा ॥ १०४ ॥

स लक्ष्मणो रावणसायकार्तः

चचाल चापं शिथिलं प्रगृह्य ।

पुनश्च संज्ञां प्रतिलभ्य कृच्छ्रात्

विच्छेद चापं त्रिदशेन्द्रशत्रोः ॥ १०५ ॥

उस बाण के लगने से विचलित हुए, लक्ष्मण जिस हाथ से
धनुष पकड़े थे, वह कुछ ढीला पड़ गया, किन्तु कुछ ही देर
बाद स्वस्थ होकर, उन्होंने इन्द्रशत्रु रावण का धनुष काट
छाला ॥ १०५ ॥

निकृत्तचापं त्रिभिराजघान

वाणैस्तदा दाशरथिः शिताग्रैः ।

स सायकार्तो विचचाल राजा

कृच्छ्राच्च संज्ञां पुनराससाद ॥ १०६ ॥

उसका धनुष काट कर लक्ष्मण जी ने तीन पँने पँने बाण उसके ऐसे मारे, जिनके आघात से विचलित हो वह मूर्च्छित हो गया। फिर वह बड़ी कठिनाई से सचेत हुआ ॥ १०६ ॥

स कृत्तचापः शरताडितश्च

मेदार्र्गात्रो रुधिरावसिक्तः ।

जग्राह शक्तिं समुदग्रशक्तिः

स्वयंभुदत्तां युधि देवशत्रुः ॥ १०७ ॥

धनुष कट जाने और लक्ष्मण जी के छोड़े बाणों के आघात के कारण चर्बी मिले रक्त से उसका सारा शरीर तरबतर हो गया। अन्त में प्राण बचने का अन्य उपाय न देख, उस देव-शत्रु रावण ने, ब्रह्मा की दी हुई, लड़ाई में कभी निष्फल न जाने वाली शक्ति उठाई ॥ १०७ ॥

स तां विधुमानलसन्निकाशां

वित्रासिनीं वानरवाहिनीनाम् ।

चिक्षेप शक्तिं तरसा ज्वलन्तीं

सौमित्रये राक्षसराष्ट्रनाथः ॥ १०८ ॥

राक्षसों के राजा रावण ने, लक्ष्मण जी को लक्ष्य कर, वानरीसेना को भयभीत करने वाली और धूम सहित अग्नि की तरह धप धप कर जलती हुई शक्ति छोड़ी ॥ १०८ ॥

तामापतन्तीं भरतानुजोऽस्त्रैः

जघान वाणैश्च हुताग्निक्ल्पैः ।

तथापि सा तस्य विवेश शक्तिः

। बाह्वन्तरं दाशरथेर्विशालम् ॥ १०९ ॥

उस शक्ति को अपने ऊपर आते देख यद्यपि लक्ष्मण जी ने बहुत से अग्नि के समान बाण चला उसे काट कर गिरा देना चाहा, तथापि वह लक्ष्मण जी की विशाल छाती में लगी ही॥१०६

स शक्तिभाञ्शक्तिसमाहृतः सन्

मुहुः प्रजज्वाल रघुप्रवीरः ।

तं विह्वलन्तं सहसाभ्युपेत्य

जग्राह राजा तरसा भुजाभ्याम् ॥ ११० ॥

तब वे शक्तिमान लक्ष्मण जी उस शक्ति के लगने से घायल हों भूमि पर गिर पड़े । उनको मूर्च्छित हो पृथ्वी पर गिरा देख, रावण झपटा और दोनों भुजाओं में दबा उसने चाहा कि, उनको उठा कर ले जाऊँ ॥ ११० ॥

हिमवान् मन्दरो मेरुस्त्रै लोक्ष्यं वा सहामरैः ।

शक्यं भुजाभ्यामुद्धृतुं न संख्ये भरतानुजः ॥ १११ ॥

परन्तु जो रावण हिमालय, मन्दराचल और सुमेरु पर्वत अथवा देवताओं सहित तीनों लोकों को अपनी भुजाओं में दबा कर उठा सकता था, वह रणक्षेत्र में पड़े लक्ष्मण को न उठा सका ॥ १११ ॥

शक्त्या ब्राह्म्यापि सौमित्रिस्ताडितस्तु स्तनान्तरे ।

विष्णोरचिन्त्यं स्वं भागमात्मानं प्रत्यनुस्मरन् ॥ ११२ ॥

यद्यपि उस काल लक्ष्मण की छाती में ब्रह्मा की दी हुई शक्ति लगी थी, तथापि अपने आपको विष्णु का अचिन्त्य अंश होने का स्मरण कर, वे इतने भारी हो गए थे कि, रावण जैसा बली व्यक्ति भी उनको न उठा सका ॥ ११२ ॥

[टिप्पणी—अचिन्त्य अंश में अभिप्राय “मानवी-कल्पना से परे” है]

ततो दानवदर्पध्नं सौमित्रिं देवकण्टकः ।

तं पीडयित्वा शत्राहुभ्यामप्रभूर्लङ्घनेऽभवत् ॥ ११३ ॥

देवताओं के कण्टक रावण ने, दानवदर्पापहारी लक्ष्मण के दोनों भुजाओं में दबा कर उठाना चाहा; किन्तु वह उठा न सका ॥ ११३ ॥

अथैवं वैष्णवं भागं मानुषं देहमास्थितम् ।

अथ वायुसुतः क्रुद्धो रावणं समभिद्रवत् ॥ ११४ ॥

इसका कारण यही था कि, लक्ष्मण जी विष्णु भगवान के अंशावतार थे और मनुष्यरूप में अवतीर्ण हुए थे। लक्ष्मण को गिरते तथा रावण को उठाने का प्रयत्न करते देख, हनुमान जी बड़े क्रुद्ध हुए और ऋट वहाँ जा पहुँचे जहाँ रावण लक्ष्मण जी को पकड़ कर उठाने का प्रयत्न कर रहा था ॥११४॥

आजधानोरसि क्रुद्धो वज्रकल्पेन मुष्टिना ।

तेन मुष्टिप्रहारेण रावणो राक्षसेश्वरः ॥ ११५ ॥

और पहुँचते ही क्रोध में भर कर वज्र के समान एक मूँका रावण की छाती में मारा। उस मूँके की चोट से राक्षसराज रावण ने ॥ ११५ ॥

जानुभ्यामपतद्भूमौ चचाल च पपात च ।

आस्यैः सनेत्रश्रवणैर्वाम रुधिरं बहु ॥ ११६ ॥

घुटने टैक दिए और घुमरी खाकर भूमि पर गिर पड़ा। उसके मुख, आँखों और कानों से बहुत सा रक्त निकला ॥११६॥

१ अप्रभुः असमर्थः । (गो०) २ लङ्घने—उद्धरणे । (गो०)

विघूर्णमानो निश्चेष्टो रथोपस्थ उपाविशत् ।

विसंज्ञो मूर्च्छितश्चासीन्न च स्थानं समालभत् ॥ ११७ ॥

कुछ देर बाद जब वह उठा तब भी उसको घुमरी आने लगी । वह निश्चेष्ट हो अपने रथ में जा लुढ़क पड़ा । उस समय भी उसे होश नहीं था ; वह मूर्च्छित था । फिर होश में आने पर भी उसे यह ज्ञान न था कि उस समय वह कहाँ है ॥ ११७ ॥

विसंज्ञं रावणं दृष्ट्वा समरे भीमविक्रमम् ।

ऋषयो वानराः सर्वे नेदुर्देवाः सवासवाः ॥ ११८ ॥

भयङ्कर विक्रमवान् रावण को युद्ध में मूर्च्छित देख, ऋषि, वानर और इन्द्र सहित समस्त देवतागण हर्षनाद करने लगे ॥ ११८ ॥

हनुमानपि तेजस्वी लक्ष्मणं रावणार्दितम् ।

अनयद्राघवाभ्याशं बाहुभ्यां परिगृह्य तम् ॥ ११९ ॥

उधर तेजस्वी हनुमान जी रावण द्वारा घायल किए गए लक्ष्मण को, अपनी दोनों भुजाओं में दबा श्रीरामचन्द्र जी के पास ले आये ॥ ११९ ॥

वायुसूनोः सुहृत्त्वेन भक्त्या परमया च सः ।

शत्रूणामप्रकम्प्योऽपि लघुत्वमगमत्कपेः ॥ १२० ॥

यद्यपि लक्ष्मण जी को शत्रु रावण तिल भर भी नहीं डुला सका तथापि हनुमान जी के सौहार्द्र और अपने में भक्ति का बिचार कर, हनुमान जी के लिए लक्ष्मण जी हल्के हो गये थे ॥ १२० ॥

तं समुत्सृज्य सा शक्तिः सौमित्रिं यधि दुर्जयम् ।

रावणस्य रथे तस्मिन् स्थानं पुनरुपागता ॥ १२१ ॥

समर में दुर्जेय लक्ष्मण को त्याग वह शक्ति फिर रावण के रथ में जा पहुँची ॥ १२१ ॥

१ आश्वस्तश्च २ विशल्यश्च लक्ष्मणः शत्रुसूदनः ।

३ विष्णोर्भागममीमांस्यमात्मानं प्रत्यनुस्मरन् ॥ १२२ ॥

शत्रुहन्ता लक्ष्मण जी अपने को अचिन्त्य विष्णु भगवान का अंश समझ सचेत हुए । उनकी छाती का घाव पुर गया ॥ १२२ ॥

रावणोऽपि महातेजाः प्राप्य संज्ञां महाहवे ।

आददे निशितान् बाणाञ्जग्राह च महद्बलुः ॥ १२३ ॥

महातेजस्वा रावण ने भी उस महायुद्ध में सचेत हो फिर अपना विशाल घनुष उठाया और पँने पँने बाण छोड़े ॥ १२३ ॥

निपातितमहावीरां द्रवन्ती वानरीं चमूम् ।

राघवस्तु रणे दृष्ट्वा रावणं समभिद्रवत् ॥ १२४ ॥

रावण के हाथ से अनेक वीर वानरों का मारा जाना तथा वानरी सेना को भागते देख, श्रीरामचन्द्र जी ने रावण पर आक्रमण किया ॥ १२४ ॥

अथैनमुपसंगम्य हनुमान् वाक्यमब्रवीत् ।

मम पृष्ठं समारुह्य राक्षसं शास्तुमर्हसि ॥ १२५ ॥

श्रीरामचन्द्र जी को रावण पर आक्रमण करते देख, हनुमान जी ने उनके समीप जा कर प्रार्थना की कि, आप मेरी पीठ पर वैसे ही सवार होकर रावण का वध कीजिए ॥ १२५ ॥

१ आश्वस्तः—लब्धसंज्ञः (गो०) २ विशल्यः—प्रसूतवन्नुत्तः । (गो०) ३ अमीमांस्य—अचिन्त्यम् । (गो०)

विष्णुर्यथा गरुत्मन्तं बलवन्तं समाहितः ।

तच्छ्रुत्वा राघवो वाक्यं वायुपुत्रेण भाषितम् ॥ १२६ ॥

आरुरोह महाशूरो बलवन्तं महाकपिम् ।

रथस्थं रावणं संख्ये ददर्श मनुजाधिपः ॥ १२७ ॥

जैसे विष्णु भगवान गरुड़ की पीठ पर सवार हो दैत्य से लड़े थे । हनुमान जी के कहे हुए इन वचनों को सुन, बड़े शूरवीर श्रीरामचन्द्र जी महाबलवान हनुमान जी की पीठ पर सवार हो गए । नरेन्द्र श्रीरामचन्द्र जी ने समरभूमि में रावण को रथ में बैठा हुआ देखा ॥ १२६ ॥ १२७ ॥

तमालोत्क्रय महातेजाः प्रदुद्राव स राघवः ।

वैरोचनिमिव क्रुद्धो विष्णुरभ्युद्यतायुधः ॥ १२८ ॥

उसे देख ने उस पर जैसे ही लपके जैसे विष्णु भगवान शस्त्र उठा बलि पर लपके थे ॥ १२८ ॥

ज्याशब्दमकरोत्तीव्रं वज्रनिष्पेषनिःस्वनम् ।

गिरा गम्भीरया रामो राक्षसेन्द्रमुवाच ह ॥ १२९ ॥

वहाँ जा उन्होंने अपने धनुष के रोदे का वज्र के समान भयङ्कर शब्द किया । फिर गम्भीर वाणी से श्रीरामचन्द्र जी ने राक्षसराज से कहा ॥ १२९ ॥

तिष्ठ तिष्ठ मम त्वं हि कृत्वा विप्रियमीदृशम् ।

क नु राक्षसशार्दूल गतो मोक्षमवाप्स्यसि ॥ १३० ॥

अरे राक्षसशार्दूल ! खड़ा रह ! खड़ा रह !! तू इस प्रकार मेरा अप्रिय कार्य कर अथवा मुझे चिढ़ा कर, कहाँ जा कर, मुझसे बच सकता है ॥ १३० ॥

यदीन्द्रवैवस्वतभास्करान् वा

स्वयंभुवैश्वानरशङ्करान् वा ।

गमिष्यसि त्वं दश वा दिशोऽथवा

तथापि मे नाद्य गतो विमोक्ष्यसे ॥ १३१ ॥

यदि तू इन्द्र, यम, सूर्य, शिव, अग्नि और ब्रह्मा के भी शरण में जायगा या दसों दिशाओं में भी भाग कर जायगा, तो भी तू मुझसे नहीं बच सकता ॥ १३१ ॥

यश्चैत्र शक्त्याभिहतस्त्वयाऽद्य

इच्छन् विषादं सहसाम्युपेतः ।

स एव रक्षोगणराजमृत्युः

सपुत्रपौत्रस्य तवाद्य युद्धे ॥ १३२ ॥

जिनको (लक्ष्मण को तूने आज) शक्ति से मार मुझे जो दुःख दिआ है, उसको शान्त करने के लिये, मैं तेरे तथा तेरे पुत्र पौत्रों के मारने की प्रतिज्ञा कर, आज समरभूमि में आया हूँ ॥१३२॥

एतेन चाप्यद्भुतदर्शनानि

शरैर्जनस्थानकृतालयानि ।

चतुर्दशान्यात्तवरायुधानि

रक्षस्तदहस्त्राणि निपूदितानि ॥ १३३ ॥

मैंने ही अपने बाणों से जनस्थानवासी श्रेष्ठ अस्त्रधारी धारण किए हुए, विलक्षण मृत शस्त्र के चौदह हजार राक्षसों को मार गिराया था ॥ १३३ ॥

राघवस्य वचः श्रुत्वा राक्षसेन्द्रो महाकपिम् ।

वायुपुत्रं महावीर्यं वहन्तं राघवं रणे ।

आजघान शरैस्तीक्ष्णैः कालानलशिखोपमैः ॥१३४॥

श्रीरामचन्द्र जी के इन वचनों को सुन राक्षसराज रावण ने कपिश्रेष्ठ महाबलवान पवननन्दन के, जो समरभूमि में श्रीरामचन्द्र जी को अपनी पीठ पर चढ़ाए हुए थे (हनुमान जी के घूँसे के आघात को स्मरण कर) कालाग्नि के समान पैने पैने बाण मारे ॥ १३४ ॥

राक्षसेनाहवे तस्य ताडितस्यापि सायकैः ।

स्वभावतेजोयुक्तस्य भूयस्तेजोऽभ्यवर्धत ॥ १३५ ॥

इस लड़ाई में रावण के छोड़े बाण हनुमान जी के लगे, किन्तु स्वभाव से तेजस्वी होने के कारण उनका तेज और भी अधिक बढ़ा ॥१३५॥

ततो रामो महातेजा रावणेन कृतव्रणम् ।

दृष्ट्वा प्लवगशार्दूलं कोपस्य वशमेयिवान् ॥ १३६ ॥

तब महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र, कपिश्रेष्ठ हनुमान जी के शरीर में रावण के किए हुए घावों को देख, अत्यन्त कुपित हुए ॥१३६॥

तस्याभिचङ्कम्य रथं सचक्रं

साश्वेध्वजच्छत्रमहापताकम् ।

ससारथिं साशनिशूलखड्गं

रामः प्रविच्छेद शरैः सुपुङ्खैः ॥ १३७ ॥

और सुन्दर फर वाले बाणों से रावण के रथ के पहिये, ध्वजा, छत्र, बड़ी पताका, बज्र, शूल, तलवार के टूंक टूंक कर डाले और उसके रथ को घोड़ों तथा सारथि को मार डाला ॥१३७॥

अथेन्द्रशत्रुं तरसा जघान
बाणेन वज्राशनिसन्निभेन ।

भुजान्तरे व्यूढसुजातरूपे
वज्रेण मेरुं भगवानिवेन्द्रः ॥ १३८ ॥

जैसे बलवान इन्द्र ने सुमेरु पर्वत को चूर्ण कर डाला था;
वैसे ही वज्र के समान बाण को श्रीरामचन्द्र जी ने रावण की
सुन्दर विशाल छाती में मारा ॥ १३८ ॥

यो वज्रपाताशनिसन्निपातन्
न चुक्षुभे नापि चचाल राजा ।

स रामवाणामिहतो भृशार्तः
चचाल चापं च मुमोच वीरः ॥ १३९ ॥

जो वीर रावण बड़े बड़े वज्रों के आघात से कभी न तो
घबड़ाया था और न विचलित हुआ था, वही आज श्रीरामचन्द्र
के बाण की चोट से अत्यन्त पीड़ित हो, विचलित हो गया और
उसके हाथ से धनुष भी गिर पड़ा ॥ १३९ ॥

तं विह्वलन्तं प्रसमीक्ष्य रामः
समाददे दीप्तमथार्धचन्द्रम् ।

तेनार्कवर्णं सहसा किरीटं
चिच्छेद रक्षोधिपतेर्महात्मा ॥ १४० ॥

जब श्रीरामचन्द्र जी ने राक्षसराज रावण को मूर्च्छित देखा,
तब उन्होंने चमचमाता एक अर्धचन्द्राकार बाण छोड़, उसके
सूर्य के समान चमचमाते मुकुट को काट गिराया ॥१४०॥

तं निविषाशीविषसन्निकाशं

शान्तार्चिषं सूर्यमिवाप्रकाशम् ।

गतश्रियं कृत्तकिरीटकूटम्

उवाच रामो युधि राक्षसेन्द्रम् ॥ १४१ ॥

उस समय रावण की दशा ठीक वैसी ही थी जैसी विषहीन सर्प की अथवा शान्त हुई किरणों से युक्त प्रकाशरहित सूर्य की होती है। उस समय वह कान्तिहीन हो गया था। उसके समस्त किरीट कट गए थे। ऐसे रावण से समरभूमि में श्रीरामचन्द्र जी बोले ॥ १४१ ॥

कृतं त्वया कर्म महत्सुभीमं

हतप्रवीरश्च कृतस्त्वयाहम् ।

तस्मात्परिश्रान्त इव व्यवस्य

न त्वां शरैर्मृत्युवशं नयामि ॥ १४२ ॥

देख तूने मेरे प्रधान वीरों को मार बड़ा भयङ्कर काम किया है। इस समय मैं तुम्हें थका हुआ जान, अपने बाणों से तुम्हें जान से नहीं मारता ॥ १४२ ॥

गच्छानुजानामि शरणादितस्त्वं

प्रविश्य रात्रिचरराजलङ्काम् ।

आश्वास्य निर्याहि रथी च धन्वी

तदा बलं द्रक्ष्यसि मे रथस्थः ॥ १४३ ॥

१ शरणादित—युद्धे श्रान्तः । (गो०)

अब तू चला जा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि, तू लड़ते लड़ते श्रान्त हो गया है। हे निशाचर ! अब तू लङ्का में जाकर अपनी थकावट दूर कर और दूसरे रथ में बैठ तथा दूसरा धनुष ले कर आ जा। तब मेरा बल देखना ॥ १४३ ॥

स एवमुक्तो हतदर्पहर्षो

निकृत्तचापः स हताश्वसूतः ।

शरार्दितः कृत्तमहाकिरीटो

विवेश लङ्कां सहसा स राजा ॥ १४४ ॥

इस प्रकार श्रीराम जी द्वारा दुत्कारा हुआ रावण तुरन्त लङ्का में चला गया। श्रीराम जी ने उसका धनुष तोड़ डाला था। उसके रथ के घोड़े व उसके सारथी को मार डाला था। उसके मुकुट को काट कर गिरा दिया था। वह स्वयं भी बाणों की चोट से विकल हो रहा था। उसका दर्प और हर्ष नष्ट हो चुका था ॥ १४४ ॥

तस्मिन् प्रविष्टे रजनीचरेन्द्रे

महाबले दानवदेवशत्रौ ।

हरीन् विशल्यान् सह लक्ष्मणेन

चकार रामः परमाहवाग्रे ॥ १४५ ॥

देवता और दानवों का शत्रु महाबली राक्षसराज रावण जब लङ्का में घुस गया, तब श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण जी के तथा उन समस्त वानरों के, जो समरभूमि में घायल हुए पड़े थे, लगे हुए बाण निकाल डाले और औषधोपचार से सब की व्यथा दूर की ॥ १४५ ॥

तस्मिन् प्रभिन्ने? त्रिदशेन्द्रशत्रौ
सुरासुरा भूतगणा दिशश्चर ।

ससागराः सर्षिमहोरगाश्च

तथैव भूम्यम्बुचराश्च हृष्टाः ॥ १४६ ॥


इति एकोनषष्टितमः सर्गः ॥

इन्द्रशत्रु रावण को रण में इस प्रकार पराजित हुआ देख, देवता, दानव, भूत, दिक्पाल, समुद्रवासी, ऋषि, महोरग तथा पृथिवीचारी एवं जलचारी समस्त जीवधारी प्रसन्न हुए ॥ १४६ ॥

युद्धकाण्ड का उनसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ।



षष्टिमः सर्गः



पुरीं लङ्कां रामवाणभयादितः ।

भग्नदर्पस्तदा राजा बभूव प्रव्यथितेन्द्रियः ॥ १ ॥

रावण लङ्का में चला गया, किन्तु वहाँ श्रीरामचन्द्र जी के वाणों के भय से वह दुःखी हुआ । उसका गर्व दूर हो गया और उसका मन बहुत दुःखी हुआ ॥ १ ॥

१ प्रभिन्ने—पराजिते । (गो०) २ दिशः—दिक्पालाः । (गो०)

३ सागराः—सागरवासिनः । (गो०) ४ अम्बुचराः—सागरभिन्न अम्बुचराः । (गो०) ५ व्यथितेन्द्रियः—दुःखितमनस्कः । (गो०)

मातङ्ग इव सिंहेन गरुडेनेव पन्नगः ।

अभिभूतोऽभवद्राजा रावणेण महात्मना ॥ २ ॥

जिस तरह सिंह से हाथी और गरुड़ से साँप पीड़ित हो विकल होता है, उसी प्रकार महाबलवान श्रीरामचन्द्र जी से पराजित होने पर रावण विकल हुआ ॥ २ ॥

१ब्रह्मदण्डप्रकाशानां विद्युत्सदृशवर्चसाम् ।

स्मरन् रावववाणांनां विव्यथे राक्षसेश्वरः ॥ ३ ॥

वशिष्ठ जी के ब्रह्मदण्ड के समान समस्त अर्धशस्त्रों को प्रसने वाले और विजुली की तरह चमचमाते वाणों को स्मरण कर, राक्षसेश्वर रावण व्यथित हो रहा था ॥ ३ ॥

स काञ्चनमयं दिव्यमाश्रित्य परमासनम् ।

विप्रेक्षमाणो रक्षांसि रावणो वाक्यमब्रवीत् ॥ ४ ॥

रावण सोने के बड़िया सिंहासन पर बैठ और राक्षसों की ओर निहार कर कहने लगा ॥ ४ ॥

सर्वं तत्खलु मे मोघं यत्तप्तं परमं तपः ।

यत्समानो महेन्द्रेण मानुपेणास्मि निर्जितः ॥ ५ ॥

देखो मैंने जो तप किया था वह सब आज निश्चय ही व्यर्थ हो गया । क्योंकि इन्द्र के तुल्य सुभ्र पराक्रमी को एक मनुष्य ने हरा दिया ॥ ५ ॥

इदं तद् ब्रह्मणो घोरं वाक्यं मामभ्युपस्थितम् ।

मानुपेभ्यो विजानीहि भयं त्वमिति तत्तथा ॥ ६ ॥

१ ब्रह्मदण्ड—सर्वाल्लनिगरणक्षमो वसिष्ठदण्डो वा ब्रह्मास्त्रं वा । (गो०)

ब्रह्मा का यह भयङ्कर कथन कि, तुम्हें मनुष्यों से भय होगा—
आज मेरे सामने उपस्थित है ॥ ६ ॥

देवदानवगन्धर्वैर्यक्षराक्षसपन्नगैः ।

अवधत्त्वं मया प्राप्तं मानुषेभ्यो न याचितम् ॥ ७ ॥

हा ! मैंने ब्रह्मा जी से देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस,
पन्नग द्वारा न मारे जानें का वरदान तो माँगा; किन्तु मनुष्यों
द्वारा न मारे जाने का वर न माँगा ॥ ७ ॥

तमिमं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम् ।

इक्ष्वाकुकुलनाथेन अनरण्येन यत्पुरा ॥ ८ ॥

अतः दशरथ के इस पुत्र को मैं वही मनुष्य समझता हूँ
जिसके विषय में इक्ष्वाकुकुल सम्भूत अनरण्य ने मुझे शाप
दिआ था अथवा मुझसे भविष्यद्वाणी कही थी ॥ ८ ॥

उत्पत्स्यते हि मद्रंशे पुरुषो राक्षसाधम ।

यस्त्वां सपुत्रं सामात्यं सवल्लं साश्वसारथिम् ॥ ९ ॥

निहनिष्यति सग्रामे त्वां कुलाधम दुर्मते ।

शप्तोऽहं वेदवत्या च यदा सा धर्षिता पुरा ॥ १० ॥

उन्होंने कहा था कि, हे राक्षसाधम ! मेरे वंश में एक ऐसा
पुरुष उत्पन्न होगा, जो तुम्हें कुलाधम दुष्ट को, तेरे पुत्रों को, मंत्रियों
को, सैनिकों को और अश्वों सहित तेरे सारथी को युद्ध में
मारेगा । मैंने जब बरजोरी वेदवती को पकड़ा था (अर्थात्
उसके साथ बलात्कार किया था) तब उसने भी मुझे शाप
दिआ था ॥ ९ ॥ १० ॥

सेयं सीता महाभागा जाता जनकनन्दिनी ।

उमा नन्दीश्वरश्चापि रम्भा वरुणकन्यका ॥ ११ ॥

जान पड़ता है वही वेदवती अब यह महाभागा सीता के रूप में जन्मी है। इसके अतिरिक्त उमा, नन्दीश्वर, रम्भा और वरुण की कन्या (युञ्जिक्स्थली) ने ॥ ११ ॥

यथोक्तास्तपसा प्राप्तं न मिथ्या ऋषिभाषितम् ।

एतदेवाभ्युपागम्यः यत्नं कर्तुमिहार्हथ ॥ १२ ॥

तपप्रभाव से जो कुछ कहा था वह मेरे सामने है। भला ऋषियों का कथन भी कहीं मिथ्या हो सकता है। अब तुम लोग यह सब जान कर शत्रु को पराजित करने के लिए उचित उपाय करो ॥ १२ ॥

राक्षसाश्चापि तिष्ठन्तु चर्यागोपुरमूर्धसु ।

स चाप्रतिमगम्भीरो देवदानवदर्पहा ॥ १३ ॥

वह उपाय यह कि, प्रथम तो गोपुरों की वातन के उन रास्तों के ऊपर, जो पहरेदार सैनिकों के घूमने के लिए बने हुए हैं तथा नगरों के बाहिर जाने वाले फाटकों के ऊपर राक्षस पहरा दें। फिर प्रतुलित गभीरतायुक्त और देवदानवों के दर्प को दूर करने वाले ॥ १३ ॥

ब्रह्मशापाभिभूतस्तु कुम्भकर्णो विवोध्यताम् ।

स पराजितमात्मानं प्रहस्तं च निपृदितम् ॥ १४ ॥

ज्ञात्वा रक्षोबलं भीममादिदेश महाबलः ।

द्वारेषु यत्नः क्रियतां प्राकाश्चाधिरुह्यताम् ॥ १५ ॥

कुम्भकर्ण को, जो ब्रह्मा जी के शाप से सो रहा है, जगाना चाहिए। महाबली रावण ने अपनी पराजय और प्रहस्त का

१ अभ्युपागम्य—ज्ञात्वा । (गो०) २ चर्याःगोपुरपार्श्वत्यमटसं-
चारप्रदेशः । (गो०)

मारा जाना देख कर ही भयङ्करी राक्षसी सेना को आज्ञा दी कि,
(वानर नगर में न घुस आवें) अतः राक्षस, नगर के द्वारों पर
पहिरा दें और परकोटों की दीवारों पर चढ़ कर नगरी की रक्षा
करें ॥ १४ ॥

निद्रावशसमाविष्टः कुम्भकर्णो विवोध्यताम् ।

सुखं स्वपिति निश्चिन्तः कामोपहतचेतनः ॥ १६ ॥

गहरी नींद में पड़े सोते हुए कुम्भकर्ण को जगाओ । क्योंकि
काम के वशवर्ती होने के कारण उसकी बुद्धि मारी गई है,
इसीसे वह मज्जे में वेखटके सोया करता है ॥ १६ ॥

नव पट् सप्त चाष्टौ च मासान् स्वपिति राक्षसः ।

मन्त्रयित्वा प्रसुप्तोऽयमितस्तु नवमेऽहनि ॥ १७ ॥

सो भी एक दो दिन नहीं, कभी नौ, कभी छः, कभी सात और
कभी आठ महीने तक वह पड़ा सोया ही करता है । अन्तिम बार
वह मुझसे परामर्श कर नौ दिन हुए, तब जा कर सोया है ॥ १७ ॥

तं तु बोधयत् क्षिप्रं कुम्भकर्णं महाबलम् ।

स तु संख्ये महाबाहुः क्रकुदः सर्वरक्षसाम् ॥ १८ ॥

उस महाबली कुम्भकर्ण को शीघ्र जगाओ । वह महाबलवान
युद्ध करने में सब राक्षसों से श्रेष्ठ है ॥ १८ ॥

वानरान् राजपुत्रौ च क्षिप्रमेव वधिष्यति ।

एष केतुः परः संख्ये मुख्यो वै सर्वरक्षसाम् ॥ १९ ॥

१ परःकेतुः—केतुवत् सर्वोन्नतः भविष्यतीति शेष । (शि०) परकेतुः
अतिप्रकाशवीर्यः इत्यर्थः (रा०)

वह शीघ्र ही दोनों राजकुमारों को और समस्त वानरों को मार डालेगा । वह सब राजसों में मुख्य है और युद्धक्षेत्र में वह झंडे की तरह सब से ऊँचा देख पड़ेगा ॥ १९ ॥

कुम्भकर्णः सदा शेते मूढो ग्राम्यसुखे रतः ।

रामेण हि निरस्तस्य संग्रामेऽस्मिन् सुदारुणे ॥ २० ॥

किन्तु मूढ़ कुम्भकर्ण ग्राम्यसुख (छो पुत्रादिकों के सुख) में अनुरागी रह कर सदा सोया ही करता है । इस दारुण संग्राम में मैं जो राम से हार गया हूँ ॥ २० ॥

भविष्यति न मे शोकः कुम्भकर्णे विवोधिते ।

किं करिष्याम्यहं तेन शक्रतुल्यवलेन हि ॥ २१ ॥

ईदृशे व्यसने प्राप्तो यो न साहाय कल्पते ।

ते तु तद्वचनं श्रुत्वा राजसेन्द्रस्य राज्ञसाः ॥ २२ ॥

सो जब कुम्भकर्ण जागेगा तब इस हार का मेरा शोक दूर हो जायगा । यदि ऐसी आफत विपत्ति में भी इन्द्र के समान पराक्रमी कुम्भकर्ण मेरी कुछ भी सहायता न करेगा; तो मैं उसे लेकर क्या करूँगा ? राजसराज रावण के इन वचनों को सुन वे राजस ॥ २१ ॥ २२ ॥

जग्मुः परमसम्भ्रान्ताः कुम्भकर्णनिवेशनम् ।

ते रावणसमादिष्टा मांसशोणितभोजनाः ॥ २३ ॥

गन्धमाल्यांस्तथा भक्ष्यानादाय सहसा ययुः ।

र्ता प्रविश्य महाद्वारां सर्वतो योजनायताम् ॥ २४ ॥

इस विचार से कि, हम क्यों कर कुसमय में कुम्भकर्ण को जगावें, विकल होते हुए, कुम्भकर्ण के घर को गए। वे रक्त-माँस-भोजी राक्षस, रावण की आज्ञा के अनुसार कुम्भकर्ण के लिये सुगन्धित पुष्पों की फूल मालाएँ तथा बहुत सी खाने की वस्तुएँ अपने साथ ले तुरन्त चल दिए। वे कुम्भकर्ण की गुफा में घुस गए। गुफा का द्वार बड़ा ऊँचा था और वह योजन भर लंबी चौड़ी थी ॥ २३ ॥ २४ ॥

कुम्भकर्णगुहां रम्यां सर्वगन्धप्रवाहिनीम् ।

कुम्भकर्णस्य निःश्वासादवधूता महाबलाः ॥ २५ ॥

कुम्भकर्ण की गुफा के भीतर फूलों की सुगन्धि आ रही थी और वह बड़ी रमणीक थी। किन्तु कुम्भकर्ण ऐसे जोर से साँस खींचता और छोड़ता था कि वे महाबली राक्षस उसके भीतर घुस नहीं पाते थे ॥ २५ ॥

प्रतिष्ठमानः कृच्छ्रेण यत्नात्प्रविशिशुर्गुहाम् ।

तां प्रविश्य गुहां रम्यां शुभां काञ्चनकुट्टिमाम् ॥ २६ ॥

बड़ी कठिनता से गुफा में वे ठड़े रह सके और बड़ा प्रयत्न करने पर उसके भीतर जा सके। उस रमणीक गुफा का फर्श सोने का बना हुआ था ॥ २६ ॥

ददृशुर्नैऋतव्याघ्रं शयानं भीमदर्शनम् ।

ते तु तं विकृतं सुप्तं विकीर्णमिव पर्वतम् ॥ २७ ॥

उन राक्षसों ने देखा कि भयङ्कर सूरत शकल का राक्षसव्याघ्र अर्थात् कुम्भकर्ण पड़ा सो रहा है। उन्होंने उसे एक गिरे पहाड़ की तरह बुरी तरह सोते हुए पाया ॥ २७ ॥

कुम्भकर्णं महानिद्रं सहिताः प्रत्यबोधयन् ।

ऊर्ध्वरोमाञ्चिततनुं श्वसन्तमिव पन्नगम् ॥ २८ ॥

तब उन सब राक्षसों ने मिल कर प्रगाढ़ निद्रा में सोते हुए कुम्भकर्ण को जगाया । उस समय कुम्भकर्ण के सब रोंगटे खड़े थे और वह सर्प की तरह फुंसकारों छोड़ रहा था ॥ २८ ॥

त्रासयन्तं महाश्वसैः शयानं भीमदर्शनम् ।

भीमनासापुटं तं तु पातालविपुलाननम् ॥ २९ ॥

भयङ्कर सूरतवाला और सोता हुआ कुम्भकर्ण अपनी इन बी लंबी साँसों से उन राक्षसों को त्रस्त कर रहा था । उसकी नाक के दोनों छिद्र बड़े भयङ्कर थे और मुख तो पाताल की तरह बड़ा जान पड़ता था ॥ २९ ॥

शय्यायां न्यस्तसर्वाङ्गं मेदोरुधिरगन्धिनम् ।

काञ्चनाङ्गदनद्वाङ्गं किरीटिनमरिन्दमम् ॥ ३० ॥

वह विद्यौने पर लेटा हुआ था और वहाँ चर्बी लोहू की दुर्गन्धि आ रही थी । उसकी भुजाओं पर दो बाजूबन्द बँधे ए थे । शत्रु हन्ता कुम्भकर्ण सिर पर किरीट धारण किए हुए था ॥ ३० ॥

ददृशुनै ऋतव्याघ्रं कुम्भकर्णं महाबलम् ।

ततश्चक्रुमहात्मानः कुम्भकर्णाग्रतस्तदा ॥ ३१ ॥

मांसानां मेरुसङ्काशं राशिं परमतर्पणम् ।

मृगाणां महिषाणां च वराहार्णां च सञ्चयान् ॥ ३२ ॥

उन राक्षसों ने महाबली राक्षसव्याघ्र कुम्भकर्ण का बड़े बड़े मृगा, महिष, वराह आदि सञ्चयान् देखी, तदनन्तर उन लोगों ने कुम्भकर्ण के समीप, अत्यन्त तृप्त-

कर पाँस के पहाड की तरह एक ऊँचा ढेर लगा दिआ । (मरे हुए) मृगों, भैंसों और सुअरों के ढेर लगाए गए ॥ ३१ ॥ ३२॥

चक्रुनै ऋतशादूला राशिमन्नस्य चाद्भुतम् ।

ततः शोणितकुम्भांश्च मद्यानि विविधानि च ॥ ३३ ॥

फिर उन राक्षसश्रेणों ने अन्न का विस्मयकारी एक बड़ा ढेर लगा दिआ । फिर रक्त से भरे बहृत से कलसे तथा विविध प्रकार की मदिराएँ ॥ ३३ ॥

पुरस्तात्कुम्भकर्णस्य चक्रुस्त्रिदशशत्रवः ।

लिलिपुश्च परार्ध्येन चन्दनेन परन्तपम् ॥ ३४ ॥

उन राक्षसा ने कुम्भकर्ण के सामने (पास) रख दीं । फिर उत्तम सुगन्धित चन्दन से उसका शरीर पोता गया ॥ ३४ ॥

दिव्यैराच्छादयामासुर्मान्यैर्गन्धैः सुगन्धिभिः ।

धूपं सुगन्धं ससृजुस्तुष्टुवुश्च परन्तपम् ॥ ३५ ॥

अच्छी अच्छी सुगन्धित पुष्पों की मालाएँ उसे पहनाई गईं तथा सुगन्धित द्रव्य उसे सुँघाए गए । राक्षस उस शत्रुहन्ता कुम्भकर्ण के सामने उग्रगन्धवाली धूप आदि सुगन्धित वस्तुएँ रख, उसकी स्तुति करने लगे ॥ ३५ ॥

जलदा इव चोन्नेदुर्यातुधानास्ततस्ततः ।

शङ्खानापूरयामासुः शशाङ्कसदृशप्रभान् ॥ ३६ ॥

वादलों की गर्जन के समान बड़े जोर से वे सब राक्षस उसके चारों ओर खड़े होकर चिल्लाने लगे । उन्होंने चन्द्र समान लफेद शङ्ख बजाए ॥ ३६ ॥

तुमुलं युगपच्चापि विनेदुश्चाप्यमर्षिताः ।

नेदुराश्स्फोटयामासुश्चिच्चिपुस्ते निशाचराः ।

कुम्भकर्णविवोधार्थं चक्रुस्ते विपुलं स्वनम् ॥ ३७ ॥

इस पर भी जब कुम्भकर्ण न जागा, तब कुपित हो सब राक्षसों ने एक साथ घोर शब्द किया । तिस पर भी जब उसकी नींद न टूटी, तब बड़ी जोर से चिल्ला कर उसके शरीर पर बे प्रहार करने लगे तथा उसके शरीर को पकड़ कर हिलाने लगे । कुम्भकर्ण को जगाने के लिए वे बड़ी जोर से चिल्लाये ॥ ३७ ॥

सशङ्खभेरीपणवप्रणाद

भास्फोटितच्चेलितसिंहनादम् ।

दिशो द्रवन्तस्त्रिदिवं किरन्तः

श्रुत्वा विहङ्गाः सहसा निपेतुः ॥ ३८ ॥

उस समय उस गुफा में शङ्ख, तुरड़ी, ढोल प्रादि बाजों के बजने का शब्द तथा राक्षसों के ताल ठोकने का, गर्जने का, तथा सिंहनाद करने का शब्द मिल कर, एक ऐसा होहल्ला मचा कि, उसे सुन पक्षी इधर उधर भागे, किन्तु आकाश में पहुँच कर भी जब उनका भय दूर न हुआ, तब वे धड़ाम धड़ाम भूमि पर गिरने लगे ॥ ३८ ॥

यदा भृशं तैर्निनदैर्महात्माः

न कुम्भकर्णो बुबुधे प्रसुप्तः ।

१ आस्फोटयामासुः—ताडयामासुः । (गो०) २ चिच्चिपुः—शरीर कंपयामासुः— । (गो०) ३ महात्मा—महाशरीरः । (ग ०

ततो ऽमुसुण्ठीर्मुसलानि सर्वे

रक्षोगणास्ते जगृहुर्गदाश्च ॥ ३६ ॥

इतना होहल्ला करने पर भी जब वह महाकाय न जाग, तब उन सब ने मिल कर मुग्दर, मूसल और गदाएँ उठाई ॥ ३६ ॥

तं शैलशृङ्गैर्मुसलैर्गदाभि-

वृक्षैस्तलैर्मुद्गरमुष्टिभिश्च ।

सुखप्रसुप्तं भुवि कुम्भकर्णं

रक्षांस्युदग्राणि तदा निजघ्नुः ॥ ४० ॥

और पर्वतशिखरों, मूसलों, गदाओं, वृक्षों, थप्पड़ों, मुग्दरों और मूँकों से, भूमि पर सुख से सोते हुए कुम्भकर्ण की छाती में वे राक्षस प्रहार करने लगे ॥ ४० ॥

तस्य निःश्वासघातेन कुम्भकर्णस्य रक्षसः ।

राक्षसा बलवन्तोऽपि स्थातुं नाशक्रुवन् पुरः ॥ ४१ ॥

उस समय कुम्भकर्ण की साँस ऐसे जोर से चल रही थी कि उसकी साँस के पवन के कारण वे राक्षस बलवान होने पर भी उसके सामने खड़े भी नहीं रह सकते थे ॥ ४१ ॥

ततः ऽपरिहिता गाढं राक्षसा भीमविक्रमाः ।

मृदङ्गपणशान् भैरीः शङ्खकुम्भगणांस्तदा ॥ ४२ ॥

दशराक्षससाहस्रा युगपत्पर्यवाद्यन् ।

नीलाञ्जनचयाकारास्ते तु तं प्रत्यवोधयन् ॥ ४३ ॥

१ मुसुण्ठी—मुद्गरविशेषः । (गो०) २ परिहिताः—दृढीकृतपरिधानाः । (गो०)

इतने पर भी जब कुम्भकर्ण न जागा, तब वे लोग कमर कस कर तैयार हुए और मृदङ्ग ढोल, तुरही, शङ्ख आदि बाजे कुम्भकर्ण को जगाने के लिए काजल के ढेर के समान काले दस हजार राक्षसों ने मिल कर, एक साथ बजाये ॥ ४२ ॥ ॥४३॥

अभिघ्नन्तो नदन्तश्च नैव संविविदे तु सः ।

यदा चैनं न शेकुस्ते प्रतिबोधयितुं तदा ॥ ४४ ॥

फिर वे राक्षस बाजे बजा कर अनेक प्रकार के प्रहार भी करते जाते थे । वे केवल बाजे ही नहीं बजाते थे बल्कि गर्ज भी रहे थे । किन्तु जब वे इन उपायों से भी उसको न जगा सके ॥४४॥

ततो गुरुतरं यत्नं दारुणं नमुपाक्रमन् ।

अश्वानुष्टान् खरान्नागाञ्जघ्नुर्दण्डकशाङ्कशैः ॥ ४५ ॥

तब उन्होंने इससे भी अधिक कठोर और गुरुतर उपायों को काम में लाने का निश्चय किया । वह यह कि कुम्भकर्ण को रुबवाने के लिये वे घोड़ों, ऊँटों, गधों, हाथियों को डंडों, चाबुकों और अंकुशों से मार मार कर उनके ऊपर चढ़ाने लगे ॥ ४५ ॥

भेरीशङ्खमृदङ्गांश्च सर्वप्राणैर्वादयन् ।

निजघ्नुश्चाम्य ऽत्राणि महाकाष्ठकटहरैः ॥ ४६ ॥

फिर वे सब एकत्र ही भेरियों, शङ्खों और मृदङ्गों को धपना समस्त बल लगा बजाने लगे । साथ ही वे कुम्भकर्ण के शरीर पर बड़े भारी लट्ट, जिनमें लोहे की काँटेदार कीलें जड़ी थीं. मारने लगे ॥ ४६ ॥

मुद्गरैर्मुसलैश्चैव सर्वप्राणसमृद्धतैः ।

तेन शब्देन महता लङ्का समभिपूरिता ॥ ४७ ॥

सर्वतवना सर्वा सोऽपि नैव प्रबुध्यते ।

ततः सहस्रं भेरीणां युगपत्समहन्यत ॥ ४८ ॥

अकेले लट्ट ही नहीं—बल्कि मुग्दरो और मूसलों से भी अपना सारा बल लगा वे उसके शरीर को पीटने लगे। बाजों के बजने, राक्षसों के चिल्लाने और लट्ट, मूसल आदि के प्रहार से उत्पन्न हुए शब्द से पर्वतों तथा समस्त वनों सहित लट्टा गूँज उठी, किन्तु कुम्भकर्ण की नींद तो भी न टूटी। तब एक साथ एक हजार नगाड़े ॥ ४७ ॥ ॥ ४८ ॥

मृष्टकाञ्चनकोणानामसक्तानां समन्ततः ।

एवमप्यतिनिद्रस्तु यदा नैव प्रबुध्यते ॥ ४९ ॥

शापस्य वशमापन्नस्ततः क्रुद्धा निशाचराः ।

महाक्रोधसमाविष्टाः सर्वे भीमपराक्रमाः ॥ ५० ॥

सोने की चोवों से उसके चारों ओर बजाए गये। जब कि कुम्भकर्ण शापग्रस्त होने के कारण इन सब उपायों के कर चुकने पर भी न जागा, तब वे सब राक्षस क्रुद्ध हुए। तदनन्तर अत्यन्त क्रोध में भर वे समस्त भयङ्कर पराक्रमी राक्षस ॥ ४९ ॥ ५० ॥

तद्रक्षो बोधयिष्यन्तश्चक्रुरन्ये पराक्रमम् ।

अन्ये भेरीः समाजघ्नुरन्ये चक्रमहास्वनम् ॥ ५१ ॥

कुम्भकर्ण को जगाने के लिए अपना अपना पराक्रम दिखलाने लगे। कोई कोई तो नगाड़े बजाने लगे और कोई कोई बड़े जोर से चिल्लाने लगे ॥ ५१ ॥

केशानन्ये प्रलुलुपुः कर्णावन्ये दशन्ति च ।

उदकुम्भशतान्यन्ये समासिञ्चन्त कर्णयोः ॥ ५२ ॥

किसी किसी ने कुम्भकर्ण के सिर के बाल पकड़ कर खींचे
किसी किसी ने दाँतों से उनके कान काटे। किसी किसी ने
सैकड़ों पानी से भरे घड़े उसके कानों में डबेल दिए ॥ ५२ ॥

न कुम्भकर्णः पस्पन्दे महानिद्रावशं गतः ।

अन्ये च बलिनस्तस्य कूटमुद्गरपाणयः ॥ ५३ ॥

तिस्र पर भी नींद में मस्त कुम्भकर्ण टस से मस न हुआ।
अन्य बलवान राक्षसों ने हाथों में बाँटे जड़े मुगदर चठा
लिए ॥ ५३ ॥

मूर्ध्नि वक्षसि गात्रेषु पातयन् कूटमुद्गरान् ।

रज्जुबन्धनवद्वाभिः शतघ्नीभिश्च सर्वतः ॥ ५४ ॥

और उन काँटेदार मुगदरों से वे कुम्भकर्ण के सिर, छाती
तथा उसके शरीर के अन्य अवयवों पर प्रहार करने लगे। रस्सों
से बाँध कर शतघ्नियों से उसके समस्त ॥ ५४ ॥

वध्यमानो महाकायो न प्राबुध्यत राक्षसः ।

वारणानां सहस्रं तु शरीरेऽस्य प्रधावितम् ।

कुम्भकर्णस्ततो बुद्धः स्पर्शं परमबुध्यत ॥ ५५ ॥

शरीर को पीटने पर भी, वह महाकाय राक्षस न जागा।
अन्त में जब राक्षसों ने उसके ऊपर हजारों हाथियों को दौड़ाया
तब उसको इतना जान पड़ा कि, उसके शरीर को कोई कीट
पतंग छू रहा है। (अस्तु राम राम कर के किसी प्रकार
कुम्भकर्ण जागा) ॥ ५५ ॥

स पात्यमानैर्गिरिशृङ्गचूतैः

अचिन्तयंस्तान् विपुलान् प्रहागन् ।

निद्राक्षयात्क्षुद्ध्यपीडितश्च

विजृम्भमाणः सहस्रोत्पपात ॥ ५६ ॥

उसने उन पर्वतशृङ्गों और वृक्षों के विपुल प्रहार की कुछ भी परवाह न की। किन्तु नींद टूटने पर भूख के डर से दुःखी हो वह जँभाई लेता हुआ सहसा उठ बैठा ॥ ५६ ॥

स नागभोगाचलशृङ्गकल्पौ

विक्षिप्य चाहू गिरिशृङ्गसारौ ।

विवृत्य वक्त्रं वडवामुखाभं

निशाचरोऽसौ विकृतं जजृम्भे ॥ ५७ ॥

कुम्भकर्ण नागभोग (फन फैलाए हुए सर्प) की तरह लंबी और पर्वतशिखर की तरह कठोर और वलिष्ठ भुजाओं को फैला कर, वडवानल की तरह भयङ्कर मुख को फैला कर जँभाई लेने लगा ॥ ५७ ॥

तस्य जाजृम्भमाणस्य वक्त्रं पातालसन्निभम् ।

दृष्टो मेरुशृङ्गाग्रे दिवाकर इवोदितः ॥ ५८ ॥

जँभाई लेने के समय उसका मुख पाताल की तरह गहरा और मुखमण्डल, सुमेरुपर्वत पर उदय हुए सूर्य की तरह प्रकाश मान देख पड़ा ॥ ५८ ॥

स जृम्भमाणोऽतिवलः प्रतिबुद्धो निशाचरः ।

निःश्वासश्चास्य सञ्जज्ञे पर्वतादिव मारुतः ॥ ५९ ॥

वह अति बलवान निशाचर जब जँभाई लेता हुआ जागा, तब उसके मुख से वैसे ही हवा निकली; जैसे पर्वत से निकल कर आँधी चलती है ॥ ५९ ॥

रूपमुत्तिष्ठतस्तस्य कुम्भकर्णम्य तद्व्यभौ ।

युगान्ते सर्वभूतानि कालस्येव दिघक्षतः ॥ ६० ॥

जब कुम्भकर्ण जाग कर उठा, तब उसका रूप संसार को भक्षण करने वाले प्रलयकालीन काल की तरह, जान पड़ने लगा ॥ ६० ॥

तस्य दीप्ताग्निसदृशे विद्युत्सदृशवर्चसी ।

ददृशाते महानेत्रे दीप्ताविव महाग्रहा ॥ ६१ ॥

दहकती हुई आग की तरह, अथवा विजुली की तरह चमकीले उसके दोनों नेत्र ऐसे जान पड़े, मानों देदीप्यमान दो नक्षत्र हों ॥ ६१ ॥

ततस्त्वदर्शयन् सर्वान् भक्ष्यांश्च विवधान् बहून् ।

वराहान् महिषांश्चैत्र स वभक्ष महाबलः ॥ ६२ ॥

उन राजसों ने उसे सब सुअर भैंसे आदि अनेक प्रकार के बहुत से खाद्य पदार्थ दिखलाए । तब वह महाबली उन सब को खाने लगा ॥ ६२ ॥

अदभु बुभुक्षितो मांसं शोणितं तृपितः पिबन् ।

मेदः कुम्भांश्च मद्यं च पर्षा शक्रिपुस्तदा ॥ ६३ ॥

भूख मिटाने को उसने माँस खाया और प्यास बुझाने के लिए उसने रक्त पिआ । तदनन्तर इन्द्र के शत्रु कुम्भकर्ण ने चर्बी और मद्य से भरे घड़े उठा उठा कर लिए ॥ ६३ ॥

ततस्त्वप्त इति ज्ञात्वा समुत्पेतुर्निशाचराः ।

शिरोभिश्च प्रणम्यैनं सर्वतः पर्यवारयन् ॥ ६४ ॥

कुम्भकर्ण के डर के मारे जो राक्षस अभी तक छिपे हुए थे उन्होंने जब जाना कि, उसका पेट भर गया तब वे निकल कर उसके सामने आए। फिर उसको सीस भुका प्रणाम कर उसे घेर कर खड़े हो गए ॥ ६४ ॥

निद्राविशदनेत्रस्तु कलुषीकृतलोचनः ।

चारयन् सर्वतो दृष्टिं तान्ददर्श निशाचरान् ॥ ६५ ॥

निद्रावश होने के कारण उसकी आँखें कुछ कुछ खुली थीं और लाल हो रही थीं, उसने चारों ओर दृष्टि फैला कर उन राक्षसों को देखा ॥ ६५ ॥

स सर्वान् सान्त्वयामास नैर्ऋतान् नैर्ऋतर्षभः ।

बोधनाद्विस्मितश्चापि राक्षसानिदमब्रवीत् ॥ ६६ ॥

राक्षसश्रेष्ठ कुम्भकर्ण ने उन सब राक्षसों को धीरज बंधाया। उसे असमय अपने जगाए जाने का आश्चर्य हुआ, अतः उसने उन राक्षसों से कहा ॥ ६६ ॥

किमर्थमहमादृत्य भवद्भिः प्रतिबोधितः ।

कच्चित्सुकुशलं राज्ञो भयवानेष वा न किम् ॥ ६७ ॥

हे राक्षसों ! आप लोगों ने मुझे बड़े आदर के साथ क्यों जगाया है ? राक्षसराज रावण तो प्रसन्न है ? कहीं कोई भय तो आकर उपस्थित नहीं हुआ ? ॥ ६७ ॥

अथवा ध्रुवमन्येभ्यो भयं परमुपस्थितम् ।

यदर्थमेवं त्वरितैर्भवद्भिः प्रतिबोधितः ॥ ६८ ॥

अथवा इस प्रश्न की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जब आप लोगों ने मुझको इतनी जल्दी जगा दिया है, तब अवश्य ही कोई भय की बात हुई है ॥ ६८ ॥

अथ राक्षसराजस्य मयमुत्पाटयाम्यहम् ।

पातयिष्ये महेन्द्रं वा शातयिष्ये तथाऽनलम् ॥६६॥

मैं आज ही राक्षसराज के भय को उखाड़ कर फेंक दूंगा । यदि इन्द्र होगा तो उसे नष्ट कर डालूँगा । अथवा महेन्द्राचल भी होगा तो उसे धूल में मिला दूँगा और अग्नि होगा तो उसे बुझा दूँगा ॥ ६६ ॥

न ह्यल्पकारणे सुप्तं बोधयिष्यति मां गुरुः ।

तदाख्यातार्थतत्त्वेन मत्प्रबोधनकारणम् ॥ ७० ॥

मेरा बड़ा पूज्य भाई मामूली बात के लिए मुझे कभी नहीं जगाता । सो तुम मुझ जैसे वार के जगाने का कारण ठीक ठीक बतलाओ ॥ ७० ॥

एवं ऋवाणं संरब्धं कुम्भकर्णं महाबलम् ।

यूपाक्षः सचिवो राज्ञः कृताञ्जलिरुवाच ह ॥ ७१ ॥

महाबली कुम्भकर्ण ने जब इस प्रकार क्रोध में भर कर कहा, तब रावण के दीवान यूपाक्ष ने हाथ जोड़ कर कहा—॥ ७१ ॥

न नो दैवकृतं किञ्चिद्भयमस्ति कदाचन ।

मानुषान्नो भयं राजंस्तुमुलं सम्प्रवाधते ॥ ७२ ॥

हे राजन् ! हम लोगों को देवताओं का तो कभी रत्ती भर भी भय नहीं है । किन्तु इस समय मनुष्यों का बड़ा भारी भय उपस्थित हुआ है ॥ ७२ ॥

न दैत्यदानवेभ्यो वा भयमस्ति हि तादृशम् ।

यादृशं मानुषं राजन् भयमस्मानुपस्थितम् ॥७३॥

हे राजन् ! हम लोगों को इस समय जैसा भय मनुष्यों से है, वैसा तो देवताओं और दानवों से भी कभी नहीं हुआ था ॥ ७३ ॥

वानरैः पर्वताकारैर्लङ्क्यं परिवारिता ।

सीताहरणसन्तप्ताद्रामान्नस्तुमुलं भयम् ॥ ७४ ॥

सीता के हरण से सन्तप्त राम, हम लोगों के इस बड़े भारी भय के मुख्य कारण हैं । उन्हीं की सेना के पर्वताकार वानरों ने लङ्कापुरी को घेर लिया है ॥ ७४ ॥

एकेन वानरेण्यं पूर्वं दग्धा महापुरी ।

कुमारो निहतश्चाक्षः सानुयात्रः सकुञ्जरः ॥ ७५ ॥

पहिले एक ही वानर ने आकर लङ्का जलाई थी और अपने साथियों तथा हाथियों की सैन्य सहित राजकुमार अक्ष उसके हाथ से मारा गया था । (अब तो उस जैसे असंख्य वानर लङ्का को घेरे हुए हैं) ॥ ७५ ॥

भयं रक्षोधिपश्चापि पौलस्त्यो देवकण्ठकः ।

१ मृतेति संयुगे मुक्तो रामेणादित्यतेजसा ॥ ७६ ॥

औरों की बात क्या कहूँ—देवताओं के शत्रु, स्वयं पुलस्त्य-नन्दन राक्षसराज रावण भी सूर्य के समान तेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी के सामने मरते मरते वच कर भाग आए हैं, सो भी उस समय जब राम ने दया कर उनसे कहा—“ अरे मुर्दे ! भाग जा । इस समय मैं तुम्हें छोड़े देता हूँ ” ॥ ७६ ॥

१ मृतेति—हे मृतेत्युक्त्वा । (गो०)

यन्न देवैः कृतो राजा नापि दैत्यैर्न दानवैः ।

कृतः स इह रामेण विमुक्तः प्राणसंशयात् ॥ ७७ ॥

जैसा राजसराज का अपमान आज तक किसी देवता, दैत्य अथवा दानव के द्वारा नहीं हुआ था वैसा अपमान इस राम ने उनका किया । अर्थान् रावण को मारते मारते छोड़ दिया ॥ ७७ ॥

स यूपाक्षवचः श्रुत्वा भ्रातुर्युधि परोजयम् ।

कुम्भकर्णो विवृत्ताक्षो यूपाक्षमिदमब्रवीत् ॥ ७८ ॥

अपने भई रावण की हार का इस प्रकार का वृत्तान्त यूपाक्ष के मुख से सुन, कुम्भकर्ण ने त्योंही बदल कर, यूपाक्ष से यह कहा—॥ ७८ ॥

सर्वमद्यैव यूपाक्ष हरिसैन्यं सलक्ष्मणम् ।

राघवं च रणे हत्वा पश्चाद्द्रुच्यामि रावणम् ॥ ७९ ॥

हे यूपाक्ष ! मैं आज युद्धक्षेत्र में, श्रीरामचन्द्र को तथा लक्ष्मणसहित समस्त वानरी सेना को पहिले मार कर, पीछे रावण से भेंट करूँगा ॥ ७९ ॥

राक्षसांस्तर्पयिष्यामि हरीणां मांसशोणितैः ।

रामलक्ष्मणयोश्चापि स्वयं पास्यामि शोणितम् ॥ ८० ॥

मैं वानरों के मांस और रुधिर से राक्षसों को अथा दूँगा और श्रीराम एवं लक्ष्मण का रुधिर मैं स्वयं पीऊँगा ॥ ८० ॥

तत्तस्य वाक्यं ब्रुवतो निशाम्य

सगर्वितं रोपविवृद्धदोषम् ।

महोदरो नैऋ तयोघमुख्यः

कृताञ्जलिर्वाक्यमिदं वभाषे ॥ ८१ ॥

कुम्भकर्ण के इस प्रकार गर्वयुक्त और क्रोध-पूर्ण वचन सुन कर, राक्षस योद्धाओं में प्रधान योद्धा महोदर हाथ जोड़ कर यह बोला ॥ ८१ ॥

रावणस्य वचः श्रुत्वा गुणदोषौ विमृश्य च ।

पश्चादपि महाबाहो शत्रुन् युधि विजेष्यसि ॥ ८२ ॥

हे महाबाहो ! पहिले आप रावण की बातें सुन लें और उनके कथन में जो गुण अथवा दोष हों उन पर मली भाँति विचार कर लें, तदनन्तर शत्रु से लड़ कर उसे पराजित करें ॥ ८२ ॥

महोदरवचः श्रुत्वा राक्षसैः परिवारितः ।

कुम्भकर्णो महातेजाः १सम्प्रतस्थे महाबलः ॥ ८३ ॥

महोदर के इन वचनों को सुन महातेजस्वी एवं महानली कुम्भकर्ण, उन राक्षसों को साथ लिए हुए वहाँ से चलने को तैयार हुआ ॥ ८३ ॥

सुप्तमुत्थाप्य भीमार्क्षं भीमरूपपराक्रमम् ।

राक्षसास्त्वरिता जग्मुर्दशग्रीवनिवेशनम् ॥ ८४ ॥

उस भयङ्कर नेत्रों वाले एवं भयङ्कर रूप वाले तथा भीम पराक्रम वाले कुम्भकर्ण को सोते से जगा, उनमें से कुछ राक्षस तुरन्त रावण के भवन में गए ॥ ८४ ॥

ततो गत्वा दशग्रीवमासीनं परमासने ।

ऊर्ध्वद्वाञ्जलिपुटाः सर्व एव निशाचराः ॥ ८५ ॥

वहाँ पहुँच कर बढ़िया सिंहासन पर बैठे हुए रावण से वे सब राक्षस हाथ जोड़ कर कहने लगे ॥ ८५ ॥

प्रबुद्धः कुम्भकर्णोऽयं भ्राता ते राक्षसर्षभ ।

कथं तत्रैव निर्यातु द्रक्ष्यस्येनमिहागतम् ॥ ८६ ॥

हे राक्षसश्रेष्ठ ! तुम्हारा भाई कुम्भकर्ण जाग गया । क्या वह सीधा समरभूमि में जाय अथवा तुम पहिले उससे यहाँ मिलना चाहते हो ॥ ८६ ॥

रावणस्त्वन्नवीद्वृष्टो राक्षसांस्तानुपस्थितान् ।

द्रष्टुमेनमिहेच्छामि यथान्यायं च पूज्यताम् ॥ ८७ ॥

रावण ने उन आए हुए राक्षसों से प्रसन्न होकर कहा । मैं कुम्भकर्ण से यहीं मिलना चाहता हूँ—सो तुम लोग बड़े आदर के साथ उन्हें मेरे पास यहाँ लिवा लाओ ॥ ८७ ॥

तथेत्युक्त्वा तु ते सर्वे पुनरागम्य राक्षसाः ।

कुम्भकर्णमिदं वाक्यमूचू रावणचोदिताः ॥ ८८ ॥

रावण से “ बहुत अच्छा ” कह और उसके आज्ञानुसार वे सब राक्षस कुम्भकर्ण के पास लौट गए और कुम्भकर्ण से यह बोले ॥ ८८ ॥

द्रष्टुं त्वां काङ्क्षते राजा सर्वराक्षसपुङ्गवः ।

गमने क्रियतां बुद्धिर्भ्रातरं सम्प्रहर्षय ॥ ८९ ॥

हे समस्त राक्षसों में श्रेष्ठ ! तुम से राक्षसराज रावण मिलना चाहते हैं सो तुम अब वहाँ चल कर, अपने बड़े भाई को हर्षित करो ॥ ८९ ॥

कुम्भकर्णस्तु दुर्घर्षो भ्रातुराज्ञाय शासनम् ।

तथेत्युक्त्वा महाबाहुः शयनादुत्पतात ह ॥ ९० ॥

महाबली एवं दुर्धर्ष कुम्भकर्ण, भाई की आज्ञा सुन और
“बहुत अच्छा” कह, विस्तरे से उठ बैठा ॥ ६० ॥

प्रक्षाल्य वदनं हृष्टः स्नातः परमभूषितः ।

पिपासुस्त्वरयामास पानं श्वलसमीरणम् ॥ ६१ ॥

उसने मुँह धोकर, फिर स्नान किए । तदनन्तर वस्त्राभूषण से
भूषित हो, वह पाम प्रसन्न हुआ और उसने उन राक्षसों से बल-
वर्धक मदिरा तुरन्त देने के लिए कहा ॥ ६१ ॥

ततस्ते त्वरितास्तस्य राक्षसा रावणाज्ञया ।

मद्यकुम्भान् च विविधान् क्षिप्रमेवोपहारयन् ॥ ६२ ॥

तुरन्त लाने के लिए कहे जाने पर, उन राक्षसों ने रावण
की आज्ञा से तुरन्त विविध प्रकार की मदिराओं के घड़े लाकर
कुम्भकर्ण के सामने रख दिए ॥ ६२ ॥

पीत्वा घटसहस्रे द्वे गमनायोपचक्रमे ।

ईषत्समुत्कटो मत्तस्तेजोबलसमन्वितः ॥ ६३ ॥

कुम्भकर्ण दो हजार शराब से भरे घड़ों को खाली कर, चलने
को तैयार हुआ । अभी उसे उस मद्यपान से थोड़ा ही नशा हुआ
था; किन्तु वह तो स्वभाव ही से मतवाला तथा तेजस्वी एवं
बलवान था ॥ ६३ ॥

कुम्भकर्णो बभौ हृष्टः कालान्तक्यमोपमः ।

भ्रातुः स भवनं गच्छन् रक्षोगणसमन्वितः ।

कुम्भकर्णः पदन्यासैरकम्पयत भेदिनीम् ॥ ६४ ॥

१ बलसमीरणं—बलवर्धनं । (गो०)

कुम्भकर्ण^१ हर्षित हो कालान्तक यम की तरह देव्य पड़ने लगा । जब वह राक्षसों को साथ ले राज्यभवन को रवाना हुआ, तब उसके पैर की घमक से पृथिवी काँप सी रही थी ॥ ६४ ॥

स राजमार्गं श्वपुपा प्रकाशयन्
सहस्ररश्मिर्धरणीमिवांशुभिः ।

जगाम तत्राञ्जलिमालया वृतः
शतक्रतुर्गोहमिव स्वयंभवः ॥ ६५ ॥

वह चलते चलते अपनी कान्ति से राजमार्ग को वैसे ही प्रकाशित कर रहा था, जैसे सूर्य अपनी किरणों से पृथिवी को प्रकाशमान करते हैं । हाथ जोड़े हुए नगरवासी उसको चारों ओर से घेरे हुए उसके साथ चले जाते थे । वह राजभवन की ओर वैसे ही जा रहा था, जैसे ब्रह्मा जी इन्द्रभवन की ओर जाते हैं ॥ ६५ ॥

तं राजमार्गस्थमभिन्नघातिनं
वनौकसस्ते सहसा वहिः स्थिताः ।
दृष्ट्वाप्रमेयं गिरिशृङ्गकल्पं
वितत्रसुस्ते हरियूथपालाः ॥ ६६ ॥

जब वह पर्वतशृङ्ग के समान लयातङ्गा शत्रु हुन्ता, अतुलित वीर कुम्भकर्ण राजमार्ग पर चला जाता था, तब लङ्का के बाहिर ठहरे हुए वानर अपने नाना यूथपतियों सहित उसको देखते ही भयभीत हो गए ॥ ६६ ॥

१ श्वपुपा—देहकान्त्या । (रा०)

केचिच्छरण्यं शरणं स्म रामं

व्रजन्ति केचिद्व्यथिताः पतन्ति ।

केचिद्दिशः स्म व्यथिताः प्रयान्ति

केचिद्भयार्ता भुवि शेरते स्म ॥ ६७ ॥

(कुम्भकर्ण को देखते ही वानरों की मारे डर के बड़ी .बु
दशा हो गई) कोई तो सर्वलोकशरण्य श्रीरामचन्द्र जी के शरण
में गए, कोई समरभूमि छोड़ भाग खड़े हुए । कोई व्यथित हो गिर
पड़े, कोई व्यथित हो इधर उधर भाग गए और कोई भयभीत
है । पृथिवी पर लेट गए ॥ ६७ ॥

तमद्रिशृङ्गप्रतिमं किरीटिनं

स्पृशन्त मादित्यमिवात्मतेजसा ।

वनौकसः प्रेक्ष्य विवृद्धमद्भुतं

मयार्दिदता दुर्ध्वारे ततस्ततः ॥ ६८ ॥

इति षाष्ठतमः सर्गः ॥

उस पर्वतशृङ्ग के समान लंबे, मुकुटधारी, शरीर की कान्ति
से सूर्य की बराबरी करने वाले, उस विशाल वपुधारी अद्भुत
रूप वाले कुम्भकर्ण को देख, वानरगण बहुत ही डरे और डर
के मारे इधर उधर भाग निकले ॥ ६८ ॥

युद्धकाण्ड का साठवाँ सर्ग पूरा हुआ

एकषष्टितमः सर्गः

—ॐ—

ततो रामो महातेजा धनुरादाय वीर्यवान् ।

किरीटिनं महाकायं कुम्भकर्णं ददर्श ह ॥ १ ॥

तेजस्वी, बलवान श्रीरामचन्द्र जी ने मुकुटधारी और विशाल शरीरधारी कुम्भकर्ण को देखा और हाथ में धनुष लेलिया ॥१॥

तं दृष्ट्वा राक्षसश्रेष्ठं पर्वताकारदर्शनम् ।

क्रममाणमिवाकाशं पुरा नारायणं प्रभुम् ॥ २ ॥

उस समय वह पर्वताकार राक्षसश्रेष्ठ कुम्भकर्ण ऐसा दिखलाई पड़ता था, जैसे आकाश को नापते समय पूर्वकाल में वामनावतार धारी भगवान् विष्णु देख पड़े थे ॥ २ ॥

सतोयाम्बुदसङ्काशं काञ्चनाद्भूषणम् ।

दृष्ट्वा पुनः प्रदुद्राव वानराणां महाचमः ॥ ३ ॥

सजल जलद की तरह विशाल शरीरधारी एवं सुवर्ण के चाजूबन्द पहिने हुए कुम्भकर्ण को पुनः देख, वानरों की बड़ी सेना भाग खड़ी हुई ॥ ३ ॥

त्रिद्रुतां वाहिनीं दृष्ट्वा वर्धमानं च राक्षसम् ।

सविस्मयमिदं रामो विभीषणमुवाच ह ॥ ४ ॥

इन्द्रानुसार अपने शरीर को बढ़ाते हुए कुम्भकर्ण को देग और अपनी सेना को भागत देख, श्रीरामचन्द्र जी विस्मित हुए और विभीषण से बोले ॥ ४ ॥

कोऽसौ पर्वतसङ्काशः किरीटी श्रुतिलोचनः ।

लङ्कायां दृश्यते वीर सविद्युदिव तोयदः ॥ ५ ॥

लङ्का के भीतर पर्वत के समान लंबा, मुकुटधारां, पीले नेत्रों वाला और दामिनीयुक्त मेघ की तरह यह कौन वीर देख पड़ता है ? ॥ ५ ॥

पृथिव्याः कंतुभूतोऽसौ महानेकोऽत्र दृश्यते ।

यं दृष्ट्वा वानराः सर्वे विद्रवन्ति ततस्ततः ॥ ६ ॥

यह अकेला ही पृथिवी की पताका की तरह जान पड़ता है, क्योंकि इसको देख कर समस्त वानर डर कर चारों ओर भाग रहे हैं ॥ ६ ॥

आचक्ष्व मे महान् कोऽसौ रक्षो वा यदि वाऽसुरः ।

न मयैवविधं भूतं दृष्टपूर्वं कदाचन ॥ ७ ॥

यह विशाल शरीरधारी कोई राक्षस है अथवा असुर, मैंने तो इस प्रकार का जीव इसके पूर्व कभी देखा ही नहीं ॥ ७ ॥

स पृष्टो राजपुत्रेण रामेणाक्लिष्टकर्मणा ।

विभीषणो महाप्राज्ञः काकुत्स्थमिदमब्रवीत् ॥ ८ ॥

जब अक्लिष्टकर्मा राजपुत्र रघुनाथ जी ने विभीषण से इस प्रकार पूँछा, तब महाबुद्धिमान् विभीषण ने श्रीरामचन्द्र जी से कहा ॥ ८ ॥

येन वैवस्वतो युद्धे सवश्च पराजितः ।

सैष विश्रवसः पुत्रः कुम्भकर्णः प्रतापवान् ।

अस्य प्रमाणात्सदृशो राक्षसोऽन्यो न विद्यते ॥ ९ ॥

१ हरिलोचनः-कपिलेक्षणः । (गो०) १ प्रमाण-स्थौल्यौन्नत्ये । (गो०)

जिसने युद्ध में यमराज और इन्द्र को भी परास्त कर दिया, वही विश्रवा मुनि का पुत्र यह प्रतापी कुम्भकर्ण है। इसके बराबर लंबा और मोटा दूसरा कोई राक्षस नहीं है ॥ ६ ॥

एतेन देवा युधि दानशश्च

यज्ञा भुजङ्गा पिशिताशनाश्च ।

गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च

सहस्रशो रावव सम्प्रभग्नाः ॥ १० ॥

हे रावव ! इसने युद्ध में कितनी ही चार हजारों देवताओं, मांसभक्षी दानवों, यज्ञों, भुजङ्गों, गन्धर्वों, विद्याधरो और किन्नरों को पोस डाला है ॥ १० ॥

शूलपाणिं विरूपाक्षं कुम्भकर्णं महाबलम् ।

हन्तुं न शेकुस्त्रिदशाः कालोऽयमिति मोहिताः ॥११॥

जब यह महाबली कुम्भकर्ण हाथ में शूल ले आँखें बदलता है या आँखें टेढ़ी करता है, तब इसे देवता भी नहीं मार सकते, बल्कि इसको काल की तरह समझ वे सब मोहित अर्थात् मूर्च्छित हो जाते हैं ॥ ११ ॥

प्रकृत्या ह्येष तेजस्वी कुम्भकर्णो महाबलः ।

अन्येषां राक्षसेन्द्राणां वरदानकृतं बलम् ॥ १२ ॥

दूसरे राक्षसों को तो वरदान का बल है, किन्तु यह महाबली कुम्भकर्ण तो स्वभाव ही से तेजस्वी है ॥ १२ ॥

एतेन जातमात्रेण क्षुधार्तेन महात्मना ।

भक्षितानि सहस्राणि सत्त्वानां सुबहून्यपि ॥ १३ ॥

इस महाबलवान ने उत्पन्न होते ही भूख से विकल हो, बहुत से हजारों जीवों को खा डाला था ॥ १३ ॥

तेषु सम्भक्ष्यमाणेषु प्रजा भयनिपीडिताः ।

यान्तिस्म शरणं शक्रं तमप्यर्थं न्यवेदयन् ॥ १४ ॥

उसके इस प्रजाभक्षण कृत्य से प्रजा बहुत डरी और विकल हुई। फिर वह इन्द्र के पास गई और सारा वृत्तान्त उनसे कहा ॥ १४ ॥

स कुम्भकर्णं कुपितो सहेन्द्रो

जघान वज्रेण शितेन वज्री ।

स शक्रवज्राभिहतो महात्मा

चचाल कोपाच्च भृशं ननाद ॥ १५ ॥

तब वज्रधारी इन्द्र ने कुपित हो अपना पैना वज्र कुम्भकर्ण पर चलाया। यह बलवान वज्र लगने पर कुछ विचलित तो हुआ किन्तु क्रोध में भर बड़े जोर से गर्जा ॥ १५ ॥

तस्य नानद्यमानस्य कुम्भकर्णस्य धीमतः ।

श्रुत्वाऽतिनादं वित्रस्ता भूयो भूमिर्वितत्रसे ॥ १६ ॥

तब बुद्धिमान कुम्भकर्ण के गर्जने से और उसे सुन, प्रजा और भी अधिक भयभीत हुई ॥ १६ ॥

तत्र कोपात् सहेन्द्रस्य कुम्भकर्णो महाबलः ।

विकृष्यैरावतादन्तं जघानोरसि वासवम् ॥ १७ ॥

उधर महाबली कुम्भकर्ण ने कुपित हो इन्द्र के ऐरावत हाथी का दाँत उखाड़, इन्द्र ही की छाती में मारा ॥ १७ ॥

कुम्भकर्णप्रहारार्तो ऽविज्ज्वाल स वासवः ।

ततो विपेदुः सहसा देवब्रह्मर्षिदानवाः ॥ १८ ॥

कुम्भकर्ण के प्रहार से पीड़ित हो इन्द्र अत्यन्त क्रुपित हुए ।
इन्द्र को घायल देख कर अन्य देवता, ब्रह्मर्षि और दानव सब
बहुत दुःखी हुए ॥ १८ ॥

प्रजाभिः सह शक्रश्च ययौ स्यानं स्वयंभुवः ।

कुम्भकर्णस्य दौरात्म्यं शशंशुस्ते प्रजापतेः ॥ १९ ॥

और इन्द्र सहित समस्त प्रजा को साथ ले, वे ब्रह्मलोक में गए
और वहाँ जा कुम्भकर्ण की सारी दुष्टता ब्रह्मा जी को सुनाई ॥ १९ ॥

प्रजानां भक्षणं चापि देवानां चापि धर्षणम् ।

आश्रमध्वंसनं चापि परस्त्रीहरणं भृशम् ॥ २० ॥

कुम्भकर्ण द्वारा प्रजाओं का भक्षण किया जाना, देवताओं
का सताया जाना, तपस्वियों के आश्रमों का उजाड़ा जाना और
परस्त्री-हरण आदि कुम्भकर्ण की समस्त दुष्टनाएँ कहीं ॥ २० ॥

एवं प्रजा यदि त्वेष भक्षयिष्यति नित्यशः ।

अचिरेणैव कालेन शून्यो लोको भविष्यति ॥ २१ ॥

और अन्त में यह भी कहा कि, यदि वह इसी तरह नित्य
प्रजाओं का भक्षण करता रहा तो थोड़े ही दिनों में संसार सूना
हो जानगा ॥ २१ ॥

वासवस्य वचः श्रुत्वा सर्वलोकपितामहः ।

रक्षांस्यावाहयामास कुम्भकर्णं ददर्श ह ॥ २२ ॥

विज्ज्वाल—चुकोपति यावत् । (गो०)

समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने, इन्द्र के ये वचन सुन, राक्षसों को बुलवा कर, कुम्भकर्ण को देखा ॥ २२ ॥

कुम्भकर्णं समीक्ष्यैव वितत्रास प्रजापतिः ।

दृष्ट्वा विश्वास्य चैवेदं स्वयंभूरिदमत्रवीत् ॥ २३ ॥

कुम्भकर्ण को देखा ब्रह्मा वावा भी डर गए । फिर कुम्भकर्ण को देख और उसे बुला कर ब्रह्मा जी ने उससे यह कहा ॥ २३ ॥

ध्रुवं लोकविनाशाय पौलस्त्येनासि निर्मितः ।

तस्मात्त्वमद्यप्रभृति मृतकल्पः शयिष्यसे ॥ २४ ॥

हे कुम्भकर्ण ! निश्चय ही संसार का नाश करने के लिए ही विश्रवा मुनि ने तुझे उत्पन्न किया है । अतएव आज से मुर्दे की तरह पड़ा सोया करेगा ॥ २४ ॥

ब्रह्मशापाभिभूतोऽथ निपपाताग्रताः प्रभोः ।

ततः परमसम्भ्रान्तो रावणो वाक्यमब्रवीत् ॥ २५ ॥

इस प्रकार ब्रह्मा का शाप होते ही वह उन्हीं के सामने गिर पड़ा । यह देख रावण ने घबड़ा कर कहा ॥ २५ ॥

विवृद्धं काञ्चनो वृक्षः फलकाले निकृत्यते ।

न नसारं स्वकं न्यार्य्यं शप्तुमेवं प्रजापते ॥ २६ ॥

हे प्रजापते ! यह चम्पा का वृक्ष बढ़ कर जब फूलने योग्य हुआ, तब आप इसे काटे डालते हैं । महाराज यह तो आप ही का पौत्र है । इसको इस प्रकार शाप देना उचित नहीं ॥ २६ ॥

१ विश्वास्य—प्रलोभ्य । (गो०) २ काञ्चनः—चम्पकवृक्षः । (गो०) ३ फलकाले—पुष्पकाले । (गो०)

न मिथ्यावचनश्च त्वं स्वप्स्यत्येष न संशयः !

कालस्तु क्रियतामस्य शयने जागरे तथा ॥ २७ ॥

आपका वचन तो कर्मा मिथ्या हो नहीं सक्ता और निःसंशय यह उसी प्रकार सोवेगा भी । किन्तु आप इसके सोने और जागने का समय ही नियत कर दें ॥ २७ ॥

रावणस्य वचः श्रुत्वा स्वयम्भूरिदमत्रवीत् ।

शयिता ह्येष पएमासानेकाहं जागरिष्यति ॥ २८ ॥

रावण के इन वचनों को सुन, ब्रह्मा जी बोले—यह छः मास सोवेगा और एक दिन जागेगा ॥ २८ ॥

एकेनाह्वा त्वसौ वीरश्चरन् भूमिं बुभुक्षितः ।

व्यात्तास्यो भक्षयेल्लोकान् संक्रुद्ध इव पावकः ॥ २९ ॥

उसी एक दिन में यह वीर भूख के मारे विकल हो पृथिवी पर घूमेगा और प्रदीप्त अग्नि की तरह मुख फैला कर अनेक लोगों को खाया करेगा ॥ २९ ॥

सोऽसौ व्यसनमापन्नः कुम्भकर्णमबोधयत् ।

त्वत्पराक्रमभीतश्च राजा सम्प्रति रावण ॥ ३० ॥

हे श्रीरामचन्द्र ! तुम्हारे पराक्रम से भीत हो और विपत्ति में पड़, राजसराज रावण ने इस समय इस कुम्भकर्ण को जग-बाया है ॥ ३० ॥

स एष निर्गतो वीरः शशिविराड्भीमविक्रमः ।

वानरान् भृशसंक्रुद्धो भक्षयन् परिधावति ॥ ३१ ॥

१ भक्षयन्परिधावति—भक्षयरेतोः परिधाविष्यति । (गो०)
२ शिविरात्—स्वनिलयात् । (गो०)

सो यह भीम पराक्रमी वीर अपने घर से निकल और
अत्यन्त क्रुद्ध हो वानरों को खाने के लिए दौड़ेगा ॥ ३१ ॥

कुम्भकर्ण समीच्यैव हरयोऽद्य प्रविद्रुताः ।

कथमेनं रणे क्रुद्धं वारयिष्यन्ति वानराः ॥ ३२ ॥

जब ये वानर कुम्भकर्ण को देखते ही भाग रहे हैं, जब
यह क्रुद्ध हो समरक्षेत्र में आ कर खड़ा होगा, तब वानर इसको
कैसे रोकेंगे ? ॥ ३२ ॥

उच्यन्तां वानराः सर्वे यन्त्रमेतत्समुच्छ्रितम् ।

इति विज्ञाय हरयो भविष्यन्तीह निर्भयाः ॥ ३३ ॥

मेरी समझ में वानरों को रोकने के लिए उनसे यह कह देना
ठीक होगा कि, यह एक बड़ा ऊँचा वानरों के डराने के लिए
हौआ है । इसको यत्र जान सब वानर निर्भय हो जाँयगे ३३

विभीषणत्रचः श्रुत्वा हेतुमत्सुमुखेरितम् २ ।

उवाच राघवो वाक्यं नीलं सेनापतिं तदा ॥ ३४ ॥

विभीषण के ये प्रसन्न करने वाले और युक्तियुक्त वचनों को
सुन, श्रीरामचन्द्र जो सेनापति नील से बोलें ॥ ३४ ॥

गच्छ सैन्यानि सर्वाणि व्यूहं तिष्ठस्व पावके ।

द्वाराण्यादाय लङ्कायाश्चर्याचाप्यथ सक्रमान् ॥ ३५ ॥

हे नील ! तुम जाओ और समस्त सेना का व्यूह बना कर
तैयार रहो और लङ्का के पुरद्वार, राजमार्ग तथा अन्य मोर्चे
घेर लो ॥ ३५ ॥

पत्र — विभीषिका । (गो०) २ सुमुखेरितं — सुमुखं यथा भवति
तथा उक्तम् । (गो०)

शैलशृङ्गाणि वृक्षांश्च शिलाश्चाप्युपसंहर ।

तिष्ठन्तु वानराः सर्वे सायुधाः शैलपाणयः ॥ ३६ ॥

सब वानर शैलशृङ्गों, वृक्षों, शिलाओं को एकत्र कर ले और हाथों में शिलाएँ आयुधों को ले तैयार खड़े हो जाँय ॥ ३६ ॥

राघवेश समादिष्टो नीलो हरिचमूपतिः ।

शशास वानरानीकं यथावत्कपिकुञ्जरः ॥३७॥

जब श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार वाहिनीपति नील को आज्ञा दी; तब नील ने वानरी सेना को तदनुसार व्यवस्था कर दी ॥ ३७ ॥

ततो गवाक्षः शरभो हनुमानङ्गदस्तदा ।

शैलशृङ्गाणि शैलाभा गृहीत्वा द्वारमभ्ययुः ॥ ३८ ॥

तब पर्वताकार गवाक्ष, शरभ, हनुमान और अङ्गद शिलाएँ ले ले कर लङ्का के फाटकों पर जा पहुँचे ॥ ३८ ॥

रामवाक्यमुपश्रुत्य हरयो जितकाशिनः ।

पादपैर्दयन् वीराः वानराः शपरवाहिनीम् ॥ ३९ ॥

इस प्रकार विजयी वानरगण, श्रीरामचन्द्र जी के मुख से यह बात निकलते ही वृक्षों से, शत्रु की उस सेना को, जो नगर की रक्षा के लिए नगर के बाहिर नियुक्त थी, मारने लगे ॥३९॥

ततो हरीणां तदनीकमुग्रं

रराज शैलोद्यतदीप्तहस्तम् ।

१ परवाहिनीम्—नगररक्षार्थं बहिरचरन्तीं वाहिनीं । (बा०)

वा० रा० यु०—४०

गिरेः समीपानगतं यथैव

महन् महाम्भोधरजालमुग्रम् ॥ ४० ॥

इति एकषष्टितमः सर्गः ॥

शिलाएँ और पेदों को लिये हुए प्रचण्ड बानरो सेना लङ्का के द्वारों पर खड़ी हुई उस समय ऐसी शोभित होती थी जैसे पर्वतों के निकट मेघमाला शोभित होती है ॥ ४० ॥

युद्धकाण्ड का एकसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—०—

द्विषष्टितमः सर्गः

—:०:—

स तु राक्षसशार्दूलो निद्रामदसमाकुलः ।

राजमार्गं श्रिया जुष्टं ययौ विपुलविक्रमः ॥ १ ॥

कधी नींद से जगाया हुआ और नशे में चूर बड़ा विक्रमी वह राक्षसश्रेष्ठ कुम्भकर्ण, शोभायमान राजमार्ग से चला जाता था ॥ १ ॥

राक्षसानां सहस्रैश्च वृतः परमदुर्जयः ।

गृहेभ्यः पुष्पवर्षेण कीर्यमाणस्तदा ययौ ॥ २ ॥

और हजारों राक्षस उस परम दुर्जेय कुम्भकर्ण को घेरे हुए चले जाते थे । राजमार्ग के दोनों तरफ खड़े हुए मकानों के ऊपर चढ़े पुगवासी रास्ते भर उसके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे ॥ २ ॥

स हेमजालविततं भानुभास्वरदर्शनम् ।

ददर्श त्रिपुल रम्यं राक्षसेन्द्रनिवेशनम् ॥ ३ ॥

आगे चल कुम्भकर्ण ने रम्य, विशाल एवं सुवर्ण समूह से-
सूर्यवत् प्रकाशित, राक्षसेन्द्र रावण का भवन देखा ॥ ३ ॥

स तत्तदा सूर्य इवाभ्रजालं

प्रविश्य रक्षोऽधिपतेर्निवेशम् ।

ददश दूरेऽग्रजमासनस्थं

स्वयंभुवं शक्र इवासनस्थम् ॥ ४ ॥

जिस प्रकार सूर्य भगवान् मेघों के भीतर प्रवेश करते हैं,
उसी प्रकार उस वीर ने राक्षसराज के भवन में प्रवेश किया
और दूर ही से उसने अपने बड़े भाई को सिंहासन पर बैठा
ही बैठे हुए देखा, जैसे सिंहासनासीन ब्रह्मा जी को इन्द्र देखते
हैं ॥ ४ ॥

भ्रातुः स भवनं गच्छन् रक्षोगणसमन्वितम् ।

कुम्भकर्णाः पदन्यासैरकम्पयत मेदिनाम् ॥ ५ ॥

राक्षसों के साथ कुम्भकर्ण जिस समय अपने भाई के भवन
में जा रहा था, उस समय उसके पैर की धमक से धरती कांप
रही थी ॥ ५ ॥

सोऽभिगम्य गृहं भ्रातुः कक्ष्यामभिविगाह्य च ।

ददर्शोद्विग्नमासीनं विमाने पुष्पकेऽसुरम् ॥ ६ ॥

१ पुष्पके-उन्नत पुष्पकवत् । (नो०)

उसने भाई के भवन में प्रवेश कर और राजभवन की ड्योढ़ी नाँघ कर देखा कि, उसका बड़ा भाई उद्विग्न हो पुष्पक विमान-वत् ऊँची एक सेज पर बैठा हुआ है ॥ ६ ॥

अथ दृष्ट्वा दशग्रीवः कुम्भकर्णमुपस्थितम् ।

तूर्णमुत्थाय संहृष्टः सन्निकर्षमुपानयत् ॥ ७ ॥

जब रावण ने देखा कि, कुम्भकर्ण आ गया है; तब वह तुरन्त प्रसन्न हो कर उठा और कुम्भकर्ण को अपने समीप लिवा गया ॥ ७ ॥

अथासीनस्य पर्यङ्के कुम्भकर्णो महाबलः ।

भ्रातुर्वचन्दे चरणौ किं कृत्यमिति चाब्रवीत् ॥ ८ ॥

कुम्भकर्ण ने सेज पर बैठे हुए भाई के चरणों में सीख-जवाया और बोला, कहिए मुझे क्या आज्ञा है ? ॥ ८ ॥

उत्पत्य चैनं मुदितो रावणः परिपस्वजे ।

स भ्रात्रा सम्परिष्वक्तो यथावच्चाभिनन्दितः ॥ ९ ॥

यह सुन प्रसन्न हो रावण उठा और भाई को गले लगाया । भाई द्वारा गले लगाए जाने पर तथा यथाविधि अभिनन्दित होने पर ॥ ९ ॥

कुम्भकर्णः शुभं दिव्यं प्रतिपेदे वरासनम् ।

स तदासनमाश्रित्य कुम्भकर्णो महाबलः ॥ १० ॥

कुम्भकर्ण को बैठने के लिए एक शुभ और दिव्य एवं उत्तम आसन मिला । महाबली कुम्भकर्ण उस आसन पर बैठ ॥ १० ॥

संरक्तनयनः कोपाद्भावणं वाक्यमब्रवीत् ।

किमर्थमहमादृत्य त्वया राजन् विबोधितः ॥ ११ ॥

और क्रोध में भरने के कारण लाज नेत्र कर रावण से बोला । हे राजन् ! तुमने आदरपूर्वक मुझे क्यों जगबाया है ? ॥ ११ ॥

शंस कस्मान्द्रयं तेऽस्ति कोऽद्य प्रेतो भविष्यति ।

आतरं रावणः क्रुद्धं कुम्भकर्णमत्रस्थितम् ॥ १२ ॥

बतलाओ तो तुमको किसके भय का सन्देह उपस्थित हुआ है, आज किसके सिर पर मौत आकर सवार होगी ? क्रुपित बैठे हुए कुम्भकर्ण से रावण ॥ १२ ॥

ईपत्तु परिवृत्ताभ्यां नेत्राभ्यां वाक्यमत्रवीत् ।

अद्य ते सुमहान् कालः शयानस्य महाबल ॥ १३ ॥

सुखितस्त्वं न जानीषे मम रामकृतं भयम् ।

एष दाशरथी रामः सुग्रीवसहितो बली ॥ १४ ॥

कुछ कुछ क्रुपित हो और आँखें तरेर कर बोला । हे महाबलवान् ! आज तुमको सुख से सोते सोते बहुत दिन हो गए । इसीसे तुमको यह नहीं मालूम कि, मुझे राम से भय उत्पन्न हो गया है । यह दशरथ का पुत्र बलवान् राम, सुग्रीव को साथ ले ॥ १३ । १४ ॥

सहृद्रं सवलस्तीर्त्वा मूलं नः परिक्रन्तति ।

हन्त पश्यस्व लङ्कायां वनान्धुपवनानि च ॥ १५ ॥

सेतुना सुखमागम्य वानरैकार्यावीकृतम् ।

ये रक्षसां मुख्यतमा हतास्ते वानरैर्युधि ॥ १६ ॥

बानरी सेना सहित समुद्र को पार कर, लङ्का में आ पहुँचा है और हमारे कुल का नाश कर रहा है । समुद्र के उस पार से

पुल्ल बाँध कर मज्जे में वे सब लङ्का में पहुँच गये हैं और देखो, यहाँ के वनों और उपवनों को उजाड़ डाला है और उन उजाड़े हुए स्थानों में अपनी छावनी डाल कर वे ऐसे पड़े हुए हैं, मानों वानरों का समुद्र लहरा रहा हो। जो वड़े वड़े वीर राक्षस थे उनको वानरों ने युद्ध में मार डाला है ॥ १५ ॥ १६ ॥

वानराणां क्षयं युद्धे न पश्यामि कदाचन ।

न चापि वानरा युद्धे जितपूर्वाः कदाचन ॥ १७ ॥

किन्तु लड़ाई में वानरों का नाश होता हुआ मुझे किसी प्रकार भी नहीं देख पड़ता और न अब तक के युद्धों में कभी राक्षसों ने वानरों को जीता ही है ॥ १७ ॥

तदेतद्भयमुत्पन्नं त्रायस्वेमां महाव्रल ।

नाशय त्वभिमानघ्न तदर्थं बोधितो भवान् ॥ १८ ॥

यही भय उपस्थित हुआ है। हे महावली ! आप अब इस भय से मुझे बचाओ और इन वानरों का नाश करो। इसी के लिए आप जगवाये गये हैं ॥ १८ ॥

सर्वक्षपितकोशं च स त्वमभ्यवपद्य माम् ।

त्रायस्वेमां पुरीं लङ्कां बालवृद्धावशेषिताम् ॥ १९ ॥

मेरा समस्त ऐश्वर्य नष्ट हो चुका है, सो तुम अनुग्रह पूर्वक मेरी रक्षा करो। साथ ही इस लङ्कापुरी को भी, जिसमें अब केवल बूढ़े और वारे ही बच रहे हैं, नाश होने से बचाओ ॥ १९ ॥

भ्रातुरर्थे महाबाहो कुरु कर्म सुदुष्करम् ।

मयैवं नोक्तपूर्वा हि कश्चिद्भ्राता परन्तप ॥ २० ॥

हे महाबाहो ! अपने भाई के लिए तुम इस अत्यन्त कठिन काम को करो । हे परन्तप ! मैं आज तक इस प्रकार कभी किसी भाई के सामने नहीं गिड़गिड़ाया ॥ २० ॥

त्वय्यस्ति तु मम स्नेहः परा ऽसम्भावना च मे ।

दैवासुरेषु युद्धेषु बहुशो राक्षसर्षभ ।

त्वया देवाः ऽप्रतिव्यूह्य निर्जिताश्वासुरा युधि ॥ २१ ॥

किन्तु तुम्हारे ऊपर मेरा स्नेह है और मेरी दृष्टि में तुम्हारा बड़ा आदर भी है । हे राक्षसश्रेष्ठ ! देवासुर संग्राम में बहुत बार देवता और असुरों को विभाजित कर, तुमने असुरों तक को जीता है ॥ २१ ॥

तदेतत्सर्वमातिष्ठ वीर्यं भीमपराक्रम ।

न हि ते सर्वभूतेषु दृश्यते सदृशो बली ॥ २२ ॥

हे भीमपराक्रमी ! अतः तुम पुनः उनीबल का आश्रय ग्रहण करो । क्योंकि मुझे तो समस्त जीवधारियों में तुम्हारे समान बलवान कोई दूसरा देख नहीं पड़ता ॥ २२ ॥

कुरुष्व मे प्रियहितमेतदुत्तमं

यथाप्रियं प्रियरण चान्दवप्रिय ।

स्वतेजसा विधम सपत्नवाहिनीं

शरद्घनं पवन इवोद्यतो महान् ॥ २३ ॥

इति द्विषष्टितमः सर्गः ॥

१ सम्भावना—आदरः । (गो०) २ प्रतिव्यूह्य—विभज्य । (गो०)

प्रचण्ड वायु जिस प्रकार शरदकालीन मेघमाला को उड़ा देता है; उसी प्रकार तुम अपने तेज से शत्रुसैन्य को नष्ट कर भगा दो। हे रणप्रिय बान्धव ! अपनी उत्तम प्रीति का परिचय देते हुए तुम-मेरे हितार्थ यह उत्तम काम पूरा कर डालो ॥२३॥
युद्धकाण्ड का बासठवाँ सर्ग पूरा हुआ।

—*—

त्रिषष्टितमः सर्गः

—*—

तस्य राक्षसराजस्य निशम्य परिदेवितम् ।

कुम्भकर्णो वभाषेऽथ वचनं प्रजहास च ॥ १ ॥

उस राक्षसराज रावण के इस विलाप को सुन, कुम्भकर्ण अट्टहास करता हुआ बोला ॥ १ ॥

दृष्टो दोषो हि योऽस्माभिः पुरा मन्त्रविनिर्णये ।

हितेष्वनभिरक्तेन सोऽयमासादितस्त्वया ॥ २ ॥

हे राजन् ! प्रथम बार परामर्श करते समय हम लोगों को जो दोष दीख पड़े थे, वे ही अब तुम्हारे सामने आ उपस्थित हुए हैं क्योंकि उस समय तुमने अपने हितैषियों की उन बातों को पसन्द नहीं किया था ॥ २ ॥

शीघ्रं खल्वभ्युपेतं त्वां फलं पापस्य कर्मणः ।

निरयेष्वेव पतनं यथा दुष्कृतकर्मणः ॥ ३ ॥

जिस प्रकार महापातकियों को शीघ्र नरक में गिरना पड़ता है; उसी प्रकार सीताहरणरूपी पापकर्म का फल तुम्हें शीघ्र मिल गया ॥ ३ ॥

प्रथमं वै महाराज कृत्यमेतदचिन्तितम् ।

केवलं वीर्यदर्पेण नानुबन्धो विचारितः ॥ ४ ॥

महाराज ! इस पापकर्म को करने के पूर्व तुमने भली भाँति विचार नहीं किया । केवल अपने बल के अहङ्कार में तुमने इस कर्म के दुष्परिणाम की ओर ध्यान ही न दिया ॥ ४ ॥

यः पश्चात्पूर्वकार्याणि कुर्यादैश्वर्यमास्थितः ।

सूत्रं चोत्तरकार्याणि न स वेद नयानर्यो ॥ ५ ॥

जो ऐश्वर्यवान् राजा प्रथम करने योग्य कार्य को पीछे और पीछे करने योग्य कार्य को प्रथम करता है, वह नीति अनोति जानने वाला नहीं कहलाता ॥ ५ ॥

देशकालविहीनानि कर्माणि विपरीतवत् ।

क्रियमाणानि दुष्यन्ति हवींष्यप्रयतेष्विव ॥ ६ ॥

देश और काल का विचार कर जो काम किए जाते हैं, वे समस्त कार्य दूषित होने के कारण विपरीत फल देने वाले होते हैं । अर्थात् वे कार्य उची प्रकार इष्टफलदायी नहीं होते, जिस प्रकार मंत्र से सस्कारित न किए हुए अग्नि में डाली हुई आहुतियाँ इष्टफलदात्री नहीं होती ॥ ६ ॥

शत्रयाणां रपञ्चधा योगं कर्मणां यः प्रपश्यति ।

सचिवैः समयं कृत्वा स ऽसम्ये वर्तते पथि ॥ ७ ॥

१ शत्रयाणाम्—उत्तममध्यमाधमकर्मणां । (गो०) २ पञ्चधा—(क) कर्मणामारम्भोपायः । (ख) पुरुषद्रव्यसंयत् । (ग) देशकालविभाग । (घ) विनिपातप्रतीकारः । (ङ) कार्यविधिः । (गो०) ३ समयं—निश्चयरूप सिद्धान्तं कृत्वा (गो०) ४ असम्ये—समाधिके । (गो०)

जो राजा (उत्तम, मध्यम और अधम) कार्यों को करने के पूर्व कार्य आरम्भ करने के उपाय, अपने जनबल और धनबल, देश और काल, आपत्ति की रोक और कार्य की सफलता के विषय में मंत्रियों से सलाह कर, सिद्धान्त निश्चय कर लेता है, वही समाज में श्रेष्ठ और नीतिमार्ग पर चलने वाला माना जाता है ॥ ७ ॥

यथागमं च यो राजा समयं विचिकीर्षति ।

बुध्यते सचिवैर्बुद्ध्या सहृदश्चानुपश्यति ॥ ८ ॥

जो राजा नीतिशास्त्र का उल्लङ्घन न कर और मंत्रियों के साथ सलाह कर तथा अपने हितैषा मित्रों के साथ विचार कर, किसी कार्य के करने न करने का निश्चय करता है, वही राजा नीतिवान् कहलाता है ॥ ८ ॥

धर्ममर्थं च कामंच सर्वान् वा रक्षसां पते ।

भजेत पुरुषः काले त्रीणि द्वन्द्वानि वा पुनः ॥ ९ ॥

हे राजसराज ! या तो धर्म, अर्थ और काम को पृथक् पृथक् अथवा इन तीनों में से दो दो को (धर्मार्थ अर्थधर्म कामार्थ) अथवा सब को यथासमय करता है अर्थात् जो काम प्रातःकाल करने का है उसे प्रातःकाल, मध्याह्न में करने योग्य कार्य को मध्याह्नकाल में, इसी प्रकार सायंकाल में करने योग्य कार्य को सायंकाल में करता है, वही राजा नीतिवान् कहा जाता है ॥९॥

त्रिषु चैतेषु यच्छ्रेष्ठं श्रुत्वा तन्नावबुध्यते ।

राजा वा राजमात्रो वा व्यर्थं तस्य बहुश्रुतम् ॥ १० ॥

धर्म, अर्थ और काम—इन तीनों में जो श्रेष्ठ है (अर्थात् धर्म को) उसको जान कर भी जो धर्मानुसार आचरण नहीं करता—

वह चाहे राजा हो अथवा राजा के सदृश कोई बड़ा आदमी हो—उसका बहुत सा शास्त्र सुनना व्यर्थ है ॥ १० ॥

[टिप्पणी धर्म, अर्थ और काम में धर्म भ्रष्ट माना गया है।]

१ उपप्रदानं २ सान्त्वं वा अभेदं काले च ३ विक्रमम् ।

योगं च रत्नसांश्रिष्ठ तावुभौ च नयानयो ॥ ११ ॥

समय के अनुसार वैरी को जा कर द्रव्य देना, वैरी के साथ समीचीन भाषण करना, वैरी के मित्रों में फूट डाल देना और वैरी को दण्ड देना, पहिले कहे हुए पाँच योग और दोनों नीति अनिति ॥ ११ ॥

काले धर्माथकामान्यः सम्मन्त्र्य सचिवैः सह ।

निपेदेतात्मघाँल्लोके न स व्यसनमाप्नुयात् ॥ १२ ॥

और धर्म, अर्थ, काम सम्बन्धी कार्यों की मन्त्रणा मन्त्रियों के साथ उचित समय पर जो जितेन्द्रिय राजा किष्वा करता है उसको ससार में कभी दुःख प्राप्त नहीं होता ॥ १२ ॥

हितानुबन्धमालोच्य कार्याकार्यमिहात्मनः ।

राजा सहार्थतत्त्वज्ञैः सचिवैः स हि जीवति ॥ १३ ॥

राजा को उचित है कि, अर्थतत्त्वज्ञ (सब बातों का ऊँच नीच समझने वाले) मन्त्रियों से अपने हित के कार्यों के सम्बन्ध में कर्त्तव्यकर्त्तव्य का विचार कर निश्चय करे। जो राजा ऐसा करता है, वही इस संसार में टिक सकता है ॥ १३ ॥

१ उपप्रदानं—प्रतिपक्षिणः समोप गत्वा द्रविणप्रदानम् । (गो०)
२ सान्त्वं—समीचीनभाषणं । (गो०) ३ भेदं—भिन्नादिवर्गस्य द्वैतो-
करणं (गो०) ४ विक्रम—दण्ड । (गो०)

अनभिज्ञाय शास्त्रार्थान् पुरुषाः पशुयुद्धयः ।

प्रागल्भ्याद्वक्तुमिच्छन्ति मन्त्रेष्वभ्यन्तरीकृताः ॥ १४ ॥

जो मंत्री कहला कर, गुरुमुख से नीतिशास्त्रों का अध्ययन किए बिना केवल ढिठाई से और का और बक दिया करते हैं, वे देखने भर के मनुष्य हैं, किन्तु वास्तव में आहार निद्रादि में रत पशु के समान हैं ॥ १४ ॥

अशास्त्रविदुषां तेषां न कार्यमहितं वचः ।

अर्थशास्त्रानभिज्ञानां विपुलां श्रियमिच्छताम् ॥ १५ ॥

जिस राजा को विपुल राजैश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा हो, उसे ऐसे नीतिशास्त्रानभिज्ञ मूर्ख और अभिप्राय न समझने वाले मंत्रियों की काम को बिगाड़ने वाली बातों पर कभी ध्यान न देना चाहिए ॥ १५ ॥

अहितं च हिताकारं धाष्टर्याज्जल्पन्ति ये नराः ।

अवेद्य मन्त्रवाह्यास्ते कर्तव्याः कृत्यदूषणाः ॥ १६ ॥

जो मंत्री केवल ढिठाई से अहित को हित बना कर कहते हैं वे काम के बिगाड़ने वाले होते हैं, उनको विचारसभा से निकाल देना चाहिये ॥ १६ ॥

विनाशयन्तो भर्तारं सहिताशत्रुभिर्बुधैः ।

विपरीतानि कृत्यानि कारयन्तीह मन्त्रिणः ॥ १७ ॥

जुरे मंत्री उपायज्ञ शत्रु से मिल जाते हैं और शत्रु की प्रेरणा से उल्टे पुल्टे काम कर के अपने मालिक का काम चौपट कर डालते हैं ॥ १७ ॥

तान्भर्ता मित्रसङ्काशानमित्रान् मन्त्रनिर्णये ।

व्यवहारेण जानीयात्सचिवानुपसंहितान् ॥ १८ ॥

जो मन्त्री मित्र बन कर मन्त्रणा के समय शत्रु जैसी सन्मति देते हों, राजा को उचित है कि, व्यवहार द्वारा ऐसे घूसखोर मंत्रियों का असली रूप जान कर उनको निकाल दे ॥ १८ ॥

चपलस्येह कृत्यानि सहसाऽनुप्रधावतः ।

छिद्रमन्ये प्रपद्यन्ते क्राञ्चस्य स्वमिव द्विजाः ॥ १९ ॥

जिस प्रकार पक्षीगण स्वामिकार्तिक द्वारा विदारित क्राञ्च पर्वत के छिद्रों में घुस जाते हैं, वसी प्रकार शत्रु भी मटपट काम में हाथ डालने वाले और बुरे मन्त्रियों की सलाह में चलने वाले राजा के ऊपर आक्रमण कर बैठते हैं ॥ १९ ॥

यो हि शत्रुमभिज्ञाय नात्मानमभिरक्षति ।

अवाप्नोति हि सोऽनर्थान् स्थानाच्च व्यवरोप्यते ॥ २० ॥

जो राजा शत्रु को तुच्छ समझ कर अपनी रक्षा नहीं करता, वह बड़े भारी अनर्थ को प्राप्त कर, स्थानभ्रष्ट भी हो जाता है ॥ २० ॥

यदुक्तमिह ते पूर्वं प्रियया मेनुजेन च ।

तदेव नो हितं कार्यं यदिच्छसि च तद्गुरु ॥ २१ ॥

हे रावण ! तुम्हारी स्त्री मन्दोदरी ने और मेरे छोटे भाई विभीषण ने पहिले जो सलाह दी थी, वही हम लोगों के लिए श्रेयस्कर थी । जब उसको तुमने नहीं माना; तब अब तुम्हारा जो इच्छा हो सो करो ॥ २१ ॥

तत्तु श्रुत्वा दशग्रीवः कुम्भकर्णस्य भाषितम् ।

भ्रुकुटिं चैव सञ्चक्रे क्रुद्धश्चेनमभाषत ॥ २२ ॥

कुम्भकर्ण के इस भाषण को सुन, रावण ने भौंहे टेढ़ी कीं और क्रोध में भर बोला ॥ २२ ॥

मान्यो गुरुर्वाचार्यः किं मां त्वमनुशासयि ।

क्लिमेवं वाक्छूमं कृत्वा काले युक्तं विधीयताम् ॥ २३ ॥

हे कुम्भकर्ण ! देख मैं तेरा ज्येष्ठ भ्राता आचार्य के तुल्य मान्य हूँ । तू मुझे क्या सिखलाता है ? क्यों तू बोलने का इतना श्रम उठाता है । इस समय तो समयानुरूप कार्य करना चाहिए ॥ २३ ॥

विभ्रमाच्चित्तमोहाद्वा बलवीर्याश्रयेण वा ।

नाभपन्नमिदानीं यद्व्यर्थस्तस्य पुनः कथाः ॥ २४ ॥

मैंने चित्तविभ्रम से, अज्ञानवश अथवा अपने बलवीर्य के अहङ्कार से जो कार्य नहीं किया उसको अब बारबार कहना व्यर्थ है ॥ २४ ॥

अस्मिन् काले तु यद्युक्तं तदिदानीं विधीयताम्

गतं तु नानुशोचन्ति गतं तु गतमेव हि ॥ २५ ॥

अब तो इस समय जो करना उचित है, उसे करो । जो बात बीत गई वह तो बीत ही गई । उसके लिए पछताना व्यर्थ है ॥ २५ ॥

ममापनयजं दोषं विक्रमेण समीकुरु ।

यदि खल्वस्ति मे स्नेहो विक्रम वाधिगच्छसि ॥ २६ ॥

यदि वा कार्यमेतत्ते हृदि कार्यातमं मतम् ।

स सुहृदो विपन्नार्थं दोनमभ्यवपद्यते ॥ २७ ॥

स वन्धुर्योपनीतेषु साहाय्यायोपकल्पते ।

तमथैवं ब्रुवाणं तु वचनं धीरदारुणम् ॥ २८ ॥

हे कुम्भकर्ण ! यदि मेरे ऊपर तुम्हारा प्रेम है और तुम्हें अपने पराक्रम का भरोसा है और यदि मेरा यह कार्य तुम्हें आवश्यक जान पड़े तो मुझसे जो मूल वन पड़ी है, उसे तुम सन्हाल लो । देखो हितैषी मित्र वही है जो दुखिया पर दया करे और भाई वही है जो कुमार्गगामी वन्धु की भी सहायता करे । रावण के इन धीर और निष्ठुर वचनों को ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥

रुष्टोऽयमिति विज्ञाय शनैः श्लक्ष्णमुवाच ह ।

अतीव हि समालक्ष्य भ्रातरं क्षुभितेन्द्रियम् ॥२९॥

कुम्भकर्ण ने समझा कि, रावण रूठ गया है, तब कुम्भकर्ण ने धीरे धीरे ये मधुर वचन कहे । कुम्भकर्ण ने जब देखा कि, रावण पुराना भूल की गद्द दिलाने से जुबन हो गया है ॥२९॥

कुम्भकर्णः शनैर्वाक्यं वभाषे परिस्रान्त्वयन् ।

अलं राक्षसराजेन्द्र सन्तापमुपपद्यते ॥ ३० ॥

तब कुम्भकर्ण ने रावण को धीरे-धीरे बँधाते हुए धीरे से कहा— हे राजन् ! इस समय अब इस प्रकार सन्तप्त होने की आवश्यकता नहीं है ॥ ३० ॥

रोषं च सम्परित्यज्य स्वस्थो भवितुमर्हसि ।

नैतन्मनसि कर्तव्यं मयि जीवति पार्थिव ॥ ३१ ॥

अब तुम क्रोध को शान्त कर स्वस्थ हो जाओ । हे राजन् ! मेरे जीते तुमको अपने मन-में कभी ऐसा विचार न नाना चाहिये ॥ ३१ ॥

तमहं नाशयिष्यामि यत्कृते परितप्यसे ।

अवश्यं तु हितं वाच्यं सर्वावस्थां गतं मया ॥ ३२ ॥

जिसके लिए तुम इतना सन्तप्त हो रहे हो उसे मैं मार डालूँगा । मुझे तो सदैव तुम्हारे हित ही की बात कहनी चाहिए ॥ ३२ ॥

बन्धुभावादभिहितं भ्रातृस्नेहाच्च पार्थिव ।

सदृशं यत्तु कालेऽस्मिन्कतुं स्निग्धेन बन्धुना ॥ ३३ ॥

हे राजन् ! इसीसे मैं बन्धुभाव और भ्रातृस्नेह से प्रेरित हो वे सब बातें तुमसे करीं । इस समय एक हितैषी भाई का जो कर्त्तव्य है वह मैं करूँगा ॥ ३३ ॥

शत्रूणां कदनं पश्य क्रियमाणं मया रणे ।

अद्य पश्य महाबाहो मया समरमूर्धनि ॥ ३४ ॥

हते रामे सह भ्रात्रा द्रवन्तीं हरिवाहिनीम् ।

अद्य रामस्य तद्दृष्ट्वा मयाऽऽनीतं रणाच्छिरः ॥ ३५ ॥

तुम देखना कि, आज मैं रणक्षेत्र में तुम्हारे शत्रुओं का कैसा नाश करता हूँ । हे महाबाहो ! आज जब मैं युद्धभूमि में लक्ष्मण सहित राम की मार डालूँगा, तब तुम देखना वानरी सेना कैसी भागती है । आज तुम मेरा लाया हुआ राम का कटा सिर देख कर ॥ ३४ ॥ ३५ ॥

सुखी भव महाबाहो सीता भवतु दुःखिता ।

अद्य रामस्य पश्यन्तु निधनं सुमहत्प्रियम् ॥ ३६ ॥

लङ्कायां राक्षसाः सर्वे ये ते निहतबान्धवाः ।

अद्य शोकपरीतानां स्वबन्धुवधकारणात् ॥ ३७ ॥

शत्रोर्युधि विनाशेन करोम्यास्रप्रमार्जनम् ।

अथ पर्वतसङ्काशं समूर्यमिव तोयदम् ॥ ३८ ॥

हे महाबाहो ! तुम हर्षित होना आर नीना दुन्दु हो । राक्षसों को राम का नाश बड़ा प्रिय है, वे आज उमको देखें । लङ्कावासी जो समस्त राक्षस अपने बन्धु बान्धवों के मारे जाने से दुःखी हो रहे हैं, आज मैं उनके दुःख के आँसू शत्रु का युद्ध में विनाश कर पौछूँगा । आज पर्वताकार और सूर्ययुक्त मेघ के समान ॥ ३६ ॥ ३७ । ३८ ॥

विकर्णं पश्य समरे सुग्रीवं प्लवगोत्तमम् ।

कथं त्वं राक्षसैरेभिर्मया च परिसान्निवतः ॥ ३९ ॥

जिघांसुभिर्दाशरथिं व्यथसे त्वं सदानव ।

अथ पूर्वं हते तेन मयि त्वां हन्ति गधवः ॥ ४० ॥

वानरश्रेष्ठ सुग्रीव को समर मे गिरा हुआ देखना । हे अनव ! श्रीरामचन्द्र को नाश करने की अभिलाषा करते हुए ये समस्त राक्षसगण तथा मैं तुमको धीरज बंधा रहे हैं. तो भी तुम क्यों ऐसे व्यथित हो रहे हो । देखो, जब राम पहिले मुझे मार लेगा तभी तो तुमको मारेगा ॥ ३९ ॥ ४० ॥

नाहमात्मनि सन्तापं गच्छेयं राक्षसाधिप ।

कामं त्विदानीमपि मां व्यादिश त्व परन्तप ॥ ४१ ॥

हे राक्षसराज ! सो मैं तो अपने मन मे जरा भी सन्तप नही होता, तब तुम क्यों दुखी होते हो । हे परन्तप ! इस समय तुम जो चाहते हो सो बतलाओ या तदनुसार आता दा ॥ ४१ ॥

वा० रा० यु०--४१

न परः प्रेषणीयस्ते युद्धायातुलविक्रम ।

अहमुत्सादयिष्यामि शत्रूंस्तत्र महाबल ॥ ४२ ॥

हे अतुल विक्रमी ! समरभूमि में अन्य किसी को भेजने की आवश्यकता नहीं है । क्योंकि मैं अकेला ही तुम्हारे बलवान शत्रु को मार डालूँगा ॥ ४२ ॥

यदि शक्रो यदि यमो यदि पावकमारुतौ ।

तानहं योधयिष्यामि कुबेरवरुणावपि ॥ ४३ ॥

मेरे सामने यदि इन्द्र, यम, अग्नि, पवन, कुबेर अथवा वरुण ही क्यों न आवें, तो मैं उनके साथ भी युद्ध करूँगा ॥ ४३ ॥

गिरिमात्रशरीरस्य शितशूलधरस्य मे ।

नर्दतस्तीक्ष्णदंष्ट्रस्य विभीषाच्च पुगन्दरः ॥ ४४ ॥

जब मैं पैना त्रिशूल हाथ में ले, अपने पर्वताकार शरीर से, पैने पैने दाँत दिखलाता हुआ गजूँगा, तब इन मनुष्यों की तो विसाँत ही क्या; इन्द्र भी भयभीत हो जाँयगे ॥ ४४ ॥

अथवा त्यक्तशस्त्रस्य मृद्गतस्तरसा रिपून् ।

न मे प्रतिमुखे स्थातुं कश्चिच्छक्तो जिजीविषुः ॥ ४५ ॥

अथवा मैं अस्त्रत्याग खाली हाथ भी शत्रुओं को कुचलने लगूँ तो जिसे जीने की साध होगी, वह कभी मेरे सामने न आवेगा ॥ ४५ ॥

नैव शक्त्या न गदया नासिना निशितैः शरैः ।

हस्ताभ्यामेव संरब्धो हनिष्यामपि वज्रिणम् ॥ ४६ ॥

हे राजसराज ! मुझे न तो शक्ति की, न गदा की, न पैंनी तलवार की और न पैंने तीरों की ही आवश्यकता है। मैं ना अपने दोनों हाथों ही से क्रुद्ध होने पर, यदि इन्द्र भी हो तो उसको भी मार डालूंगा। ४६ ॥

यदि मे मुष्टिवेगं स रावणोऽय सहिष्यते ।

ततः पास्यन्ति वाणौघा लघिरं रावणस्य तु ॥ ४७ ॥

यदि राम ने मेरे घूँसे का प्रहार सह लिया तो मेरे वाण उसका खून पियेंगे ॥ ४७ ॥

चिन्तया द्वाध्यसे राजन् किमर्थं भयि तिष्ठति ।

सोऽहं शत्रुविनाशाय तव नियातुमुद्यतः ॥ ४८ ॥

हे राजन् ! मेरे रहने तुम क्यों चिन्तित होने हो ! मैं गन्धार शत्रु का नाश करने के लिए समरभूमि में जाने की तैयार हूँ ॥ ४८ ॥

मुञ्च रामाद्भयं राजन् हनिष्यामीह संयुगे ।

रावणं लक्ष्मणं चैव सुग्रीवं च महाबलम् ॥ ४९ ॥

हे राजन् ! तुम राम के भय को त्याग दो। मैं समर में राम, लक्ष्मण और महाबली सुग्रीव को मार डालूंगा ॥ ४९ ॥

हनुमन्त च रज्जोन्मं लक्ष्मणेन प्रदीपिता ।

हरीशचापि हनिष्यामि संयुगे समवस्थितान् ॥ ५० ॥

राजसों का दह करने वाले हनुमान को जिनने लक्ष्मण जगदीश तथा अन्य समस्त धारदा को जो लक्ष्मणने मारा है—मैं मार डालूंगा ॥ ५० ॥

असाधारणमिच्छामि तव दातुं महद्यशः ।

यदि चेन्द्राद्भयं राजन्यदि वाऽपि स्वयंभुवः ॥५१॥

मैं तुम्हारे लिए असाधारण बड़ा यश सम्पादन करूँगा ।
यदि तुमको इनसे या ब्रह्मा से भी भय हुआ, तो मैं उनको भी
मार डालूँगा ॥ ५१ ॥

अपि देवाः शयिष्यन्ते क्रुद्धे मयि महीतले ।

यमं च शमयिष्यामि भक्षयिष्यामि पावकम् ॥५२॥

मैं जब क्रुद्ध हो जाऊँगा, तब देवता भूमि पर लोटते हुए
देख पड़ेंगे । मैं यम को शान्त कर दूँगा और अग्नि को खा
डालूँगा ॥ ५२ ॥

आदित्यं पातयिष्यामि सनत्त्रं महीतले ।

शतक्रतुं वधिष्यामि पास्यामि वरुणालयम् ॥ ५३ ॥

मैं समस्त नक्षत्रों सहित सूर्य को धरती पर गिरा दूँगा ।
इन्द्र को मार डालूँगा और समुद्र को पी डालूँगा ॥ ५३ ॥

पर्वतांश्चूर्णयिष्यामि दारयिष्यामि मेदिनीम् ।

दीर्घकालं प्रसुप्तस्य कुम्भकर्णस्य विक्रमम् ॥ ५४ ॥

पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर डालूँगा, पृथिवी को विदीर्ण कर
डालूँगा । बहुत दिनों से सोते हुए कुम्भकर्ण का पराक्रम ॥५४॥

अद्य पश्यन्तु भूतानि भक्षयमाणानि सर्वशः ।

नन्विदं त्रिदिवं सर्वमाहारस्य न पूर्यते ॥ ५५ ॥

आज वे समस्त जीव देखें जिनको मैं खाऊँगा । ये त्रिलोकी
भी मेरा पेट भरने के लिए पर्याप्त न होगी ॥ ५५ ॥

वधेन ते दाशरथेः सुखाहं

सुखं समाहर्तुं महं व्रजामि ।

निकृत्य रामं सह लक्ष्मणेन

खादामि गर्वान् हृद्युथमुख्यान् ॥५६॥

हे राजसराज ! दशरथनन्दन राम को मारने के लिए और उनके मारे जाने से तुमको सुखा करने के लिए, मैं जाना हूँ । मैं लक्ष्मणसहित राम को मार कर समस्त वानरयूथपतियों को खा डालूँगा ॥ ५६ ॥

रमस्व कामं पितृ चाग्रयवारुणीं

कुरुष्व कृत्यानि विनीयतां ज्वरः ।

मयाद्य रामे गमिते यमक्षय


चिराय सीता वशगा भविष्यति ॥ ५७ ॥

इति त्रिषष्टितमः सर्गः ॥

अब हे राजन् ! तुम खूब मदिरा पान का न्विगो दे नाथ विहार करो और चिन्ता त्याग कर आवश्यक कृत्य करो । आज मेरे हाथ से राम के यमालय जाने पर सीता सर्वैव के लिए तुम्हारी हो जायगी ॥ ५७ ॥

युद्धकाण्ड का तिरुटसर्ग पूरा हुआ ।

चतुःषष्टितमः सर्गः



तदुक्तमतिक्रियस्य वलिनो १ बाहुशालिनः ।

कुम्भकर्णस्य वचनं श्रुत्वोवाच महोदरः ॥ १ ॥

चलायमान भुजाओं वाले, विशाल शरीरधारी एवं बन्नवान
कुम्भकर्ण के ऐसे वचन सुन, राज्ञः महोदर कहने लगा ॥ १ ॥

कुम्भकर्ण कुले जातो धृष्टः प्राकृतदर्शनः ।

अवलिसो न शक्नोषि कृत्यं सर्वत्र वेदितुम् ॥ २ ॥

हे कुम्भकर्ण ! तुम प्रशस्त कुल में उत्पन्न हुए हो, इसीसे
तुमको बड़ा अभिमान होने के कारण तुममें इतनी ठिठई है
और इसीसे तुम्हारी गँवारों जैसी शक्त है। तुम सब बातों को
जान नहीं सकते ॥ २ ॥

न हि राजा न जानीते कुम्भकर्णं नयानयौ ।

त्वं तु कैशोरकाद्धृष्टः केवलं वक्तुमिच्छसि ॥ ३ ॥

हे कुम्भकर्ण ! वह हमारे राजा नीत अनीति नहीं जानते !
तुम लड़कपन ही से ढीठ हो गये हो, इसीसे तुम ऐसी बातें कह
दिआ करते हो ॥ ३ ॥

स्थानं वृद्धिं च हानिं च देशकालविभागवित् ।

आत्मनश्च परेषां च बुध्यते रराक्षसर्षभः ॥ ४ ॥

१ बाहुशालिनः—चलायमानबाहोः । (शि०) २ राज्ञसर्षभः—रावणः
(गो०)

रावण देशकालोचित कर्तव्यों को जानने हैं. वे अरतो और शत्रु की स्थिति को भली भाँति परख सकते हैं. उन्हो यह भी मालूम है कि, किस काम करने में उनका लाभ है और किसमें हानि है ॥ ४ ॥

यत्त्वशक्यं बलवता कर्तुं प्राकृतबुद्धिना ।

अनुपासितबुद्धेन कः कुर्यात्तादृशं बुधः ॥ ५ ॥

जिसने कभी बड़े बूढ़ों को नोहवन नहीं उठाई, जैसे गँवार, जो काम अपने बल के गर्व में भर, कर डाला करते हैं, क्या बुद्धिमान जन जैसे कार्य कभी कर सकते हैं ? ॥ ५ ॥

यांस्तु धर्मार्थिकामांस्त्वं त्रयीपि पृथगाश्रयान् ।

अनुबोद्धं स्वभावे तान्निहि : लक्षणमस्ति ते ॥६॥

जिन अर्थ, धर्म और काम को, तुमने परस्पर विरोधी होने के कारण एकजान द्वारा अनुष्ठान करने के अयोग्य बतलाया है, उन अर्थ, धर्म और काम सम्बन्धी कर्तव्यों को, तत्त्वतः समझने की तुममें स्वयं सामर्थ्य ही नहीं है ॥ ६ ॥

कर्म चैव हि सर्वेषां कारणानां प्रयोजकम् ।

श्रेयः पापीयसां चात्र फलं भवति कर्मणाम् ॥ ७ ॥

सुख के जो साधन हैं—अर्थान् धर्म, अर्थ और काम, इन सब का प्रयोजक अर्थात् उत्पादक कर्म हैं अर्थात् इन तीनों इनकी उत्पत्ति होती है । एक ही कर्ता ही पुण्य और पाप दोनों ही के शुभाशुभ फल भोगने पड़ते हैं ॥ ७ ॥

निःश्रेयसफलावेव धर्मार्थावितरावपि ।

अधर्मानर्थयोः प्राप्तिः फलं च प्रत्यवायिकम् ॥८॥

१ स्वभावेन—तत्त्वतः । (१५०) २ कर्मणः—कर्मणः । (१५०)

धर्म और अर्थ चित्त की शुद्धि करने वाले होने के कारण मोक्ष के साधन माने जाते हैं। अर्थात् धर्म और अर्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। किन्तु कभी कभी इनके साधना से स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होती है। किन्तु कभी कभी इनके करने से जो अधर्म एवं अनर्थ हुआ करता है, सो शास्त्रविहित कर्मानुष्ठान यथाविधि न करने के कारण हुआ करता है ॥ ८ ॥

एहलौकिकपारत्रं कर्म पुंभिर्निषेव्यते ।

कर्माण्यपि तु कल्याणि लभते काममास्थितः ॥९॥

लोग इस लोक और परलोक के लिए कार्य करते हैं और उनको उसका फल भी मिलता है। इसी प्रकार यथेच्छाचारी कर्मों से भी शुभ फल प्राप्त होता है। अतएव केवल शास्त्रविहित कर्म ही शुभफलप्रद हैं, शास्त्रनिषिद्ध कर्म नहीं, इसका कोई नियम नहीं है ॥ ९ ॥

तत्र क्लृप्तमिदं राज्ञा हृदि कार्यं मतं च नः ।

शत्रौ हि साहसं यत्स्यात्किमिवात्रापनीयताम् ॥१०॥

राजसराज ने जो कुछ किया है वह भलीभाँति सोच विचार कर और कुहम लोगों की सम्मति किया है। फिर शत्रुओं के प्रति बल प्रकट करना अथवा उनसे युद्ध करना नीतिविरुद्ध कार्य नहीं अतः इसको रोकना उचित भी नहीं ॥ १० ॥

एकस्यैवाभियाने तु हेतुर्यः कथितस्तत्रया ।

तत्राप्यनुपपन्नं ते वक्ष्यामि यदसाधु च ॥ ११ ॥

तुम्हारे अहङ्कारपूर्वक इस कथन में कि, मैं अकेला ही शत्रुओं को जीत लूँगा, जो अनौचित्य और असाधुपन है, सो मैं बतलाए देता हूँ । ११ ॥

येन पूर्वं जनस्थाने बहवोऽतिबला हताः ।

राक्षसा राघवं तं त्वं कथमेको जयिष्यसि ॥ १२ ॥

जिन राम ने अकेले ही जनस्थान में बहुत से अति बलवान राक्षसों को मार डाला, वन को तुम अकेले क्यों कर जीत लोगे ? ॥ १२ ॥

ये पुरा निर्जितास्तेन जनस्थाने महौजमः ।

राक्षसांस्तान्पुरे सर्वान्भीतानद्यापि पश्यामि ॥ १३ ॥

जो पराक्रमी राक्षस जनस्थान में राम द्वारा हराए गए थे, उन सब भयभीत राक्षसों को तुम अब भी देख सकते हो ॥ १३ ॥

तं सिंहमेवं संक्रुद्धं गमं दशरथात्मजम् ।

मर्षं सुप्तनिवाबुध्य प्रबोधयितुमिच्छामि ॥ १४ ॥

ज्वलन्तं तेजसा नित्यं क्रोधेन च दुरासदम् ।

कस्तं मृत्युमिवामह्यमासादयितुमर्हति ॥ १५ ॥

आश्चर्य है ! तुम जानबूझ कर सोए हुए क्रुद्धसिंह अथवा सर्प की तरह राम को जगाना चाहते हो । राम अपने तेज से प्रदीप्त है और क्रुद्ध होने पर दुर्धर्ष है तथा मृत्यु की तरह अमर है । उसे कौन भयभीत कर सकता है । अथवा उसका मामना कौन कर सकता है ? ॥ १४ ॥ १५ ॥

संशयस्थमिदं सर्वं शत्रोः प्रतिसमासने ।

एकस्य गमनं तत्र न हि मे रोचने भृशम् ॥ १६ ॥

ये समस्त राक्षस एकत्र होकर यदि राम का सामना करे तो जब इनके जीवित रहने में शङ्का है, तब तुम्हारा अकेले उनसे लड़ने के लिए जाना मुझे तो उचित नहीं जाना पड़ता ॥ १६ ॥

हीनार्थः सुसमृद्धार्थं को रिपुं प्राकृतं यथा ।

निश्चित्य जीवितत्यागे वशमानेतुमिच्छति ॥ १७ ॥

क्योंकि ऐसा कौन मनुष्य होगा जो स्वयं साहाय्यरहित होकर साहाय्ययुक्त शत्रु को, तुच्छ समझ पराजित करना चाहेगा। हाँ जिसे अपनी जान भार होगी, वह तो ऐसा अवश्य कर सकता है ॥ १७ ॥

यस्य नास्ति मनुष्येषु सदृशो राक्षसोत्तम ।

कथमाशंससे योद्धुं तुल्येनेन्द्रविवस्वतोः ॥ १८ ॥

हे राक्षसश्रेष्ठ ! जिनके समान कोई भी मनुष्य नहीं है और जो इन्द्र और यम को तरह पराक्रमी है, उसके साथ तुम अकेले किस तरह युद्ध करना चाहते हो ? ॥ १८ ॥

एवमुक्त्वा तु संरब्धं कुरुभकर्णं महोदरः ।

उवाच रक्षसां मध्ये रावणं लोकरावणम् ॥ १९ ॥

क्रुद्ध हो इस प्रकार महोदर ने कुभकर्ण को फटकार कर, राक्षसों के बीच बैठे हुए और लोकों को रहाने वाले रावण से कहा ॥ १९ ॥

लब्ध्वा पुनस्त्रं वैदेहीं किमर्थं सम्प्रजल्पसि ।

यदीच्छसि तदा सीता वशगा ते भविष्यति ॥ २० ॥

जब सीता को तुम हथिया चुके हो तब अब कहा सुनी की आवश्यकता ही क्या है ? तुम जब चाहोगे तभी वह तुम्हारे वश में हो जायगी ॥ २० ॥

दृष्टः कश्चिद्दुपायो मे मीतोपस्थानकारकः ।

रुधिरश्चेत्स्त्रया युद्धया राज्ञसेश्वर तं शृणु ॥ २१ ॥

हे राज्ञसेश्वर ! मैंने सीता को बश में करने का एक उपाय सोचा है, उसे सुनिए । सम्भव है तुम भी उसे पसन्द करो ॥२१॥

अह द्विजिह्वः सहादी कुम्भकर्णो वितर्दनः ।

पञ्च रामवधायेंते निर्यान्वित्यवधोपय ॥ २२ ॥

वह यह है कि मैं, द्विजिह्व, सहादी, कुम्भकर्ण, वितर्दन, ये पाँच जन राम का वध करने को जा रहे हैं । नगर भर में इस बात की घोषणा करवा दी जाय ॥ २२ ॥

ततो गत्वा वयं युद्धं दाम्प्यामस्तस्य यन्नतः ।

जेप्यामो यदि ते शत्रून्प्रोपायैः कृत्यमस्ति नः ॥२३॥

फिर हम पाँचों जन जा कर सावधानतापूर्वक युद्ध करें ; यदि हम जीत गए तब तो किन्हीं दूसरे उपाय की आवश्यकता है ही नहीं ॥ २३ ॥

अथ जीवति नः शत्रुवयं च कृतसयुगाः ।

ततस्तदभिपत्स्यामा मनसा यत्सर्मान्जितम् ॥ २४ ॥

और यदि हम लोगों के घोर युद्ध करने पर भी तुम्हारा शत्रु जीता बच जाय तो हमने जो उपाय सोचा है वही काम में लाया जाय ॥ २४ ॥

वयं युद्धादिदेप्यामो रुधिरैश्च नमृजिताः ।

विदार्य स्वतनुं वारुणं रामनामाद्धितैः शितैः ॥ २५ ॥

वह यह कि, हम लोग रामनामाङ्कित तीक्ष्ण बाणों से अपनी देहों को क्षतविक्षत करा और अङ्गों से रुधिर वहाते हुए, यहाँ आवेंगे ॥ २५ ॥

भक्षितो राघवोऽस्माभिर्लक्ष्मणश्चेति वादिनः ।

तत्र पादौ ग्रहीष्यामस्त्रं नः कामं प्रपूरय ॥ २६ ॥

और यह कहते हुए कि, हम लोगों ने राम लक्ष्मण को खा डाला, तुम्हारे दोनों चरण पकड़ लेंगे । तब तुम अपनी प्रसन्नता प्रकट करने को हम लोगों को पुरस्कारादि से पुरस्कृत करना ॥ २६ ॥

ततोऽवधोषय पुरे गजस्कन्धेन पार्थिव ।

हतो रामः सह भ्रात्रा ससैन्य इति सर्वतः ॥ २७ ॥

हे राजन् ! तदनन्तर तुम हाथी की पीठ पर चढ़ सारेनगर में यह घोषणा करना कि, समस्त वानरी सेना सहित राम और लक्ष्मण मारे गए ॥ २७ ॥

प्रीतो नाम ततो भूत्वा भृत्यानां त्वमरिन्दम ।

भोगांश्च परिवारांश्च कामांश्च वसु दापय ॥ २८ ॥

हे अरिन्दम ! तदनन्तर तुम अपनी प्रसन्नता प्रकट करने को नौकर चाकरों को मुँह मॉगे (इनाम इकराम, पदार्थ सोना आदि दिलावा देना ॥ २८ ॥

ततो माल्यानि वासांसि वीराणामनुलेपनम् ।

पेयं च बहु योधेभ्यः स्वयं च मुदितः पिव ॥ २९ ॥

सैनिकों को मालाएँ, वस्त्र, षण, अङ्गों में लगाने के सुगन्धित पदार्थ और पीने को मदिरा दिलावाना और स्वयं भी प्रसन्न हो पीना ॥ २९ ॥

ततोऽस्मिन् बहुलीभूते १कौलीने सर्वतो गने ।
 भक्षितः समुहद्रामो गच्छसैरिति विश्रुते ॥ ३० ॥
 प्रविश्याश्वास्य चापि त्वं सीतां रहसि सान्त्वय ।
 धनधान्यैश्च कामैश्च रत्नैश्चैतां प्रलोभय ॥ ३१ ॥

जब यह बात सारे नगर में घर घर में प्रचारित हो जाय और जब सीता भी यह सुन ले कि, राम को उनके महायज्ञों सहित राक्षसों ने खा डाला—तब तुम अशोकवाटिका में जा, एकान्त में सीता को घोरज बँधा कर समझाना और उसे धन-धान्य रत्न तथा अन्य अभीष्ट वस्तुएँ देने का प्रलोभन देना ॥३०॥३१॥

अनयोपधया राजन् भयशोकानुबन्धया ।

अकामा त्वद्वशं सीता नष्टनाथा गमिष्यति ॥ ३२ ॥

हे राजन् ! यद्यपि अपने पति के मारे जाने का संवाद सुन वह स ता भयभीत और शोकाग्निता होगी, तथापि अपना नासीना इच्छा न रहने भी इस कपटचातुर ने तुम्हारे वश में हो जायगी ॥ ३२ ॥

गृह्णीयं हि भर्तारं विनष्टमत्रगम्य सा ।

नैराश्यात्स्त्रीलघुत्वाच्च २ त्वादृशं प्रतिपन्स्यते ॥३३॥

सीता अपने प्यारे पति को नष्ट हुआ देख, सब प्रकार से निराश हो स्त्रीत्वभावसुलभ चपलतायुक्त तुम्हारे वश में हो जायगी ॥ ३३ ॥

सा पुरां सुखसंवृद्धा सुखार्हा दुःखकर्षिता ।

त्वय्यधीनं सुखं ज्ञात्वा सर्वधोपगमिष्यति ॥ ३४ ॥

सीता पहिले सुख ही में पल कर पड़ी हुई है। वह नया सुख पाने योग्य सीता अब दुःख से विकल है। जो जब हमें

यह बात मालूम होगी कि, तुम्हारे अधीन होने से उसे सुख मिलेगा, तो सब प्रकार से तुम्हारे वश में हो जायगी ॥ ३४ ॥

एतत्सुनीतं मम दर्शनेन

रामं हि दृष्ट्वैव भवेदनर्थः ।

इहैव ते सेत्स्यति मोत्सुको भूः

महानयुद्धेन सुखस्य लाभः ॥ ३५ ॥

हे राजन् मैंने अच्छी तरह विचार लਿਆ है कि, यदि तुम राम के सामने गए तो अनर्थ हो जायगा । तुम्हारा मनोरथ तो मेरे वतलाए हुए उपाय से घर बैठे पूरा होगा । युद्ध के लिए उत्कण्ठित मत हो । क्योंकि युद्ध करने से सुख न मिलकर दुःख ही मिलेगा ॥ ३५ ॥

अनष्टसैन्यो ह्यनवाप्तसंशयो

रिपूनयुद्धेन जयन्नराधिपः ।

यशश्च पुण्यं च सहन् महीपते

यिं च कीर्तिं च चिरं समश्नुते ॥ ३६ ॥

इति चतुःषष्टितमः सर्गः ॥

हे राजन् ! जो राजा अपने आप संशय में न पड़ कर और सेना को नष्ट न करा कर, बिना लड़े ही, शत्रु को जीत लेता है, वह विपुल यश, सुख, सम्पत्ति और चिरस्थायिनी कीर्ति सम्पादन करता है ॥ ३६ ॥

युद्धकाण्ड का चौंसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

पञ्चषष्टितमः सर्गः

—:०:—

स तथोक्तस्तु निर्भत्स्य कुम्भकर्णो महोदरम् ।

अत्रवीद्राक्षश्रेष्ठं भ्रातरं रावणं ततः ॥ १ ॥

जब महोदर ने यह कहा, तब महाप्रलवान कुम्भकर्ण ने उसको
दुपट कर, राक्षसश्रेष्ठ अपने भाई रावण से कहा ॥ १ ॥

सोऽहं तव भयं घोर वधात्तस्य दुर्गात्मनः ।

रामस्याद्य प्रगाजीमि निर्वैरो हि नुर्त्वा गव ॥ २ ॥

उस दुर्गात्मा राम को आज मैं मार - तुम्हारा घोर भय दूर
कर दूंगा । जब तुम्हारा वैरी न रहेगा तब तुम सुखी होना ॥ २ ॥

गर्जन्ति न वृथा शूरा निर्जला इव तोयदाः ।

पश्य सम्पाद्यमानं तु गर्जितं वृथि दर्मणा ॥ ३ ॥

जो वीर होते हैं वे जलशून्य शरणा गिरने युग नहीं
गरजते । मैंने जो गर्जन किया है, न, तुम मरने से सुनने
अपनी गर्जना के अनुसार कार्य करते हुए देखना ॥ ३ ॥

न मर्षयति चात्मान सम्भाषयति नादिना ।

अदर्शयित्वा शूरास्तु कर्तुं कुर्वन्ति दुष्कर्म ॥ ४ ॥

जो शूर होते हैं वे अपने को क्षयमानजनक बातों से सुनना
कभी सहन नहीं कर सकते और न वे अपनी प्रतिष्ठा ही से भूँसे
होते हैं । किन्तु शूर लोग जो भी दुष्कर्म करने के पथ
प्रकट न कर उसको कर के दिखाना देते हैं । ॥

त्रिकलधानामबुद्धीनां राज्ञा पण्डितमानिनाम् ।

श्रुण्वता सादितमिदं त्वद्विधानां महोदर ॥ ५ ॥

हे महोदर ! काठर और अपने को पण्डित मानने वाले, किन्तु वास्तव में निवृद्धि राजा ही, तुम्हारा कही हुई जैसी बातें सुनना पसन्द करते हैं । अथवा तुम्हारा यह परामर्श उन्हें अच्छा लग सकता है ॥ ५ ॥

युद्धे कापुरुषैर्नित्यं भवद्भिः प्रियवादिभिः ।

राजानमनुगच्छद्भिः कृत्यमेतद्वि सादितम् ॥ ६ ॥

आप जैसे चापलूस रणभीरु और राजा की हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों ही ने तो वह सारा काम चौपट किया है ॥६॥

राजशेषा कृता लङ्का क्षीणाः कोशो वलं हतम् ।

राजानमिममासाद्य सुहृच्चिह्नममित्रकम् ॥ ७ ॥

तुम्हारे समान बनावटी मित्रा ने इन (निवृद्धि) राजा को पा कर, सारा राजकोश वरवाद कर डाला, समस्त सेना मरवा डाली और लङ्का को निर्वल कर डाला । अब तो अकेले राजा ही शेष रह गए हैं ॥ ७ ॥

एष निर्याम्यह युद्धमुद्यतः शत्रुनिर्जये ।

दुर्नयं भवतामद्य समीकर्तुमिहाहवे ॥ ८ ॥

तुम्हारी इस दुर्नीति को शान्त करने तथा शत्रु को युद्ध में परास्त करने को मैं लड़ने को तैयार हूँ और अब मैं समरभूमि में जाता हूँ ॥ ८ ॥

एवमुक्तवतो वाक्यं कुम्भकर्णस्य धीमतः ।

प्रत्युवाच ततो वाक्यं प्रहसन् राक्षसाधिपः ॥९॥

बुद्धिमान् कुम्भकर्ण के इस प्रणव करने पर रावण प्रह्वान करता हुआ बोला ॥ ६ ॥

महोदरोऽयं रामात्तु परित्रप्तो न संशयः ।

न हि रोचयते तात युद्धं युद्धविशारद ॥ १० ॥

हे कुम्भकर्ण ! निश्चय ही यह महोदर राम से डरा हुआ है । हे तात ! हे युद्धविशारद ! इसा से इन्दा राम क साथ लड़ना पसन्द नहीं है ॥ १० ॥

कश्चिन् मे त्वत्समो नास्ति सौहृदेन बलेन च ।

गच्छ शत्रुवधाय त्वं कुम्भकर्ण जयाय च ॥ ११ ॥

हे कुम्भकर्ण ! मेरे हितसाधन में और बल-बलन में तुम्हारे समान मेरा शुभचिन्तक दूसरा कोई नहीं है । जो तुम उच शत्रु को मारने और विजयप्राप्त कराने के लिए यात्रा करो ॥ ११ ॥

तस्मात्तु भयनाशार्थं भवान् सन्तोषितो मया ।

अयं हि कालः सुहृदां नक्षतानामग्निम्न ॥ १२ ॥

इस भय दो निटाने के लिए ही मैंने आपको जगयाया है । हे धरिन्दम ! मेरे हितैषी मित्र रावणों के लिए शत्रु में लड़ने का यही तो समय है ॥ १२ ॥

तद्गच्छ शूलपादाय पाशहस्तान्तकः ।

वानरान् राजपुत्रां च कक्ष्यादित्यतेजसा ॥ १३ ॥

सो तुम अब हाथ में शूल ले, पाशधारी बन यों लड़ यात्रा करो और नन्दभूमि में जा उन नन्दन जानक और सूर्य के समान तेजस्वी उन दोनों राजपुत्रों को मार दो ॥ १३ ॥

समालोक्य तु ते रूपं विद्रविष्यन्ति वानराः ।

रामलक्ष्मणयोश्चापि हृदये प्रस्फुटिष्यतः ॥ १४

तुम्हारी शक्त देखते ही वानर भाग खड़े होंगे और लक्ष्मण का कलेजा भी दहल जायगा अर्थात् फट जायगा

एवमुक्त्वा महाराजः कुम्भकर्णं महावलम् ।

पुनर्जातमिवात्मानं मेने राक्षसपुङ्गवः ॥ १५ ॥

इस प्रकार राक्षसश्रेष्ठ रावण ने कुम्भकर्ण से कह कर, पुनर्जन्म हुआ सा माना; अर्थात् उसको अपने विजय का पूर्ण विश्वास हो गया ॥ १५ ॥

कुम्भकर्णं बलाभिज्ञो जानस्तस्य पराक्रमम् ।

बभूव मुदितो राजा शशाङ्क इव निर्मलः ॥ १६ ॥

क्योंकि रावण, कुम्भकर्ण के बल पराक्रम को भली जानता था । सो वह मारे हर्ष के इस प्रकार खिल उठा प्रकार निर्मल चन्द्रमा खिल उठता है ॥ १६ ॥

इत्येवमुक्तः सहृष्टो निर्जगाम महावलः ।

राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा कुम्भकर्णः समुद्यतः ॥ १७ ॥

महावली कुम्भकर्ण राजा के ऐसे वचन सुन, हिला राजाज्ञा से युद्धयात्रा करने को तैयार हो गया ॥ १७ ॥

आददे निशितं शूलं वेगाच्छत्रुनिवर्हणम् ।

सर्वकालायसं दीप्तं तप्तकाञ्चनभूषणम् ॥ १८ ॥

उसने शत्रुसंहारकारी पैना और चमचमाता हुआ उठाया, जो काले लोहे का बना हुआ था और जो विशुद्ध के वदों से विभूषित था ॥ १८ ॥

इन्द्राशनिसमं भीमं वज्रप्रतिमगौरवम् ।

देवदानवगन्धर्वयक्षकिन्नरसूदनम् ॥ १९ ॥

वह शूल इन्द्र के वज्र के समान भयदूर और भारी था तथा देवताओं, गन्धर्वों, यक्षों और किन्नरों का नाश करने वाला था ॥ १९ ॥

रक्तपाल्यं महाधामश्च स्वतश्चोद्गतपावकम् ।

आदाय निशितं शूलं शत्रुशोणितरञ्जितम् ॥ २० ॥

उसके ऊपर लाल फूलों की मालाएँ पड़ी हुई थीं और वह बड़ा तेजयुक्त (चमचमाता हुआ) था । क्योंकि उसमें से प्राय ही आप आग की चिनगारियाँ निकल रही थीं । शत्रु के रक्त से सना हुआ होने के कारण वह रक्त ही जैसे रंग का हो रहा था । उस पौने शूल को ले ॥ २० ॥

कुम्भकर्णो महानेजा रावणं वाक्यमत्रवीन् ।

गमिष्याम्यहमेकार्का तिष्ठतिवह बलं महत् ॥ २१ ॥

महातेजस्वी कुम्भकर्ण रावण से बोला—मैं अबेला ही जाऊँगा । तुम अपनी बड़ी सेना को यहीं रहने दो ॥ २१ ॥

अथ तान् क्षुभितान् क्रुद्धो भजयिष्यामि वानरान् ।

कुम्भकर्णवचः श्रुत्वा रावणो वाक्यमत्रवीन् ॥ २२ ॥

मैं आज क्रुद्ध हूँ उन चंचल दानवों को मैं टालूँगा । कुम्भकर्ण के ये वचन सुन रावण ने उससे कहा— ॥ २२ ॥

सैन्यैः परिवृता गच्छ शूलसृद्गरपालिभिः ।

वानरा हि महात्मानः शीघ्राः सुदुव्यवसायिनः ॥ २३ ॥

महाधाम—महातेजः । (गी०) महात्मान—महादुज्ज । (गी०) सुदुव्यवसायिनः—दृढनिश्चयः । (गी०)

देखो, कहनों, अपने साथ सेना को और हाथ में शूल ले कर जाओ। क्योंकि वानर बड़े बुद्धिमान, वेगवान और दृढ़ निश्चय वाले हैं अर्थात् वे जो विचार लेते हैं, उसे पूरा किए बिना नहीं रहते ॥ २३ ॥

एकाकिनं प्रमत्तं वा नयेयुर्दशनैः क्षयम् ।

तस्मात्परमदुर्धर्षैः सैन्यैः परिवृतो व्रज ॥ २४ ॥

कहीं ऐसा न हो कि, तुमको अकेला पा और मदमत्त देख, वे तुमको दाँतों से काट काट कर नष्ट कर डालें। अतः तुम परम दुर्धर्ष सेना को साथ लेकर जाओ ॥ २४ ॥

रक्षसामहितं सर्वं शत्रुपक्षं निषूदय ।

अथासनात्समुत्पत्य स्रजं मणिकृतान्तराम् ॥ २५ ॥

आववन्ध महातेजाः कुम्भकर्णस्य रावणः ।

अङ्गदान्यङ्गुलीवेष्टान् वराण्याभरणानि च ॥ २६ ॥

और राक्षसों के अहितकारी समस्त शत्रुओं को मार डालो। यह कह महातेजस्वी रावण ने अपने आसन से उठ कर मणि की माला कुम्भकर्ण के गले में पहिना दी। फिर बाजू अँगूठी आदि बढ़िया बढ़िया गहने ॥ २५ ॥ २६ ॥

हारं च शशिसङ्काशमाववन्ध महात्मनः ।

दिव्यानि च सुगन्धीनि माल्यदामानि रावणः ॥ २७ ॥

तथा चन्द्रमा के समान उज्ज्वल मणिहार, कुम्भकर्ण को पहिनाए। फिर रावण ने दिव्य और सुगन्धित फूलों के गजरे पहिनाए ॥ २७ ॥

श्रोत्रे चासञ्जयामाम श्रीमती चास्य कुण्डले ।

काञ्चनाङ्गदकेयूगनिष्काभरणभूषितः ।

कुम्भकर्णो वृहत्कर्णः सुहृतोऽग्निरिवावर्मा ॥ २८ ॥

कानों में उसके सुन्दर कुण्डल पहिनाए । सोने के चाजूदंड़ों और गले के आभूषणों से भूषित बड़े बड़े कानों वाला कुम्भकर्ण हवन किए हुए अग्नि की तरह देख पड़ने लगा ॥ २८ ॥

श्रोणीसूत्रेण मद्दत्ता मेचक्रेन व्यगजत ।

अमृतोत्पादने नद्धो भुजङ्गनेव मन्दरः । २९ ॥

उसकी कमर में करवती का काला डोरा ऐसा जान पड़ता था, मानों समुद्रमन्थन के लिए उद्यन वासुकी ने लिपटा हुआ मन्दराचल पर्वत हो ॥ २९ ॥

स काञ्चनं भारसहं निवातं

विद्युत्प्रभं दीप्तमिवात्मभामाः ।

आवध्यमानः कवचं रराज

सन्ध्याभ्रसंश्रीत इवाद्रिराजः ॥ ३० ॥

बड़े बड़े आभूषणों के प्रहार से भी कभी न टूटने वाला तथा जिसमें हवा तक न जा सके—ऐसे कवच भी कुम्भकर्ण ने धारण किया । वह कवच अपनी कान्ति से दिवनी की तरह चमकता था । इन कवच में पहित कुम्भकर्ण ऐसा जान पड़ता था, मानों सन्ध्यामनय के बादलों के रंग से रंग शिवालक पर्वत हो ॥ ३० ॥

१ आत्मभामा—कवच पहनाया । (गी०)

सर्वाभरणनद्धाङ्गः शूलपाणिः स राक्षसः ।

त्रिविक्रमकृतोत्साहो नारायण इवावभौ ॥ ३१ ॥

समस्त अंगों में आभूषण धारण किए हुए हाथ में शूल लिये हुए वह राक्षस वैसा ही देखा पड़ता था जैसे कि, तीन पग पृथिवी नापने के समय नारायण देख पड़े थे ॥ ३१ ॥

भ्रातरं सम्परिष्वज्य कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम् ।

प्रणम्य शिरसा तस्मै सम्प्रतस्थे महाबलः ॥ ३२ ॥

महाबली कुम्भकर्ण भाई को गले लगा और उसकी प्रदक्षिणा कर तथा सिर झुका प्रणाम कर वहाँ से चला । ३२ ॥

निष्पतन्त महाकायं महानादं महाबलम् ।

तमाशीर्भिः प्रशस्ताभिः प्रेषयामास रावणः ॥३३॥

उस विशाल शरीरधारी, महाबलवान एवं महानाद करने वाले कुम्भकर्ण को रावण ने अनेक मङ्गलसूचक आशीर्वाद दे बिदा किया ॥ ३३ ॥

शङ्खदुन्दुभिनिर्घोषैः सैन्यैश्चापि वरायुधैः ।

तं गजैश्च तुरङ्गैश्च स्यन्दनैश्चाम्बुदस्वनैः ।

अनुजग्मुर्महात्मानं रथिनो रथिनां वरम् ॥३४॥

रथियों में श्रेष्ठ रथी कुम्भकर्ण के पीछे पीछे शङ्ख, दुन्दभी बजाती हुई तथा श्रेष्ठ आयुधों को लिए हुए सेना गई । बड़े बड़े राक्षस हाथियों, घोड़ों और मेघ की तरह गड़गड़ाहट कर के चलने वाले रथों में बैठ कर, उनके पीछे हो लिये ॥ ३४ ॥

सपैरुष्टैः खरैरश्वैः सिंहद्विपमृगद्विजैः ।

अनुजगमुश्च तं घोरं कुम्भकर्णं महाबलम् ॥३५॥

बहुत से राक्षस सर्पों, उँटों, खच्चरों, घोड़ों, सिंहों, हाथियों मृगों, हंसादि पक्षियों पर सवार हो, उस भयङ्कर एवं महाबल को कुम्भकर्ण के पीछे हो लिये ॥ ३५ ॥

स पुष्पवर्षैरवकीर्यमाणो

धृतातपत्रः शितशूलपाणिः ।

मदोत्कटः शोणितगन्धमत्तो

विनिर्ययौ दानवदेवशत्रुः ॥ ३६ ॥

उस समय उसके ऊपर फूल बरसाए गए। सिर पर तपत्र ताना गया। हाथ में बड़ा पैना शूल लिये स्वाभाविक मत्त से मत्त तथा महात्रिकट रुधिर की गन्ध से मत्त. देव और दानवों का वैरी कुम्भकर्ण चला ॥ ३६ ॥

पदातयश्च ब्रह्मो महानादा महाबलाः ।

अन्वयू राक्षसा भीमा भीमाक्षाः शस्त्रपाणयः ॥३७॥

उसके साथ बहुत से पैदल सैनिक भी हो लिये थे। वे दंजोर से गरजने वाले महाबलवान भयङ्कर एवं भयङ्कर नेत्र वाले राक्षस हाथों में शस्त्र लिये हुए थे ॥ ३७ ॥

रक्ताक्षाः सुमहाकाया नीलाञ्जनचयोपमाः ।

शूलानुद्यम्य खड्गान्श्च निशितांश्च पश्यन्मान् ॥३८॥

उन बड़े डीलडौल के राक्षसों के नेत्र लाल लाल थे और वे सब काजल के ढेर के समान जान पड़ते थे। वे शूल, नन्धार, परशुघ, उठाए हुए जा रहे थे ॥ ३८ ॥

भिन्दिपालांश्च परिवान् गदाश्च मुसलानि च ।

तालस्कन्धांश्च विपुलान् क्षेपनीयान् दुरासदान् ॥३६॥

भिन्दिपाल, परिघ, गदा, मूसल, तालस्कन्ध (ताल वृद्धा की डालियाँ) तथा बड़े बड़े अस्त्र फेंकने के दुर्धर्ष आयुधविशेषों को वे लिये हुए थे ॥ ३६ ॥

अथान्यद्वपुरादाय दारुणं रोमहर्षणम् ।

निष्पपात महातेजाः कुम्भकर्णो महाबलः ॥ ४० ॥

महातेजस्वी एवं महाबलवान् कुम्भकर्णं इस समस्त सेना को साथ ले तथा बड़ा भयङ्कर रोमाञ्चकारी रूप बना कर चला ॥४०॥

धनुःशतपरीणाहः स पट्शतसमुच्छ्रितः ।

रौद्रः शकटचक्राक्षो महापर्वतसन्निभः ॥ ४१ ॥

उस समय उसके शरीर की चौड़ाई सौ धनुष, ऊँचाई छः सौ धनुष थी। उसकी भयङ्कर आँखें छकड़े के पहिये के समान थीं। वह एक बड़े ऊँचे पर्वत के समान जान पड़ता था ॥४१॥

सन्निपत्य च रक्षांसि दग्धशैलोपमो महान् ।

कुम्भकर्णो महाशक्रः प्रहसन्निदमव्रवीत् ॥४२॥

साथ चलने वाले सैनिकों के पास जो, जले हुए पर्वत की तरह और विशाल मुख वाला कुम्भकर्ण, हँस कर कहने लगा ॥ ४२ ॥

अथ वानरमुख्यानां तानि यूथानि भागशः ।

निर्दहिष्यामि संक्रुद्धः शलभार्निव पावकः ॥४३॥

१ सन्निपत्य—स्वानुगमनायोद्युक्ताना राक्षसाना समीपं गत्वा । (गो०)

आज मैं क्रुपित हो वानरी सेनाओं और उनके युधपतियों को वैसे ही भस्म कर दालूँगा, जैसे आग पतंगों को भस्म कर देती है ॥ ४३ ॥

नापराध्यन्ति मे कामं वानरा वनचारिणः ।

जातिरस्मद्विधानां सा पुरोधानविभूषणम् ॥ ४४ ॥

अथवा वे वनवासी वानर अपने मन से तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ते । बल्कि वे तो हम जैसे लोगों के नगरों और फुलवाड़ियों की एक प्रकार की शोभा हैं ॥ ४४ ॥

पुरोधस्य मूलं तु राघवः सहलज्मणः ।

हते तस्मिन् हतं सर्वं तं वधिष्यामि सयुगे ॥ ४५ ॥

हमारी पुरी को घेरने वाले तो असल में राम लज्मण हैं उनके मारे जाने से अन्य सब मरे सनान ही हैं—अतः मैं युद्ध में उन्हीं दोनों को साहूँगा ॥ ४५ ॥

एवं तस्य त्रुत्राणस्य कुम्भकर्णस्य राक्षसाः ।

नादं चक्रुर्महाघोरं क्रमयन्त इवाणवम् ॥ ४६ ॥

जब कुम्भकर्ण ने उन राक्षसों से इस प्रकार कहा, तब वे राक्षस मानों समुद्र को लुन्ध करते हुए, बड़े जोर से नाद करने लगे ॥ ४६ ॥

तस्य निष्पततमूर्त्णं कुम्भकर्णस्य धीमतः ।

बभूवुर्वोरूपाणि निमित्तानि समन्ततः ॥ ४७ ॥

बुद्धिमान कुम्भकर्ण के चलने के समय चारों ओर बड़े मयङ्कर अशकुन हुए ॥ ४७ ॥

उल्काशनियुता मेघा बभ्रुवुर्गर्दभारुणाः ? ।

ससागरयना चैव वसुधा समकम्पत ॥ ४८ ॥

गधे के रंग की तरह धुमैले रंग के बादलों से उल्कापात और वज्रपात हुआ । सागर और वनों सहित धरती काँप उठी ॥ ४८ ॥

घोररूपाः शिवा नेदुः सज्वालकरलैर्मुखैः ।

मण्डलान्यपसव्यानि ववन्धुश्च विहङ्गमाः ॥ ४९ ॥

मुख में अगार रखे हुए भयङ्कर रूप वाली गीदड़ियाँ चिल्लाने लगीं । पक्षी दहिने और चक्कर काटने लगे ॥ ४९ ॥

निष्पपात च गृध्रोऽस्य शूले वै पथि गच्छतः ।

प्रास्फुन्नयनं चास्य सव्यो बाहुश्च कम्पते ॥ ५० ॥

मार्ग में जाते हुए कुम्भकर्ण के शूल पर एक गीध आ गिरा । कुम्भकर्ण का वाम नेत्र और वाम भुजा फड़कने लगी ॥ ५० ॥

निपपात तदा चोल्का ज्वलन्ती भीमनिःस्वना ।

आदित्यो निष्प्रभश्चासीन्न प्रवाति सुखोऽनिलः ॥ ५१ ॥

भयङ्कर शब्द के साथ दहकती हुई उल्का अकाश से कुम्भकर्ण के सामने आ गिरी । उस समय सूर्य की चमक लुप्त हो गई और सुखदाई पवन का चलना भी बंद हो गया ॥ ५१ ॥

अचिन्तयन् महोत्पातानुत्थितान् रोमहर्षणान् ।

निर्ययौ कुम्भकर्णस्तु कृतान्तवलचोदितः ॥ ५२ ॥

इन रोमाञ्चकारी अशकुनों की तिल भी परवाह न कर, कुम्भकर्ण मृत्यु की प्रेरणा से चला ही गया ॥ ५२ ॥

गदभारुणाः—गर्दभवदव्यक्तरागाः । (गो०) गर्दभधूम्राः (रा०)

स लङ्घयित्वा प्राकारं पद्भ्यां पर्वतसन्निभः ।

ददर्शाभ्रघनप्रख्यं वानरानीकमद्भुतम् ॥ ५३ ॥

पैदल जाते हुए पर्वताकार कुम्भकर्ण ने, पुरी के परकोटे की दीवार नाँधी (अर्थात् फाटक से नहीं निकला) और लङ्का के बाहिर जा उसने मेघमण्डल के समान वानरों की अद्भुत सेना देखी ॥ ५३ ॥

ते दृष्ट्वा राक्षसश्रेष्ठं वानराः पर्वतोपमम् ।

वायुनुन्ना इव घना ययुः सर्वा दिशस्तदा ॥ ५४ ॥

पर्वत के समान लंबे कुम्भकर्ण को देख, वे वानर चारों ओर वैसे ही भागे जैसे हवा से उड़ाए वादल भागते हैं ॥ ५४ ॥

तद्वानरानीकमतिप्रचण्डं

दिशो द्रवद्भिन्नमिवाभ्रजालम् ।

स कुम्भकर्णः समवेच्य हर्षान्

ननाद भूयो घनवद्घनाभः ॥ ५५ ॥

उस प्रचण्ड वानरी सेना को चारों ओर फटे वादलों की तरह तितर बितर होते देख, कुम्भकर्ण हर्ष के मारे मेघ की तरह गंभीर शब्द से गर्जा ॥ ५५ ॥

ते तस्य घोरं निनदं निशम्य

यथा निनादं दिवि वारिदस्य ।

पेतुर्धरण्या बहवः प्लवङ्गा

निकृत्तमूला इव सालवृक्षाः ॥ ५६ ॥

आकाश में गर्जते हुए, मेघों की गर्जना के समान कुम्भकर्ण की भयङ्कर गर्जना सुन, वहुत से वानर भूमि पर वैसे ही गिर पड़े जैसे जड़ से कटा हुआ साल का पेड़ गिर पड़ता है ॥ ५६ ॥

विपुलपरिघवान् स कुम्भकर्णो

रिपुनिधनाय विनिस्तृतो सहात्मा ।

कपिगणभयमाददत्सुभीमं

१प्रभुरिव किङ्करदण्डवान् युगान्ते ॥ ५७ ॥

इति पञ्चषष्टितमः सर्गः ॥

शत्रु का विनाश करने को हाथ में विशाज्ज शून् लिये महाबलवान कुम्भकर्ण को आते देख, वानरगण उसी प्रकार महात्रस्त हुए, जिस प्रकार प्रज्ञय काल में दूतों सहित आए हुए दण्डवारी यम को देख प्रजाजन त्रस्त होते हैं ॥ ५७ ॥

युद्धकाण्ड का पैसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

—❀—

षट्षष्टितमः सर्गः

स लङ्घयित्वा प्राकारं गिरिकूटोपमो सहान् ।

निर्ययौ नगरात्तूर्णं कुम्भकर्णो महाबलः ॥ १ ॥

पर्वताकार महावीर कुम्भकर्ण लङ्का के परकोटे की दीवाल को लाँघ, बड़ी शीघ्रता से लङ्का के बाहिर निकला ॥ १ ॥

१ प्रभुः—अन्तकः । (गो०) कालाग्निरुद्र इव । (रा०)

स ननाद् महानादं समुद्रमभिनादयन् ।

जनयन्निव शनिर्घातान् विधमन्निव पर्वतान् ॥ २ ॥

कुम्भकर्ण^१ वज्रघात के शब्द की तरह बड़े जोर से गर्ज कर, समुद्र को खलवलाने और पहाड़ों को ढहाने लगा ॥ २ ॥

तमवध्यं मधवता यमेन वरुणेन वा

प्रेक्ष्य भीमाक्षमायान्तं वानरा विप्रद्रुवुः ॥ ३ ॥

इन्द्र, यम, और वरुण से अवध्य भयङ्कर नेत्रों वाले कुम्भ-
कर्ण^१ को आतं देख, वानर लोग भागने लगे ॥ ३ ॥

तांस्तु विप्रद्रुतान् दृष्ट्वा वालिपुत्रोऽङ्गदोऽब्रवीत् ।

नल नीलं गवाक्षं च कुमुदं च महाबलम् ॥ ४ ॥

वानरों को भागते देख, वालिपुत्र अङ्गद ने नल, नील,
गवाक्ष और महाबलवान कुमुद से कहा ॥ ४ ॥

आत्मानसत्र विस्मृत्य वीर्याण्यभिजनानि च ।

क्व गच्छत भयत्रस्ताः प्राकृता हरयो यथा ॥ ५ ॥

हे वानरो ! तुम लोग अपने पराक्रम को और अपने उच्च
कुलों को भूल कर और भयभीत हो, साधारण वानर की तरह
कहाँ भागे जाते हो ! ॥ ५ ॥

साधु सौम्या निवर्तध्वं किं प्राणान् परिरक्षथ ।

नालं युद्धाय वै रक्षो महतीयं विभीषिका ॥ ६ ॥

१ निर्घातान्—अशनिबोधान् । (रा०) २ विभीषिका—भयजनकः
[कृत्रिमपुरुषवेपः । (गो०)

हे सौम्य स्वभाव-वालो ! वाह ! वाह !! लौटो ! लौटो !! क्या अपने प्राण बचाना चाहते हो ? यह कोई लड़ने वाला राक्षस नहीं है, वल्कि तुम लोगों को डराने को यह एक बड़ा भारी वनावटी पुरुष खड़ा किआ गया है ॥ ६ ॥

महतीमुत्थितामेर्ना राक्षसानां विभीषिकाम् ।

विक्रमाद्विधमिष्यामो निवर्तध्वं प्लवङ्गमाः ॥ ७ ॥

राक्षसों के इस खड़े हुए बड़े भारी वनावटी पुरुष को हम लोग अपने पराक्रम से अभी नष्ट किए डालते हैं। तुम सब वानर लौट आओ ॥ ७ ॥

कृच्छ्रेण तु समाश्वस्य संगम्य च ततस्ततः ।

वृक्षाद्रिहस्ता हरयः सम्प्रतस्थू रणाजिरम् ॥ ८ ॥

इस प्रकार बड़ी कठिनाई से जब अङ्गद ने उनके पास जा उनको धीरज वँधाया; तब वे वानर इधर उधर से पेड़ों और शिलाओं को हाथों में ले लड़ने को समरभूमि में गए ॥ ८ ॥

ते निवृत्त्य तु संक्रुद्धाः कुम्भकर्णं वनौकसः

निजघ्नुः परमक्रुद्धाः समदा इव कुञ्जराः ॥ ९ ॥

वे वानर कुम्भकर्ण के ऊपर वैसे ही प्रहार करने लगे जैसे अत्यन्त क्रुद्ध हो पागल हाथी चोट करता है ॥ ९ ॥

प्रांशुभिर्गिरिशृङ्गैश्च शिलाभिश्च महाबलः ।

पादपैः पुष्पिताग्रैश्च हन्यमानो न कम्पते ॥ १० ॥

उस समय वानर महाबली कुम्भकर्ण को बड़े पर्वत शिखरों, शिलाओं और फूले हुए वृक्षों से मार रहे थे, किन्तु वह तिल भर भी विचलित नहीं होता था ॥ १० ॥

तस्य गात्रेषु पतिता भिद्यन्ते शतशः शिलाः ।

पादपाः पुष्पिताग्राश्च भग्नाः पेतुर्महीतले ॥ ११ ॥

प्रत्युत उसके शरीर में टकरा कर सैकड़ों शिलाएँ चूर चूर हो जाती थीं और फूले हुए वृक्ष टूट कर पृथिवी पर गिर पड़ते थे ॥ ११ ॥

सोऽपि सैन्यानि संक्रुद्धो वानराणां महौजसाम् ।

ममन्थ परमायत्तौ वनान्यग्निरिवोत्थितः ॥ १२ ॥

कुम्भकर्ण भी अत्यन्त क्रुद्ध हो बड़े बड़े बलवान वानरों की सेना को वैसे ही नष्ट कर रहा था, जैसे वन में लगी हुई आग वन को नष्ट करनी है ॥ १२ ॥

लोहिताद्रास्तु बहवः शेरते वानरर्षभाः ।

निरस्ताः पतिता भूमौ ताम्रपुष्पा इव द्रुमाः ॥ १३ ॥

बहुत से वानरश्रेष्ठ रक्त में भींग कर समरभूमि में पड़े ऐसे जान पड़ते थे, मानों लाल फूलों से लदे और कटे हुए वृक्ष पड़े हों ॥ १३ ॥

लङ्घयन्तः प्रधावन्तो वानरानवलोकयन् ।

केचित्समुद्रे पतिताः केचिद्गगनमाश्रिताः ॥ १४ ॥

उसकी मार को न सह कर वानर इधर उधर न देख भाग रहे थे । उनमें से बहुत से तो समुद्र में गिर पड़े, बहुत से उड़ कर आकाश में चले गए ॥ १४ ॥

बध्यमानास्तु ते वीरा राक्षसेन बलीयसा ।

सागरं येन ते तीर्णाः पथा तेन प्रदुद्रुवुः ॥ १५ ॥

उस बलवान कुम्भकर्ण द्वारा मारे गए वीर वानर उसी पार से भागे जाते थे, जिस पर से उन लोगों ने समुद्र पार किया था ॥ १५ ॥

ते स्थलानि तथा निम्नं विषण्णवदनाभयात् ।

ऋक्षा वृक्षान् समारूढाः केचित्पर्वतमाश्रिताः ॥ १६ ॥

वे उदास मुख और भयभीत वानर गढ़ों में तथा जहाँ जा सके वहाँ भाग कर चले गए। रीछों में से बहुत से पेड़ों पर चढ़ गए और कोई कोई पहाड़ों पर भाग गए ॥ १६ ॥

ममञ्जुरर्णवे केचिद्गुहा केचित्समाश्रिताः ।

निपेतुः प्लवगाः केचित्केचिन्नैवावतस्थिरे ॥ १७ ॥

कोई कोई समुद्र में डूब गए, कोई कोई पहाड़ की गुफाओं में जा छिपे। कोई कोई वानर गिर पड़े और कोई कोई तो बच खड़े भी न रह सके ॥ १७ ॥

[केचिद्भूमौ निपतिताः केचित्सुप्ता मृता इव]

तान् समाक्ष्याङ्गदो भग्नान् वानरानिदमब्रवीत् ॥ १८ ॥

कोई कोई भूमि पर गिर पड़े और कोई सुर्द की तरह ले रहे। तब इन भागते हुए वानरों से अङ्गद यह बोले ॥ १८ ॥

अवतिष्ठत युष्यामो निवर्तध्वं प्लवङ्गमाः ।

भग्नानां वो न पश्यामि परिगम्य महीमिसाम् ॥ १९ ॥

हे वानरों ! अच्छा अब तुम ठहरो, हम लड़ेंगे। तुम लौट आओ। तुम लोग भाग कर जा ही कहाँ सकते हो ? सा पृथिवी की परिक्रमा लगाने पर भी तुम्हें रक्षित स्थान मिल कठिन है ॥ १९ ॥

स्थानं सर्वे निवर्तध्वं किं प्राणान् परिस्त्थ ।

निरायुधानां द्रवतामसङ्गगतिपौरुषा ॥ २० ॥

अपनी अपनी जगहों पर लौट आया । इस प्रकार प्राण बचाने से क्या होगा ? हे अरतिम-गतिवान-पुरुषार्थ-युक्त वानरो ! तुम यदि अपने आयुधों को पटक कर, इस तरह भाग अपने प्राण बचाओगे ॥ २० ॥

दारा ह्यपहसिष्यन्ति स वै घातस्तु जीविनाम् ।

कुलेषु जाताः सर्वे स्म विस्तीर्णेषु महत्सु च ॥ २१ ॥

तो तुम्हारी स्त्रियाँ तुम्हारा इस कादरता पर हँसेगी और उनका बह हँसना ही तुम्हारे लिये मरने के समान होगा । फिर तुमालोग तो ऐसे कुल में उत्पन्न हुए हो, जो बहुत बड़ा और विस्तृत कहलाता है ॥ २१ ॥

क्व गच्छथ भयत्रस्ता हरयः प्राकृता यथा ।

अनार्याः खलु यद्गीतास्त्यक्त्वा वीर्यं प्रघावत ॥२२॥

हे वानरों ! तुम भयभीत हो साधारण वानरों की तरह कहाँ भागे जाते हो ? तुम लोग अपना विपुल पराक्रम भूल कर त्रस्त हो गए हो । अतः तुम निश्चय ही बड़े नीच हो ॥ २२ ॥

विकत्थनानि वै यानि तदा वै जनसंसदि ।

तानि वः क्व नु यातानि सौदग्राणि महान्ति च ॥२३॥

लोगों के सामने उस समय तुमने अपनी उग्रता दिखलाते हुए जो बड़ी बड़ी ढींगे हाँकी थीं, वे सब इस समय कहाँ चली गईं ? ॥२३॥

भीरुप्रवादाः श्रयन्ते यस्तु जीवति धिक्कृतः ।

मार्गः सत्पुरुषैर्जुष्टः सेव्यतां त्यज्यतां भयम् ॥ २४ ॥

वा० रा० यु०—४३

लड़ाई में डरपोक थोड़ा की बड़ी निन्दा सुनी जाती है। युद्धक्षेत्र से जो वीर भाग कर अपने प्राण बचाता है, उसके जीने को विकार है। अतएव तुम भी भय त्याग कर, उस मार्ग का अनुसरण करो, जिसका शूर लोग अनुसरण करते हैं ॥ २४ ॥

श्यामहेऽथ निहताः पृथिव्यामल्पजीविताः ।

दुष्प्रापं ब्रह्मलोकं वा प्राप्नुमो युधि हृदिताः ॥२५॥

हम लोग भाग कर प्राण बचावें तो कितने दिनों को, जीवन तो थोड़े ही दिनों का है। सो यदि हम लड़ाई में मारे ही गए तो हमारा शरीर तो भूमि पर पड़ा पड़ा सोया करेगा और हमारी आत्मा उस ब्रह्मलोक में जायगी, जो हरेक को मिलना दुर्लभ है ॥ २५ ॥

सम्प्राप्नुयामः कीर्तिं वा निहत्वा शत्रुमाहवें ।

जीवितं वीरलोकस्य*भोक्ष्यामो वसु वानराः ॥२६॥

हे वानरो ! यदि हम शत्रु को मारेंगे, तो संसार में हम लोगों का नाम होगा और यदि स्वयं मारे गये तो वीरों को प्राप्त होने योग्य ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोगेंगे ॥ २६ ॥

न कुम्भकर्णः काकुत्स्थं दृष्ट्वा जीवन् गमिष्यति ।

दीप्यमानमिवासाद्य पतङ्गो ज्वलनं यथा ॥ २७ ॥

श्रीरामचन्द्र जी की दृष्टि के सामने पड़, यह कुम्भकर्ण जीता जागता न लौट पावेगा। यह श्रीरामचन्द्र जी के सामने, पड़ उसी प्रकार नष्ट होगा, जिस प्रकार जलती हुई आग को पाकर पतङ्ग नष्ट हो जाता है ॥ २७ ॥

पलायनेन चोदिष्टाः प्राणान् रक्षामहे वयम् ।

एकेन बहवो भग्ना यशो नाशं गमिष्यति ॥ २८ ॥

यदि हम लोग भाग कर प्राण बचावें, तो लोग कहेंगे कि, अकेले कुम्भकर्ण ने ऐसे ऐसे बहुत से बलवानों को मगा दिया। इससे हमारी नामवरी पर धब्बा लग जायगा ॥ २८ ॥

एवं ब्रुवाणं तं शूरमङ्गदं कनकाङ्गदम् ।

द्रवमाणास्ततो वाक्यमृचुः शूरत्रिगर्हितम् ॥ २९ ॥

सोने के बाजू वारण किर हुए शूरश्रेष्ठ अङ्गद के बचनों को सुन, भागते हुए वानरों ने ऐसे बचन कहे, जिनकी शूर लोग निन्दा करते हैं या शूर लोग जिनको बुरा मनकते हैं ॥२९॥

कृतं नः कदनं घोरं कुम्भकर्णेन रक्षसा ।

न स्थानकालो गच्छामो दयितं जीवितं हि नः ॥३०॥

राक्षस कुम्भकर्ण युद्ध कर रहा है, इस समय हम लोग उसके सामने किसी प्रकार नहीं ठहर सकते। हम तो जाँयगे। क्योंकि हमको अपने प्राण प्यारे हैं ॥ ३० ॥

एतावदुक्त्वा वचनं सर्वे ते भेजिरे दिशः ।

भीमं भीमान्तमायान्तं दृष्ट्वा वानरयूथपाः ॥ ३१ ॥

इस प्रकार के बचन कह और भयङ्कर रूप और भयङ्कर आँखों वाले कुम्भकर्ण को अपना पीछा करते देख, वे सब वानरयूथपति चारों ओर भागे ॥ ३१ ॥

द्रवमाणास्तु ते वीरा अङ्गदेन वलीमुखाः ।

सान्त्वैश्चैवानुमानैश्च ततः सर्वे निवर्तिताः ॥ ३२ ॥

अनुमानैर्नागपाशमुक्तिसप्ततालभेदरूपैर्नयानुतापकैः । (१०)

किन्तु अङ्गद ने तिस पर भी श्रीरामचन्द्र जी के पराक्रम और शक्ति का बखान कर (नागपाश से मुक्त होना, सात ताल बृक्षों को वेधना) समस्त वानरों को समझा बुझा कर लौटाया ॥ ३२ ॥

प्रहर्षं सुपनीताश्च बालिपुत्रेण धीमता ।

आज्ञाप्रतीक्षास्तस्थुरश्च सर्वे वानरयूथपाः ॥ ३३ ॥

बुद्धिमान अङ्गद ने उन सब को उत्साहित किया, जिससे वे सब वानरयूथपति बालिपुत्र की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए ठहरे रहे ॥ ३३ ॥

ऋषभशरभमैन्दधूम्रनीलाः

कुमुदसुषेणगवाक्षरम्भताराः ।

द्विविदपनसवायुपुत्रमुख्याः

त्वरिततराभिमुखं रणं प्रयाताः ॥ ३४ ॥

इति षट्षष्टितमः सर्गः ॥

तदनन्तर ऋषभ, शरभ, मैन्द, धूम्र, नील, कुमुद, सुषेण गवाक्ष, रम्भ, तार, द्विविद, पनस, हनुमानादि प्रमुख वानरयूथपति अति शीघ्रता से रणक्षेत्र की ओर चले ॥ ३४ ॥

युद्धकाण्ड का छठाठवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

सप्तषष्टितमः सर्गः

—*—

ते निवृत्ता महाकायाः श्रुत्वाङ्गदवचस्तदा ।

नैष्ठिकीं बुद्धिमासाद्य सर्वे संग्रामकाङ्क्षिणः ॥ १ ॥

वे विशाल शरीरधारो वानर, अङ्गद की बातें सुन लौट आए और “कार्य वा साधयेयं शरीरं वा पातयेयं” का दृढ़ निश्चय कर, लड़ने की अभिलाषा करने लगे ॥ १ ॥

समुदीरितवीर्याश्च समारोपितविक्रमाः ।

पर्यवस्थापिता वाक्यैरङ्गदेन वलीमुखाः ॥ २ ॥

तदनन्तर अङ्गद के कहने से वे वानर लड़ने के लिए तैयार हो गए और पुनः पराक्रम का आश्रय ले, अपने अपने बल और पराक्रम को बखान करने लगे ॥ २ ॥

प्रयाताश्च गता हर्षं मरणे कृतनिश्चयाः ।

चक्रुः सुतुमुलं युद्धं वानरास्त्यक्तजीविताः ॥ ३ ॥

वे सब वानर हथेली पर अपनी जानों को रख, प्रसन्न होते हुए आगे बढ़े । वे अपने बचने की आशा त्याग घोर युद्ध करने लगे ॥ ३ ॥

अथ वृत्तान् महाकायाः सानूनि सुमहान्ति च ।

वानरास्तूर्णमुद्यम्य कुम्भकण्ठमभिद्रुताः ॥ ४ ॥

नैष्ठिकीं— मरणव्यवसायिनीमित्यर्थः । (गो०)

बड़े बड़े वृक्ष और पर्वतशिखरों को बड़ी तेजी से उखाड़
तथा ले लेकर, कुम्भकर्ण की ओर दौड़े ॥ ४ ॥

स कुम्भकर्णः संक्रुद्धो गदामुद्यम्य वीर्यवान् ।

अर्दयन् सुमहाकायः समन्ताद्व्याक्षिपद्रिपून् ॥ ५ ॥

उ र इलवान विशालकाय कुम्भकर्ण भी अत्यन्त क्रुद्ध हो
और हाथ में गदा उठा कर, शत्रुओं को मार कर चारों ओर
छितराने लगा ॥ ५ ॥

शतानि सप्त चाष्टौ च सहस्राणि च वानराः ।

१प्रकीर्णाः शेरते भूमौ कुम्भकर्णेन स्पोथिताः ॥ ६ ॥

कुम्भकर्ण की मार से एक एक बार में सात सात, आठ
आठ सौ और हजार हजार वानरों के दल बेकाम हो धराशाथी
होने लगे ॥ ६ ॥

षोडशाष्टौ च दश च विंशानत्रिंशत्तथैव च ।

परिक्षिप्य च बाहुभ्यां खादन् विपरिधावति ॥ ७ ॥

फिर वह आठ आठ, दस दस, सोलह सोलह, बीस बीस
और तीस तीस वानरों को हाथों से पकड़ पकड़ कर दौड़ दौड़
कर खाने लगा ॥ ७ ॥

भक्षयन् भृशसंक्रुद्धो गरुडः पन्नगानिव ।

कृच्छ्रेण च समाश्वस्ताः सङ्गम्य च ततस्ततः ॥ ८ ॥

वह अत्यन्त क्रुद्ध हो वानरों को वैसे ही खा रहा था, जैसे
गरुड़ साँपों को खाते हैं । अब तो वानर बड़ी कठिनता से धैर्य
धारण कर एकत्र हुए ॥ ८ ॥

१ प्रकीर्णाः—श्रितिलावयवाः । (गो०) २ पोथिताः—हिंसिताः । (गो०)

वृक्षाद्रिहस्ता हरयस्तस्थुः संग्राममूर्धनि ।

ततः पर्वतमुत्पाटय द्विविदः प्लवगर्षभः ॥ ९ ॥

दुद्राव गिरिशृङ्गाभं विलम्ब इव तोयदः ।

तं समुत्पत्य विक्षेप कुम्भकर्णस्य वानरः ॥ १० ॥

और हाथों में पेड़ों और पहाड़ों को ले ले कर, समरभूमि में आ डटे । तदनन्तर लटकते हुए बादल की तरह वानरश्रेष्ठ द्विविद एक पहाड़ उखाड़ और उसे लिये हुए दौड़े और बड़े जोर से उसे कुम्भकर्ण पर दे पटक़ा ॥ ९ ॥ १० ॥

तमप्राप्तो महाकायं तस्य सैन्येऽपतत्तदा ।

ममर्दाश्वान्गजांश्चापि रथांश्चैव नगोत्तमः ॥ ११ ॥

वह पर्वत उस महाकाय कुम्भकर्ण तक न पहुँच कर बीच ही में राज्ञसी सेना के ऊपर गिरा । उसके गिरने से कितने ही घोड़े, हाथी, रथ और बड़े बड़े वृक्ष चकनाचूर हो गए ॥ ११ ॥

तानि चान्यानि रक्षांसि पुनश्चान्यद्गिरेः शिरः ।

तच्छैलशृङ्गाभिहतं हताश्वं हतसारथि ॥ १२ ॥

तदनन्तर द्विविद ने एक दूसरा पर्वतशिखर राज्ञसी सेना पर फेंका । उस शैलशृङ्ग की चोट से राज्ञसी सेना के कितने ही रथ, सारथियों सहित नष्ट हो गए ॥ १२ ॥

रक्षसां रुधिरक्लिन्नं बभूवायोधनं महत् ।

रथिनो वानरेन्द्राणां शरैः कालान्तकोपमैः ॥ १३ ॥

रणभूमि मरे हुए राज्ञसों और जानवरों के रक्त से तर हो गई । रथ में सवार राज्ञस योद्धा काल के समान बाणों से ॥ १३ ॥

शिरांसि नदतां जह्नुः सहसा भीमनिःसवनः ।

वानराश्च महात्मानः समुत्पाट्य महाद्रुमान् ॥ १४ ॥

वानरों का नाश करके, भयङ्कर सिंहनाद करते थे । महा-
बलवान वानर भी बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर ॥ १४ ॥

स्थानश्वान् गजानुष्टान् राक्षसानभ्यसूदयन् ।

हनुमान्शैलशृङ्गाणि वृक्षांश्च विविधान् बहून् ।

ववर्ष कुम्भकर्णस्य शिरस्यम्बरमास्थितः ॥ १५ ॥

उनसे रथों, घोड़ों, हाथियों, ऊँटों और राक्षसों का नाश
करते थे । उधर हनुमान जी भी आकाश में स्थित हो कुम्भकर्ण
के शिर के ऊपर बहुत से और विविध प्रकार के वृक्ष तथा
पर्वतशिखर बरसा रहे थे ॥ १५ ॥

तानि पर्वतशृङ्गाणि शूलेन स विभेद ह ।

वभञ्ज वृक्षवर्षं च कुम्भकर्णो महाबलः ॥ १६ ॥

कुम्भकर्ण, हनुमान जी के फेंके हुए पर्वतशिखरों और
वृक्षों को अपने शूल से चूर चूर कर डालता ॥ १६ ॥

ततो हरीणां तदनीकमुग्र

दुद्राव शूलं निशितं प्रगृह्य ।

तस्थौ ततोऽस्यापततः पुरस्तान्

महीधराग्रं हनुमान् प्रगृह्य ॥ १७ ॥

तदनन्तर कुम्भकर्ण अपना प्रचण्ड और पैना शूल उठाकर
वानरी सेना पर कपटा । यह देख, हनुमान् जी ने एक बड़ा
भारी पर्वत ले उसका सामना किया ॥ १७ ॥

स कुम्भकर्णं कुपितो जघान
वेगेन शैलोत्तमभीमकायम् ।

स चुक्षुभे तेन तदाऽभिभूतो
मेदार्रगात्रो रुधिरावसिक्तः ॥ १८ ॥

और क्रुद्ध हो वह पर्वतशृङ्ग खींच कर भीमकाय कुम्भकर्ण के मारा । उसको चोट से वह घबड़ा गया और खून और चर्बी से नहा उठा ॥ १८ ॥

स शूलमाविष्य तडित्प्रकाशं
गिरिं यथा प्रज्वलिताग्रशृङ्गम् ।

बाह्वन्तरे मारुतिमाजघान
गुहोऽचलं क्रौञ्चमिवोग्रशक्त्या ॥ १९ ॥

इस पर कुम्भकर्ण ने आग से जलते हुए पर्वत की तरह अथवा विजली की तरह चमचमाता शूल घुमा कर, हनुमान जी की छाती में वैसे ही मारा जैसे स्वामिकार्निक ने अपनी शक्ति घुमा कर, क्रौंच पर्वत के मारी थी ॥ १९ ॥

स शूलनिभिन्नमहाभुजान्तरः
प्रविह्वलः शोणितमुद्गमन् मुखात् ।

ननाद भीमं हनुमान् महाहवे
युगान्तमेघस्तनितस्वनोपमम् ॥ २० ॥

विशाल छाती में उस शूल के लगने से हनुमान जी बहुत विह्वल हो गए । मुख से लोहू निकल पड़ा; किन्तु तिस पर भी वे उस महासमर में प्रलयकालीन मेघ के गर्जन की तरह भयङ्कर गर्जना करने लगे ॥ २० ॥

ततो विनेदुः सहसा प्रहृष्टा

रत्नोगणारतं व्यथितं समीच्य ।

प्लवङ्गमास्तु व्यथिता भयार्ताः

प्रदुद्रुवुः संयति कुम्भकर्णात् ॥ २१ ॥

हनुमान जी को अचानक व्यथित देख, राक्षस हर्षित हो हर्षनाद करने लगे और वानर भय से दुःखी हो, समरभूमि में कुम्भकर्ण के पास से भागने लगे ॥ २१ ॥

ततस्तु नीलो बलवान् पर्यवस्थापयन् बलम् ।

प्रविचिक्षेप शैलाग्रं कुम्भकर्णाय धीमते ॥ २२ ॥

तब बलवान नील ने बानरी सेना को थाँभा और बुद्धिमान कुम्भकर्ण के ऊपर एक पर्वतशिखर फेंका ॥ २२ ॥

तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य मुष्टिनाभिजघान ह ।

मुष्टिप्रहाराभिहतं तच्छैलाग्रं व्यशीर्यत ॥ २३ ॥

उस पर्वतशिखर को अपने ऊपर आते देख, कुम्भकर्ण ने उसमें मूँका मारा । वह पर्वतशिखर धूँसे के प्रहार से चूर चूर हो गया ॥ २३ ॥

सविस्फुलिङ्गं सज्वालं निपपात महीतले ।

ऋषभः शरभो नीलो गवाक्षो गन्धमादनः ॥ २४ ॥

पञ्च वानरशार्दूलाः कुम्भकर्णमुपाद्रवन् ।

शैलेवृक्षौस्तलैः पादैर्मुष्टिभिश्च महाबलाः ॥ २५ ॥

उसमें से विनगारियाँ और ज्वाला निकलीं और वह भूमि पर गिर गया । तदनन्तर ऋषभ, शरभ, नील, गवाक्ष, गन्धमादन गये ॥ २४ ॥ २५ ॥

कुम्भकर्णं महाकायं सर्वतोऽभिप्रदुद्बुवुः ।

१स्पर्शानिव प्रहारांस्तान् वेदयानो न विव्यथे ॥२६॥

महाकाय कुम्भकर्ण पर चारों ओर से आक्रमण किया; किन्तु इन पाँचों के प्रहारों से उसे वैसा ही सुख हुआ जैसा कि, वदन दवाने से होता है। उसे उनके प्रहारों से तिल भर भी पीड़ा न हुई ॥ २६ ॥

ऋषभं तु महावेगं बाहुभ्यां परिषस्वजे ।

कुम्भकर्णं भुजाभ्यां तु पीडितो वानरर्षभः ॥ २७ ॥

कुम्भकर्ण ने ऋषभ को अपनी दोनों भुजाओं के बीच दबाया। कुम्भकर्ण द्वारा भुजाओं में दबाए जाने पर ऋषभ पीड़ित हुआ ॥ २७ ॥

निपपातर्षभो भीमः प्रमुखाद्धान्तशोणितः ।

मुष्टिना शरभ हत्वा जानुना नीलमाहवे ॥ २८ ॥

और उसी समय ऋषभ भूमि पर गिर पड़ा और उसके मुख से रुधिर की धार बहने लगी। इस युद्ध में मुँके से शरभ को और घुटने से नील को मारा, ॥ २८ ॥

आजघान गवाक्षं तु तलेनेन्द्ररिपुस्तदा ।

पादेनाभ्यहनत्क्रुद्धस्तरसा गन्धमादनम् ॥ २९ ॥

इन्द्रशत्रु कुम्भकर्ण ने थपड़ से गवाक्ष को मारा। फिर उसने बड़े जोर से लातों से गन्धमादन को मारा ॥ २९ ॥

दत्तप्रहारव्यथिता मुमुहुः शोणितोक्षिताः ।

निपेतुस्ते तु मेदिन्यां निकृत्ता इव किंशुकाः ॥३०॥

इन चोटों को खा कर वे पाँचों के पाँचों मूर्च्छित हो गए और उनके शरीरों से रक्त बहने लगा । वे पृथिवी पर वैसे ही पड़े हुए थे जैसे कटे हुए टेसू के (पुष्पित) वृक्ष पड़े हों ॥ ३० ॥

तेषु वानरमुख्येषु पतितेषु महात्मसु ।

वानराणां सहस्राणि कुम्भकर्णं प्रदृद्भुवुः ॥ ३१ ॥

इन महाबलवान वानरयूथपतियों के गिरने पर, हजारों वानर कुम्भकर्ण पर दूट पड़े ॥ ३१ ॥

तं शैलमिव शैलाभाः सर्वे ते प्लवगर्षभाः ।

समारुह्य समुत्पत्य ददंशुश्च महाबलाः ॥ ३२ ॥

पर्वताकार वानरश्रेष्ठ उछल उछल कर पर्वताकार शरीर वाले कुम्भकर्ण के शरीर पर चढ़, दाँतों से उसको काटने लगे ॥ ३२ ॥

तं नखैर्दशनैश्चापि मुष्टिभिर्जानुभिस्तथा ।

कुम्भकर्णं महाकायं ते जघ्नुः प्लवगर्षभाः ॥ ३३ ॥

वे वानरश्रेष्ठ विशाल शरीरधारी कुम्भकर्ण को नखों से नोचते थे, दाँतों से काटते थे तथा घुँसों और घुटनों से मारते थे ॥३३॥

स वानरसहस्रैस्तैराचितः? पर्वतोपमः ।

रराज राक्षसव्याघ्रो गिरिरात्मरुहैरिव ॥ ३४ ॥

उस समय पर्वताकार राक्षसश्रेष्ठ कुम्भकर्ण असंख्य वानरों के लिपट जाने से उसी प्रकार शोभायमान होने लगा, जिस प्रकार वृक्षों से पर्वत शोभायमान होता है ॥ ३४ ॥

दाहुभ्यां वानरान् सर्वान् प्रगृह्य सुमहाबलः ।

भक्षयामास संक्रुद्धो गरुडः पन्नगानिव ॥ ३५ ॥

अत्यन्त बलवान कुम्भकर्ण उन सब वानरों को भुजाओं में पकड़ कर, उसी प्रकार खाने लगा. जिस प्रकार क्रुद्ध हुए गरुड जी साँपों को खाते हैं ॥ ३५ ॥

प्रक्षिप्ताः कुम्भकर्णेन वक्त्रे पातालसन्निभे ।

नासापुटाभ्यां निर्जग्मुः कर्णाभ्यां चैव वानराः ॥ ३६ ॥

पाताल की तरह कुम्भकर्ण के मुख में फेंके जाने पर वे वानर कुम्भकर्ण के नथनों और कानों में हो कर निकल आते थे ॥ ३६ ॥

भक्षयन् भृशसंक्रुद्धो हरीन् पर्वतसन्निभः ।

वभञ्ज वानरान् सर्वान् संक्रुद्धो राजसोत्तमः ॥ ३७ ॥

वह पर्वताकार राजसश्रेष्ठ अत्यन्त क्रुद्ध हो वानरों को भक्षण करता हुआ, समस्त वानरी सेना को नष्ट करने लगा ॥ ३७ ॥

मांसशोणितसंकलेदां भूमिं कुर्वन् स राजसः ।

चचार हरिसैन्येषु कालाग्निरिव मूर्च्छितः ॥ ३८ ॥

इस प्रकार राजस कुम्भकर्ण रणभूमि में मांस और रक्त की क्रीचड़ करता हुआ; प्रव्वलित कालाग्नि की तरह वानरी सेना में घूमने लगा ॥ ३८ ॥

वज्रहस्तो यथा शक्रः पाशहस्त इवान्तकः ।

शूलहस्तो वभौ संख्ये कुम्भकर्णो महाबलः ॥ ३९ ॥

जैसे हाथ में वज्र लिये इन्द्र और हाथ में फाँसी लिये यमराज देख पड़ें; वैसे ही समरभूमि में हाथ में शून लिये हुए महाबली कुम्भकर्ण जान पड़ता था ॥ ३६ ॥

यथा शुष्कान्य(एयानि ग्रीष्मे दहति पावकः ।

तथा वानरसैन्यानि कुम्भकर्णो विनिर्दहत् ॥ ४० ॥

ततस्ते वध्यमानास्तु हतयूथा ?विनायकाः ।

वानरा भयसंविग्ना विनेदुर्विस्वरं भृशम् ॥ ४१ ॥

जब कुम्भकर्ण ने वानरों के अनेक यथपतिर्यों को मार डाला तब विना नायक के कुम्भकर्ण द्वारा मारे जाते हुए, वे सब वानर भयभीत हो बड़े ज़ोर से चिल्लाने लगे ॥ ४० ॥ ४१ ॥

अनेकशो वध्यमानाः कुम्भकर्णेन वानराः ।

राघवं शरणं जग्मुर्व्यथिताः खिन्नचेतसः ॥ ४२ ॥

कुम्भकर्ण ने जब बहुत से वानर मार डाले, तब वचे हुए वानर व्यथित और खिन्नमन हो श्रीरामचन्द्र जी के पास जा उनकी दुहाई देने लगे ॥ ४२ ॥

प्रभग्नान् वानरान् दृष्ट्वा वज्रहस्तसुतात्मजः ।

अभ्यधावत वेगेन कुम्भकर्णं महाहवे ॥ ४३ ॥

वानरों को भागते देख बालिपुत्र अङ्गद, उस महासमर में कुम्भकर्ण पर, बड़ी तेजी से दौड़े ॥ ४३ ॥

शैलशृङ्गं महद् गृह्य विनदंश्च मुहुर्मुहुः ।

त्रासयन् राक्षसान् सर्वान् कुम्भकर्णपदानुगान् ॥ ४४ ॥

१ विनायकाः— विगतनायकाः । (गो०)

उनके हाथ में एक पर्वतशिखर था और वे बार बार सिंह-नाद कर, कुम्भकर्ण के साथ आई हुई राक्षसों की समस्त पैदल सेना को त्रस्त कर रहे थे ॥ ४४ ॥

चिक्षेप शैलशिखरं कुम्भकर्णस्य मूर्धानि ।

स तेनाभिहतोऽस्त्यर्थं गिरिशृङ्गेण मूर्धानि ॥ ४५ ॥

अङ्गद ने वह पर्वतशिखर खींच कर कुम्भकर्ण के सिर में मारा । उस पर्वतशिखर के सिर में लगाने से कुम्भकर्ण के सिर में बड़ी चोट लगी और ॥ ४५ ॥

कुम्भकर्णः प्रज्ज्वाल कोपेन महता तदा ।

सोऽभ्यधावत वेगेन वालिपुत्रसमर्षणः ॥ ४६ ॥

तब कुम्भकर्ण अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और उस चोट को सह, वह बड़े वेग से अङ्गद पर लपका ॥ ४६ ॥

कुम्भकर्णो महानादस्त्रासयन् सर्ववानरान् ।

शूलं ससर्ज वै रोषादङ्गदे स महाबलः ॥ ४७ ॥

महाबली कुम्भकर्ण ने बड़े जोर से चिल्ला कर, समस्त वानरों को भयभीत कर दिया और रोष में भर अपने हाथ का शूल अङ्गद पर चलाया ॥ ४७ ॥

तमापतन्तं बुद्ध्वा तु युद्धमार्गविशारदः ।

लाघवात् मोचयामास बलवान् वानरर्षभः ॥ ४८ ॥

युद्धविद्या में निपुण, बलवान वानरश्रेष्ठ अङ्गद, उस शूल को अपने ऊपर आते देख, फुर्ती के साथ वहाँ से हट शूल का बार बचा गए ॥ ४८ ॥

उत्पत्य चैनं सहसा तलेनोरस्यताडयत् ।

स तेनाभिहतः कोपात्प्रमुमोहाचलोपमः ॥ ४९ ॥

और उछल कर एक लात कुम्भकर्ण की छाती में जमायी उस लात के आघात से वह पर्वताकार शरीर वाला कुम्भकर्ण मूर्छित हो गया ॥ ४९ ॥

स लब्धसंज्ञो बलवान्मुष्टिमावर्त्य राक्षसः ।

अपहस्तेन चिक्षेप विसंज्ञः संपपात ह ॥ ५० ॥

फिर कुछ देर बाद जब वह बलवान राक्षस सचेत हुआ तब उसने बायें हाथ की मुठ्ठी बाँध, एक घूँसा अङ्गद के ऐसारा क्रि, वे मूर्छित हो गिर पड़े ॥ ५० ॥

तस्मिन् प्लवगशादृले विसंज्ञो पतितैः भुवि ।

तच्छूलं समुपादाय सुग्रीवमभिदुद्रुवे ॥ ५१ ॥

अङ्गद के मूर्छित हो कर पृथिवी पर गिर जाने पर कुम्भकर्ण अपने शूल को उठा सुग्रीव के ऊपर लपका ॥ ५१ ॥

तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य कुम्भकर्णं महाबलम् ।

उत्पपात तदा वीरः सुग्रीवो वानराधिपः ॥ ५२ ॥

महाबली कुम्भकर्ण को अपने ऊपर लपकते देख, वीर वानराज सुग्रीव उछले ॥ ५२ ॥

पर्वताग्रं समुत्क्षिप्य समाविध्य महाकपिः ।

अभिदुद्राव वेगेन कुम्भकर्णं महाबलम् ॥ ५३ ॥

और एक पर्वतशिखर उखाड़, सुग्रीव वड़े वेग से महावली कुम्भकर्ण की ओर दौड़े ॥ ५३ ॥

तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य कुम्भकर्णः प्लवङ्गमम् ।

तस्थौ विकृतसर्वाङ्गो वानरेन्द्रसमुन्मुखः ॥ ५४ ॥

कुम्भकर्ण ने जब सुग्रीव को अपने ऊपर आक्रमण करने को आते देखा, तब वह अरुड़ कर, सुग्रीव के सामने खड़ा हो गया ॥ ५४ ॥

कपिशोणितदिग्धाङ्गं भक्षयन्तं प्लवङ्गमान् ।

कुम्भकर्णं स्थितं दृष्ट्वा सुग्रीवो वाक्यमब्रवीत् ॥ ५५ ॥

वानरों के लोहू से भीगे और वानरो को भक्षण करते हुए कुम्भकर्ण को अपने सामने खड़ा देख, सुग्रीव बोले ॥ ५५ ॥

पातिताश्च त्वया वीराः कृतं कर्म सुदुष्करम् ।

भक्षितानि च सैन्यानि प्राप्तं ते परमं यशः ॥ ५६ ॥

तूने मेरी सेना के वड़े वड़े वीरों को युद्ध में धराशायी कर वह काम किआ है, जो दूसरा नहीं कर सकता और मेरी सेना के वानरों को खा कर, तूने बड़ी नामवरी पाई है ॥ ५६ ॥

त्यज तद्धानरानीकं प्राकृतैः किं करिष्यसि ।

सहश्वैकनिपात मे पर्वतस्यास्य राक्षस ॥ ५७ ॥

सो अब तू युद्धविद्या में अनिपुण साधारण वानरों की सेना से युद्ध करना त्याग दे । क्योंकि उनके साथ लड़ कर तू क्या करेगा ? हे राक्षस ! अब तू मेरे इस पर्वत के प्रहार को सहने को तैयार हो जा ॥ ५७ ॥

१ समुन्मुखः--अभिमुखः । (गो०)

वा० रा० यु०—४४

तद्वाक्यं हरिराजस्य सन्त्वधैर्यसमन्वितम् ।

श्रुत्वा राजसशादूलः कुम्भकर्णोऽत्रवीद्वचः ॥ ५८ ॥

वानरराज सुग्रीव के इन वीरता एवं धैर्ययुक्त वचनों को सुन, राजसश्रेष्ठ कुम्भकर्ण उत्तर देते हुए कहने लगा ॥ ५८ ॥

प्रजापतेस्तु पौत्रस्त्वं तथैवर्त्तरजःसुतः ।

श्रुतपौरुषसम्पन्नः तस्माद्गर्जसि वानर ॥ ५९ ॥

अरे वानर ! तू प्रजापति का पौत्र और ऋत्तराजा का पुत्र है । तू एक प्रसिद्ध पुरुषार्थी है, इसीसे तो तू गरज रहा है ॥ ५९ ॥

स कुम्भकर्णस्य वचो निशम्य

व्याविध्य शैलं सहसा मुमोच ।

तेनाजघानोरसि कुम्भकर्णं

शैलेन वज्राशनिसन्निभेन ॥ ६० ॥

कुम्भकर्ण के इन वचनों को सुन, सुग्रीव ने वह पर्वतशिखर घुमा कर अचानक छोड़ दिया । वज्र के समान पर्वतशिखर कुम्भकर्ण की छाती में लगा ॥ ६० ॥

तच्छैलभृङ्गं सहसा विकीर्णं

भुजान्तरे तस्य तदा विशाले ।

ततो विपेदुः सहसा प्लवङ्गा

रत्नोगणाश्चापि मुदा विनेदुः ॥ ६१ ॥

कुम्भकर्ण की विशाल छाती से टकरा, उस पर्वत शिखर के टुकड़े टुकड़े हो कर छितरा गए । यह देख वानरों को दुःख हुआ और राजस लोग प्रसन्न हो हर्षनाद करने लगे ॥ ६१ ॥

स शैलशृङ्गाभिहतश्चुकोप

ननाद कोपाच्च विवृत्य वक्त्रम् ।

व्याविधय शूलं च तडित्प्रकाशं

चिक्षेप हयुं क्षपतेर्वधाय ॥ ६२ ॥

कुम्भकर्ण पर्वत के आघात से कुपित हुआ और कुपित हो वह मुँह बाए हुए गरजा । फिर उसने वानरराज सुग्रीव को मार डालने के लिए विजली की तरह चमचमाता हुआ शूल घुमा कर उनके ऊपर छोड़ा ॥ ६२ ॥

तत्कुम्भकर्णस्य भुजप्रविद्धं

शूलं शितं काञ्चनदामजुष्टम् ।

क्षिप्तं समुत्पत्य निगृह्य दोर्मर्यां

वभङ्ग वेगेन सुतोऽनिलत्स्य ॥ ६३ ॥

कुम्भकर्ण के हाथों से फेंके हुए उस पौंने और सुवर्ण भूषित शूल को हनुमान जी ने उछल कर बीच ही में पकड़ लिया और तोड़ डाला । ६३ ॥

कृतं भारसहस्रस्य शूलं कालायसं महत् ।

वभङ्ग जानुन्यारोप्य प्रहृष्टः प्लवगर्पभः ॥ ६४ ॥

उस हजार मन भारी लोहे के बने हुए बड़े शूल को हनुमान जी ने अपने घुटने पर रख तोड़ डाला और उसे तोड़ वे परम प्रसन्न हुए ॥ ६४ ॥

शूलं भग्नं हनुमता दृष्ट्वा वानरवाहिनी ।

दृष्ट्वा ननाद बहुशः सर्वतश्चापि दुद्रुवे ॥ ६५ ॥

* पाठान्तरे—“ काञ्चनघामजुष्टम् । ” . .

हनुमान द्वारा उस शूल का तोड़ा जाना देख, वानरी सेना ने प्रसन्न हो, बड़ा हर्षनाद किया और वह चारों ओर से आगे बढ़ी ॥ ६५ ॥

[वभूवाथ परित्रस्तो राक्षसो विमुखोऽभवत् ।]

सिंहनादं च ते चक्रुः प्रहृष्टा वनगोचराः ।

मारुतिं पूजयाञ्चक्रुर्दृष्ट्वा शूलं तथागतम् ॥ ६६ ॥

और राक्षसों की सेना डर कर युद्ध छोड़ भागी । तब तो अत्यन्त प्रसन्न हो वानरों ने सिंहनाद किया और शूल को टूटा हुआ देख, उन सब ने पवननन्दन हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा की ॥ ६६ ॥

स तत्तदा भग्नमवेक्ष्य शूलं

चुकोप रक्षोधिपतिर्महात्मा ।

उत्पात्य लङ्कामलयात्स शृङ्गं

जधान सुग्रीवमुपेत्य तेन ॥ ६७ ॥

तदनन्तर महाबलवान् राक्षसश्रेष्ठ वह कुम्भकर्ण अपने शूल को टूटा हुआ देख, बड़ा कुपित हुआ और लङ्का के समीप खड़े मलयाचल का एक शृङ्ग उखाड़ और सुग्रीव के समीप जा, वह शृङ्ग सुग्रीव के मारा ॥ ६७ ॥

स शूलशृङ्गाभिहतो विसंज्ञः

पपात भूमौ युधि वानरेन्द्रः ।

तं प्रेक्ष्य भूमौ पतितं विसंज्ञं

नेदुः प्रहृष्टास्त्वथ यातुधानाः ॥ ६८ ॥

उस लडाई में उस शैलशृङ्ग की चोट से मूर्छित हो वानर-
राज सुग्रीव पृथिवी पर गिर पड़े । उनको मूर्छित हो पृथिवी पर
गिरा हुआ देख, राजस हर्षित हो हर्षनाद करने लगे ॥ ६८ ॥

तमभ्युपेत्याद्भुतघोरवीर्यं

स कुम्भकर्णो युधि वानरेन्द्रम् ।

जहार सुग्रीवमभिप्रगृह्य

यथानिलो मेघमतिप्रचण्डः ॥ ६९ ॥

इस प्रकार अद्भुत और भयङ्कर बल वाले वानरराज सुग्रीव
को युद्ध में परास्त कर, उसने फिर इन्हे दोनों हाथों से उठा लिया ।
जब कुम्भकर्ण सुग्रीव को उठा कर चला, तब ऐसा जान पड़ा,
मानों प्रचण्ड पवन वादलों को उड़ाए लिये जाता हो ॥ ६९ ॥

स तं महामेघनिकांशरूपम्

उत्पात्य गच्छन्युधि कुम्भकर्णः ।

रराज मेरुप्रतिमानरूपो

मेरुर्यथाभ्युच्छ्रितघोरशृङ्गः ॥ ७० ॥

उस समय सुमेरु पर्वत के समान शरीर वाला कुम्भकर्ण, एक
बड़े भारी मेघ के समान सुग्रीव को पकड़ कर, बड़े ऊँचे शिखरों
से युक्त एवं चलते हुए मेरुपर्वत की तरह शोभायमान होने
लगा ॥७०॥

ततस्तमुत्पात्य जगाम वीरः

संस्तूयमानो युधि राजसेन्द्रैः ।

शृण्वन्ननादं त्रिदशालयानां

प्लवङ्गराजग्रहविस्मितानाम् ॥ ७१ ॥

वानरराज सुग्रीव को उठा कर, वीर कुम्भकर्ण समरभूमि में
राक्षसों द्वारा प्रशंसित हो, तथा वानरराज के पकड़े जाने से विस्मित
देवताओं का हाहाकार सुनता हुआ, लङ्का की ओर चला ॥७१॥

ततस्तमादाय तदा स मेने

हरीन्द्रमिन्द्रोपममिन्द्रवीर्यः ।

अस्मिन् हते सर्वमिदं हतं स्यात्

सराधवं सैन्यमितीन्द्रशत्रुः ॥ ७२ ॥

इन्द्रशत्रु कुम्भकर्ण, इन्द्र के समान पराक्रमी सुग्रीव को लिये
हुए अपने मन में समझ रहा था कि, सुग्रीव के मारे जाने से
राम, लक्ष्मण एवं साथी वानरों सहित मरे हुएओं के समान
हैं ॥ ७२ ॥

विद्रुतां वाहिनीं दृष्ट्वा वानराणां ततस्ततः ।

कुम्भकर्णेन सुग्रीवं गृहीतं चापि वानरम् ॥ ७३ ॥

वानरों की सेना को इधर उधर भागते हुए तथा वानरराज
सुग्रीव को कुम्भकर्ण द्वारा पकड़ा हुआ देख, ॥ ७३ ॥

हनुमांश्चिन्तयामास मतिमान् मारुतात्मजः ।

एवं गृहीते सुग्रीवे किं कर्तव्यं मया भवेत् ॥ ७४ ॥

बुद्धिमान् पवननन्दन हनुमान जी ने विचारा कि, इस प्रकार
सुग्रीव के पकड़े जाने पर मुझे अब क्या करना चाहिए ॥ ७४ ॥

यद्वै न्याय्यं मया कर्तुं तत्करिष्यामि सर्वथा ।

भूत्वा पर्वतसङ्काशो नाशयिष्यामि राक्षसम् ॥ ७५ ॥

इस समय जो कुछ मुझे करना उचित है, उसे मैं निश्चय ही करूँगा। मैं पर्वतारोहण शरीर धारण कर इस राक्षस, कुम्भकर्ण का वध करूँगा ॥ ७५ ॥

अथा हते संयति कुम्भकर्णो

महाबले मुष्टिविकीर्णदेहे ।

विमोचिते वानरपाथिवे च

भवन्तु हृष्टाः प्लवगाः समस्ताः ॥ ७६ ॥

मैं जब युद्ध में कुम्भकर्ण को मूँके मार मार गिरा दूँगा, तब यह अपने आप ही वानरराज सुग्रीव को छोड़ देगा और सुग्रीव को छुटा हुआ देख, समस्त वानर अत्यन्त हर्षित हो जायेंगे ॥ ७६ ॥

अथवा स्वयमप्येष मोक्षं प्राप्स्यति पार्थिवः ।

गृहीतोऽयं यदि भवेत्त्रिदशैः सासुरोगैः ॥ ७७ ॥

अथवा मैं सुग्रीव को छुड़ाने के लिए प्रयत्न क्यों करूँ? वानरराज सुग्रीव स्वयं ही छूट कर चले आवेंगे। चाहे वे देवताओं, दैत्यों अथवा नानों द्वारा ही क्यों न पकड़े जाँय ॥ ७७ ॥

मन्ये न तावदात्मानं बुध्यते वानराधिपः ।

शैलप्रहाराभिहतः कुम्भकर्णेन संयुगे ॥ ७८ ॥

तो भी वे सचेत होने पर अपने को अपने आप छुड़ा लेंगे। ऐसा जान पड़ता है कि, युद्ध में कुम्भकर्ण के प्रहार से वे बहुत चोटिल हो कर, मूर्च्छित हो गए हैं ॥ ७८ ॥

अयं मुहूर्तात्सुग्रीवो लब्धसंज्ञो महाहवे ।

आत्मनो वानराणां च यत्पथ्यं तत्करिष्यति ॥ ७९ ॥

सो देर बाद जब वे सचेत हो जाँयगे, तब वे अपनी तथा वानरों की भलाई के लिये जो उचित समझेंगे वह स्वयं करेंगे ॥ ७६ ॥

मया तु मोक्षितस्यास्य सुग्रीवस्य महात्मनः ।

अप्रीतिश्च भवेत्कण्ठा कीर्तिनाशश्च शाश्वतः ॥ ८० ॥

यदि मैं उन महाबलवान सुग्रीव को छुड़ा लूँगा, तो यह बात उनको केवल बुरी ही न लगेगी, किन्तु इससे उनको बड़ा कष्ट होगा और उनकी कीर्ति भी सदा के लिए नष्ट हो जायगी ॥ ८० ॥

तस्मात् मुहूर्तं कार्त्तव्ये विक्रमं पार्थिवस्य नः ।

भिन्नं च वानरानीकं तावदाश्वासयाम्यहम् ॥ ८१ ॥

अतएव हम लोगों को कुछ देर तक प्रतीक्षा कर, वानरराज के पराक्रम का चमत्कार देख लेना उचित है । इतने में मैं तितर बितर हुई वानरी सेना को धीरज बँधाऊँ ॥ ८१ ॥

इत्येवं चिन्तयित्वा तु हनुमान् मारुतात्मजः ।

भूयः संस्तम्भयामास वानराणां महाचमूम् ॥ ८२ ॥

यह विचार पवननन्दन हनुमान जी ने महती वानरी सेना को धैर्य बँधा, पुनः रोका ॥ ८२ ॥

स कुम्भकर्णोऽथ विवेश लङ्का

स्फुरन्तमादाय महाकपिं तम् ।

विमानचर्यागृहगोपुरस्थैः

१पुष्पाश्रयवर्षैरवकीर्यमाणः ॥ ८३ ॥

१ पुष्पाश्रयवर्षैः—श्लव्यपुष्पवृष्टिभिः । (गो०)

उधर कुम्भकर्ण तड़फड़ाते सुग्रीव को पकड़े हुए लट्का में पहुँचा। वहाँ अटारियों के राजमार्गों के दोनों ओर के मकानों में रहने वाले तथा फाटकों पर रहने वाले राजसों ने कुम्भकर्ण के ऊपर अच्छे पुष्पों की वर्षा की ॥ ८३ ॥

लाजगन्धोदवर्षैस्तु सिच्यमानः शनैः शनैः ।

राजमार्गस्य शीतत्वात्संज्ञामाप महावलः ॥ ८४ ॥

अच्छत चन्दन युक्त जल की मन्द मन्द फुहार से तथा जल से सींचे हुए राजमार्ग की तरावट पहुँचने पर, महावली सुग्रीव की मूर्च्छाभिन्न हुई ॥ ८४ ॥

ततः स संजामुपलभ्य कृच्छ्राद्

वलीयसस्तस्य भुजान्तरस्थः ।

अवेक्षमाणः पुरराजमार्गं

विचिन्तयामास मुहुर्महात्मा ॥ ८५ ॥

इस प्रकार महावलवान सुग्रीव, अत्यन्त कष्ट से सचेत हो और अपने को लट्का के राजमार्ग पर महावलवान् कुम्भकर्ण की काँख में दबा हुआ पा कर, बार बार विचारने लगे ॥ ८५ ॥

एवं गृहीतेन कथं नु नाम

शक्यं मया सम्प्रतिकर्तुमद्य ।

तथा करिष्यामि यथा हरीणां

भविष्यतीष्टं च हितं च कार्यम् ॥ ८६ ॥

इसने मुझे पकड़ रखा है। सो इस समय मुझे क्या उपाय करना चाहिए, जिलके करने से मेरा इष्ट साधन हो और धानरों की भलाई हो ॥ ८६ ॥

ततः कराग्रैः सहसा समेत्य

राजा हरीणाममरेन्द्रशत्रुम् ।

खरैश्च कर्णौ दशनैश्च नासां

ददंश पार्श्वेषु च कुम्भकर्णम् ॥ ८७ ॥

तदनन्तर वानरराज सुग्रीव ने देवताओं के शत्रु कुम्भकर्ण की काँख से निकल, ऋटपट अपने पैने नखों और दाँतों से कुम्भकर्ण की नाक और कान काट डाले और दाँतों से उसकी कोखें चीर डालीं ॥ ८७ ॥

स कुम्भकर्णो हतकर्णनासो

विदारितस्तेन विमर्दितश्च ।

रोषाभिभूतः क्षतजार्द्रगात्रः

सुग्रीवमाविश्य पिपेष भूमौ ॥ ८८ ॥

उस समय नाक और कानों के कट जाने से, नखों तथा दाँतों से विदीर्ण होने के कारण पीड़ित होने से, तथा सारा अंग रक्त से तर हो जाने से, कुम्भकर्ण ने अत्यन्त क्रोध में भर, सुग्रीव को घुमा कर भूमि पर पटक दिया और उनको रगड़ दिया ॥ ८८ ॥

स भूतले भीमवलाभिपिष्टः

सुरारिभिस्तैरभिहन्यमानः ।

जगाम खं वेगवदभ्युपेत्य

पुनश्च रामेण समाजगाम ॥ ८९ ॥

भूमि के ऊपर कुम्भकर्ण द्वारा बड़े जोर से रगड़े जाने पर और असुरशत्रु राक्षसों द्वारा मारे जाने पर भी, सुग्रीव बड़े वेग

से उछल कर ऊपर आकाश में जा पहुँचे और वहाँ से वे फिर श्रीरामचन्द्र जी के पास चले गए ॥ ८६ ॥

कर्णनासाविहीनस्तु कुम्भकर्णो महाबलः ।

रराज शोणितैः सित्तो गिरिः प्रसन्नगणैरिव ॥ ६० ॥

उस समय नकटे और वूचे कुम्भकर्ण के शरीर से वैसे ही खून वह रहा था; जैसे पहाड़ से पानी का भरना बहता है ॥६०॥

शोणितार्द्रो महाकायो राक्षसो भीमविक्रमः ।

युद्धायाभिमुखो भूयो मनश्चक्रे महाबलः ॥ ६१ ॥

वह महाबलवान भीमपराक्रमी और महाकाय कुम्भकर्ण रुधिर से तर होने पर भी, समरभूमि में जाने को फिर तैयार हुआ ॥६१॥

अमर्षाच्छोणितोद्गारी शुशुभे रात्रणानुजः ।

नीलाञ्जनचयप्रख्यः ससन्ध्य इव तोयदः ॥ ६२ ॥

ढाही और रक्त उगलता हुआ रावण का छोटा भाई कुम्भकर्ण उस समय ऐसा शोभायमान हुआ जैसा काजल का ढेर अथवा सन्ध्याकालीन मेघ शोभित होता है ॥ ६२ ॥

गते तु तस्मिन् सुरराजशत्रुः

क्रोधात्प्रदुद्राव रणाय भूयः ।

अनायुधोऽस्मीति विचिन्त्य रौद्रो

घोरं तदा मुद्गरमाससाद ॥ ६३ ॥

वानरराज सुग्रीव के चले जाने पर इन्द्रशत्रु भयङ्कर मूर्ति वाला कुम्भकर्ण, क्रोध में भर पुनः समरभूमि की ओर दौड़ा और अपने हाथ में कोई शस्त्र न देख, उसने एक बड़ा भयङ्कर मुद्गर ले लिया ॥ ६३ ॥

ततः स पुर्याः सहसा महौजा
निष्क्रम्य तद्वानरसैन्यमुग्रम् ।

[तेनैव रूपेण वभञ्ज रुष्टः

प्रहारमुष्ट्या च पदेन सद्यः] ॥ ६४ ॥

वह महाबलवानकुम्भकर्ण सहसा लङ्कापुरी के बाहिर जा
और क्रोध में भर तुरन्त वानरी सेना को पहिले की तरह घुँसों
और लातों के प्रहार से नष्ट करने लगा ॥ ६४ ॥

वभञ्ज रक्षो युधि कुम्भकर्णः

प्रजा युगान्ताग्निरिव प्रदीप्तः ।

बुभुक्षितः शोणितमांसगृध्नुः

प्रविश्य तद्वानरसैन्यमुग्रम् ॥ ६५ ॥

जिस प्रकार प्रलय का प्रदीप्त अग्नि प्रजाजनों को जला कर
भस्म कर डालता है, उसी प्रकार मांस रुधिर का भूखा राक्षस
कुम्भकर्ण समरभूमि में जा और प्रचण्ड वानरी सेना में घुस
वानरों का नाश करने लगा ॥ ६५ ॥

चखाद रक्षांसि हरीन् रपिशाचान्

ऋक्षांश्च मोहाद्युधि कुम्भकर्णः ।

यथैव मृत्युर्हरते युगान्ते

स भक्षयामास हरींश्च मुख्यान् ॥ ६६ ॥

उस समय कुम्भकर्ण क्रोध से ऐसा मतवाला हो रहा था कि,
1 अपना पराया नहीं सूझ पड़ता था। इसीसे उसने केवल
नरों ही को नहीं; प्रत्युत राक्षस, पिशाच, भालू, जो कोई समर-

भूमि में उसके सामने पड़ता उसीको पकड़ कर खा जाता था । जिस प्रकार युग के अन्त में प्रलयकाल उपस्थित होने पर, मृत्युदेव प्रजा का नाश करते हैं, उसी प्रकार वह बड़े बड़े वानरों को खाने लगा ॥ ६६ ॥

एकं ऋद्वी त्रीन् बहून् क्रुद्धो वानरान् सह राक्षसैः ।
समादायैकहस्तेन प्रचिक्षेप त्वरन् मुखे ॥ ६७ ॥

वह एक, दो तीन अथवा बहुत से वानरों और राक्षसों को (जो सामने पड़ते) एक हाथ से पकड़, एक साथ जल्दी से मुँह में छोड़ लेता था ॥ ६७ ॥

संप्रस्रवंस्तदा मेदः शोणितं च महाबलः ।

वध्यमानो नगेन्द्राग्रैर्भक्षयामास वानरान् ॥ ६८ ॥

खाए हुए वानरों और राक्षसों आदि की चर्नी और रुधिर को वह बीच बीच में उगलता जाता था । उधर वीर वानर बड़े बड़े शिखरों और पेड़ों से बसे मार रहे थे । तो भी वह खाता ही जाता था ॥ ६८ ॥

ते भक्ष्यमाणा हरयो रामं जग्मुस्तदा गतिम् ।

कुम्भकर्णो भृशं क्रुद्धः कपीन् खादन् प्रधावति ॥ ६९ ॥

जब वह वानरों को इस प्रकार खाने लगा; तब वानर श्रीराम-चन्द्र की शरण में गए और बोले—महाराज ! कुम्भकर्ण अत्यन्त क्रुपित हो वानरों को खाता हुआ रणभूमि में दौड़ रहा है ॥ ६९ ॥

शतानि सप्त चाष्टौ च विंशत्रिंशत्तथैव च ।

सम्परिष्वज्य बाहुभ्यां खादन् विपरिधावति ॥ १०० ॥

२ संप्रस्रवन्—तालुभ्याम् उद्गमन । (गो) २ गतिम्—शरणं ।
(गो०) * पाठान्तरे—“ द्वे । ”

वह सात, आठ, तीस, तीस और कभी कभी सौ वानरो को हाथों से पकड़ पकड़ कर खा जाता है और समर भूमि में दौड़ता फिरता है ॥ १०० ॥

[भेदोवसाशोणितदिग्धगात्रः

कर्णावसक्तप्रथितान्त्रमालः ।

ववष शूलानि सतीक्ष्णदंष्ट्रः

कालो युगान्ताग्निरिव प्रवृद्धः] ॥ १०१ ॥

वह चर्वी और रुधिर से नहा उठा है । उसके कानों पर अंत-
द्धियाँ लटक रही हैं । तो भी तीक्ष्ण दाँतों वाला कुम्भकर्ण वानरां
को शूल की मार से उसी तरह नाश कर रहा है, जिस तरह युग
के अन्त में प्रलय का समय उपस्थित होने पर, प्रज्वलित अथवा
बढ़ा हुआ अग्नि प्रजा का नाश करता है ॥ १०१ ॥

तस्मिन् काले सुमित्रायाः पुत्रः परवलार्दनः ।

चकार लक्ष्मणः क्रुद्धो युद्धं परपुरञ्जयः ॥ १०२ ॥

तब तो गोह के चर्म के बने दस्ताने पहिन शत्रु की सेना को
मर्दन तथा शत्रु के पुर को जीतने वाले सुमित्रानन्दन लक्ष्मण
क्रुपित हो युद्ध करने लगे ॥ १०२ ॥

स कुम्भकर्णस्य शराञ्छरीरे सप्त वीर्यवान् ।

निचखानाददे वाणान् विससर्ज च लक्ष्मणः ॥ १०३ ॥

[पीड्यमानस्तदस्त्रं तु विशेषं तत्स राक्षसः ।

ततश्चुकोप बलवान् सुमित्रानन्दवर्धनः ॥ १०४ ॥

बलवान लक्ष्मण ने कुम्भकर्ण के सात बाण मार कर और भी
बाण निकाल उसके ऊपर छोड़े । उन शर्षों के प्रहार से कुम्भकर्ण

पीड़ित हुआ और उन बाणों को हाथों से खींच तथा तोड़ कर फेंक दिया। तब तो बलवान सुमित्रानन्दन लक्ष्मण अत्यन्त क्रुद्ध हुए ॥ १०३ ॥ १०४ ॥

अथास्य कवचं शुभ्रं जास्वूनदमयं शुभम् ।

प्रच्छादयामास शरैः सन्ध्याभ्रैरिव मारुतः ॥ १०५ ॥

और उसके सोने के बने और चमचमाते कवच को बाणों से ऐसे ढक दिया; जैसे सन्ध्याकालीन मेघ को पवन वेर लेता है ॥ १०५ ॥

नीलाञ्जनचयप्रख्यैः शरैः काञ्चनभूषणैः ।

आपीड्यमानः शुशुभे मेघैः सूर्य इवांशुमान् ॥ १०६ ॥

काजल के ढेर की तरह कुम्भकर्ण के काले शरीर में ऊपर से नीचे तक भिदे हुए सुवर्णभूषित तीर वैसे ही शोभित जान पड़ते थे, जैसे बादलों से ढका सूर्य ॥ १०६ ॥

ततः स राज्ञसो भीमः सुमित्रानन्दवर्धनम् ।

सावज्ञमेवं प्रोधाच वाक्यं मेघौघनिःस्वनम् ॥ १०७ ॥

तब वह भयङ्कर राज्ञस कुम्भकर्ण सुमित्रानन्दन लक्ष्मण जी से उनका तिरस्कार करता हुआ, मेघ के समान गर्ज कर बोला ॥ १०७ ॥

अन्तकस्यापि क्रुद्धस्य भयदातारमाहवे ।

युध्यता मामभीतेन ख्यापिता वीरता त्वया ॥ १०८ ॥

युद्ध में क्रुद्ध काल तक को भयभीत करने वाले मुझ निर्भीक के साथ युद्ध कर, तुमने अपनी वीरता प्रसिद्ध कर दी ॥ १०८ ॥

प्रगृहीतायुधस्येव मृत्योरिव महामृधे ।

तिष्ठन्नप्यग्रतः पूज्यः को मे युद्धप्रदायकः ॥ १०९ ॥

जब मैं आयुध हाथ में ले साक्षात् काल की तरह समरभूमि में आता हूँ, तब मेरे सामने जो खड़ा भी रहे, वह भी प्रशंसा का पात्र है, मेरे साथ लड़ने वाले की तो बात ही क्या है ॥ १०६ ॥

ऐरावतगजारूढो वृतः सर्वामरैः प्रभुः ।

नैव शक्रोऽपि समरे स्थितपूर्वः कदाघन ॥११०॥

ऐरावत गज चढ़े और समस्त देवताओं को साथ लिये महाराज इन्द्र भी आज तक कभी युद्ध में मेरे सामने खड़े नहीं रह सके ॥ ११० ॥

अद्य त्वयाऽहं सौमित्रे बालेनापि पराक्रमैः ॥१११॥

पर, हे सुमित्रानन्दन ! तुमने बालक होने पर भी आज अपने बल एवं पराक्रम से ॥ १११ ॥

तोषितो गन्तुमिच्छामि त्वामनुज्ञाप्य राघवम् ।

सत्वधैर्यबलोत्साहैस्तोषितोऽहं रणे त्वया ॥११२॥

मुझे सन्तुष्ट कर दिआ है । अतः मैं तुम्हारी अनुमति ले कर, राम के पास जाना चाहता हूँ । समर में तुमने मुझे अपने वीर्य, बल और उत्साह से सन्तुष्ट कर दिआ ॥ ११२ ॥

राममेवैकमिच्छामि हन्तुं यस्मिन् हते हतम् ।

रामे मया चेन्निहते येऽन्ये स्थास्यन्ति संयुगे ॥११३॥

मैं तो अब अकेले राम ही को मारना चाहता हूँ—क्योंकि उनके मारे जाने पर आप ही सब मरे हुए के समान हो जाँयेंगे । यदि मैंने राम को मार डाला, तो और जो कोई युद्ध में मेरा सामना करेंगे ॥ ११३ ॥

तानहं योधयिष्यामि स्ववलेन प्रमाथिना ।

इत्युक्तवाक्यं तद्रक्षः प्रोवाच स्तुतिसंहितम् ॥११४॥

मृधे वीरतरं वाक्यं सौमित्रिः प्रहसन्निव ।

यस्त्वं शक्रादिभिर्देवैरसह्यं प्राह पौरुषम् ॥११५॥

तत्सत्यं नान्यथा वीर दृष्टस्तेऽद्य पराक्रमः ।

एष दाशरथी रामस्तिष्ठत्यद्रिरिवापरः ॥११६॥

उनको मैं शत्रु को मथन करने वाली अपनी सेना के साथ लड़वाऊंगा । जब कुम्भकर्ण ने प्रशंसायुक्त ये चुभती हुई बातें कहीं; तब लक्ष्मण जी ने मुसक्या कर उत्तर देते हुए कहा—हे वीर तुम्हारा यह कथन कि, तुममें ऐसा पुरुषार्थ है कि, समस्त देवताओं सहित इन्द्र भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकते—सत्य है, झूठ नहीं है । क्योंकि आज मैंने स्वयं तुम्हारा पराक्रम देखा है । देखो, एक दूसरे पर्वत की तरह अचल अटल दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी खड़े हैं ॥ ११४ ॥ ११५ ॥ ११६ ॥

मनोरथो रात्रिचर तत्समीपे भविष्यति ।

इति श्रुत्वा ह्यनादृत्य लक्ष्मणं स निशाचरः] ॥११७॥

अतिक्रम्य च सौमित्रिं कुम्भकर्णो महाबलः ।

राममेवाभिदुद्राव दारयन्निव मेदिनीम् ॥११८॥

हे निशाचर ! तुम्हारा मनोरथ उनके द्वारा पूर्ण हो जायगा यह सुन और लक्ष्मण को अनादरपूर्वक वहीं छोड़, महाबली कुम्भकर्ण श्रीरामचन्द्र जी की ओर धरती को कँपाता हुआ दौड़ा ॥ ११७ ॥ ११८ ॥

वा० रा० यु०—४५

अथ दाशरथी रामो रौद्रमस्त्रं प्रयोजयन् ।

कुम्भकर्णस्य हृदये ससर्ज निशिताञ्जुरान् ॥११६॥

तब श्रीरामचन्द्र जी ने कुम्भकर्ण पर रौद्रास्त्र का प्रयोग कर, उसके हृदय में बड़े पैने पैने बाण मारे ॥ ११६ ॥

तस्य रामेण विद्धस्य सहसाभिप्रधावतः ।

अङ्गारमिश्राः क्रुद्धस्य मुखान्निश्चेरुर्चिपः ॥१२०॥

श्रीरामचन्द्र जी के द्वारा बाणों से वेधा जा कर भी कुम्भकर्ण उनकी ओर बड़े वेग से आया । उस समय मारे क्रोध के उसके मुख से चिनगारियाँ निकल रही थीं ॥ १२० ॥

रामास्त्रविद्धो घोरं वै नदन् राक्षसपुङ्गवः ।

अभ्यधावत संक्रुद्धो हरीन् विद्रावयन् रणे ॥१२१॥

श्रीराम जी के चलाए रौद्रास्त्र के लगने पर, कुम्भकर्ण ने भयङ्कर चीत्कार किया और वह अत्यन्त क्रुद्ध हो वानरों को खदेड़ता हुआ रणक्षेत्र में दौड़ने लगा ॥ १२१ ॥

तस्योरसि निमग्नाश्च शरा वह्निष्वाप्तसः ।

[रेजुनीलाद्रिकटके नृत्यन्त इव वह्निष्वाः] ॥१२२॥

मोर के पंख युक्त बाण उसकी छाती में विधे हुए ऐसे जान पड़ते थे, मानों नीलाद्रि (नीलगिरि) पर्वत पर मोर नाच रहे हों । १२२ ॥

हस्ताच्चापि परिभ्रष्टा पपातोर्व्यां महा गदा ।

आयुधानि च सर्वाणि विप्राकीर्यन्त भूतले ॥१२३॥

उन बाणों की चोट से कुम्भकर्ण ऐसा व्यथित हुआ कि, उसके हाथ से उसकी बड़ी भारी गदा छूट कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। गदा के अतिरिक्त उसके हाथ में और जो आयुध (हथियार) थे, वे सब भी पृथ्वी पर गिर कर बिखर गए ॥१२३॥

स निरायुधमात्मानं यदा भेने महाबलः ।

मुष्टिभ्यां चरणाभ्यां च चकार कदनं महत् ॥१२४॥

जब उस महाबली ने अपने को निरायुध देखा, तब उसने घूँसों और लार्तों से वानरी सेना का संहार करना आरम्भ किया ॥ १२४ ॥

स वायौरतिविद्धाङ्गः क्षतजेन तमुक्षितः ।

रुधिरं प्रतिसुस्राव गिरिः प्रस्रवणं यथा ॥१२५॥

श्रीरामचन्द्र जी के बाणों से उसका सारा शरीर विंध कर क्षतविक्षत हो गया। उसके शरीर से लोहू वैसे ही टपकने लगा, जैसे पहाड़ से जल चूता है ॥ १२५ ॥

स तीव्रेण च कोपेन रुधिरेण च मूर्च्छितः ।

वानरान् राक्षसानृक्षान् खादन्विपरिधावति ॥१२६॥

शरीर से बहुत सा रक्त बह जाने के कारण तथा अत्यन्त क्रुद्ध होने से वह अपने होश में न था-अतः वह वानरो, राक्षसों और रीछों को भक्षण करता हुआ, रणभूमि में दौड़ रहा था ॥१२६॥

अथ शृङ्गं समाविष्य भीमं भीमपराक्रमः ।

चिक्षेप राममुद्दिश्य बलवानन्तकोपमः ॥१२७॥

उस बलवान भीमपराक्रमी और काल के समान कुम्भकर्ण ने एक बड़ा भारी पर्वतशृङ्ग श्रीरामचन्द्र जी को लक्ष्य कर फेंका ॥ १२७ ॥

अप्राप्तमन्तरा रामः सप्तभिस्तैरजिह्वगैः ।

शरैः काञ्चनचित्राङ्गैश्चिच्छेद पुरुपर्षभः ॥१२८॥

पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी के पास वह पर्वतशिखर पहुँचने भी न पाया था कि, उन्होंने बीच ही में सीधे जाने वाले और सुवर्ण भूषित बाणों से उस पर्वतशृङ्ग को, चूर चूर कर डाला ॥ १२८ ॥

तन् मेरुशिखराकारं द्योतमानमिव श्रिया ।

द्वे शते वानरेन्द्राणां परमानमपातयत् ॥ १२९॥

अपनी कान्ति से मेरु पर्वत की तरह प्रकाशमान वह पर्वत शृङ्ग चूर चूर होकर नीचे गिरा तो; किन्तु उसकी चूर से दब कर दो सौ बड़े बड़े वानर मरे ॥ १२९ ॥

तस्मिन् काले स धर्मात्मा लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत् ।

कुम्भकर्णं वधे युक्तो श्योगान् परिमृशन् वहून् ॥१३०॥

उस समय कुम्भकर्ण के वध के लिए अनेक उपायों को विचारते हुए लक्ष्मण जी ने श्रीरामचन्द्र जी से कहा ॥ १३० ॥

नैवार्यं वानरान् राजन्नापि जानाति राक्षसान् ।

मत्तः शोणितगन्धेन स्वान् परांश्चैव खादति ॥१३१॥

हे राजन् ! रक्त की गन्ध से कुम्भकर्ण अपने आपे में न होने के कारण, अपने बिराने को नहीं चीन्हता । इसीसे वह वानरों और राक्षसों को—जो इसके सामने पड़ जाते हैं खा डालता है ॥ १३१ ॥

साध्वेनमधिरोहन्तु सर्वे ते वानरर्षभाः । ।

यूथपाश्च यथा मुख्यास्तिष्ठन्त्वस्य समन्ततः ॥१३२॥

१ योगान् परिमृशन्—उपायान् विचारयन् । (गो०)

सो यदि इसके ऊपर भारी भारी वानर चढ़ जाँय और वानर यूथपति इसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो जाँय ॥१३२॥

अप्ययं दुर्मतिः काले गुरुभारप्रपीडितः ।

प्रपतन् राक्षसो भूमौ नान्यान् हन्यात्प्लवङ्गमान् ॥१३३॥

तो यह दुष्ट राक्षस वानरों के बोझ को न सह कर, पृथ्वी पर गिर पड़ेगा और तब यह वानरों का संहार भी न कर पावेगा ॥ १३३ ॥

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः ।

ते समारुरुदुर्हृष्टाः कुम्भकर्ण प्लवङ्गमाः ॥ १३४ ॥

बुद्धिमान राजपुत्र लक्ष्मण जी के ये वचन सुन, वानरगण प्रसन्न हो कुम्भकर्ण के ऊपर चढ़ गये ॥ १३४ ॥

कुम्भकर्णस्तु संक्रुद्धः समारूढः स्रवङ्गमैः ।

व्यधूनयत्तान् वेगेन दुष्टहस्तीन् हस्तिपान् ॥ १३५ ॥

जब वानर कुम्भकर्ण के ऊपर चढ़ गए, तब उसने क्रोध में भर अपना शरीर ऐसे जोर से हिलाया कि वे, सब वानर वैसे ही नीचे गिर पड़े, जैसे दुष्ट हाथी अपनी गरदन हिला कर, हथवान को गिरा देता है ॥ १३५ ॥

तान् दृष्ट्वा निर्धुतान् रामो दुष्टोऽयमि त राक्षसः ।

समुत्पपात वेगेन धनुरुत्तममाददे ॥ १३६ ॥

वानरों को गिरा हुआ देख, श्रीरामचन्द्र जी ने निश्चय कर लिया कि, यह राक्षस बड़ा दुष्ट है और वे हाथ में एक श्रेष्ठ धनुष ले सहसा उठ खड़े हुए ॥ १३६ ॥

क्रोधताम्रे क्षणो वीरो निर्दहन्निव चक्षुषा ।

राघवो गच्छसं रोषादभिदुद्राव वेगितः ।

यूथपान् हर्षयन् सर्वाङ् कुम्भकर्णं भयार्दितान् ॥१३७॥

उस समय क्रोध के मारे उनके नेत्र लाल हो गए और ऐसा जान पड़ता था मानों वे नेत्राग्नि ही से कुम्भकर्ण को भस्म कर डालेंगे । वे बड़े वेग से कुम्भकर्ण पर भ्रपटे । उनको कुम्भकर्ण पर आक्रमण करते देख, कुम्भकर्ण के भय से पीड़ित समस्त वानर-यूथपति हर्षित हुए ॥ १३७ ॥

स चापमादाय भुजङ्गकल्पं

दृढज्यमुग्रं तपनीयचित्रम् ।

हरीन् समाश्वास्य समुत्पपात

रामो निवद्धोत्तमतूणावाणः ॥ १३८ ॥

सोने की मीनाकारों के धनुष को जिस पर साँप की तरह मजबूत प्रत्यञ्चा (डोरी) बँधी हुई थी, हाथ में ले और वानरों को ढाढ़स बँधा तथा वाणों से भरे तरकस को अपनी पीठ पर बाँध, श्रीरामचन्द्र जी उस राक्षस पर भ्रपटे ॥ १३८ ॥

स वानरगणैस्तैस्तु वृतः परमदुर्जयः ।

लक्ष्मणानुचरो रामः सप्रतस्थे महाबलः ॥ १३९ ॥

उस समय परम दुर्जेय वानर महाबलवान श्रीरामचन्द्र जी को घेर कर, उनके साथ हो लिए और लक्ष्मण जी भी उनके पीछे पीछे चले ॥ १३९ ॥

स ददर्श महात्मानं किरीटिनमरिन्दमम् ।

शोणितान्प्लुतसर्वाङ्गं कुम्भकर्णं महाबलम् ॥१४०॥

श्रीरामचन्द्र जी ने मुकुट धारण कि३ हुए शत्रुहन्ता महा-
बलवान कुम्भकर्ण का सारा शरीर लोहूलुहान देखा ॥ १४० ॥

सर्वान् समभिधावन्तं यथा रुष्टं दिशागजम् ।

मार्गमाणं हरीन् क्रुद्धं राक्षसैः परिवारितम् ॥१४१॥

वह क्रुद्ध दिग्गज की तरह सब वानरों को खण्डे रहा था ।
उसको अनेक राक्षस घेरे हुए थे और क्रोध में भर, वह वानरों
को ढूँढ़ता फिरता था ॥ १४१ ॥

विन्ध्यमन्दरसङ्काशं काञ्चनाङ्गदभूषणम् ।

सून्तं रुधिर वक्त्राद्वर्षं भेषमिवोत्थितम् ॥१४२॥

उसका आकार विन्ध्याचल अथवा मन्दराचल पर्वत जैसा
था । वह सोने के बाजू पहिने हुए था । जल बरसाने वाले
वादलों की तरह वह अपने मुख से रक्त उगल रहा था ॥१४२॥

जिह्वया परिलिखन्तं सुक्किणी शोणितोक्षिते ।

मृद्नन्तं ज्ञानरानीकं कालान्तकयमोपमम् ॥ १४३ ॥

वह रुधिर से सने हुए अपने दोनों गलफड़े जीभ से चाट
रहा था और कालान्तक यमराज की तरह वानरी सेना का
संहार कर रहा था ॥ १४३ ॥

तं दृष्ट्वा राक्षसश्रेष्ठं प्रदीप्तानलवर्चसम् ।

विसफारयामास तदा कामुकं घुरुपर्षभः ॥१४४॥

प्रल्वलित अग्नि की तरह उस राक्षसश्रेष्ठ को देख, श्रीराम-
चन्द्र जी ने अपने धनुष के रोदे को खींच टंकारा ॥ १४४ ॥

स तस्य चापनिर्घोषात्कुपितो राक्षसर्षभः ।

अमृष्यमाणस्तं घोषमभिदुद्राव राघवम् ॥ १४५ ॥

धनुष की टंकार के शब्द को सुन कुम्भकर्ण 'से न रहा गया। वह अत्यन्त क्रुपित हुआ और श्रीरामचन्द्र जी की ओर लपका ॥ १४५ ॥

पुरस्ताद्राववस्यार्थे गदायुक्तो विभीषणः ।

अभिदुद्राव वेगेन भ्राता भ्रातरमाहवे ॥१४६॥

श्रीरामचन्द्र जी की ओर से लड़ने के लिए, उनके आगे हाथ में गदा लिये विभीषण अपने भाई से लड़ने को दौड़े ॥१४६॥

विभीषणं पुरो दृष्ट्वा कुम्भकर्णोऽत्रवीदिदम् ।

प्रहरस्व रणे शीघ्रं क्षत्रधर्मं स्थिरो भव ॥१४७॥

विभीषण को सामने देख, कुम्भकर्ण ने उनसे यह कहा— तुम मेरे ऊपर प्रहार कर क्षत्रधर्म का पालन करो ॥१४७॥

भ्रातृस्नेहं परित्यज्य राघवस्य प्रियं कुरु ।

अस्मत्कार्यं कृतं वत्स यस्त्वं रामयुपागतः ॥१४८॥

और इस समय भ्रातृस्नेह को त्याग कर श्रीरामचन्द्र जी को प्रसन्न करने वाला कार्य करो। हे वत्स! तुम जो श्रीरामचन्द्र जी के पास चले गए सो तुमने हमारा कार्य बना दिया ॥१४८॥

त्वमेको रक्षसां लोके सत्यधर्माभिरक्षिता ।

नास्ति धर्माभिरक्तस्य व्यसनं तु कदाचन ।

सन्तानार्थं त्वमेवैकः कुलस्यास्य भविष्यसि ॥१४९॥

समस्त राक्षसों में तुम्हीं अकेले ने सत्य और धर्म की रक्षा की है। जो धर्म में रत हैं, उन्हें कभी दुःख नहीं भोगना पड़ता। सन्तानोत्पत्ति कर इस कुल का नाम रखने को एक तुम्हीं जीवित रहोगे और सब मारे जाँयगे ॥ १४९ ॥

राघवस्य प्रसादात्त्वं रक्षसां राज्यमाप्स्यसि ।

प्रकृत्या मम दुर्धर्षं शीघ्रं मार्गादिपक्रम ॥ १५० ॥

श्रीरामचन्द्र जी के अनुग्रह से तुम राक्षसों के राजा होगे । इस समय मेरा स्वभाव दुर्धर्ष हो रहा है, अतः तुम तुरन्त रास्ता छोड़ दो ॥ १५० ॥

न स्थातव्यं पुरस्तात् मे संभ्रमान्नष्टचेतसः ।

न वेत्तिसंयुगे शक्तः स्वान् परान् वा निशाचर ॥ १५१ ॥

क्योंकि इस समय मारे क्रोध के मैं अपने आपे में नहीं हूँ— अतः तुम मेरे सामने खड़े मत हो । हे विभीषण ! इस समय मैं युद्ध में आसक्त हो रहा हूँ । इस समय मुझे अपने विराने का ज्ञान नहीं है ॥ १५१ ॥

रक्षणीयोऽसि मे वत्स सत्यमेतद्ब्रवीमि ते ।

एवमुक्तो वचस्तेन कुम्भकर्णेन धीमता ॥ १५२ ॥

विभीषणो महाबाहुः कुम्भकर्णमुवाच ह ।

गदितं मे कुलस्यास्य रक्षणार्थमरिन्दम ॥ १५३ ॥

किन्तु हे भाई ! मैं चाहता हूँ कि, तुम बचे रहो अर्थात् न मारे जाओ । यह मैं तुम से मुँह देखी बात नहीं कहता, बल्कि सच्ची बात कह रहा हूँ । जब बुद्धिमान कुम्भकर्ण ने इस प्रकार के वचन कहे, तब महाबलवान विभीषण ने कुम्भकर्ण से कहा—हे अरिन्दम ! मैंने तो इस कुल की रक्षा के लिए ही सब को बहुत समझाया था ॥ १५२ ॥ १५३ ॥

न श्रुतं सर्वरक्षोभिस्ततोऽहं राममागतः ।

कुतं तु तत्र महाभाग सकृत् दुष्कृतं तु वा ॥ १५४ ॥

किन्तु किसी भी राक्षस ने जब मेरी बात पर ध्यान न दिया;
तब मैं लाचार हो श्रीरामचन्द्र जी के पास चला आया। हे महा-
भाग ! इसे आप चाहे मेरा अच्छा काम समझिये चाहे
बुरा ॥ १५४ ॥

एवमुक्त्वाश्रुपूर्णाक्षः गदापाणिर्विभीषणः ।

एकान्तमाश्रितो भूत्वा चिन्तयामास सुस्थितः ॥१५५॥

आँखों में आँसू भर गदापाणि विभीषण यह कह कर एकान्त
में चले गए और वहाँ स्वस्थ हो विचार करने लगे ॥ १५५ ॥

ततस्तु वातोद्धतमेवकल्पं

भुजङ्गराजोत्तमभोग्नाहुम् ।

तमापतन्तं धरणीधराभम्

उवाच रामो युधि कुम्भकर्णम् ॥१५६॥

तदनन्तर नागराज सदृश वाहुयुगलशाली श्रीरामचन्द्र जी
पर्वत के समान कुम्भकर्ण को पवन के झोंके से उड़ते हुए
मेघ की तरह अपनी ओर आते देख, समरभूमि में उससे
बोले ॥ १५६ ॥

आगच्छ रक्षोऽधिप मा विषादम्

अवस्थितोऽहं प्रगृहीतचापः ।

श्रवेहि मां राक्षसवंशनाशनं

यस्त्वं मुहूर्ताद्भविता विचेताः ॥१५७॥

हे राक्षसपति ! तुम विषादित मत हो और चले आओ। मैं
हाथ में धनुष लिये हुए खड़ा हूँ। मुझको तुम राक्षसों के वंश का
नाश करने वाला जानो। मैं थोड़ा देर में तुम्हें भी अचेत कर
दूँगा ॥ १५७ ॥

रामोऽयमिति विज्ञाय जहास विकृतस्वनम् ।

अभ्यधावत संक्रुद्धो हरीन् विद्रावयन् रणे ॥ १५८ ॥

इन वचनों के द्वारा यह जान कर कि, यह राम है, कुम्भकर्ण बड़े जोर से हँसा और क्रोध में भर, वानरों को खदेड़ता हुआ श्रीरामचन्द्र जी की ओर दौड़ा ॥ १५८ ॥

पातयन्निव सर्वेषां हृदयानि वनौकसाम् ।

प्रहस्य विकृतं भीमं स मेघस्तनितोपमम् ॥ १५९ ॥

वह वानरों के हृदय को दहलाता हुआ मेघ की गर्जन की तरह विकट स्वर से अट्टहास करता हुआ ॥ १५९ ॥

कुम्भकर्णो महातेजा राघवं वाक्यमब्रवीत् ।

नाहं विराधो विज्ञेयो न कवन्धः खरो न च ॥ १६० ॥

न वाली न च मारीचः कुम्भकर्णोऽहमागतः ।

पश्य मे मुद्गरं घोरं सर्वकालायसं महत् ॥ १६१ ॥

महातेजस्वी कुम्भकर्ण, श्रीरामचन्द्र जी से बोला—हे राम ! तुम मुझे विराध कहीं मत समझ लेना । मैं न तो कवन्ध हूँ, न खर, न वाली और न मारीच ही हूँ । मैं हूँ कुम्भकर्ण । इस मेरे विशाल मुद्गर को जरा देख लो । यह लोहे का बना हुआ है ॥ १६० ॥ १६१ ॥

अनेन निजिता देवा दानवाश्च पुरा मया ।

विकर्णनास इति मां नावज्ञातुं त्वमर्हसि ॥ १६२ ॥

पूर्वकाल में इसीसे मैंने देवताओं और दानवों को परास्त किया था । मुझे नकटा वूचा देख कहीं मेरा तिरस्कार न करना ॥ १६२ ॥

स्वल्पाऽपि हि न मे पीडा कर्णनासाविनाशनात् ।

दर्शयेच्चाकुशार्दूल वीर्यं गात्रेषु मेऽनघ ।

ततस्त्वां भक्तयिष्यमि दृष्टपौरुषविक्रमम् ॥ १६३ ॥

नाक और कानों के कट जाने से मुझे तिल भर भी कष्ट नहीं हो रहा है । हे इक्ष्वाकुशार्दूल ! हे अनघ ! पहिले तुम्हीं मेरे ऊपर वार कर के अपना बल आजमा लो । तुम्हारा पुरुषार्थ और पराक्रम देख चुकने के बाद मैं तुमको खाऊँगा ॥ १६३ ॥

स कुम्भकर्णस्य वचो निशम्य

रामः सुपुङ्खान् विससर्ज वाणान् ।

तैराहतो वज्रसमप्रवेगैः

न चुक्षुमे न व्यथते सुरारिः ॥ १६४ ॥

कुम्भकर्ण के इन वचनों को सुन, श्रीरामचन्द्र जी ने अच्छी फोकों वाले बाण उसके ऊपर छोड़े । किन्तु उन वज्र के समान वेगवान् बाणों के प्रहार से भी वह देवताओं का शत्रु कुम्भकर्ण न तो विचलित हुआ, न व्यथित ही हुआ ॥ १६४ ॥

यैः सायकैः सालवरा निकृत्ता

वाली हतो वानरपुङ्गवश्च ।

ते कुम्भकर्णस्य तदा शरीरे

वज्रोपमा न व्यथयांप्रचक्रुः ॥ १६५ ॥

जिन बाणों से श्रीरामचन्द्र जी ने साल के वृक्ष वेधे थे और वानरश्रेष्ठ वाली को मारा था, उन वज्र के समान बाणों के प्रहार से कुम्भकर्ण के शरीर में कुछ भी पीड़ा न हुई ॥ १६५ ॥

स वारिधारा इव सायकांस्तान्
पिवन्शरीरेण महेन्द्रशत्रुः ।

जघान रामस्य शरप्रवेगं

व्याविध्य तं मुद्गरमुग्रवेगम् ॥ १६६ ॥

इन्द्रशत्रु कुम्भकर्ण ने, पानी की वृष्टि की तरह उस बाणवृष्टि को अपने शरीर में सोख लिया । वह अपना मुद्गर घुमा घुमा कर, श्रीरामचन्द्र जी के चलाए हुए बाणों के वेग को रोक रहा था ॥ १६६ ॥

ततस्तु रक्षः क्षतजानुलिप्तं

वित्रासनं देवमहाचमूनाम् ।

विव्याध तं मुद्गरमुग्रवेगं

विद्रावयामास चमूं हरीणाम् ॥ १६७ ॥

तदनन्तर कुम्भकर्ण, खून से सने और देवताओं की सेना को भयभीत करने वाले अपने प्रचण्ड मुद्गर को घुमा कर और उसके प्रहार से वानरों की महती सेना को भगाने लगा ॥ १६७ ॥

वायव्यमादाय ततो वराल्क्षं

रामः प्रचिक्षेप निशाचराय ।

समुद्गरं तेन जघान बाहुं

स कृत्तवाहुस्तुमुलं ननाद ॥ १६८ ॥

तब अर्धों में श्रेष्ठ वायव्याख को ले श्रीरामचन्द्र जी ने कुम्भकर्ण के ऊपर छोड़ा । वह अख कुम्भकर्ण की उस भुजा में लगा, जिसमें

मुग्धर था और उस भुजा को काट गिराया । भुजा के कटते ही कुम्भकर्ण बड़े जोर से गर्जा ॥ १६८ ॥

स तस्य बाहुर्गिरिशृङ्गकल्पः

समुद्गरो राघववाणकृत्तः ।

पपात तस्मिन् हरिराजसैन्ये

जघान तां वानरवाहिनीं च ॥ १६९ ॥

पर्वतशिखर के समान कुम्भकर्ण की मुग्धर सहित भुजा श्रीरामचन्द्र जी के छोड़े बाण से कट कर, वानरी सेना के बीच जा गिरी, उसके गिरने से बहुत सी वानरी सेना दब कर मर गई ॥ १६९ ॥

ते वानरा भग्नहतावशेषाः

पर्यन्तमाश्रित्य तदा विषण्णाः ।

प्रवेपिताङ्गं ददशुः सुघोरं

नरेन्द्ररक्षोधिपसन्निपातम् ॥ १७० ॥

भाग्ये हुए तथा जो वानर उसके नीचे दब कर भी मरने से बच गए थे, वे अत्यन्त पीड़ित हो एक ओर हट कर, श्रीरामचन्द्र जी और कुम्भकर्ण का युद्ध देखने लगे ॥१७० ॥

स कुम्भकर्णोऽस्त्रानिकृत्तबाहुः

महेन्द्रकृत्ताश्र इवाचलेन्द्रः ।

उत्पाटयामास करेण वृक्षं

ततोऽभिदुद्राव रणे नरेन्द्रम् ॥ १७१ ॥

बाहु कटा हुआ कुम्भकर्ण उस समय ऐसा देख पड़ता था; मानों इन्द्र द्वारा शृङ्ग कटा हुआ पर्वतराज हो। कुम्भकर्ण ने वचे हुए हाथ से एक वृक्ष उखाड़ा और वह उसे लिये हुए श्रीरामचन्द्र जी पर ऋपटा ॥ १७१ ॥

स तस्य बाहुं सहसालवृक्षं

समुद्यतं पद्मगभोगकल्पम् ।

ऐन्द्रास्त्रयुक्तेन जघान रामो

वाणेन जाम्बूनदचित्रितेन ॥ १७२ ॥

परन्तु श्रीरामचन्द्र जी ने सुवर्ण चित्रित एक बाण को ऐन्द्रास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित कर, उससे इसकी उस भुजा को भी काट डाला, जिसमें वह साल का वृक्ष लिए हुए था और जो एक बड़े फनधारी सर्प की तरह जान पड़ती थी ॥ १७२ ॥

स कुम्भकर्णस्य भुजो निकृत्तः

पपात भूमौ गिरिसन्निकाशः ।

विचेष्टमानोऽभिजघान वृक्षान्

शैलाञ्जिला वानरराक्षसांश्च ॥ १७३ ॥

कुम्भकर्ण की वह पर्वत के समान विशाल भुजा बाण से कट कर और भूमि पर गिर, छटपटाने लगी। उसके गिरने से वृक्षा, पर्वत की शिलाएँ, वानर और राक्षस दब कर पिस गए ॥ १७३ ॥

तं छिन्नबाहुं समवेक्ष्य रामः

समापतन्तं सहसा नदन्तम् ।

द्वावर्धचन्द्रौ निशितौ प्रगृह्य

चिच्छेद पादौ युधि राक्षसस्य ॥ १७४ ॥

इस पर जब श्रीरामचन्द्र जी ने देखा कि, दोनों भुजाओं के कट जानें पर भी वह राक्षस गर्जता हुआ चला ही आ रहा है; तब उन्होंने दो अर्धचन्द्राकार पौने वाणों को निकाल, उनसे युद्ध करते हुए उस राक्षस के दोनों पैर काट डाले ॥ १७४ ॥

तौ तस्य पादौ प्रदिशो दिशश्च

गिरीन् गुहाश्चैव महार्णवं च ।

लङ्कां च सेनां कपिरात्सानां

विनादयन्तौ विनिपेततुश्च ॥ १७५ ॥

उसके कटे हुए दोनों पैर दिशाओं, विदिशाओं, गुफाओं, समुद्र और लङ्कापुरी को गुँजाते तथा वानर एवं राक्षसी सेना को मसलते हुए धम्म से गिरे ॥ १७५ ॥

निकृत्तवाहुर्विनिकृत्तपादौ

विदार्य वक्त्रं वडवामुखाभम् ।

दुद्राव रामं सहसाभिगर्जन्

राहुर्यथा चन्द्रमिवान्तरिक्षे ॥ १७६ ॥

जब उस राक्षस की दोनों भुजाएँ और दोनों पैर कट गए, तब वह वडवानल के समान अपना मुख बाएँ हुए और गर्जता हुआ, बड़े वेग से श्रीराम जी के ऊपर सहसा वैसे ही झपटा; जैसे राहु चन्द्रमा पर झपटता है ॥ १७६ ॥

अपूरयत्तस्य मुखं शिताग्रे

रामः शरैर्होमपिनद्धपुङ्खैः ।

स पूर्णवक्त्रो न शशाक वक्तुं

चुकूज कृच्छ्रेण मुमोह चापि ॥ १७७ ॥

तव श्रीरामचन्द्र जी ने सुवर्ण की फोंक वाले पैने वाणों से उसके मुख को भर दिया । तव वाणों से मुख भर जाने के कारण वह कुछ बोल भी न सका । कुछ अस्पष्ट शब्द करता हुआ मुछिन हो गया ॥ १७७ ॥

अथाददे सूर्यमरीचिकल्पं

स ब्रह्मदण्डान्तककालकल्पम् ।

अरिष्टमैन्द्रं निशितं सुपुङ्खं

रामः शर मारुततुल्यवेगम् ॥ १७८ ॥

उस समय श्रीरामचन्द्र जो ने सूर्य की किरणों के समान चमचमाता, ब्रह्मदण्ड और कालदण्ड की तरह भयङ्कर, शत्रु-नाशकारी अत्यन्त पैना और सुन्दर फोंक लगा हुआ, प्रचण्ड पवन के वेग की तरह वेगवान् ऐन्द्रास्त्र निकाला ॥ १७८ ॥

तं वज्रजाम्बूनदचारुपुङ्खं

प्रदीप्तसूर्यज्वलनप्रकाशम् ।

महेन्द्रवज्राशनितुल्यवेगं

रामः प्रचिक्षेप निशाचराय ॥ १७९ ॥

उसमें हीरे और सोने की फोंक लगी थी, वह चमचमाले हुए सूर्य और प्रज्वलित अग्नि की तरह चमचमा रहा था । वह इन्द्र के वज्र के समान वेग वाला था । उसे श्रीरामचन्द्र जी ने कुम्भ-कर्ण के ऊपर छोड़ा ॥ १७९ ॥

स सायको राघवबाहुचोदितो

दिशः स्वभासा दश संप्रकाशयन् ।

व० रा० यु०—४६

सधूमवैश्वानरदीप्तदर्शनो

जगाम शक्राशनिवोर्यविक्रमः ॥ १८६ ॥

श्रीरामचन्द्र जी के हाथ से छूटा हुआ वह वाण द
दिशाओं को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता हुआ, धूमरि
अग्नि की तरह दिखलाई देता हुआ, इन्द्रवज्र के समान व
विक्रमशाली उस राक्षस की ओर चला ॥ १८० ॥

स तन्महापर्वतकूटसन्निभं

निवृत्तदंष्ट्रं चलचारुकुण्डलम् ।

चकर्त रक्षोऽधिपतेः शिरस्तथा

यथैव वृत्रस्य पुरा पुरन्दरः ॥ १८१ ॥

उस वाण ने कुम्भकर्ण का पर्वतशिखर के तुल्य बड़ा, द
वाये और दो हिलते हुए कुण्डलों से सुशोभित मस्तक उसी त
काट डाला, जिस प्रकार वृत्रासुर का सिर इन्द्र के वज्र ने क
डाला था ॥ १८१ ॥

कुम्भकर्णशिरो भाति कुण्डलालङ्कृतं महत् ।

आदित्येऽभ्युदितेऽरात्रौ मध्यस्थ इव चन्द्रमाः ॥ १८२ ॥

कुण्डलों से युक्त कुम्भकर्ण का वह कटा हुआ सिर, ऐ
जान पड़ता था, जैसा कि, प्रातःकाल में सूर्योदय होने प
आकाशस्थित चन्द्रमा ॥ १८२ ॥

तद्रामवाणाभिहतं पपात

रक्षःशिरः पर्वतसन्निकाशम् ।

वभञ्ज चर्यागृहगोपुराणि

प्राकारमुच्चं तमपातयच्च ॥ १८३ ॥

श्रीरामचन्द्र जा के बाण के आघात से पर्वत से समान राक्षस का बड़ा सिर कट कर गिरा और उसका धमक से राज-मार्ग पर बने हुए अनेक घर, लड्डा के बाहिरी फाटक और परकोटे की ऊची दीवार भी गिर पड़ी ॥ १८३ ॥

न्यपतत्कुम्भकर्णोऽथ स्वकायेन निपातयन् ।

प्लवङ्गमानां काटीश्च परितः संप्रथावताम् ॥ १८४ ॥

कुम्भकर्ण क धड़ क गिरने से समरभूमि में चारों ओर दौड़ते हुए एक करोड़ वानर दब गए ॥ १८४ ॥

तच्चैतिक्रायं हिमवत्प्रकाशं

रक्षस्ततस्तोयनिधौ पपात ।

ग्राहान् वरान् मोनवरान् भुजङ्गान्

ममर्द भूमि च तदा त्रिवंश ॥ १८५ ॥

हिमालय क समान बड़े आकार वाले उस राक्षस का धड़ जाकर जब समुद्र में गिरा ; तब बड़े बड़े मगर बड़े बड़े मत्स्य और बड़े बड़े सर्पों को कुचलता हुआ वह समुद्र की तली में घुस गया ॥ १८५ ॥

तस्मिन् हते ब्राह्मणदेवशत्रौ

महाबले संयति कुम्भकर्णे ।

चचाल भूर्भूमिधराश्च सर्वे

हर्षाच्च देवास्तुमुलं प्रणोदुः ॥ १८६ ॥

उस ब्राह्मण एवं देवताओं के शत्रु महावली कुम्भकर्ण के युद्ध में मारे जाने पर, समस्त पर्वतों सहित भूमि काँप उठी और देवता लोग हर्षनाद करने लगे ॥ १८६ ॥

ततस्तु देवर्षिमहर्षिपन्नगाः

सुराश्च भूतानि सुपर्णगुह्यकाः ।

सयज्ञगन्धर्वगणा नभोगताः

प्रहर्षिता रामपराक्रमेण ॥ १८७ ॥

तदनन्तर आकाशास्थित देवर्षि, महर्षि, पन्नग, देवता, भूत, सुपर्ण, गुह्यक, यज्ञ और गन्धर्व, श्रीरामचन्द्र जी का पराक्रम देख, परम हर्षित हुए ॥ १८७ ॥

ततस्तु ते तस्य वधेन भूरिणा

मनस्विनो नैर्ऋतराजवान्धवाः ।

विनेदुरुच्चैर्व्यथिता रघूत्तमं

हरिं समीक्ष्यैव यथा मतङ्गजाः ॥ १८८ ॥

राक्षसराज रावण, क मनस्वा वन्धु वान्धव, कुम्भकर्ण के इस दारुण वध से अत्यन्त दुःखी हो तथा श्रीरामचन्द्र जी को देख, वैसे ही चिल्ला कर भागे जैसे सिंह को देख, हाथी भागते हैं ॥ १८८ ॥

स देवलोकस्य तमो निहत्य

सूर्या यथा राहुमुखाद्विमुक्तः ।

तथा व्यभासीद्भुवि वानरौघे

निहत्य रामो युधि कुम्भकर्णम् ॥ १८९ ॥

उस समय श्रीरामचन्द्र जी स्वर्ग के अन्धकाररूपी कुम्भकर्ण का सग्रामभूमि में नाश कर और अपनी सेना के बीच में

बैठे हुए जैसे ही सुशोभित हुए, जैसे राहु के मुख से निकले हुए सूर्य की शोभा होती है ॥ १५६ ॥

प्रहर्षमीयुर्बहवस्तु वानराः

प्रबुद्धपद्मप्रतिमैरिवाननैः ।

अपूजयन् राघवमिष्टभागिनं

हते रिपौ भीमत्रले दुरासदे ॥ १६० ॥

उस भयङ्कर बलवान् शत्रु के मारे जाने पर समस्त वानर वीरों के मुख खिले हुए कमल की तरह प्रसन्न हो गए । उस समय वाञ्छित विजय को प्राप्त करने वाले श्रीरामचन्द्र जी की वे स्तुति करने लगे ॥ १६० ॥

स कुम्भकर्णं सुरसङ्घमर्दनं

महत्सु युद्धेषु पराजितश्रमम् ।

ननन्द हत्वा भरताग्रजो रणं

महासुरं वृत्रमिवामराधिपः ॥ १६१ ॥

इति सप्तपष्ठितमः सर्गः ॥


इन्द्र जिस तरह वृत्रासुर को मार कर प्रसन्न हुए थे, उसी तरह श्रीरामचन्द्र जी उस कुम्भकर्ण को, जो कभी किसी युद्ध में किसी से हारा ही न था और देवताओं की सेना को मर्दन कर चुका था, मार कर अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ १६१ ॥

युद्धकाण्ड का सड़सठवाँ सर्ग पूरा हुआ ।

॥ श्रीः ॥

श्रीमद्रामायणपारायणसमापनक्रमः

श्रीवैष्णवसम्प्रदायः



एवमेतत्पुरावृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः ।
प्रव्याहरत विस्रब्ध वलं विष्णोः प्रवर्धताम् ॥ १ ॥
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः ।
येषांमन्दीवरश्यामां हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥ २ ॥
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी ।
देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥ ३ ॥
कावेरी वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः ।
श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्गश्रीश्च वर्धताम् ॥ ४ ॥
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां
न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः ।
गोत्राह्वणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं
लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ ५ ॥
मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये ।
चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् ॥ ६ ॥
वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामन्मूर्तये ।
पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम् ॥ ७ ॥

विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपतेः ।
 भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम् ॥ ८ ॥
 पितृभक्त्या सततं भ्रातृभिः सह सीतया ।
 नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम् ॥ ९ ॥
 त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे ।
 सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदाराय मङ्गलम् ॥ १० ॥
 सौमित्रिणा च जानक्या चापवाणासिधारिणे ।
 संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम् ॥ ११ ॥
 दण्डकारण्यवासाय खण्डितामरशत्रवे ।
 गृध्रराजाय भक्त्या मुक्तिदायास्तु मङ्गलम् ॥ १२ ॥
 सादरं शत्रुदत्तफलमूलाभिलाषिणे ।
 सौलभ्यपरिपूर्णाय सत्त्वोद्विक्ताय मङ्गलम् ॥ १३ ॥
 हनुमत्समवेताय हरीशाभीष्टदायिने ।
 चालिप्रमथनायास्तु महाधीराय मङ्गलम् ॥ १४ ॥
 श्रीमते रघुवीराय सेतूल्लङ्घितसिन्धवे
 जितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम् ॥ १५ ॥
 आसाद्य नगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया ।
 राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम् ॥ १६ ॥
 मङ्गलाशासनपरैर्महाचार्यपुरोगमैः ।
 सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् ॥ १७ ॥

माध्वसम्प्रदायः

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां

न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः ।

गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ १ ॥

काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी ।

देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥ २ ॥

लाभस्तेषां जयस्तेषां क्रुतस्तेषां पराभवः ।

येषामिन्दीवरश्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥ ३ ॥

मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये ।

चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् ॥ ४ ॥

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा

बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् ।

करोमि यद्यत्सकलं परस्मै

नारायणायैति समर्पयामि ॥ ५ ॥

स्मार्तसम्प्रदायः

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां

न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः ।

गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ १ ॥

काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी ।

देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥ २ ॥

अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः ।

अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् ॥ ३ ॥

चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् ।
एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनारानम् ॥ ४ ॥
शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा ।
स याति ब्रह्मणः स्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा ॥ ५ ॥
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे ।
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ ६ ॥
यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेवनमंस्कृते ।
वृत्रनाशे समभवत्तत्ते भवतु मङ्गलम् ॥ ७ ॥
मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने ।
चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् ॥ ८ ॥
यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनताकल्पयत्पुरा ।
अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम् ॥ ९ ॥
अमृतोत्पादने दैत्यान्व्रतो वज्रधरस्य यत् ।
अदितिर्मङ्गलं प्रादात्तत्ते भवतु मङ्गलम् ॥ १० ॥
त्रीन्विक्रमान्प्रक्रमतो विष्णोरमिततेजसः ।
यदासीन्मङ्गलं राम तत्ते भवतु मङ्गलम् ॥ ११ ॥
ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते ।
मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु तव सर्वदा ॥ १२ ॥
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा
बुद्ध्यत्सना वा प्रकृतेः स्वभावात् ।
करोमि यद्यत्सकलं परस्मै
नारायणायेति समर्पयामि ॥ १३ ॥

